



Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar
(14th April 1891 - 6th December 1956)

Courtesy : B.D. Satpute, Pune.

DR. BABASAHEB AMBEDKAR
WRITINGS AND SPEECHES
Vol. 16

Grammar and Dictionary of The Pali Language
by Dr. B. R. Ambedkar

Edited
by
Vasant Moon

Dr. Babasaheb Ambedkar : Writings and Speeches

Vol. 16

First Edition by Education Department, Govt. of Maharashtra : 14 April, 1998

Re-printed by Dr. Ambedkar Foundation : January, 2014

ISBN (Set) : 978-93-5109-064-9

Courtesy : Monogram used on the Cover page is taken from
Babasaheb Dr. Ambedkar's Letterhead.

©

Secretary
Education Department
Government of Maharashtra

Price : One Set of 1 to 17 Volumes (20 Books) : ₹ 3000/-

Publisher:

Dr. Ambedkar Foundation

Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India

15, Janpath, New Delhi - 110 001

Phone : 011-23357625, 23320571, 23320589

Fax : 011-23320582

Website : www.ambedkarfoundation.nic.in

The Education Department Government of Maharashtra, Bombay-400032
for Dr. Babasaheb Ambedkar Source Material Publication Committee

Printer

M/s. Tan Prints India Pvt. Ltd., N. H. 10, Village-Rohad, Distt. Jhajjar, Haryana



Kumari Selja



**Minister for Social Justice and Empowerment
& Chairperson, Dr. Ambedkar Foundation**

MESSAGE

Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar, the Chief Architect of Indian Constitution was a scholar par excellence, a philosopher, a visionary, an emancipator and a true nationalist. He led a number of social movements to secure human rights to the oppressed and depressed sections of the society. He stands as a symbol of struggle for social justice.

The Government of Maharashtra has done a highly commendable work of publication of volumes of unpublished works of Dr. Ambedkar, which have brought out his ideology and philosophy before the Nation and the world.

In pursuance of the recommendations of the Centenary Celebrations Committee of Dr. Ambedkar, constituted under the chairmanship of the then Prime Minister of India, the Dr. Ambedkar Foundation (DAF) was set up for implementation of different schemes, projects and activities for furthering the ideology and message of Dr. Ambedkar among the masses in India as well as abroad.

The DAF took up the work of translation and publication of the Collected Works of Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar published by the Government of Maharashtra in English and Marathi into Hindi and other regional languages. I am extremely thankful to the Government of Maharashtra's consent for bringing out the works of Dr. Ambedkar in English also by the Dr. Ambedkar Foundation.

Dr. Ambedkar's writings are as relevant today as were at the time when these were penned. He firmly believed that our political democracy must stand on the base of social democracy which means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. He emphasized on measuring the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. According to him if we want to maintain democracy not merely in form, but also in fact, we must hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. He advocated that in our political, social and economic life, we must have the principle of one man, one vote, one value.

There is a great deal that we can learn from Dr. Ambedkar's ideology and philosophy which would be beneficial to our Nation building endeavor. I am glad that the DAF is taking steps to spread Dr. Ambedkar's ideology and philosophy to an even wider readership.

I would be grateful for any suggestions on publication of works of Babasaheb Dr. Ambedkar.

(Kumari Selja)

Collected Works of Babasaheb Dr. Ambedkar (CWBA)

Editorial Board

Kumari Selja

Minister for Social Justice & Empowerment, Govt. of India
and
Chairperson, Dr. Ambedkar Foundation

Shri Manikrao Hodlya Gavit

Minister of State for Social Justice & Empowerment, Govt. of India

Shri P. Balram Naik

Minister of State for Social Justice & Empowerment, Govt. of India

Shri Sudhir Bhargav

Secretary
Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India

Shri Sanjeev Kumar

Joint Secretary
Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
and
Member Secretary, Dr. Ambedkar Foundation

Shri Viney Kumar Paul

Director
Dr. Ambedkar Foundation

Shri Kumar Anupam

Manager (Co-ordination) - CWBA

Shri Jagdish Prasad 'Bharti'

Manager (Marketing) - CWBA

Shri Sudhir Hilsayan

Editor, Dr. Ambedkar Foundation

CHIEF MINISTER

Mantralaya, Mumbai 400 032



Date : 20/8/1997

MAHARASHTRA

PREFACE

The present volume of the Speeches and Writings of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar contains his Dictionary of the Pali language and Pali Grammar. The Dictionary and Grammar are certainly valuable aids to the speeches. Pali was indeed the *lingua franca* of the Buddhist India. It has close affinity to Marathi. As such, the study of Pali has much relevance to the contemporary Marathi. In compiling the Dictionary of Pali language and its Grammar, Dr. Ambedkar had in mind the project of promoting the study of the Buddhist India which is part of the ancient Hindu culture. As is well-known, Buddha is the 10th incarnation of God. This dictionary is a testimony and a tribute to the mind of Dr. Ambedkar that was deeply rooted in the Indian soil.

I hope the students of the Buddhist literature will find the present volume useful to quench the thirst of knowledge.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Manohar Joshi', written over a horizontal line.

MANOHAR JOSHI

BLANK



MINISTER FOR HIGHER AND
TECHNICAL EDUCATION

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
Mantralaya, Mumbai 400 032

Date : 28 / 1 / 1998

FOREWORD

The present volume of Dr. B. R. Ambedkar's writings contain the following important documents -

- 1) Grammar of the Pali Language was found printed by Dr. Ambedkar himself but was not released for sale.
- 2) (a) Dictionary of the Pali words in English and (b) in four languages.
- 3) Booklet printed and published by Dr. Ambedkar himself, for the followers of Buddhism.

It appears from the collection in part two (b) that Dr. Ambedkar could not complete the work of Pali Dictionary in 4 languages which he planned for the students of Buddhism.

The unpublished writings of Dr. Ambedkar as a whole, though incomplete are useful for the students of Philology. The curious student's may think of advancing this study further.

The Government is committed to finalise the remaining work of Dr. Ambedkar's writings and speeches and I hope this will be brought out at the earliest. The translation project is also in process.

The work of Dr. Ambedkar will prove to be a source of inspiration for younger generation and will help strengthening the roots of democracy in this country.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Datta Rane'.

(DATTA RANE)

BLANK

EDITORIAL

The present volume of the writings and speeches of Dr. Ambedkar contains his compilation of the Pali grammar and Pali dictionary. Dr. Ambedkar had profound fascination for Buddha and his teachings. The origin and the growth of Buddhist thought is a memorable chapter in Indian history. Buddhist texts are in Sanskrit and Pali. It was therefore the effort of Dr. Ambedkar to make this literature accessible to Indians in general and to admirers of Buddhism in particular.

Compilation of a dictionary of words and phrases of a language, no longer a spoken language, is an enterprise fraught with difficulties. Dr. Ambedkar was past 50 when he started the compilation of the Dictionary. It was an effort comparable to the effort of Dr. Samuel Johnson who attempted his dictionary of English language in 1755. Dr. Johnson had compiled the dictionary on the threshold of becoming the world language. Pali, though the *lingua franca* of the Buddhist world, is a dead language. In support of a living language, authority for correct sense and words, is always at our elbow, in the chat of our domestics or in the converse of the passengers at our street door, in colleges of learned and in stables of menials; in lanes of a city and in remote hamlets. Therefore phrases and idioms of people are easily available. That is not the case in respect of a dead language which has many pitfalls. Words and phrases of a dead language, are exercises in reconstruction of history, they are passages to times past and pathways to the sociology and culture of the ages gone by. The Dictionary of the Pali language taken up by Dr. Ambedkar for compilation when he was past 50, shows his indomitable spirit to look into the past, in order to know the present and to see the light for the future.

It is relevant to note that literature on Buddhism is a part of the heritage of Indian culture. It would be interesting to sum up the history of the Pali Language. According to Buddhist tradition, Pali was the dialect of Magadha and that it was the language in which Gautam Buddha preached. Originally, a mere provincial idiom, the Magadhi language was raised to the dignity of a classical language and is regarded by Buddhists of the whole world with the feeling of veneration, like the Roman language. R. C. Childers pointed out that the existing Pali literature is of great importance; it is valuable alike to the philologists, the historians, to the students of folkore and the students of comparative religion.

The Buddhist scriptures are called “*Tripitaka*” and are divided into Sutta, Vinay and Abhidhamma. The three baskets form a canon of the holy writ. According to Childers, this canon of holy writ are invested with all the sanctity of a canon by Buddhists. They are revered as containing the word of Buddha and are the ultimate appeal on all questions of belief and conduct. These baskets are estimated to be about **eleven times that of the Bible, and three times of the size of the Mahabharat** and are able to treat in great detail of all the relations of human life. According to Childers, the author of the first Pali - English Dictionary, the doctrine they contain is consistent throughout and set forth with logical accuracy.

When the great missionary Mahindra went to Ceylon in B.C. 307, he carried with him, not only the *Tripitaka* but the *Arthakatha* which had grown up around the *Tripitaka* during two and a half centuries that had passed since Buddha’s death. Mahindra tried to translate these commentaries from Pali into

Sinhalese, the latter of which continued to exist in Ceylon for many centuries while the Pali version disappeared. In the fifth century, Mahindra's Sinhales commentaries were retranslated by the famous Buddhaghosa, 'one of the most extraordinary men that Buddhism has produced,' as Childeres rates him. The Sinhalese translation in the meantime disappeared. It is recorded by Childers that the Sinhalese commentaries disappeared in the twelfth century during the invasion of Ceylon by the Malabar princess. The princess who invaded Ceylon, one after another, temporarily obtained sovereignty over the island. They were the determined foes of Buddhism and are stated to have systematically effected the destruction of all the sacred books of Buddhism they could lay hands on. Among this Buddhist Literature, there were the *Tripitakas*, the Pali commentaries of Buddhaghosa and the Sinhalese commentaries of Mahendra. Tripitakas and Buddhaghosa's commentaries were first replaced from Burmah while Sinhalese commentaries existed only in Ceylon; and once destroyed could not be replaced. Buddhaghosa's commentaries contain much of the matter 'as old as *Tripitaka* itself' and are 'rich in history and folklore and abound in varied information which throws abundant light on the social and moral conditions of ancient India (Childers).

Besides the Pali literature mentioned above, few titles more noteworthy deserve mention. *Dipavamsa* and *Mahavamsa* are first in importance. Next in importance is *Milind Panha*, the *Questions of King Milind* who is identified with certainty with Bactrian King (Minander).

This work records familiarity with Greek names and places and records a religious discussion between venerable Nagasena and King Milind. Next in importance is *Visuddhi*

Magga which is fairly called as an Encyclopadia of Buddhist doctrine.

The Pali grammatical work is very extensive and centres around the famous Grammarian Kachayana, which is admittedly the oldest Pali Grammar. It is said, there are 60 or 70 grammatical works in Pali. In *Abhidhammappadipika*, a vocabulary of nouns on the model of Sanskrit Amarkosha by a Sinhalese Buddhist of 12th Century, is found.

The discovery of Sanskrit literature in Nepal is due to the great poineering work of Brian H. Hodgson. His notices of the language, literature and religion of Nepal and Tibet, first appeared in 1828, and his essays began to appear in 1837. Besides, many western scholars including Bournouf, Fousball, Lassen, Spiegel, Clough, not to forget Weber, Senart, Kuhn and others have enormously contributed to the scholarship of Buddhist literature. It would not be out of place to mention the services of those great masters including Max Muller, Mr. and Mrs. Rhys Davids, Dr. Fleet and several others who dedicated their lives to the scholarship of Buddhist studies. It should not be forgotten that it is due to the lifelong endeavour of these geniuses that the present generation is indebted to the scholarship of the Pali Language.

It is in the light of the writings of those towering scholars that we have to search the gems of Pali scholarship; and Dr. Ambedkar's efforts for illuminating the light of Buddhist studies should be viewed accordingly. The justification for bringing out the dictionary of Pali language lies in the fact that Dr. Ambedkar had his roots in the Indian soil, and the Pali

language is an indispensable key to unlock the secrets of Buddhist India.

This volume includes Dr. Ambedkar's compilation of Pali grammar. In examining a dead language like Latin or Sanskrit, grammar of that language is to know syntax and style. Grammar throws light on words and phrases, it unfolds thought processes and shows the social mind in evolution.

To the lovers of Pali language and to those who are interested in the history of Buddhism, this volume will prove to be of interest and inspiration.

The work of editing of this volume has been made possible by the ready help, support and co-operation I have received :

-- from Professor Manohar Joshi, the Hon'ble Chief Minister of Maharashtra whose encouragement has made this work possible;

-- from Shri. Dattatraya Rane, the Hon'ble Minister for Education and Shri Anil Deshmukh, the Hon'ble State Minister for Education both of Maharashtra State, who showed keen urge in expediting the project for being completed speedily;

-- from Shri. P. P. Mahana, the Principal Secretary, Higher and Technical Education, whose help enabled the Editor to solve various administrative hurdles;


-- from Shri. B. M. Ambhaikar, Retired Additional Municipal Commissioner, Mumbai Mahanagar Palika, and Shri K. N. Kadam, Retired Director of Social Welfare Maharashtra State whose personal involvement and guidance has been of immense help to the Editor in editing this volume, and

-- from Professor Sheshrao Meshram and Professor (Smt.) Sushila Mool; both of the Department of Pali, Milind Mahavidalaya, Aurangabad, who spent their valuable time for examining the proofs.

Thanks are also due to :

: Shri. P. S. More, Director, Shri, P. L. Purkar, Dy. Director and U. S. Sonawane, Manager, Govt. Photozinco Press, Pune, all of whom showed interest & expedited the publication of this volume. Shri G. B. Thakur, Deputy Director of Education, Greater Mumbai, and Shri. E. M. Meshram, Jr. Administrative Officer and the staff working under them deserves thank for their assistance in administrative matters;

The staff of this office comprising of Shri. Ravindra Sutar, Smt. Sumitra Nevarekar and Smt. Shalaka Tambe who assisted me in the whole process of collecting, editing and cheerfully scrutinising the material and verified proofs in the process of printing of this volume; and the members of the committee who stood by the Editor in every moment of this project and reposed their confidence in him and there are several well wishers and admirers of the Philosophy and spirit of Dr. Ambedkar who helped the Editor in various ways whose names are too many to be mentioned here.



(Vasant Moon)

Editor

Dr. Babasaheb Ambedkar
Source Material Publication
Committee

BLANK

**Dr. BABASAHEB AMBEDKAR
WRITINGS AND SPEECHES**

Vol. 16

TABLE OF CONTENTS

Book I	1 - 436
Book II	437 - 630
Book III	631 - 722
Book IV	723 - 744

BLANK

BOOK I
PALI ENGLISH DICTIONARY

BLANK

THE PALI DICTIONARY

This part has been reproduced from the Manuscript copies received from the custody of Administrator General of Maharashtra State. In this manuscript, which is prepared by Dr. Ambedkar himself, the author seems to have treated the subject fully and concluded it by the supplement with 'Addenda' - Editor.

BLANK

PALI-ENGLISH DICTIONARY

A

अ :	Until, as far as, with, Prefix
अब्बमं :	One of the high numerals, (अर्व)
अबद्धमुखो :	Foul-mouthed, scurrilous (अबद्ध + मुख)
अबद्धो :	Not bound, unmeaning, senseless (अ + बद्ध = बन्ध)
आबद्धो :	Fastened; joined; united, attached (आ + बद्ध + बन्ध)
आबाधिको :	Affected with illness (आ + बाधा + इको)
आबाधो :	Illness, sickness, disease
आबज्झहति :	To be bound, fettered, held fast
अबलं :	Weakness (अ + बल)
अबलो :	Weak
अब्बहति :	To take away, to remove
अब्बणो :	Unwounded (अ + ब्रण)
अब्बति :	To go (अर्व)
अब्भाचिक्खति :	To accuse, to slander, to calumniate (अभि + आ + ख्या)
अब्भागमनं :	Approaching, going to, visiting (अभ्यागमन)
अब्भकं :	Talc (अभ्रकं)
अब्भक्खानं :	Accusation, slander, calumny
अब्भाकुटिको :	(adj) Unflouring, genial (अ + भ्रकुटि + क)
अब्भं अब्भो :	Cloud, sky, air (अभ्र)
अब्भानं :	Rehabilitation of a priest who has undergone परिवास or penance for an explicable offence (अभि + आयन)
अब्भञ्जन :	Anointing (अभि + अञ्जन)
अब्भन्तरं :	Interval, interior, certain measure (आभ्यन्तर)
अब्भन्तरो :	Internal, inner
अब्भनुमोदनं :	Rejoicing, thanksgiving, praise
अभासो :	Repetition, practice, repudiation (अभ्यास)
अब्भत्थ :	Setting, declining, perishing (अभि + अस्त)
अब्भेति :	To restore a priest who has been degraded for an offence
अब्भोकासिको :	Living in the open air, unsheltered place
अब्भोकिण्णं :	Covering, bedecking

2 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अब्भुदिरितो :	Uttered (अभि + उद् + इरित = ईर)
अब्भुगच्छति :	To approach; to go to meet; to ascend; to go up (अभि + उद् + गम्)
अब्भुगतो :	Having approached; gone to meet, ascended (अभि + उद् + गत + गम्)
अब्भुज्जालनं :	Spitting fire (a juggleri trick) (अभि + उद् + ज्वलन)
अब्भुतधम्मो :	Mysterious or super-natural phenomenon or condition a name of one of the nine divisions of the Buddhist scriptures (अद्भुत + धर्म);
अब्भुतो :	Hidden, mysterious, wonderful, pretentious, astonished (अद्भुत)
अब्बुच्छिन्नो :	Unbroken (अ + वि + अव + च्छिन्न = च्छिद्)
अब्बुदं :	One of the high numerals; a canker, stain, sorn (अर्बुद्)
अब्बुतो :	Undisciplined
आभा :	Splendour, radiance, light (आभा)
अभब्बता :	Non-liability; inability (अभव्य + ता)
अभब्बो :	(adj.) Not liable; unable (अ + भव्य = भू)
आभाकरो :	The Sun (आभा + कर)
आभरणं :	Ornament, decoration (आभरण)
अभासन :	Silence (अ + भाषण)
आभासरो :	Shining, radiant (आ + भास्वर)
आभाति :	To shine (आ + भा)
आभतो :	Brought, carried, conveyed (आ + भृत = भृ)
अभवो :	Decrease, decay or misfortune (अ + भव)
अभावो :	Non-existence, absence
अभया :	The plant <i>Terminalia Citrina</i> (अ + भय)
अभयं :	Safety; protection from danger (अ + भय)
अभयो :	Fearless (अ + भय)
अभिभासति :	To speak to, address (अभि + भाष्)
अभिभासितो :	Illumined (अभि + भाष)
अभिभवन् :	Overcoming; vanquishing (अभिभवन्)
अभिभवति :	To overcome; to attain, to master; to surpass (अभि + भ्)
अभिभवो :	Being overcome, defeat (अभिभव्)
अभिभायतनं :	Place or region of the vanquisher (अभिभ् + आयतन)

अभिभू :	Overcoming, mastering, vanquishing, surpassing (अभि + भू)
अभिभूतो :	Overcome, overpowered, subdued, vanquished (अभि + भूत = भू)
अभिच्छा :	Desire, longing (अभि + इच्छा)
अभिधम्मिको :	Connected with Abhidhamma; versed in or studying the Abhidhamma (अभि + धर्म + इक)
अभिधम्मो :	Higher doctrine or metaphysics; name of the third great division of Buddhist scriptures (अभिधर्म)
अभिधानं :	Name, appellation; noun (अभि + धान)
अभिधानप्पदीपिका :	Lamp of names (अभिधान + प्रदीपिका)
अभिधातब्बो :	To be declared or named (अभि + धातव्य = धा)
अभिधेयो :	To be declared, pointed out, denoted, meant (अभिधेय = धा)
अभिधीयति :	To be declared, to be pointed out, (अभिधीयते = धा)
अभिदोसो :	Evening (अभिदोष)
अभिगच्छति :	To go to, to approach (अभि + गम्)
अभिगमनं :	Approaching (अभिगमन)
अभिघातो :	Striking, concussion (अभिघात)
अभिगीतो :	Sung or recited to (अभि + गीत = गै)
अभिहनति :	To assail; to strike (अभि + हन्)
अभिहरति :	To bring to; to acquire, to gain (अभि + ह)
अभिहारो :	Bringing, offering (अभिहार)
अभिहतो :	Brought (अभि + हत = ह)
अभिहितो :	Called, named; spoken, said (अभि + हित = धा)
अभिजानाति :	To know, to learn, to ascertain; to perceive, to admit, to acknowledge (अभि + ज्ञा)
अभिजनो :	Race, tribe, family (अभिजन)
अभिजप्पनं :	Muttering, spells, incantation (अभि + जप्पन)
अभिजाति :	Origin, race, birth (अभि + जाति)
अभिजातिको :	Belonging to origin or race (अभिजाति + क)
अभिजातो :	Well-born, noble, learned, wise (अभिजात = जन्)
अभिज्झा :	Covetousness (अभिध्या)
अभिज्झालु :	Covetous (अभिध्या + लु)
अभिकामी :	Desirous (अभि + कामिन्)
अभिख्या :	Name, beauty, splendour, glitter (अभिख्या)
अभिकिरति :	To overwhelm, to cover (अभि + कृ)
अभिक्रमति :	To go forward, to advance, to approach (अभि + क्रम्)

4 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अभिक्रमो :	Advancing, advance (अभिक्रम)
अभिक्रान्तो :	Advanced; having approached (अभि + क्रान्त = क्रम)
अभिक्रान्तो :	Handsome; beautiful, excellent, good (अभि + कान्त = कम्)
अभिक्रान्तो :	Withered, exhausted (अभि + क्लान्त = क्लम्)
अभिव्यखणं :	Repeatedly (अभिक्षणम्)
अभिलभति :	To obtain or receive (अभि + लभ्)
अभिलक्षितो :	Marked, characterized, distinguish (अभिलक्षित = लक्ष्)
अभिलापो :	Speaking to; talking (अभिलाप)
अभिलासी :	Desirous (अभिलाषिन)
अभिलासा :	Desire (अभिलाषा)
अभिलावो :	Cutting, reaping (अभिलाव)
अभिलेपनं :	Smearing; pollution (अभि + लिप् + अन)
अभिलित्तो :	Smeared; stained, polluted (अभि + लिप्त = लिप्)
अभिमदितो :	Crushed, trampled; overthrown (अभि + मर्दित = मृद)
अभिमङ्गल :	High festival, solemnity (अभि + मङ्गल)
अभिमानो :	Pride, wisdom (अभिमान)
अभिमथति :	To grind, to crush (अभि + मथ्)
अभिमुदा :	Joy (अभि + मुदा)
अभिमुखो :	Facing towards, opposite (अभिमुख)
अभिमुख :	Front, direction towards (आभि + मुख)
अभिनादेति :	To fill with noise (अभि + नादयति = नद्)
अभिनन्दति :	To be pleased with, to approve of, to welcome, to rejoice at, to delight in (अभि + नन्द)
अभिनवो :	Quite new, new (अभिनव)
अभिनयो :	A dramatic representation (अभिनय)
अभिनेति :	To bring to, to conduct (अभि + नी)
अभिण्ह :	Repeatedly (अभिक्षणम्)
अभिनिब्वत्तेति :	To be reborn in another existence (अभि + निस् + वृत्)
अभिनिब्वत्ति :	Rebirth in another existence (अभि + निवृत्ति)
अभिनिब्वत्तो :	Reborn in another existence (अभि + निस् + वृत्त = वृत्)
अभिनीहरति :	To turn, to direct (अभि + निस् + ह्)
अभिनीहारो :	Earnest wish or aspiration (अभि + निस् + हार)
अभिनिव्यखमन :	Going out, departing, retiring from the world, giving up the world to devote oneself to an ascetic life (अभि + निष्क्रमण)
अभिनिव्यखमति :	To go out, to depart (अभि + निस् + क्रम्)

अभिनिवृत्तमो :	Going out; retiring from the world to devote oneself to ascetic life (अभि + निष्कम)
अभिनिनीयति :	To hide oneself, to lie, hide (अभि + नि + ली)
अभिनीलो :	Very black (अभि + नील)
अभिनिमतेति :	To invite; to present with (अभि + नि + मन्त्र्)
अभिनिम्माण :	Creating
अभिनिम्मिणाति, :	To create, to cause to appear by supernatural powers (अभि + निस् + मा)
अभिनिन्नामेति :	To turn, to direct (अभि + निस् + नम्)
अभिनिपज्जति :	To lie down (अभि + नि + पद्)
अभिनिप्फादेति :	To effect, to accomplish, to succeed (अभि + निस् + पद्)
अभिनिसीदति :	To sit down (अभि + नि + सद्)
अभिनिवेशो :	Adhering to; inclination to (अभि + निवेश)
अभिनिविसति :	To settle down; to devote oneself to (अभि + नि + विश्)
अभिज्जा :	Higher knowledge, transcendent or supernatural knowledge or faculty (अभिज्ञा)
अभिज्जाय :	Having known, become cognisant of (अभिज्ञाय = ज्ञा)
अभिज्जको :	Not schismatic, orthodox (अ + भिन्न = भिद् + क)
अभिज्जान :	Sign, token (अभिज्ञान)
अभिज्जातो :	Known, well-known, distinguished, remarkable (अभि + ज्ञात = ज्ञा)
अभिजानाति :	To know by experience to, to know fully or thoroughly, to recognise, know of
अभिज्जेप्यो :	That ought to be known or that can be known (अभि + ज्ञेय = ज्ञा)
अभिन्नो :	Undivided; not different; identical (अ + भिन्न = भिद्)
अभिज्जो :	Knowing or conversant with (अभिज्ञ)
अभिपत्थेति :	To desire, to long for, to pray for (अभि + प्र + अर्थ)
अभिपीलितो :	Oppressed, afflicted (अभि + पीडित = पीड्)
अभिपूजेति :	To offer, to present with (अभि + पूज)
अभिराधेति :	To content, to satisfy (अभि + राधयति = राध्)
अभिराजा :	A supreme king (अभि + राजन्)
अभिरमति :	To delight in (अभि + रम्)
अभिरम्मो :	Delightful (अभि + रम्य = रम्)
अभिरामो :	Delightful (अभिराम)
अभिरति :	Delighting in, delight (अभिरति)

6 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अभिरतो :	Delighting in, devoted to (अभिरत = रम्)
अभिरुचितो :	Pleasing, agreeable, liked (अभिरुचित + रुच्)
अभिरुहन :	Ascending, mounting (अभि + रुह + अन)
अभिरुहति, :	To ascend, to mount (अभि + रुह)
अभिरुहति, अभिरोहति	
अभिरूपो :	Beautiful, handsome (अभि + रूप)
अभिरुत :	Sound (अभिरुत = रु)
अभिसद्दहन :	Firm faith or belief
अभिसद्दहति :	To have firm faith, to believe fully (अभि + श्रत्)
अभिसज्जति :	To be angry; to scold (अभि + सज्ज्)
अभिसमाचारिक :	Least duties : minor duties (अभि + समाचार इक्)
अभिसमयो :	Penetration, comprehension, clear understanding (अभि + समय)
अभिसम्भुनोति :	To obtain (अभि + सम् + भृ)
or नाति	
अभिसम्बोधि :	Perfect understanding, infallible knowledge (अभि + सम् + बोधि)
अभिसम्बुद्धो :	Thoroughly understood, perfectly known, enlightened, knowing fully (अभि + सम् + बुद्ध)
अभिसम्बुद्धति :	To gain perfect knowledge of (अभि + सम् + बुद्ध)
अभिसमेति :	To penetrate, comprehend, gain a full knowledge of (अभि + सम् + आ + इ)
अभिसम्मतो :	Fully approved, honoured, prized (अभि + सम् + म = म)
अभिसम्परायो :	Future state, futurity (अभि + संपराय)
अभिसंयुतो :	Fitted out, equipped (अभि + सम + युत = यु)
अभिसन्देति :	To rain upon, to drench (अभि + स्यन्द)
अभिसन्धि :	Intention (अभिसंधि)
अभिसङ्गो :	Curse, imprecation (अभिषङ्ग)
अभिसंखरन :	Preparing, forming, effecting, pertaining; accumulation (अभि + सम् + कृ + अन)
अभिसंखारो :	Driving, effecting, perfecting; accumulation, collection; accumulation of karma, merit or demerit, idea, conception, fancy (अभि + संस्कार)
अभिसंखरोति :	To prepare, to form, to effect, to perfect (अभि + सम् + कृ)

अभिसंखतो :	Prepared, formed; well made, perfected (अभि + सम + कृत = कृ)
अभिसन्नो :	Rained or drenched (अभि + स्यन्न = स्यन्द्)
अभिसारिका :	A woman who carries on an intrigue (अभिसारिका)
अभिसवन :	Dozing, tricking, flowing (अभि + स्रवण)
अभिसेचन :	Sprinkling; inauguration of a king (अभिषेचन)
अभिसेचेति :	To cause to be sprinkled, or inaugurated (अभि + सेचयति)
अभिसेको :	Sprinkling (अभिषेक)
अभिसिञ्चति :	To sprinkle inaugurate a king by sprinkling with sacred water (अभि + सिच्)
अभिसित्तो :	Besprinkled; inaugurated a king (अभि + सिक्त = सिच्)
अभिसोभितो :	Adorned, beautiful, resplendent (अभि + शोभित = शुभ)
अभिसङ्गो :	Attachment (अभिष्वङ्ग)
अभिस्सवन :	Flowing, dripping (अभि + स्रवण)
अभिसुनोति :	To hear, to listen to (अभि + श्रु)
अभितप्पेति :	To satisfy thoroughly (अभि + तर्पयति = तृप)
अभितत्तो :	Scorched (अभि + तप्त)
अभिधान :	Crime or deadly sin (अभि + स्थान)
अभितो :	Near, in the presence of, on both sides (अभितस्)
अभितोसेति :	To gratify, to reward (अभि + तोषयति = तुष)
अभिथरति :	To make haste (अभि + त्वर)
अभित्यवति :	To praise (अभि + स्तु)
अभित्युतो :	Praised (अभि + स्तुत = स्तु)
अभिवादन :	Respectful salutation (अभिवादन)
अभिवदति :	To say; to declare (अभि + वद्)
अभिवड्ढति :	To increase; to grow (अभि + वृध्)
अभिवादेति :	To salute respectfully; to greet (अभि + वादयति = वद्)
अभिवन्दन :	Respectful salutation (अभि + वन्दन)
अभिवन्दति :	To salute respectfully (अभि + वन्द)
अभिविजयति :	To overcome; to conquer (अभि + वि + जि)
अभिविजेति	
अभिविनयो :	Higher discipline; the subtle ties or refinements of Vinaya (अभि + विनय)

8 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अभिवृद्धि :	Increase, growth, prosperity (अभि + वृद्धि)
अभियाचति :	To entreat, to ask, to request (अभि + याच्)
अभियाति :	To approach; to attack (अभि + या)
अभियोग :	Charge, accusation (अभियोग)
आभोगो :	Fulness, plenty; thought or reflection (आभोग)
आभुजी :	Name of a tree; the Bhurja or Bhojpatta (आ + भुज + ई)
आभुजति :	To bend, to turn in (आ + भुज)
अभूतो :	That has not been; or that is not; false (आ + भूत)
अभ्यासो :	Near (अभ्यास)
अभ्यासो :	Repetition or practice (अभ्यास)
अचलो :	firm; steady; immovable (अ + चल)
आचमन :	Rinsing the mouth; washing, cleansing (आचमन)
आचामो :	Scum of boiling rice
आचरति :	To live, to act, to perform, to treat, to practice (आ + चर्)
आचरियो :	A teacher or master; a scholar, professor (आचार्य)
आचारो :	Conduct, practice; right conduct, good manners (आचार)
अच्चादहति :	To put upon or over (अति + आ + धा)
अच्चधान :	Putting upon (अति + आ + धा + न)
अच्चगा :	See अच्चेति
अच्चगमा :	See अतिगच्छति
अच्चम्बिलो :	Very sour (अति + अम्ब)
अच्चना :	Offering, worship (अर्चना)
अच्चनीयो :	That ought to be offered; worthy of being offered (अर्चनीय)
अच्चनिय्यो	
अच्चन्त :	Very, exceedingly (अत्यन्तम्)
अच्चन्तो :	Exceeding, excessive, endless (अत्यन्त)
अच्चारद्धो :	Very eager, very strenuous (अति + आरब्ध = रभ्)
अच्चासन्नत्त :	Too great proximity (अति + आसन्न = सद् + त्व)
अच्चासन्न :	Too near (अति + 100 आसन्न = सद्)
अच्चति :	To offer; to make a religious offering; to honour, to revere (अर्च)
अच्चायिको, :	Irregular, accidental, unexpected, out of the usual course or
अच्चेको	time pressing urgent (अत्यय + इक्)
अच्चयो :	Passing away, lapse (of time) death; transgression; offence or sin (अत्यय)

अच्चेति :	To pass beyond, to traverse ; to surpass; to overcome, to conquer, to pass away (अति + इ)
अच्छादन :	Covering, lid, curtain; clothes (आच्छादन)
अच्छादेति :	To put on (आ + च्छद्)
अच्छम्भी :	Undaunted, undismayed (अ + स्तम्भ + इन्)
अच्छन्नो :	Covered, hidden (आ + च्छन्न = च्छद्)
अच्छरा :	A celestial nymph (अप्सरा)
अच्छरा :	A moment : the snapping of a finger; the twinkling of an eye (अक्षर)
अच्छरियो :	Wonderful: marvellous; extra-ordinary : astonished (आश्चर्य)
अच्छति :	To stay, to remain: to settle down (आस्)
अच्छेको :	Unskilful, ignorant, clumsy (अ + च्छेक)
अच्छेरो :	Contracted form of (अच्छरिया)
अच्छि :	The eye (अक्षि)
अच्छिद्दो :	Uninjured, intact, perfect, faultless (अ + च्छिद्)
अच्छिन्दति :	To take away, to remove: to remove forcible; to rob, plunder (अ + छिद्)
अच्छिन्नो :	Taken away, removed; robbed or stolen (अ + च्छिन्न = च्छिद्)
अच्छो :	Clear, transparent (अच्छ)
अच्छो :	A bear (अच्छ)
अच्चि :	A ray of light; a sunbeam: flame (अर्चि + अर्चिस्)
अच्चिमा :	Fire (अर्चिमन्त)
अच्चितो :	Revered, honoured (अर्च)
अच्चोदातो :	Very white (अति + अवदात = दै)
अच्चोक्कट्ट :	Very low, too low (अति + अवकृष्ट = कृष)
अच्चुगगतो :	Raised, elevated, lofty (अति + उद्गत = गम्)
अच्चुकुट्ट :	Very high, too high (अति + उत्कृष्ट = कृष्)
अच्चुलारो :	Magnificent (अति + उदार)
अच्चुणह :	Very hot (अति + उष्ण)
अच्चुतो :	Immovable; everlasting, eternal (अ + च्युत = च्यु)
अचेलको :	Unclothed, naked (अ + चेल + क)
अचेतनो :	Unconscious, insensible, senseless (अ + चेतन)
आचिक्ख :	Telling, showing

10 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

आचिक्खति :	To tell, to announce: to point out; to show (आ + ख्या)
आचिनति :	To keep up, to accumulate (आ + चि)
आचिन्नो :	Practiced, performed, sanctioned, enjoined (आचीर्ण = चर्)
अचिन्तेयो, :	Beyond the reach of thought or reason, inconceivable;
अचिन्तियो	incomprehensible, infinite (अ + चिन्त + एय = य)
अचिरप्पभा :	Lightening (अचिर् + प्रभा)
अचिरवति :	Name of a river in India (अचिर् + वत्)
अचिरो :	Short or brief (अ + चिर्)
आचितो :	Heaped up, collected (आ + चित = चि)
अदा :	See ददति
अदन :	Eating (अदन)
आदान :	Taking, appropriating, seizing; attachment, elinging to the world, desire (आदान)
आदरनीयो :	Estimable : deserving of respect (आदरणीय)
आदरो :	Esteem, regard: respect: interest, care, devotion; affection (आदर)
अदासि :	See ददति
अदासो :	A mirror (आदर्श)
अदस्सन :	Not seeing; not meeting with, disappearance, not showing, concealment (अ + दर्शन)
आदाता :	One who likes (आदातृ)
आदातब्बो :	That ought to be taken (आदातव्य)
आदाति, आददाति :	To take, to receive, to seize, to take away (आ + दा)
आदायी :	Taking (आ + दायिन)
अद्दा :	Name of one of the Nakkhattas (Nakkshatras) (आर्द्रा)
अद्दब्बो :	Immaterial, Abstract (अ + द्रव्य)
अद्दक :	Green ginger (आर्द्रक)
अदक्खि, अद्दस :	See पस्सति
अद्दा :	Truely, certainly, surely, evidently (अद्दा)
अद्दा :	Road: distance: time (अध्वन्)
अद्दगतो :	One who has made a long journey, advanced in years, aged (अध्वत् + गत = गम्)

अद्भगू :	A traveller (अध्वग)
अद्धमासो :	Half a month; a fortnight (अर्ध + मास)
अद्धान :	A road; a long distance: a long time
अद्धनियो :	Lasting; going on: continuing (अध्वन् + य)
अद्धरत्ति :	Midnight (अर्ध + रात्र)
अद्धतेय्यो, :	Two and half (अर्ध + तृतीय)
अद्धतियो	
अद्धयोगो :	Name of a sort of a house (अर्ध + योग)
अद्धिको :	Journeying, travelling (अध्वन् + इक्)
अद्धो :	Half or halved (अर्ध)
अद्धो :	Wealthy, rich (आढ्य)
अद्धद्धो :	Three and half (अर्ध + चतुर्थ)
अद्धि :	A mountain (अद्रि)
अद्धितो :	Afflicted, oppressed (अर्दित = अर्द्)
अद्धो :	Wet, moist (आर्द्र)
आदेशको :	Telling: informing (आदेशक)
आदेशो :	Information: direction: orders, injunction (आदेश)
आदेति :	To take: to seize: to receive: to obtain (आ + दयते = दय्)
अधमन्नो :	A debtor (अधमर्ण)
अधम्मिको :	Irreligious: impious: wicked (अ + धर्म + इक्)
अधम्मो :	Wrong: injustice: unlawfulness: false doctrine: irregular: impiety: unrightousness (अ + धर्म)
अधमो :	Lowest: very low; nearest; vile, contemptible: incomplete: imperfect (अधम)
अधरो :	Lower, inferior (अधर्)
आधारो :	A prop. support, stand = a basin road, the foot of a tree to retain water: a receptacle: (आधार)
अधरोष्ठो :	The lower lip
अधि :	Above, over, superior to (अधि)
अधिभासति :	To address: to speak to (अधि + भाष्)
अधिभवन :	Subjection (अधि + भवन)
अधिभू :	Lord: master; chief; king (अधिभू)
अधिभूतो :	Overcome: mastered (अधि + भूत = भू)
अधिच्चक :	Land or plateau on a mountain (अधित्यका)

अधिच्चसमुप्यन्तो :	Uncaused: spring into existence without a cause
अधिचित्त :	Lofty thought or contemplation (अधि + चित्त)
अधिगच्छति :	To enter upon, to reach: to attain: to acquire (अधि + गम्)
अधिगमन :	Obtaining: attainment: arriving at: attainment of Arahatta; final sanctification (अधिगमन्)
अधिगमो :	Attainment: study: reading
अधिगतो :	Having attained or arrived at: attained, acquired (अधिगत = गम्)
अधिगृहीतो :	Taken: occupied by: in possession of (अधि + गृहीत = ग्रह)
अधिकरण :	Relation: reference (अधिकरण)
अधिकरणसमथो :	Settling questions (अधिकरण + शमथ)
अधिकरणी :	A smith's anvil (अधिकरण + ई)
अधिकारिको :	An official: an office-bearer (अधिकार + ईक)
अधिकारो :	Office, authority: function, act: desire, resolve; chapter, section (अधिकार)
अधिकतरो :	Greater, superior (अधिक + तर)
अधिकतो :	A superintendent, overseer (अधिकृत = कृ)
अधिकिच्च :	Referring to: relating to (अधिकृत्य = कृ)
अधिको :	Exceeding, surpassing: more than, better than, superior to (अधिक)
अधिकोदटन :	A chepping block: executioner's block (अधि + कुह)
अधिमानो :	Undue confidence: underestimate of oneself (अधि + मान)
अधिमतल :	Exceedingly: excessively (अधि + मात्र)
अधिमतलो :	Excessive (अधि + मात्र)
अधिमोक्खो :	Steadfastness, determination, certainty, confidence, faith (अधि + मोक्ष)
अधिमुच्चति :	To be inclined to: intent upon; to be set upon: have confidence or faith in: to be resolved, determined (अधि + मुच्चते = मुच्)
अधिमुत्ति :	Inclination, disposition: intention, resolution, resolve, will, confidence, faith (अधि + मुक्ती)
अधिमुत्तो :	Inclined, disposed, intent upon, resolved for, bent upon (अधि + मुक्त = मुच्)
अधिनाथो :	Lord, chief, governor (अधि + नाथ)
अधीनो :	Subject, dependent, servile (अधीन)

अधिपच्च :	Sovereignty, lordship, supreme-rule (अधिपत्य)
अधिपन्नो :	Caught, seized: assailed (अधि + पन्न = पद्)
अधिपत्तेय्य :	Influence, rule supremacy (अधिपति + एयू)
अधिपति :	Lord, chief, sovereign, master (अधिपति)
अधिपो :	Lord, king, rulers, master (अधिप)
अधिप्पायो :	Intention, wish, thought, meaning (अधिप्राय)
अधिप्पेतो :	Meant: intended: desired (अधि + प्र + इत = इ)
अधीरो :	Confused, embarrassed, timid, irresolute (अ + धीर्)
अधिरोहिणी :	A ladder (अधिरोहिणी)
अधिसक्कारो :	Honour, hospitality: festivity (अधि + सक्कार)
अधिसेति :	To lie down upon, to lie, to rest, to sleep: to inhabit (अधि + शेति = शी)
अधीते, अधीयते :	To read; to study (अधि + इ)
अधीतो :	Learned, read: having learned or read (अधीत = इ)
अधिदठहति, :	To stand on: to stay, to remain firm in: to inhabit:
अधिदठाति,	to appoint, to fix: to determine, to resolve, to will,
अधितिदठति :	to command: to devote oneself to: to practice to perform: to undertake, to be set upon, to fix the mind upon, dwell upon (अधि + स्था)
अधिदठान :	Resting place; staying, stopping: appointing, fixing, appointment, order: determination, resolution, resolve (अधिदठान)
अधिदठायक :	Superintendent, director (अधिदठायक)
अधित्थि :	Relating to a woman, with reference to a woman (अधि + स्त्री)
अधिदित्तो :	Appointed, fixed, determined, willed (अधिदित्त = स्था)
अधिवचन :	Denomination, designation, name, appellation (अधि + वचन्)
अधिवासन :	Consent, assent, acceptance (अधि + caus वस् + अन)
अधिवसति :	To dwell in, to inhabit (अधि + वस्)
अधिवासेति :	To consent, to assent, to comply with: to bear with, to accept, to approve, to favour: to receive favourably, to accept with resignation, to bear, to endure (अधि + वस्)
अधिवासो :	Dwelling, residence: consent: acceptance (अधिवास)
अधिवासो :	Perfuming the person (अधिवास)
अधिवत्थो :	Dwelling, residing (अधि + वस्)
अधो :	Under, underneath: below: down: low-down (अधस्)
अधोभागो :	The lower part (अधम् + भाग)

अधोभुवन :	The lower region: <i>patala</i> : the Naga-world (अधोभुवन)
अधोगामी :	Going downwards, descending (अधस् + गामिन्)
अधोगमो :	Going downwards, descending (अधस् + गम)
अधोमुखो :	Looking downwards with the head bent down (अधस् + मुख)
अधोसाखो :	Having the branches downwards (अधस् + शाखा)
अधोठितो :	Standing below; situated below; (अधस् + स्थित = स्थ)
अधुना :	Now: just now (अधुना)
अधुनागतो :	Just arrived: newly come: (अधुना + आगत्)
आधूतो :	Shaken (आधूत = धू)
आड्ढो :	Belonging to a wealthy family (आढ्य)
आदिब्रह्मचरिय :	Primary or fundamental morality (आदि + ब्रह्म + चर्य)
आदिच्चबन्धु :	Kinsman of the Sun: a name of Buddha a member of a family of the solar race (आदित्य + बन्धु)
आदिच्चपथो :	The sky, the heavens (आदित्य + पथ)
आदिच्चो :	The Sun (आदित्य)
आदिको :	Beginning with : first, initial (अदिक)
आदिमो :	First, initial (आदिम)
आदीनवो :	Distress, suffering: evil result or consequence: evil guilt, sinfulness: disadvantage (आदीनव)
अदिन्नादान :	Taking what is not given: appropriation: theft (अ + दिन्न + आदान)
अदिन्नादायी :	One who takes what is not given, a thief (अ + दिन्न + आदायिन्)
अदिन्नो :	Not given
आदिप्पति :	To blaze, to burn, to glow (आ + दीप्)
आदिसति :	To show, to point, to tell (आ + दिश्)
अदिति :	The mother of the Gods (अदिति)
आदितो :	From the beginning: first (आदितस्)
अदिट्ठो :	Not seen: unseen (अ + दृष्ट = दृश्)
आदित्तो :	Blazing, burning (आदीप्त = दीप्)
आदियते :	To take: to receive: to obtain: to take to heart, to attend to (आ + दीयते = दा)
अदो :	Eating, feeding on (अद)
आदो :	A locative of (आदि)
अदोसो :	Not an offence, absence of guilt (अ + दोष)

अदोसो :	Absence of hatred or anger (अ + द्वेष)
अदुक्खमसुख :	Indifference, insensibility, indifference to pain or pleasure (अ + दुःख + अ + सुख)
आगच्छति :	To come: to approach: to arrive: to return (आ + गम्)
अगाधो :	Bottomless, unfathomable (अ + गाध)
अगदो :	Medicine: drug: medicament (अ + गद्)
आगहितो :	Seized: held: pulled (आ + गृहीत = ग्रह)
अगलु :	Else wood, or Aquilaria Agallochum (अगुरु)
अगामको :	Without villages, uninhabited (अ + ग्राम + क)
आगमन :	Coming, arriving: return: approach (आगमन)
आगमेति :	To cause to come: to communicate to, to impart to wait (आ + गमयति = गम्)
आगामी :	Coming: future (आ + गामिन्)
आगामिको :	Coming: approaching (आगामिक)
आगम्म :	Having come to: having gone to: having arrived: having re- turned: by means of: on account of: according to: for the sake of: on behalf of: (आ + गम्य = गम्)
आगमो :	Coming, advent: arrival: income, influx, knowledge; sacred book: the Buddhist scriptures: doctrine, religion (आगम)
अगन्धको :	Devoid of perfume (अ + गन्ध + क)
आगन्तुक :	Coming, arriving: adventitious, incidental: foreigner (आगन्तु + क)
अगार :	A house, a building: an apartment: a hall (अगार, आगार)
अगारवो :	Want of respect: disrespect: disregard (अ + गौरव)
अगारवो :	Disrespectful, disregarding (अ + गौरव)
अगारिको :	One who lives in a house: a householder, layman (अगार + इक्)
अगारियो :	A house-holder: a layman (अगार + य)
अगरु :	Light, not heavy: unimportant: not disagreeable (अगुरु)
अगति :	Wrong course, evil course or state, misfortune (अ + गति)
अगतो :	Not gone to, not attained (अ + गत = गम्)
आगतो :	Having come: Having arrived: having returned: having attained: contained in: existing in, found in (आगत = गम)
अगगबीजो :	Propagated by slips or cuttings (अग्र + बीज)

अग्गहेति :	To seize: to take (आ + ग्राह्यति)
अग्गजो :	First born, eldest (अग्रज)
अग्गलो, :	A wooden bolt or pin for fastening a door (अर्गल)
अग्गल, अग्गला	
अग्ग :	House, hall, apartment
अग्गमहेसी :	Queen consort or the chief wife of a king (अग्र + महिषी)
अग्गञ्जो :	Chief, heading, principal (अग्र + ज्ञ)
अग्गप्पत्तो :	Having attained perfection: Reached the height (अग्र + प्राप्त = आप्)
अग्गसावको :	Chief disciple (अग्र + श्रावक)
अग्गता :	Superiority, height, perfection (अग्र + ता)
अग्गतो :	Before, in front of, in the presence of (अग्रतस्)
अग्गे :	Before, in front of (अग्रे)
अग्घको :	Having the value of, worth (अर्घ + क)
अग्घनको :	Of the value of, costing, worth (अर्घ + अन + क)
अग्घापेति :	To get valued or appraised
अग्घति :	To be worth, to cost (अघति)
अग्घिय :	A respectful oblation (अर्घ्य)
अग्घो, अग्घ :	Price, cost, value: a mode of worship or reverence consisting in an oblation of rice (अर्घ)
अग्गि :	Fire: sacrificial fire: the deity of fire (अग्नि)
अग्गिक्खन्धो :	Mass of fire, blazing or flaming fire (अग्नि + स्कन्ध)
अग्गिमन्थो :	Name of a plant, the <i>Premna Spinoso</i> (अग्नि + मन्थ)
अग्गिनि :	Fire (अग्नि)
अग्गो :	First, foremost, chief, pre-eminent (अग्र)
अघ :	Evil, Sin: grief, suffering, The sky, the air (अघ)
आघातन :	Slaughter house: place of execution: shambles (आघातन)
आघातो :	anger, ill will, hatred or malice (आघात)
आघातक :	Injuring, hurting (आ + घातक)
आगिलायति :	To be tired: to ache (आ + र्लै)
अगो :	A mountain : a tree (अग)
अगोचरो :	That which ought not to be gone to or frequented; wrong sphere: improper or sinful place or object (अ + गोचर)

आगु :	Sin, guilt, offence, crime (आगस्)
अगुणो :	Bad quality, badness (अ + गुण)
अग्यागार :	See अग्गि
आह :	To say: to speak: to call: to tell: to say to (आह = अह)
आहच्च :	See आहनति
आहच्चपीठो, :	Name of a particular sort of bed or chair (आहत्य + पीठ,
आहच्चपादको	आहत्य + पादक)
आहच्चो :	To be brought forward: to be adduced: removable
अहह :	Alas: oh (अहह)
अहह :	One of the high numerals or followed by seventy ciphers
अह :	A day (अहन्)
अहं :	I, myself (अहम् = अस्मद्)
अहमहमिका :	Conceit of superiority, arrogance, egoism (अहम् + अहम् + इक)
आहमसु :	See आह
आहनति :	To strike: to throw: to beat, to pounce: to reach (आ + हन्)
अहंकारो :	Selfishness: pride, arrogance (अहंकार)
आहरण :	Bringing: accomplishing (आहरण)
आहरति :	To bring: to fetch: to take: to phunder: to tell, to relate (आ + ह)
आहरो :	Bringing (आहर)
आहारो :	Food: nourishment: cause (आहार)
अहासि :	See हरति
अहत :	A new cloth or garmant, before it is worsted (अ + हत = हन)
आहतो :	Struck : Stamped (आहत = हत)
आहतो :	Brought; carried: obtained (आहत = ह)
आहवनीयो :	Sacrificial worthy of offerings, venerable, adorable (आहवनीय)
आहवो :	War, battle (आहाव)
अहेसुं :	See होति
अहि :	A snake (अहि)
अहिगुण्ठको :	A snake charmer (अहि + गुण्ठ + इक)
अहिंसा :	Not hurting (अ + हिंसा)
अहिंसको :	Not injuring others, harmless (अ + हिंसक)
अहिंसन :	Not injuring others (अ + हिंसन)

आहिण्डति :	To roam, to wander (आ + हिण्ड)
अहिरिक :	Shamelessness (अ + हीका)
अहिरिको :	Shameless (अ + हीका)
आहितगि :	One who offers sacred fire (आ + हित = धा + अग्नि)
अहितो :	Bad, prejudicial (अ + हित = धा)
अहितुण्डको :	A snake charmer (अहितुण्डक)
अहो :	Oh! ah! alas (अहो)
अहोरत्त, अहोरत्ति :	A day and night (अहोरात्र)
अहोसि, अहु, :	See होति
अहुवा	
आहु :	See आह
आहुनेय्यो :	Sacrificial: worthy of offerings, worshipful
अजा :	She goat (अजा)
अजगरो :	A boa-constrictor (अजगर्)
अजळो :	Not stupid: not an idiot (अ + जड)
आजानाति :	To perceive: to understand: to learn: to know (आ + ज्ञा)
आजानन :	Knowing, understanding
आजानेय्यो, :	A good race or breed (अजानेय + आज)
आजानीयो	
अजञ्ज :	A potrait of nature; an ominous recurrence (अजन्य)
आजञ्जो :	Same as Ajaniyo
अजपालक :	The plant costs Specious (अज + पाल + क)
अजातसत्तु :	Name of a Magadha king, a contemporary of, - convert of Buddha (अ + जात + शत्रु)
अजति :	To go (अज्)
अजेळक + का :	Goats and sheeps (अज + एडक)
अजेय्यो :	Invincible, impregnable (अ + जेय = जि)
अजी :	A she goat
आजि :	Battle, shife (आजि)
अजिका :	A she goat
अजिम्हो :	Straight: straightforward: honest (अ + जिह्य)
अजिन :	The hide of an animal, especially of the black-antelope (अजिन)
अजिनपत्ता :	A bat (अजिन + पत्र)

अजिनप्पवेणि :	A counterpanel or rug made of skins sewn together (अजिन + प्रवेणी)
अजिनसाटी :	A garment of skins, worn by an ascetic (अजिन + शाटी)
अजिनयोनि :	An antelope (अजिन + योनि)
अजिर :	A court, a yard: (अजिर्)
आजीवको + :	Belonging to a Hindoo sect of naked asectics; a religious
अजीवको	mendicant (आजीवक + अज)
आजीवन :	Livelihood, subsistence (आजीवन)
आजीवी :	Living (आजीविन्)
आजीव :	Livelihood, having subsistence: profession, occupation: life, conduct (आजीव)
अज्ज :	To-day: now (अद्य)
अज्जतगो :	From this day: henceforth (अद्य + अग्रे)
अज्जतनो :	Of to-day, of the present-time, contemporary: modern (अद्यतन)
अज्जव :	Rectitude (आर्जव)
अज्झभासि :	See अधिभासति
अज्झाचरति :	To practice: to perform: to enjoin (अधि + आ + चर्)
अज्झाचारो :	Transgression, excess, offence (अधि + आचार)
अज्झाचिण्णो :	Enjoined (अधि + आ + चीर्ण = चर्)
अज्झगगा :	See अधिति
अज्झगमा :	See अधिगच्छति
अज्झगतो :	Having approached, come into the presence of (अधि + आ + गत = गम्)
अज्झापन :	Instruction (अध्यापन)
अज्झापेति :	To teach, to instruct (अध्यापयति = इ)
अज्झापन्नो :	Fallen into; having incurred or become guilty of (अधि + आ + पन्न = पद्)
अज्झारामो :	A garden (अधि + आराम)
अज्झारोहो :	Name of a fabulous sea mountain (अधि + आरोह)
अज्झारोपेति :	To cause to ascend, to raise: to transfer, to apply (अधि + आ + रोपयति = रुह)
अज्झासयो :	Intention, meaning, thought, inclination, wish (अधि + आशय)
अज्झसेति :	To lie or rest upon (अधि + आ + शी)

अञ्जत्त :	Relating to the individual within individual: internally, subjectively (अधि + आत्मन्)
अञ्जत्त :	Individual thought; an object of sense: an object for the mind to dwell upon: sphere or produce for intent thought (अध्यात्मन्)
अञ्जत्तिको :	Relating or belonging to the individual or self, personal, internal, subjective (अध्यात्म + इक्)
अञ्जनावसथो :	A house, dwelling (अधि + आवसथ्)
अञ्जनावसति :	To inhabit; to dwell in (अधि + आ + बस्)
अञ्जनायो :	Reading: a chapter: section (अध्याय)
अञ्ज्नेसना :	Request: invitation: solicitation (अध्येषण)
अञ्ज्नेसति :	To request: to invite (अधि + इष् ह्य एष्)
अञ्ज्जोगाहो :	Plunged: sunk: immersed (अधि + अव + गाढ = ग)
अञ्ज्जोहरण :	Eating (अधि + अव + हरण)
अञ्ज्जोहरति :	To eat, to swallow: (अधि + अव + ह्)
अञ्ज्जोहारो :	Eating: swallowing (अधि + अव + हार)
अञ्ज्जोहरो :	Eaten or swallowed (अधि + अव + हत + ह्)
अञ्ज्जोकासो :	The open air: an open: space (अधि + अवकाश्)
अञ्ज्जोसान :	Being bent upon application: elevating to (अधि + अ + सित = सो)
अञ्ज्जोत्थरति :	To overwhelm: to overspread (अधि + अव + स्तु)
अञ्ज्जुको :	Name of a plant: the white <i>parnasa</i>
अञ्ज्जुनो :	The tree <i>tesminalia</i> Arjuna (अर्जुन)
अजो :	A he-goat (अज्)
अका :	See करोति
आकडहन :	Drawing, attraction (आकर्षण)
आकडढति :	To draw towards: to drag along (आ + कृष्ण)
अकालिको :	Without delay : immediate (अ + कालिक)
अकल्ल :	Disease: illness (अ + कल्य)
अकल्लो :	Impossible (अ + कल्य)
अकालो :	Unreasonableness, wrong time (अ + काल)
अकम्मको :	Intransitive (अकर्मक)
अकामो :	Unwilling (अ + काम)
अकनिट्ठो :	Greatest: highest (अ + कनिष्ठ)
अकनिट्ठको	

आकङ्क्षा :	Desire: longing (आकाङ्क्षा)
आकङ्क्षति :	To wish: to desire, to long for (आ + काङ्क्षा)
अकणो :	Free from kana or कण (अ + कण्)
अकप्पियो :	Unsuitable, improper, wrong
आकप्पो :	Descent or elegant, active: ornament, embellishment, disguise (आकल्प)
अकरण :	Not doing, omission, abstaining from (अ + करण)
अकारणेन :	Without cause, unreasonably, unjustify (अकारणेन)
अकरणीयो :	Not to be done, to be left undone, to be abstained from or avoided (अ + करणीय)
अकरी :	See करोति
अकारियो :	That ought not to be done: that may not or cannot be done (अ + कार्य)
आकरो :	A multitude or a mine (आकर)
आकारो :	The vowel a (आ + कार)
अकारो :	The vowel a (अ + कार)
आकारो :	Form; appearance: mien: countenance: sign: token: way, manners; means: cause, reason, object, purpose = a constituent part of the body (आकार)
आकासञ्जायतन :	Realm of infinity of space (आकाश आनन्त्य + आयतन)
आकासट्टो :	Standing or staying in the sky: resting in space (आकाश + स्थ)
अकासी :	See करोति
आकासो :	The sky, air, heavens: the open air: space (आकाश)
अकथंकथी :	Free from doubt
अकतञ्जु :	Ungrateful (अ + कृतज्ञ)
अकतञ्जु :	Knowing Nirvana: an epithet of an Arahata (अकृत + ज्ञ)
अकतञ्जुता :	Ingratitude (अकृतज्ञ + ता)
अकतो + अकटो :	Not done, left undone: not made: not artificial, natural: not cultivated, waste (अकृत)
अकत्वा :	See करोति
अखण्डो :	Unbroken, intact, entire (अ + खण्ड)
अखात :	A natural pond or tank (अखात = खन्)
अखिलो :	All : entire (अ + खिल)
आखु :	A rat or mouse (आखु)
आख्या :	Name (आख्या)
आख्यातो :	Said: told: announced (आख्यात = ख्या)

आख्यायिका :	A tale, story, legend (आख्यायिका)
अकिच्चो :	That ought not to be done: wrong (अ + कृत्य)
अकिलासु :	Diligent
आकिच्चञ्ज :	Poverty, destitution; nothingness: void (अकिंचन्य)
आकिच्चञ्जायतन :	The realm of Nothingness (आकिंचन्य + आयतन)
अकिच्चनो :	Having nothing: poor or destitute (अकिंचन)
अकञ्चि :	Not a little: much; considerably (अ + किंचिद्)
आकिण्णो :	Crowded: confused; troubled (आकीर्ण = कृ)
आकिरति :	To scatter, to sprinkle (आ + कृ)
अकिरियो :	Unpractical, useless, foolish (आ + क)
अक्कमण :	Stepping upon, walking upon (आक्रमण)
अक्कमति :	To step upon; mount upon: trend upon: walk upon (आ + क्रम्)
अक्कन्तो :	Stepped upon; mounted upon (आक्रान्त = क्रम्)
अक्खदस्सो :	A judge (अक्ष + दर्श)
अक्खदेवी :	A dicer: gambler (अक्ष + देविन्)
अक्खधुत्तो :	A dicer: gambler (अक्ष + धूर्त)
अक्खको :	The collar-bone (अक्ष + क)
अक्ख :	An organ of sense: the eye (अक्ष)
अक्खणा :	Lightening (अ + क्षण)
अक्खान :	Telling: recitation: telling tales or legends (आख्यान)
अक्खणो :	Wrong moment: or occasion: unfavourable time (अ + क्षण)
अक्खर :	The imperishable or Elviral viz. Nirvana
अक्खर + :	A letter of the alphabet (अक्षर)
अक्खरो	
अक्खरप्पभेदो :	Distinction of letter, Etymological science (अक्षर + प्रभेद)
अक्खरसमयो :	Letters : reading and writing (अक्षर + समय)
अक्खरसो :	Letter by letter (अक्षर + शस्)
अक्खाता :	One who tells: repeats or relates: one who proclaims or preaches, a teacher (आख्यातु)
अक्खत :	Fried grains (अक्षत = क्षण)
अक्खाति :	To tell : to relate: to announce: to proclaim: to teach to preach (आ + ख्या)
अक्खातो :	Told: related: announced; reported, proclaimed, preached: called, named denominated (आख्यात = ख्या)
अक्खयता :	Imperishableness: endlessness (अ + क्षय + ता)

अक्खायति :	To be proclaimed: to be reported (आख्यायते = ख्या)
अक्खायी :	Telling: relating: announcing (आख्यायिन्)
आख्यायिका :	A tale or story (आख्यायिका)
अक्खयो :	Undecaying: unfairing: endless (अ + क्षय)
अक्खि :	The eye (अक्षि)
अक्खिग :	The eyelashes (अक्षि + ग)
अक्खिको :	A dice-player (अक्ष + इक)
अक्खो :	A dice : the plant <i>Terminal Bellerica</i> : a weight equal to two and half masakas : the axle of a wheel (अक्ष)
अक्खोहिणी :	A complete army : one of the high numerals followed by forty-two ciphers (अक्षौहिणी)
अक्को :	The sun : the plant <i>swallow-wort, or Asclepias Gigantea</i> (अर्क)
अक्कोच्छि :	See अक्कोसति
अक्कोधनो :	Not angry, not passionate (अ + क्रोधन)
अक्कोधो :	Freedom from wrath, mildness, conciliation (अ + क्रोध)
अक्कोसन :	Reviling, abusing: curse, imprecation (आक्रोशन)
अक्कोसति :	To abuse, to revile (आ + क्रुश्)
अक्कोसो :	Abuse: reviling (आक्रोश)
आकोटापेति :	To smooth a robe by beating (आ + कुट)
आकोटेति :	To beat, to beat down (आ + कोटयति = कुट)
आकुलो :	Crowded, confused: troubled, perplexed, distressed (आकुल)
आकुञ्चितो :	Bent, curved (आकुञ्चित = कुञ्च)
अकुप्पो :	Fixed, immovable, sure, certain (अ + कोप्य + कुप्)
अकुसलधातु :	Element of sin, certain (अकुशल + धातु)
अकुसलकम्म :	Evil action, bad works, demerit, sin (अकुशल + कर्मन)
अकुसलकम्मपथो :	Course or path of sinful action: sinful course (अकुशल + कर्मन + पथ)
अकुसलमूल :	Root or principle of sin, evil principle (अकुशल + मूल)
अकुसलङ्कप्पो :	Sinful resolve (अकुशल + संकल्प)
अकुसलसञ्जा :	Sinful idea (अकुशल + संज्ञा)
अकुसलवितक्को :	Sinful thought (अकुशल + वितर्क)
अकुसलो :	Unskilled, unable: bad, evil, sinful, unhealthful (अ + कुशल)
अकुतोभयो :	Having nothing to fear from any quarter, quite safe (अकुतोभय)

अलाभो :	Not getting: loss: detriment, injury (अ + लाभ)
अलाबु :	A long gourd, a pumpkin (अलाबु)
अलद्ध :	See लभति
अलगद्दो :	A snake or serpent (अलगर्द)
अलग्गत्ता :	Detachment, freedom from attachment to the world, freedom from human passion (अलग्न + ता)
आलाहन :	A place where the dead are buried or burned: a cemetery (आ + दाहन)
अलहुको :	Heavy (अ + लघु + क)
अलज्जी :	Shameless: bold: rebellious (अ + लज्ज + इन्)
आलका :	The city of Kuvera (अलका)
अलकमन्दा :	The city of Kuvera (अलक + मन्द)
अलक्खी :	Bad-luck, misfortune (अ + लक्ष्मी)
अलक्को :	A mad-dog; name of a tree (अलर्क)
अलं :	Fit, able, adequate, sufficient: hold enough (अलम्)
आलम्बनं :	Support; an object of sense (आलम्बन)
आलम्बरो :	A drum: arrogance (आडम्बर)
आलम्बति :	To lean upon: to take hold of (आ + लम्बु)
आलम्बो :	Object of sense: support (आलम्ब)
अलम्बुसा :	Name of a certain Apsaras (अलम्बुषा)
आलान :	A stake or post to which an elephant is tied (आलान)
अलङ्करण :	Decoration (अलंकरण)
अलङ्कारो :	Ornament, decoration: trinkets, ornaments: rhetorical figures: rhetoric (अलंकार)
अलङ्करोति :	To adorn: to embellish: to decorate (अलम् + कृ)
अलङ्कृतो :	Adorned: decorated: embellished (अलंकृत = कृ)
आलपन :	Speaking to, addressing to: the vocative case (आ + लप्)
आलपति :	To speak to, to address (आ + लप्)
आलापो :	Speaking to; addressing: speech (आलाप)
अलापु - लापु :	A gourd or pumpkin (अलाबु)
आलारिको :	A cook (आरालिक)
अलारो :	Cooked (अराल)
अलसन्दा :	Alexandria, a city in the Yona country
आलसिय :	Idleness, sloth (आलस्य)
अलसता :	Idleness, sloth

अलसो :	Idle
अलात :	A firebrand (अलात)
अलक्तको :	Lac, a red animal dye (अलक्तक)
अलद्धा :	See लभति
आलवालक :	A basin or trench round a tree to retain water (आलवाल + क)
आळवी :	Name of a city in India (आटवी)
आळविको :	Dwelling in forests (आटविक)
आलयो :	Dwelling house, abode: longing, desire, attachment, lust (आलय)
आलेखो :	A drawing, painting, picture (आ + लेख)
आलको, कं :	A certain measure of capacity: the stake or port to which an elephant is tied (आढक)
अलि :	A bee (अलि)
आलि :	A woman's female friend: a line: a like, an embankment (अलि)
आलि :	A scorpion (आलि)
आलिखति :	To draw, delineate (आ + लिख)
अलिको :	Disagreeable, unpleasant: untrue, false (अलिक)
आलिम्पापेति :	To cause to be anointed (आ + लिप्)
आलिन्दो :	A terrace or verandah outside a house (आलि)
आलिङ्गन :	To embrace (आलिङ्गन)
आलिङ्गति :	To embrace: to enfold (आ + लिङ्ग)
आलिङ्गो :	A small drum (आलिङ्ग)
अलीनो :	Free from attachment or desire (अ + लीन = ली)
अल्लपो :	Speaking to, talking to (आलाप)
अल्लीनो :	Attached, adhering (आ + लीन = ली)
अल्लियति :	To be attached, to adhere, to be bent upon (आ + लीयते = ली)
अल्लो :	Wet, moist
अलोभो :	Absence of covetousness or desire (अ + लोभ)
आलोकन :	Seeing, looking (आलोकन)
आलोकसन्धि :	A window (आलोक + सन्धि)
आलोकित :	Looking at, regarding, seeing (आलोकित = लोक्)

आलोको :	Sight, look: light (आलोक)
आलोळापेति :	To cause to be mixed or jumbled up together (आ + लुङ्)
आलोळेति :	To mix, to shake or stir together: to jumble, to confuse (आ + लोडयति = लुङ्)
आलोपो :	A fragment, a bit, a morsel; a mouthful of rice, other food taken up with the hand, a lump or ball of food: plundering or harrying (आ + लोप)
आलुलति :	To agitate, disturb, confuse (आ + लुल्)
अमा :	With: present with: near (अमा)
आम :	Indeed, truly, yes (आम्)
अमच्चो :	A companion: a king's minister: a privy-counciller (अमात्य)
अमधुरो :	Sour, bitter (अ + मधुर)
अमगो :	Wrong path (अ + मार्ग)
अमज्जपो :	Not drinking intoxicants; total abstinence (अ + मद्य + प)
आमको :	Uncooked: raw (आम + क)
आमलको, की, कं :	Emblic myrobalan (आमलक)
अमलो :	Pure, clear, spotless, white (अ + मल)
अमनसिकारो :	See मनसिकारो
आमण्डो :	Castor-oil plant (आमण्डो)
अमनापो :	Unpleasant, disagreeable (अ + मनाअप)
आमन्ता :	Yes, certainly
आमन्तन :	Calling, speaking or addressing (आमन्त्रण)
आमन्तेति :	To address; to speak or addressing (आ + मन्त्र्)
अमनुस्सो :	Not a human being, a demon or evil spirit, a yakkha (अ + मनुष्य)
अमरावती :	Name of Indra's city (अमरावती)
अमरो :	A deva or god (अमर)
आमसन :	Touching or handling (आ + मृश् + अन)
अमता :	Emblic myrobalan (अ + मृत = मृ)
अमत :	Drink of Gods: nectar or ambrosia (अमृत)
अमतपो :	One who drinks nectar (अमृत + प)
अमति :	To go (अम्)
अमति :	Foolish, mad (अ + मति)
अमतो :	Eternal, everlasting (अमृत)

अमत्त :	A pitche, vessel (अमत्र)
अमत्तञ्जु :	Immoderate, intemperate (अ + मात्रा + ञ्)
अमट्टो :	Touched, handled (आमृष्ट = मृश)
अमावासी, :	The day of the new moon (अमावासी)
अमावसी	
आमयो :	Sickness, ill-health (आमय)
अम्बा :	A mother (अम्बा)
अम्बर :	The sky: cloth (अम्बर)
अम्बाटको :	The hog-plum (आम्नातक)
अम्बति :	To go (अम्ब)
अम्बट्टा :	The plant <i>Clypea Hernandifolia</i> (अम्बट्टा)
अम्भो :	A store, a pebble
अम्भो :	Oh! I say!
अम्भोज :	A lotus flower (अम्भोज)
अम्बिलो :	Sour or acid (अम्ब्ल)
अम्बो :	The mango-tree (आम्न)
अम्बु :	Water (अम्बु)
अम्बुधरो :	A cloud (अम्बु + धर)
अम्बुदो :	A cloud (अम्बुद)
अम्बुजाकरो :	A pond or tank (अम्बुज + आकर)
अम्बुजिनी :	A lotus-lake (अम्बुज + इन्)
अम्बुज :	A lotus (अम्बुज)
अम्बुजा :	A fish (अम्बुज)
अम्बुनिधि :	Sea, ocean (अम्बुनिधि)
आमेण्डित :	Repetition (आमेण्डित = प्रेड)
अम्ह :	See अट्टि
अम्हादिसो :	Like us (अस्मद् + दृश् + अ)
अम्ह, अम्हा, अम्हे :	See अहं
अम्हमयो :	Made of stone, stony (अश्ममय)
अम्हि :	See अट्टि
अमिलातो :	The plant, Globe Amaranath or Gomphraena Globosa (अ + म्लान = म्लौ)
आमिस + सो :	Flesh, meat: food: object of enjoyment, bait, temptation, lust, desire (आमिष)

अमितो :	Boundless, immense (अ + मित = मा)
अमित्तो :	Enemy (अ + मित्र)
अम्म :	Mother : daughter : lady
अम्मा :	Mother (अम्मा)
अम्माण :	A cause, a measure of capacity equal to eleven donas
आम्मो :	Raw or uncooked (आम)
आमोदना :	Rejoicing (आ + मोदन)
आमोदो :	Pleasure, joy: a strong perfume: fragrance (आमोद)
अमोहो :	Absence of ignorance or error : correct knowledge (अ + मोह)
अंसो :	A part, portion, share: a period of time (अंश)
अंसो :	The shoulder (अंस)
अंसु :	A thread: a bit of thread: a filament: a ray: a sunbeam (अंशु)
अंसुक :	Cloth: fine cloth : (अंशुक)
अंसुमाली :	The sun (अंशु + मालिन्)
अमु :	See असु
अमुख्यो :	Not principal : secondary (अ + मुख्य)
अमुको :	This and that (अमुक)
अमूलको :	Unreal, unfounded, false: unpaid (अ + मूल + क)
अमूलविनयो :	See विनय
अमूलो :	Without payment, unpaid (अ + मूल)
अमुतो :	See मुतो
अमुत्र :	In that place there: in another world; in another state of existence: hereafter (अमुत्र)
अमुत्तो :	Not shot or darted (अ + मुक्त = मुच्)
आमुत्तो :	Dressed, accoutred for battle (आमुक्त = मुच्)
आणा :	A order: a command: authority (आज्ञा)
अनभिञ्झा :	Absence of covetousness or desire (अ + अमिध्या)
अनभिरद्धि :	Anger : wrath : rage (अ + अभि + राध्)
अनभिरति :	Dissatisfaction : affliction: sorrow (अ + अभिरति)
अनाचरियको :	Without a master or teacher: self taught (अ + आचार्य + क)
अनाचारो :	Bad conduct: bad manners (अ + आचार)
अनच्छरियो :	Not wonderful (अ + आश्चर्य)
अनच्छो :	Not clear, turbid (अ + अच्छ)
अनादानो :	Free from attachment or desire (अ + आ + दान)

अनादरिय :	Disregard: disrespect: unkindness (अ + आदर + य)
अनादरो :	Disregard: disrespect: contempt: carelessness: indifference (अन + आदर)
अनाधिको :	Without additions or superfluities : not redundant (अ + अधिक)
अनाधिवरो :	Without a superior: an epithet of a Buddha (आन + अधि + वर)
अनादियन्तो :	Without minding: without attending
अनागमन :	Not returning (अ + आगमन्)
अनागामी :	One who does not return (अ + आगमिन)
अनागामिमग्गो :	The path of one that does not return (अनागामिन् + मार्ग)
अनागामिफल :	Fruition of the state of अनागामी (अनागामिन् + फल)
अनगारिको :	One who does not live in a house: an ascetic; a Buddhist priest (अ + अगार + इक)
अनगारिया :	The houseless life of an ascetic: asceticism, the life of a Buddhist priest
अनागारियो :	Not living in a house: houseless: homeless recluse (अ + अगार + य)
अनागारो :	Houseless: homeless (अ + आगार)
अनागतो :	Not come : not arrived : future (अनागत)
अनग्धको :	Priceless, invaluable (अ + अर्घ + क)
अनघो :	Priceless: invaluable, inestimable: precious, costly (अ + अर्घ)
अनघो :	Sinless, blameless, pure (अ + अघ)
अनाहारो :	Without food, fasting (अ + आहार)
अनक्खातो :	Not described: ineffable (अ + आख्यात = ख्या)
अनक्खिको :	Without eyes: sightless (अ + अक्षि + क)
अनाकुलो :	Untroubled, quiet, peaceful (अ + आकुल)
अनलसो :	Industrious, diligent (अ + अलस)
अनालयो :	Free from desire or attachment (अ + आलय)
अनल :	Fire (अनल)
अन :	A cart (अनस्)
आन :	Inhaled air, inhalation, inspired breath (आन)
अनमतग्गो :	Revolving in a revolution of being
अनामयो :	Free from illness, healthy (अ + आमय)
अनामिका :	The ring finger (अनामिका)
आनन :	The mouth (आनन्)

आनण्य :	Immensity: infinity: boundlessness
आनन्दन :	Friendly greetings, welcome (आनन्दन)
आनन्दो :	Joy: delight: happiness: name of a famous disciple of Buddha: name of a fabulous sea, master (आनन्द)
अनङ्गणो :	Free from lust or impurity, pure (अ + अङ्गण)
अनञ्जो :	Without another, alone (अ + अन्य)
अनणो :	Free from debt (अ + ऋण)
अनन्तर :	Immediately after, next (अनन्तरम्)
अनन्तरिको :	Uninterrupted (अनन्तर + इक)
अनन्तरो :	Immediately following, next: adjoining (अनन्तर)
अनन्तो :	Endless, eternal: boundless, infinite (अ + अन्त)
अननुच्छविको :	Unsuitably: unworthy: improper (अ + अनृ + क्ववि + क)
अननुस्सुतो :	Unheard (अ + अनु + श्रुत = श्रु)
आनण्य :	Freedom from debt (आनण्य)
आणापन :	Ordering, commanding
आनापान :	Inhaled, extended breath, inspiration, respiration (आन + अपान)
अनापत्ति :	Free from guilt: innocent (अ + आपत्ति)
अनापत्तिको :	Free from guilt: (अ + आपत्ति + क)
अनपायी :	Not departing, lasting (अंतपायिज्)
अनपेक्खी :	Free from desire (अ + अपेक्षित)
अनापेति :	To cause to be brought, to send for (नी)
आणापेति :	To order, to command (आ + ज्ञापयति = ज्ञा)
अनप्पको :	Much, great, considerable (अ + अल्प + क)
अनप्पो :	Much, great, numerous, many (अ + अल्प)
अनापुच्छा :	Without asking leave: or permission (अ + आ + पृष्टा + अ + अ + आपृच्छन्)
अनारतो :	Continual (अ + आरत = रम्)
अनरियवोहारो :	Unworthy practice (अ + आर्य + व्यवहार)
अनरियो :	Not noble: not venerable: mean: dishonourable: low (अ + आर्य)
अनरो :	Other than human: not a man (अ + नर्)
अनासका :	Fasting (अनाशक)
अनसन :	Fasting (अ + अशन)
अनासवो :	Free from human passion

अनस्सवो :	Disobedient (अ + आश्रव)
अनाथपिण्डको :	Foods of the poor: one of Buddha's eminent lay disciple by name Sudatta
अनाथो :	Helpless: forlorn: destitute (अ + नाथ)
अनत्ति :	To breath: to live: (अन्)
अनत्ता :	Not a self: not a soul (अ + आत्मन्)
अनताधीतो :	Not master of one ownself (अ + आत्मन् + अधीन)
अनत्तमनो :	Displeased, discontented
अनत्थको :	Unmeaning, senseless, foolish (अनर्थक)
अनत्थो :	Disadvantage, evil misfortune, injury (अनर्थ)
आणत्ति :	Command, injunction, ordinance (आज्ञाप्ति)
अनत्तो :	Without individuality, unreal (अ + आत्मन्)
आणत्तो :	Commanded, enjoined (आ + ज्ञप्त = ज्ञा)
अनातुरो :	Healthy (अ + आतुर)
अनवज्जता :	Blamelessness (अनवद्यता)
अनवज्जो :	Blameless, harmless, not sinful (अ + अवद्य)
अनवतरत :	Incessantly (अनवतरम् = रम्)
अनवसेसो :	Without any remaining, all: everyone: the whole (अ + अवशेष)
अनवस्सवो :	Not flowing-in; non-influx (अ + अव + स्त्रव)
अनवस्सुतो :	See अवसुतो
अनावटद्वारता :	Not closing the door against another: accessibility open-handedness (अ + आवृत + द्वार = ता)
अनवतत्तो :	See अनोततो
अनवत्थिती :	Unsteadiness (अ + अवस्थित)
अनवयो :	Perfectly acquainted with: versed-in (अ + अवया)
अनाविलो :	Clear: pure: untroubled: serene (अ + आविल)
आनयन :	Bringing near: escorting (आनयत)
अनयो :	Sin: wrong: distress: misfortune (अनय)
आनायो :	A fish-net; net (आनाय)
अच्चति :	To honour (अच्)
अण्डजो :	Diviparons (अण्डज)
अण्डकं :	A bird's egg (अण्डक)
अण्डं :	A egg: a particle (अण्ड)
अन्धबालो :	Silly: stupid: doting (अन्ध + बाल)

अन्धभूतो :	Blind: in darkness: unenlightened (अन्ध + भूत = भू)
अन्धकारो :	Darkness (अन्धकार)
अन्धकियो :	Belonging to Andhra province
अन्धको :	Andhraite (आन्ध्र + क)
अन्धत्तम :	Thick darkness (अन्ध + तमस्)
अन्धो :	Blind (अन्ध)
अन्दु :	A chain (अन्दु)
अन्दुको :	An elephant foot chain (अन्दुक)
अण्डुपक :	A roll of cloth to serve as a stand for a vessel
आनेञ्ज :	Immovability: impossibility
अनेजो :	Free from desire
अनेकधा :	In many ways (अनेकदा)
अनेकसो :	In many ways (अनेक + शस्)
अनेकविधो :	Of many sorts: various (अनेक + विधा)
अनेको :	Several: many: manifold: various (अनेक)
अनेळमूगो :	Not deaf & dumb (अ + एडमूक)
अनेसना :	Impropriety (अ + एषणा)
अनेसनो :	That should not be sought or desired: improper (अ + एषण)
आनेति :	To bring, to bring home: to fetch, to procure: to carry: to convey (आ + नी)
अङ्ग :	Indeed! Oh! (अङ्ग)
अङ्गद :	A bracelet (अङ्गद)
अङ्गहारो :	Gesticulation (अङ्गहार)
अङ्गजात :	A membrum virile (अङ्ग + जात = जन्)
अङ्ग :	A limb: a member: the body: a portion, division: a means, a cause: a requisite: a quality, attribute (अङ्ग)
अङ्गना :	A woman (अङ्गना)
अङ्गण :	A county-yard, lust, impurity, sin (अङ्गण)
अङ्गानुसरी :	Pervading the limbs (अङ्ग + अनुसरित्)
अङ्गारो :	Charcoal; live coal; embers (अङ्गार)
अङ्गति :	To go (अङ्ग)
अङ्गविज्जा :	Prognostication of a person's future, from the appearance of his body (अङ्ग + विद्या)
अङ्गविक्रपो :	Gesticulation (अङ्ग + विक्रप)
अङ्गी :	Having limbs: having parts or divisions (अङ्गिन्)

अङ्गीरसो :	A name of Buddha: name of a Rishi (अङ्गिरस)
अङ्ग :	Name of a country: Bengal (अङ्ग)
अङ्गुल :	A finger's breadth: an inch (अङ्गुल)
अङ्गुलि :	A finger (अङ्गुली)
अङ्गुलिको :	An inch in length: Belonging to a finger (अङ्गुलिक)
अङ्गुलिमुद्दा :	A signet ring (अङ्गुली + मुद्दा)
अङ्गुलीयकं :	A finger-ring (अङ्गुलीयक)
अङ्गुल्यभरणं :	A finger ring (अङ्गुली + आभरण)
अङ्गुत्तरनिकायो :	Fourth division of the suttapitaka (अङ्ग + उत्तर + निकाय)
अङ्गुष्ठो :	The thumb (अङ्गुष्ठ)
अण्हो, अण्हो :	Day (अह)
आणि :	Pin-head; pin of a wheel-axle (आणि)
अनिव्विघो :	Not a thoroughfare; not traversed (अ + निव्विघ्न = व्यध्)
अनिच्चता :	Impermanence: instability: mortality: death (अ + नित्य + ता)
अनिच्छतो :	Not desired: disliked: displeasing
अनिच्चो :	Not lasting; transitory: perishable (अ + नित्य)
अनिदस्सन :	The unseen (अ + निदर्शन)
अनीघो :	Free from suffering: uninjured
अनीकट्ठो :	One of king's body guard: a life-guardsmen (अनीक + स्थ)
अनीको, कं :	An army: a last: (अनीक)
अनिलो :	Wind (अनिल)
अनिमिसो :	Not winking the eyes, waking, watchful in (अ + निमिष्)
अनिप्फलो :	Not fruitless: not without reward (अ + निस् + फल)
अनिसम्मकारी :	Acting inconsiderately or recklessly (अ + निशम्य + कारिन्)
आनिसंसो :	Advantage: profit: good result: blessing: reward: merit (आ + नि + शंस)
अनिस्सामनको :	Not envious (अ + ईर्षा + तनस् + क)
अनिस्सयो :	Without supplies: barren, desolate, help, support, protection
अनीतिको :	Free from distress or calamity (अ + ईति + क)
आनीतो :	Brought, conveyed (आनीत = नी)
अनियमो :	Uncertainty (अ + नियम)
अनियतो :	Uncertain, doubtful (अ + नियत = यम्)
अञ्जलि :	The hollow of the joined hands, a respectful salutation performed by raising the joined hands to the forehead

	(अंजलि)
अञ्जन :	A collyrium applied to the eye-lashes to darken them (अंजन्)
अञ्जस :	A road, straight (अंजसा)
अञ्जति :	To anoint, to smear (अंज्)
अङ्कितो :	Marked: adorned, furnished, supplied with (अंक्)
अङ्को :	A mark: the flank or side (अंक)
अङ्गलो :	The plant <i>Alanginm Hexapetalum</i> (अंकोल)
अङ्करो :	A shoot or sprout (अंकुर)
अङ्कसो :	A hook to guide an elephant with (अंकुश)
अंक्वो :	A sort of tambourine (अंका)
अञ्जा :	A mother
अञ्जा :	Knowledge: perfect knowledge (आज्ञा)
अञ्जदा :	At another time (अन्यदा)
अञ्जदत्थु :	Surely: certainly, truly (अन्यद् + अस्तु)
अञ्जादिसो :	Different (अन्यादृश्)
अन्नं :	Food: boiled rice (अन्न)
अञ्जमञ्ज :	Mutually; towards each other
अञ्जमञ्जो :	Each other; one another (अन्य + अन्य = अन्योन्य)
अञ्जाण :	Ignorance (अ + ज्ञान)
अञ्जसत्थुद्देशो :	Adopting another teacher (अन्य + शास्त्र + उद्देश)
अञ्जासि :	See आजानाति
अञ्जातब्बो :	That ought to be known or learnt (आ + ज्ञातव्य = ज्ञा)
अञ्जातको :	Unknown; unrecognizable (अ + ज्ञात = ज्ञा + क)
अञ्जातको :	Not related, not a decision (अ + जन्)
अञ्जतमो :	One of several, a certain (अन्यतम)
अञ्जतरो :	One, a certain some: some other: another (अन्यतर)
अञ्जातवेसवा :	In disguise (अज्ञात + वेश + वन्त्)
अञ्जथा :	In different way: otherwise (अन्यथा)
अञ्जथत्ता :	Differently
अञ्जाति :	Not a relative (अज्ञाति)
अञ्जातो :	Unknown; unrecognized; in disguise (अ + ज्ञात = ज्ञा)
अञ्जातो :	Not related; not a kinsman (अ + जन्)
अञ्जत्र :	Without; except; besides (अन्यत्र)
अञ्जत्थ :	Elsewhere (अन्यत्र)
अञ्जवादको :	Talking indecent (अन्य + वाद + क)

अण्णवो :	Sea or Ocean (अण्वि)
अञ्जायमानो :	Unrecognised (अ + ज्ञायमानं = ज्ञा)
अण्णो :	Water (अण्वि)
अञ्जो :	Other than: different from : other (अन्य)
अञ्जञ्जो :	Mutual (अन्योन्य)
अनोक :	Being houseless: freedom from attachment to the world (अ + ओक)
अनोमो :	High : Illustrious : lofty (अ + अवम)
अनोतत्तो, : अनवतत्तो	Name of one of the seven great lakes (अ + अनतप्त = तप्)
अनोत्तप्प :	Absence of fear of sinning or recklessness
अनोत्तप्पी :	Reckless or fearless
अन्तग्गतो :	Gone into: being in: contained in (अन्तर्गत = गम्)
अन्तगुण :	The mesentery (अन्त्र + गुण)
अन्तकिरिया :	Bringing to an end: putting an end to (अन्त + क्रिया)
अन्तको :	Death or Mara (अन्तक)
अन्तलिक्ख :	The sky, the air (अन्तरीक्ष)
अन्त :	An intestine: the bowels (अन्त्र)
अन्तमसो :	Even (अन्तम + शस्)
अन्तर :	Within, between: among: in (अन्तर)
अन्तरा :	Between: on the way (अन्तरा)
अन्तरभोगिको :	Village headman or higher chieftain
अन्तरधान :	Disappearance, covering (अन्तर्धान)
अन्तरधायति :	To cause to disappear: to render invisible (अन्तर + धा)
अन्तरहितो :	Vanished, disappearing, hidden (अन्तर्हित = धा)
अन्तर :	Interior, included space, midst: internal: opportunity: instant, difference, other: an inner garment; the heart or mind (अन्तर)
अन्तरन्तरा:	From time to time: at intervals (अन्तर + अन्तर)
अन्तरन्तरे :	From time to time: at intervals (अन्तर + अन्तर)
अन्तरन्तरेण :	In the intervals of : among : between (अन्तर + अन्तर)
अन्तरापरिनिब्बायी :	One of five sorts of Anagami
अन्तरारति :	To run into danger (अन्तराय)
अन्तरवासको :	An undergarment (अन्तर + वासस + क)
अन्तरवस्स, + :	See अन्तो
अन्तरवीथी	

अन्तरायिको :	Causing an obstacle; impediment: obstacle injurious (अन्तराय + इक्)
अन्तराय :	Obstacle, prevention, hindrance: danger: accidental end (अन्तराय)
अन्तरे :	Between: among: during: while: within, in (अन्तर loc)
अन्तरेण :	Between; except (अन्तरेण)
अन्तरीप :	An island (अन्तरीप)
अन्तरितो :	Hidden (अन्तरित = इ)
अन्तरीय :	An undergarment (अन्तरीय)
अन्तवण्णो :	A sudra (अन्त + वर्ण)
अन्तेपुर :	Royal precincts, royal citadel or palace: part of the palace set apart for the ladies (अन्तःपुर)
अन्तेपुरिको :	Belonging to the royal harem (अन्तःपुर + इक्)
अन्तेवासी :	A pupil (अन्तेवासिन्)
अन्तेवासिको :	A pupil (अन्तेवासिन् + क)
अन्तिक :	Vicinity (अन्तिक)
अन्तिमको :	Final : last
अन्तिमो :	Final: last (अन्तिम)
अन्तियो :	Final, last (अन्त्य)
अन्तो, अन्त :	End: limit: Boundary: proximity, side: destination, death: lowest, inferior: interior (अन्त)
अन्तो, :	Within, in, inside (अन्तर)
अन्तर (adj. & prep)	Difference, distance, inside
अन्तोगधो (adj.) :	Contained in; being among
अन्तोकप्पो :	See कप्पो
अणु :	Small: subtle (अणु)
अनुबन्धति :	To follow: to pursue: to wait upon: minister to (अनु + बन्ध)
अनुबन्धो :	Uninterrupted succession: consequence (अनुबन्ध)
अनुभवन :	Partaking of: enjoyment
अनुभवति, :	To feed: to partake of: to enjoy: to obtain, receive (अनु + भू)
अनुभोति	
आनुभावना :	Possessing power: gifted with supernatural power (अनुभाव + वत्)
आनुभावो :	Dignity, authority: power, might, supernatural power efficacy (अनुभाव)
अनुबुहेति :	To cause to grow or increase: to make much of; devote oneself to

	(अनु + बृह caus)
अनुबोधो :	Knowledge, understanding (अनु + बोध)
अनुबुद्धो :	Under-Buddha, lesser Buddha, apostle (अनु + बुद्ध)
अनुचरति :	To wander about in, to haunt (अनु + चर्)
अनुचरो :	An attendant, companion (अनुचर)
अनुच्छविको :	Suitable, fit, proper, appropriate, worthy, comfortable, proportionate (अनु + च्छवि + क)
अनुहया :	Compassion, mercy (अनु + दया)
अनुद्धंसेति (caus) :	To vex: to harass (अनुध्वसयति = ध्वंस)
अनुद्धतो (adj) :	Not puffed up, calm, subdued (अ + उद्धत = हन्)
अनुधम्मो :	Conformity or accordance with Law Lawfulness, relation, essence consistency, truth (अनु + धर्म)
अनुधावति :	To run upto : to pursue (अनु + धाव्)
अनुदिसा :	An intermediate point of the compass (अनु + दिश्)
अनुदूतो :	A travelling companion (अनु + दूत)
अनुगच्छति :	To follow: to accompany (अनु + गत्)
अनुगतिको (adj) :	Following, accompanying (अनुगामिन् + क)
अनुगणहाति :	To favour, to protect (अनु + ग्रह)
अनुगति :	Following (अनुगति)
अनुगतो :	Conformable to, following: relating to, concerning (अनुगत = गम्)
अनुगृहीतो :	Favoured (अनुगृहीत = ग्रह)
अनुगृहो :	Favour, patronage: help, assistance (अनु-ग्रह)
अनुगगतो :	Not gone up, not gone out (अ + उद्गत = गम्)
अनुगिद्धो :	Greedy (अनुगृद्ध = गृध्)
अनुजिणाति :	To permit (अनु + गृ)
अनुगीति :	Parallel passage (अनु + गीति)
अनुगो :	Following, conforming to (अनुग)
अनुजानापेति :	To ask permission: to obtain consent of
अनुजानाति :	To grant: to permit: to consent to (अनु + ज्ञा)
अनुजीवी :	A servant (अनुजीविन्)
अनुजो :	Younger (अनुज)
अनुजु :	Crooked: wicked: depraved (अ + ऋजु)
अनुकड्ढन :	Referring back (अनु + कर्षण)

अनुकम्पा :	Compassion, kindness (अनुकम्पा)
अनुकम्पको :	Compassionate: kind (अनुकम्पक)
अनुकम्पन :	Compassion (अनुकम्पन)
अनुकम्पति :	To pity (अनु + कम्प्)
अनुकम्पी :	Compassionate (अनुकम्पिन)
अनुकन्तति :	To cut (अनु + कृत)
अनुकारो :	Imitating (अनुकर)
अनुकारो :	Imitation: resemblance (अनुकार)
अनुकिरिय :	Imitation (अनु + कृ)
अनुक्कमो :	Regular order: succession (अनुक्रम)
अणुको :	Small, minute (अणु + क)
अनुकूलो :	Suitable, agreeable (अनुकूल)
अनुकूल्य :	Suitability, agreeableness (अनुकूल्य)
अनुलापो :	Tantology, repetition (अनुलाप)
अनुलित्तो :	Quinted (अनुलिप्त = लिप्)
अनुलोम :	Indirect order: with the grain: straight-forward (अनु + लोमन्)
अनुलोमतो :	In accordance with (अनु + लोम + तस्)
(adv.) adj	
अनुलोमेति :	To be in accordance with (अनुलोमय)
अनुमान :	Inference (अनुमान)
अनुमसति :	To touch (अनु + मृश्)
अनुमति :	Consent: assent: sanction (अनुमति)
अनुमतो :	Agreeable to: approved of: beloved (अनुमत = मन्)
अणुमत्तो :	Small : least (अनु + मात्र)
अनुमोदना, नं :	Rejoicing, approval, satisfaction
अनुमोदति :	To approve, to receive with satisfaction: to rejoice at: to express gratitude: to thank (अनु + मुद्)
अणुथूलो :	Small and great (अणु + स्थूल)
अणुनको :	Complete: not deficient (अ + ऊन + क)
अनुनासिको :	Nasal (अनुनासिक)
अनुनायको :	Sub-chief, Vice-president (अनु + नायक)
अनुनयो :	Endeavour to be friendly, courtesy, compliance, fawning (अनुनय)
अनुञ्जा :	Permission, sanction (अनुञ्जा)
अनुञ्जातो :	Permitted, sanctioned: ordained (अनु + ज्ञात = ज्ञा)

अनूनो :	Entire, complete, without defficiency (अ + ऊन)
अनुपब्बज्जति :	Renounce the world, in imitation of another (अनु + प्र + ब्रज्)
अनुपच्छिन्नो :	Regular, unbroken: uninterrupted (अ + उप + च्छिन्न = च्छिद्)
अनुपद :	Immediately after, after, behind (अनुपदम्)
अनुपादानो :	See अपदान
अनुपादाय :	See अपदाय
अनुपह्वो :	Uninjured: safe: intact (अ + उपद्रव)
अनुपदिको :	Following in the footsteps of: immediately following (आनुपदिक)
अनुपादिसेसो :	See उपादिसेसो
अनुपादियानो :	See उपादियति
अनुपधातो :	Not injuring: not hurting (अ + उपघात)
अनुपक्खज्ज :	This word represents the sanskrit अनुप्रस्कन्ध and seems to mean having entied upon, pushing, oneself in intruding
अनुपलेति (caus) :	To observe, to maintain (अनुपालयति = पा)
अनुपालित्तो :	Untainted, unpolluted (अ + उपलिप्त + लिप् = लिपर)
अनुपमो :	Incomparable (अ + उपमा)
अनुपापुणाति :	To reach, to attain (अनु + प्र + आप)
अनुपरिगच्छति :	To walk round and round (अनु + परि + गम्)
अनुपरिवत्तो :	Directed, turned (अनु + परि + वृत्त = वृत्)
अनुपरियाति :	To walk round and round, to watch over (अनु + परि + वा)
अनुपरोधो :	Non-disturbance, not injuring (अ + उपरोध)
अनुपसम्पन्नो :	Not ordained (अ + उपसम्पन्न = पद्)
अनुपस्सना :	Looking at, contemplation
अनुपस्सति :	To look at, to contemplate, to observe (अनु + दृश्)
अनुपस्सी :	Looking at, contemplating, observing (अनु + पश्य् + इन्)
अनुपतति :	To follow: to meet with: to fly up to (अनु + पत्)
अनुपवादको :	Not speaking ill of
अनुपवादो :	Not speaking evil, not reviling (अ + उप + वाद्)
अनुपविसति :	To enter upon, to occupy, to keep (अनु + प्र + विश्)
अनुपायो :	Wrong ideas (अ + उपाय)
अनुपीलितो :	Trodden upon: oppressed (अनु + पीडित = पीड)
अनुपो :	Watery अनुप
अनुप्पदज्जति :	To give in return (अनु + प्र + दा)

अनुप्यदानं :	Giving (अनु + प्र + दान)
अनुप्यादनीयो :	That ought not to be produced (अ + उद् + पद्)
अनुप्यदाता :	One who invites (अनु + प्र + दातृ)
अनुप्यदिन्नो :	Given, restored (अनु + प्र + दत्त = दा)
अनुप्यादो :	Not arising, non-appearance (अ + उत्पाद)
अनुप्यञ्जति :	Secondary or additional enactment (अनु + प्रज्ञप्ति)
अनुप्यन्नो :	Not arisen, not born, not appeared (अ + उत्पन्न = पद्)
अनुप्यत्तो :	Having arrived: having attained (अनुप्राप्त = आप्)
अनुप्यियभाणी :	Saying pleasant things: flattery (अनु + प्रिय + भण् + इन्)
अनुपुब्ब :	Regular succession, series (आनुपूर्व्य)
अनुपुब्बेन :	In regular order, successively, gradually, one by one in due course (आनुपूर्वेण)
अनुपुब्बी :	Regular succession, order, series (आनुपूर्वी)
अनुपुब्बिकथा :	Successive regular narration (आनुपूर्वी + कथा)
अनुपुब्बो :	Regular, successive (अनुपूर्व)
अनुराधा :	Name of one of the Nakkhattas (अनुराधा)
अनुराजा :	Following king, successor (अनु + राजन्)
अनुरक्खणा-णं :	Guarding, presentation (अनु + रक्षण)
अनुरक्खी :	Guarding, watching over (अनु + रक्ष + इन्)
अनुरोधो :	Compliance, satisfaction (अनुरोध)
अनुरुद्धो :	Name of a cousin-eminent apostle of Buddha (अनुरुद्ध = रुध)
अनुरुञ्जति :	To approve, to be pleased (अनु + रुध्यते + रुध्)
अनुरूपको :	Suitable (अनुरूप + क)
अनुच्छरं :	Yearly (अनु + संवत्सर)
अनुसन्धि :	Connection, application (अनु + संधि)
अनुसंगीतो :	Released again or subsequently (अनु + संगीत = गै)
अनुसारी :	Following (अनुसारिन्)
अनुसरितो :	Going, running (अनु + सृ)
अनुसारो :	Following, conformity (अनुस्वर)
अनुसासको :	A teacher, preceptor, mentor (अनु + शास् + अक)
अनुसासन :	Instruction, administration: government (अनुशासन)
अनुसासति :	To teach, to instruct, to admonish: to command: to govern (अनु + शास्)
अनुसयो :	Repentance; inclination: thought, desire (अनुशय)

अनुसिक्खि :	Studying, learning (अनुशिक्षित्)
अनुसिक्खितब्बो :	That ought to be studied (अनु + शिक्षितव्य = शक्)
अनुसिद्धि :	Admonition, command (अनु + शिष्टि)
अनुसिद्धो :	Instructed, admonished, ordered (अनुशिष्ट = शास्)
अनुसोचति :	To bewail (अनु + शुच्)
अनुस्सरति :	To remember, to call to mind (अनु + स्मृ)
अनुस्सति :	Resolution (अनु + स्मृति)
अनुस्सावेति :	To cease to be heard: to proclaim, to announce (अनु + श्रावयति
(caus.)	= श्रु)
अनुस्सविको :	Traditional (आनुश्रविक)
अनुस्सवो :	Report (अनु + श्रव)
अनुस्सुको :	Free from desire (अ + उत्सुक)
अनुस्सुतो :	Heard (अनुश्रुत = श्रु)
अनुसूयति :	To be heard: to be reported (अनु + श्रुयते = श्रु)
अनुतक्केति :	To consider; to bear in mind (अनु + तर्क)
अनुतापो :	Repentance (अनुताप)
अनुतप्पति :	To suffer: to feel remorse, to repent (अनु + तप्यते = तप्)
अनुथेर :	Succession of elders: apostolic accession (अनु + स्थविर)
अनुथेरो :	An inferior thera (अनु + स्थविर)
अनुत्तरिय :	Pre-eminence: supremacy (अनुत्तर + प)
अनुत्तरो :	Pre-eminent; incomparable, supreme (अ + उत्तर)
अनुट्ठाहानो :	Not exerting oneself, sluggish
अनुट्ठा :	Lack of energy: inactivity, (अ + उत्थान)
अनुट्ठुभ :	The Anushtubh a metre (अनुष्टुभ)
अनुत्थुनाति :	To bewail (अनु + स्तन्)
अनुत्तो :	Not uttered, unexpressed (अ + उक्त = वच्)
अनुवदति :	To blame, to censure (अनु + वद्)
अनुवादो :	To blame, to censure, admonition (अनुवाद)
अनुवसति :	To inhabit (अनु + वस्)
अनुवस्सको :	Yearly, annual (अनु + वर्ष + क)
अनुवस्स :	Yearly, annually (अनु + वर्ष)
अनुवात :	In the direction of the wind: with the wind (अनु + वात)
अनुवत्तको :	Follower, attendant, disciple (अनु + वर्तक)

अनुवत्तन :	Compliance (अनुवर्तन)
अनुवत्तति :	To follow; to confirm to: to attend upon: to associate with (अनु + वृत्त)
अनुवत्ति :	Acting in conformity with (अनु + वृत्ति)
अनुवत्ती :	Conforming to, obedient to, following (अनुवर्तिन्)
अनुविचरति :	To walk through (अनु + वि + चर्)
अनुविचिन्नेति :	To mediate upon (अनु + वि + चिन्त्)
अनुविज्जोतति :	To build on in succession (अनु + वि + धुत्)
अनुविलोकेति :	To take a view of (अनु + वि + लोक्)
अनुवितक्केति :	To reflect upon (अनु + वि + तर्क्)
अनुव्यञ्जन :	Minor characteristic (अनु + व्यञ्जन्)
अनुयोगी :	Devoted to; applying oneself to (अनुयोगिन्)
अनुयोगो :	A question: being addicted to or devoted to applying oneself to: practicing, zeal, exerting oneself (अनुयोग)
अनुयुञ्जति :	To practice; to be addicted to: to devote oneself to, to be zealous : to exert oneself (अनु + युज्)
अनुयुतो :	Addicted to: devoted to (अनु + युक्त = युज्)
अनवाचयो :	Adding an object of secondary importance (अन्वाचय)
अन्वद्धमास, :	Every fortnight or twice a month (अनु + अर्ध + मास)
अन्वड्ढमास	
अन्वाहतो :	Struck agitated (अनु + आ + हत = हन्)
अन्वस्सवति :	To flow from, to result from (अनु + आ + स्त्रु)
अन्ववसितो :	Situated on or near (अनु + अव + श्रित = श्रि)
अन्वयो :	Connection = race, lineage, family = succession (अन्वय्)
अन्वेसना :	Search (अन्वेषणा)
अन्वेसति :	To seek, to search (अनु + एष)
अन्वेति :	To follow (अनु + इ)
अन्वितो :	Possessed of (अन्वित = इ)
आण्य :	Being in debt (ऋण + य)
अप :	Away, from (अप)
आपब्बतो :	Reaching to the mountain (आ + पर्वत)
अपासो :	Brought away (अप + आ + भृत = भृ)
अपचायति :	To honour (अप् + चाय्)
अपचायी :	Honouring (अपचायिन्)

अपचायितो :	Honoured (अपचायित = चि)
अपचयो :	Loss, decay: honour, worship (अपचय)
अपच्चक्खो :	Unseen, indefinite (अ + प्रत्यक्ष)
अपच्च :	Offspring (अपत्य)
अपाची :	The south (अपाची)
अपचित्ति :	Offering, worship: loss, decay (अपचित्ति)
अपचित्तो :	Honoured (अपचिन = चि)
आपदा :	Misfortune, necessity (आपद्)
अपददाति :	To take away (अप + दा)
अपादको :	Having no feet (अ + पाद + क)
अपदान :	Breaking off, removing: a dead, a heroic action: a tale, a legend (अप + दान)
अपादान :	Taking away, removing (अपादान)
अपदेशो :	Stating: pretext, deception, stratagem: cause (अपदेश)
आपादेति : (caus)	To put into a certain state: to inflict (आपादयति = पद्)
अपधारणं :	covering (अप + धारण)
आपादि :	See आपज्जति
अपदिसत्ति :	To tell of, to show (अप + दिश्)
अपदो :	See पद्
आपगा :	A river (आपगा)
अपगच्छति :	To go away, to depart from (अप + गम्)
अपगमो :	Departure (अपगम)
अपगतो :	Gone away from; departed (अप + गत् = गम्)
अपहारो :	Taking away (अपहार)
अपजितो :	Defeated (अप + जित = जि)
आपज्जनं :	Entering, falling into, to undergo (आ + पद्)
आपज्जिता :	One who falls into, is guilty of
अपकड्ढति :	To remove, to put away (अप + कृष्)
अपक्कमति :	To depart (अप + क्रम)
अपक्कमो :	Departure: retreat: flight (अपक्रम)
अपक्को :	Unripe (अ + पक्व)
अपलापो :	Keeping silence about: secrecy (अपलाप)
अपलोकन :	Giving notice of an intention: obtaining leave (अप + लोक + अन)

अपलोकेति :	To give notice of, to obtain consent or permission (अप + लोक्)
अपामर्गो :	The plant Achyranthes Aspera (अपामर्ग)
अपस्मारो :	Epilepsy (अपस्मार)
अपानं :	Breathing out; respiration (अपान)
आपानं :	A tavern: a place where people drink together (आपान)
अपनामेति : (caus.)	To remove, to carry off (अप + नामयति = नम्)
अपनयन :	Removing (अपनयन)
अपनेति :	To remove, to put away (अप + नी)
अपाङ्गो-गं :	The outer corner of the eye: a sectaria mark on the forehead (अपाङ्ग)
अपनेधेति :	To hide away, to conceal (अप + नि + धा)
आपणिको :	A tradesman (आपण + इक)
अपनितो :	Removed, put away (अपनीत = नी)
अपण्णको :	Certain, true, absolute
अपण्णत्तिको :	Not appearing, not existing (अ + प्रज्ञाप्त + इक)
अपञ्जो :	Without wisdom; foolish (अ + प्रज्ञा)
आपन्नो :	Entered upon; fallen into; unfortunate (आपन्न = पद्)
आपणो :	A bazar; market: a shop (आपण)
अपानुदति :	To remove, to dispel (अप + आ + नुद्)
अपरभागे :	Afterwards: subsequently (अपर + भाग loc)
अपरद्धो :	Having sinned, guilty (अपराद्ध = राध्)
अपराधो :	Offence, guilt, crime, sin (अपराध)
अपरगोयानं :	Name of one of the four Mahadipas or great continents (अपर + गोदान)
अपराजितो :	Unconquered (अ + पराजित = जि)
अपरज्झनं :	Injury
अपरज्झति :	To offend against: to injure: to sin (अप + राध्)
अपरज्जु :	On the following day : next day (अपरैघुस)
अपरं :	Moreover, further (अपरम्)
अपार :	This side: not the further bank (अ + पार)
अपरण्हो :	The afternoon or evening (अपराण्ह)
अपरन्नं :	A name given to certain sorts of vegetables (अपर + अन्न)
अपरन्तो :	The future, futuring (अपर + अन्त)

अपरापरं :	On and on, successively: up and down: backwards and forwards (अपरस्पर + म्)
अपरापरो :	Following: successively (अपरस्प)
अपरसेलो :	The western mountain behind which the sun sets (अपर + शैल)
अपरिमाणो :	Undefined, indefinite: boundless, immense (अ + परिमाण)
अपरिमितो :	Boundless; immense: (अ + परिमित = मा)
अपरिसेसो :	Without remainders (अ + परिशेष)
अपरितस्सी :	Undaunted (अ + परि + त्रस् + इन्)
अपरियन्तो :	Boundless, unlimited: indefinite (अ + पर्यन्त)
अपरो :	Other: subsequent, following: western (अपर्)
अपसादेति : (caus)	To deprecate, to decline, To disparage (अप + सद्)
अपसक्कति :	To depart (अप + सृप्)
अपसब्बो :	Right as opp. to left: contrary (अप + राब्ब)
अपस्मारो :	Epilepsy (अपस्मार)
अपस्सेनं :	A rest, support, dependence
अपथं :	No road: absence of a road (अपथ)
अपत्ताधिकरणं :	Question of guilt
अपत्तको :	Not having a bowl (अ + पात्र + क)
अपत्थो :	Laid aside: thrown away (अप + त्रस्त = श्रस्)
आपत्ति :	Offence, guilt, sin : crime (आपत्ति)
आपत्तिक्खन्धो :	Group or class of offences (आपत्ति + स्कन्ध)
आपत्तिकुसलता :	Skill in determining to which class an offence belongs (आपत्ति + कुशल + ता)
अपवादो :	Blame, abuse (अपवाद)
अपवर्गो :	Completion: renunciation: abandonment: final deliverance, Nirvana (अपवर्ग)
अपवहति :	To carry away (अप + वह)
अपनञ्जनं :	Giving away, giving up, sacrificing (अप + मृत् + अन)
अपवारणं :	Covering, concealing (अपवारण)
अपविद्धो :	Thrown away, discarded (अपविद्ध = व्यध्)
अपयानं :	Going away (अपयान)
अपयातो :	Fallen away, departed (अपयात = त्या)
अपायिको :	One suffering in an Apaya (अपाय + इक)

अपायो :	Going away, departure: disappearance, loss: misfortune (अपाय)
अपेक्खा :	Desire: longing: affection: care: regard (अपेक्षा)
अपेक्खति :	To regard, to mind : to work for: to expect: to look at (अप + ईक्ष्)
अपेति :	To go away (अपे + इ)
अपेतो :	Having departed: free from, deprived of (अपेत = इ)
अफलो :	Without fruit; unproductive; barren: unprofitable (अ + फल)
अफासु, अफासुकं :	Discomfort, uneasiness, ailment, sickness
अपि, पि :	Also: even: though: merely (अपि)
अपिधानं :	Covering; concealment: a cover: a lid (अपिधान)
आपो :	Water (आप = अप्)
अप्पाबाधत्तं :	Freedom from illness (अल्प + आबाध + त्व)
अप्पाबाधो :	Slight illness: tolerable health (अल्प + अबाध)
अप्पाबाधो :	In good health
अप्पभावो :	Fewness, paucity (अल्प + भाव)
अप्पभिक्खुको :	Containing few priests (अल्प + भिक्षु + क)
अप्पभोगत्तं :	Poverty (अल्प + भोग + त्)
अप्पच्चया :	Without a cause (अ + प्रत्यय abl.)
अप्पच्चयो :	Mistrust, heart burning: distress (अ + प्रत्यय)
अप्पधानो :	Secondary and sub-ordinate (अ + प्रधान)
अप्पदीपो :	Without a lamp (अ + प्रदीप)
अप्पदुट्ठो :	Undepraved, innocent (अ + प्रदुष्ट = दुष्)
अप्पगम्भो :	Free from boldness or impudence: retiring, modest (अ + प्रगल्भ)
अप्पहरितो :	Having little grass; free from grass (अल्प + हरित्)
अप्पकिच्चो :	Having few duties, free from care (अल्प + कृत्य)
अप्पको :	Few, little, trifling (अल्प + क)
अप्पलाभो :	Receiving little (अल्प + लाभ)
अप्पमादो :	Vigilance, carefulness, thoughtfulness, earnestness, zeal: difference, haste, despatch (अ + प्रमाद)
अप्पमाणाभो :	Of infinite splendour (अप्रमाण + आभा)
अप्पमाणसुभो :	Of infinite beauty (अप्रमाण = शुभ)
अप्पमज्जति :	To underrate, to despise (अल्प + मन्)

अप्यमाणो :	Unlimited: boundless: infinite: innumerable (अ + प्रमाण)
अप्यमारिसो :	The plant <i>amaranthus polygamus</i> (अल्प + मारिष)
अप्यमत्तको :	Little, slight, trifling (अल्प + मात्र + क)
अप्यमत्तो :	Little, slight, moderate (अल्प + मात्र)
अप्यमत्तो :	Vigilant, careful, thoughtful, heedful, earnest, zealous, strenuous, diligent, quick, active (अ + प्रमत्त + मद्)
अप्यमेय्यो :	Unlimited, boundless, innumerable (अप्रमेय = मा)
अप्यना :	Thought, reasoning, resolve (अर्पण)
अप्याणी :	Inanimate (अ + प्राणिन्)
अप्यणिहितो :	Free from longing or desire (अ + प्रणिहित = धा)
अप्यसद्दो :	Free from noise, quiet: making little noise (अल्प + शब्द्)
अप्यसादो :	Dissatisfaction (अ + प्रसाद)
अप्यसन्नो :	Dissatisfied, discontented (अ + प्रसन्न = सद्)
अप्यसत्थो :	Bad, inferior (अ + प्रशस्त = शंस्)
अप्यसत्थो :	With a small caravan, having few attendants (अल्प + सार्थ)
अप्यस्सादो :	Inspid (अल्प + स्वाद्)
अप्यस्सुतो :	Having learnt little, possessing small knowledge, unlearned, ignorant (अल्प + श्रुत = श्रु)
अप्यातङ्को :	Light ailment, freedom from bodily suffering or fatigue (अल्प + आतङ्कः)
अप्यतरो :	Fewer, less (अल्प + तर)
अप्यट्टमो :	Not first (अ + प्रथम)
अप्यटिबाहियो :	Not to put away or averted (अ + प्रतिभय्)
अप्यटिहतो :	Meeting with no obstacle or unopposed (अ + प्रति + हत = हन्)
अप्यतिरूपो :	Unsuitable, improper (अ + प्रतिरूप)
अप्यटिसंवेदनो :	Inaccession to sensation (अ + प्रति + संवेदन)
अप्यटिसन्धिको :	That cannot be remitted (अ + प्रति + सन्धि + स)
अप्यतिस्स :	Disobedient, rebellious (अ + प्रति + श्रु)
अप्यतितो :	Dissatisfied: angry (अ + प्रतीत + इ)
अप्यत्तो :	Not obtained: not having arrived (अ + प्राप्त = आप्)
अप्यवारिनो :	Uninvited (अ + प्र + वारित + वृ)
अप्यायुको :	Short-lived (अल्प + आयु + क)
अप्येकच्चे :	Some
अप्येसक्खो :	Having little power or majesty (अल्प + ईश + आख्या)

48 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अप्येति :	To fit, to fasten: to deliver: to hand over: to assign (अपर्यति = ऋ)
अप्येव :	Perhaps (अपि + एव)
अप्येवनाम :	Perhaps (अपि + एव + नाम)
अप्योटा :	Name of a variety of <i>jasmine</i>
अप्योट :	Not pervaded
अप्यिच्छता :	Contentment, frugality (अल्प + इच्छा + ता)
अप्यिच्छो :	Wanting little, contented, frugality (अल्प + इच्छा)
अप्यितो :	Fastened (अर्पित = ऋ)
अप्यियो :	Not dear: unpleasant: unfriendly: unkind: not disagreeable (अ + प्रिय)
अप्यीयो :	Less (अल्पीचंसो)
अप्यो :	Little, moderate or slight, few (अल्प)
अप्योदको :	Having little water (अल्प + उदक)
अप्योस्सुक्कता :	Reluctance, hesitation, inaction, rest
अप्योस्सुक्को :	Having little desire for exertion, Having little zeal, reluctant to act; living a life of ease or a enjoyment, inactive, resting from work (अल्प + औत्सुक्य)
अप्योथेति :	To snap the fingers in token of pleasure (आ + स्फोट्यति = स्फुट)
आपुच्छनं :	Salutation, adieu
आपुच्छति :	To take leave of, to bid action: to ask leave (आ + प्रक्क)
अपुञ्जं :	Demerit: sin (अ + पुण्य)
अपूप :	A cake
आपूरति :	To be filled, to increase (आ + पू)
अपुथुज्जनो :	See Puthujjana
अपुत्तकत्त :	Not having a son: childlessness (अ + पुत्रक + अम्)
अपुत्तको, अपुत्त :	Sonless (अ + पुत्रक)
अपुत्तो :	Sonless (अ + पुत्र)
आरा :	an owl (आरा)
आरा :	Far off (आरात्)
आरब्धा :	Beginning with from: concerning with reference to: with a view to, for (आरभ्य = रभ्)
अरभापेति : (caus)	To cause to be concerned or undertaken
आरभति :	To begin: to undertake (आ + रभ्)

आराचारी :	Living far from evil, leading a virtuous life (आरात् + चारिन्)
आरब्धो :	Having begun: striving existing oneself (आरब्ध = रभ्)
आरब्धो :	Accomplished, won, provided for (आ + राड्ढु = राध्)
आराधनं :	Propitiating: winning, accomplishing (आराधन)
आराधेति :	To propitiate, to conciliate; to win, to attain, to accomplish (आराधयति = राध्)
आराधो :	Request (आराधना)
आरगं :	The point of an awl (आरा + अग्र)
अरहा + अरहं :	A renewable person: a holy man: a saint (अर्हन्त)
अरहद्धजो :	The robes of a Buddhist monk (अर्हन्त् + ध्वज)
अरहं :	Worthy, venerable, sanctified, holy (अर्हन्त)
अरहता :	Worthiness (अर्ह + ता)
अरहति :	To deserve: be worthy of: to be fit (अर्ह)
अरहत्त :	State of being an Arahata (अर्हन्त् + त्व)
अरहत्तमगगट्टो :	One who is walking in the pair of Arahantship (अर्हन्त् + त्व + मार्ग + स्थ)
अरहत्तफलट्टो :	One who is in the full position of Arahantship (अर्हन्त् + ख + फल + स्थ)
अरहितो :	Revered (अर्हित = अर्ह)
अरहो :	Deserving, worthy, fit, worth (अर्ह)
अराजिको :	Without a king (अ + राजन् + इक)
आरका :	Far off: from afar (आरकान्)
आरकत्तं :	Being far off (आरकान् + त्व)
आरक्खेय्यो :	That ought to be guarded (आ + रद्दा + एय्)
आरक्खति :	To guard: to protect (आ + रक्ष)
आरक्खिको :	A guard: keeper: policeman (आरक्षिक्)
आरक्खो :	Guard, protection (आरक्ष)
आरकूटो :	Brass (आरकूट)
अरं :	Specially; presently (अरम्)
आरम्भनं :	Commencement: (आरम्भण)
आरम्भो :	Commencement; exertion, effort, mischief, injury (आरम्भ)
आरामिको :	A temple employee (आराम + इक)
आरम्मणं :	A support, stay, basis, ground, cause: one object of sense; a thought: an idea (आलम्बन)
आरामो :	A pleasure; Buddhist vihara (आराम)

50 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

आरनालं :	Sour gruel (आरनाल)
अरणि :	Wood for kindling fire by attribution (अरणी)
अरञ्जरो :	A water jar (अलिञ्जर)
अरञ्जको :	Belonging to the forest, situated in the forest (आरण्यक)
अरञ्ज :	A forest, or wood (अरण्य)
अरञ्जानी :	A large forest (अरण्यानी)
अरति :	Dislike, discontent; abstinence from (अ + रति)
अराति :	An enemy (अ + रति)
आरति :	Leaving off, ceassation, abstinence (आरति)
अरविन्द :	A lotus (अरविन्द)
आरावो :	Sound, noise (आराव)
अरे :	Ho! I say! (अरे)
अरि :	An enemy (अरि)
अरिंदमो :	Victorious (अरिंदम)
अरिसं :	Haemorrhoids (अर्शस्)
आरिसं :	Rishiship (आर्ष)
अरित्त :	A rudder (अरित्र)
अरिथं :	Buttermilk or whey: bad symptoms, signs of approaching death: bad luck (अरिष्ट)
अरिथो :	The soap berry plant: a crow: a Nimba tree: a sort of spirituous liquor (अरिष्ट)
अरियधनं :	Noble or sublime treasure (आर्य + धन)
अरियको :	Anger (आर्यक)
अरियमगो :	Sublime path-arahattamagga (आर्य + मार्ग)
अरियफलं :	Sublime fruition (आर्य + फल)
अरियपुग्गलो :	Holy personage (आर्य + पुद्गल)
अरियसच्चं :	Sublime truth (आर्य + सत्य)
अरियसावको :	Holy disciple (आर्य + श्रावक)
अरियवंसो :	Noble family (आर्य + वंश)
अरियवासो :	Noble or holy state (आर्य + वास)
अरियवोहारो :	Noble or honourable practice (आर्य + व्यवहार)
अरियो :	Honourable; noble; venerable; respectable; excellent (आर्य)
अरियो :	A venerable or holy men; a saint; an Arahata (आर्य)
आरोचापेति :	To cause to be announced (आ + रूच् caus)
(Caus)	

आरोचेति :	To bill; to announce; to declare (आ + रोचयति = रूच्)
(Caus)	
अरोगा :	Free from sickness, healthy (अ + रोग)
आरोग्यं :	Health (आरोग्य)
आरोहा :	An elegant woman (आरोहा)
आरोहको :	A rider (आरोहक)
आरोहणं :	Ascent, ascending; a ladder, stairs (आरोहण)
आरोहणीयो :	Fit for mounting (आरोहणीय)
आरोहो :	A rider, ascent, length (आरोह)
आरोपनं :	Raising; establishing (आरोपन)
आरोपेति :	To cause to ascent, to raise, to lift up to or upon; to put; to establish; to set on foot; to introduce: to transfer, to render, to turn into (आरोपयति = रुह)
अरु :	A wound (अरुस्)
आरुहति, आरोहति :	To ascend, to mount, to go up into (आ + रुह)
आरूढो :	Having ascended; having put; rendered, transferred (आरूढ = रुह)
अरुणो :	Dark red: Light red (अरुण)
अरुणो :	The sun: dawn (अरुण)
अरूपभवो :	Formless existence, existence
अरूपब्रह्मलोको :	Formless Brahma-heaven (अरूप + ब्रह्म + लोक)
अरूपधातु :	See धातु
अरूपं :	Absence of form (अ + रूप)
अरूपावचरो :	Belonging to the Arupabrahmloka (अरूप + अवचर)
अरूपावचरो :	Realm or world of the Arupabrahmloka (अरूप + अवचर)
अरूपी :	Formless, incorporeal, immaterial (अ + रूप)
अरूप्यो :	Formless, incorporeal, belonging to the Arupabrahmloka (अरूप + य)
आरूढः :	See अरुहति
आसा :	Desire, longing (आशा)
असम्भो :	Improper, wrong, ungentlemanly (अ + सम्य)
आसभो :	Belonging to a bull, Peculiar to a bull, bull-like, a man of strong and eminent qualities a hero or a great man, a leader (आर्षभ)

52 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

असच्चो :	Untrue, false (अ + सत्य)
असद्धम्मो :	Evil state: sin: sexual intercourse: fornication (अ + सन्त + धर्म)
असाधारणो :	Uncommon; unusual: peculiar: unrivalled (अ + साधारण)
असाधु :	Bald, wicked (अ + साधु)
असदिसो :	Unexampled: incomparable (अ + सदृश्)
आसज्ज :	Having approached, having attained (आसाध = सद्)
असज्जायो :	Non-repetition (अ + स्वाध्याय)
आसज्जो :	Attainable (आसाध = सद्)
असकिं :	More than once; repeatedly (अ + सकृत्)
असक्यपुत्तियो :	Not a son of Sakya or a true disciple of Buddha (अ + शाक्य + पुत्र + य)
आसाळ्ह :	Name of a month and a Nakkhatta (आषाढ)
असमानो :	Unequal, dissimilar (अ + समान)
असमयो :	Wrong time
असमो :	Unequal, unequalled, peerless (अ + सम)
असंवासो :	Deprived of co-residence: expelled from the priesthood (अ + संवास)
असंवृतो :	Unrestrained, intemperate (अ + संपृत + नृ)
असनं :	Shooting; an arrow (असन)
असनं :	Eating food (अशन)
आसनं :	Sitting; a seat (आसन)
असज्जिच्च :	Inadvertently, unintentionally (अ + संचिन्त्य = चिन्त्)
आसन्दि :	A long or easy chair (आसन्दि)
आसङ्गो :	Attachment (आसङ्ग)
असनि, असनी :	Indra's Thunderbold (अशनि)
आसङ्का :	Fear, apprehension, anxiety, suspicion, doubt (आशङ्का)
आसङ्कति :	To fear, to suspect, to doubt (आ + शङ्क)
असङ्कतधातु :	Unconditional or immaterial elements or principle, Nirvana (अ + संस्कृत = कृ + धातु)
असङ्कतो :	See सङ्कतो
असङ्केय्यो :	Incalculable, innumerable (असंख्येय + ख्या)
असङ्कियो :	Innumerable (असंख्य + ख्या)
आसङ्की :	Apprehensive, anxious (आशङ्किन्)

असङ्कितो :	Without hesitation or doubt, fearless (अ + शङ्कित् = शङ्क)
असञ्जसतो :	Unconscious (अ + संज्ञा + सत्त्व)
असञ्जतो :	Unrestrained, intemperate (अ + संयत = यम्)
असञ्जी :	Unconscious (अ + संज्ञा + इन्)
आसन्नो :	Near (आसन्न = सद्)
असनो :	The tree <i>Terminalia Alata Tomentosa</i> (असन)
असन्तासी :	Free from fear (अ + संत्रास् + इन्)
असन्तो :	Not being; not existing; absent; false: bad: wicked (अ + सन्त् = त्रस्)
असारो :	Unreality, vanity, worthlessness (अ + सार्)
असारो :	Vain, unsubstantial, unessential, unreal (अ + सार्)
असारो :	A heavy shower (आसार)
असस्सतिको :	Not eternal (अ + शाश्वत + इक्)
असता, असतं :	See असन्तो
असाटिका :	A fly's egg: nit (आसाडी)
असतिया :	Heedlessly, unintentionally (अ + समृति Instru.)
असत्तं :	Non-existence (अ + सत्य)
असत्थेनं :	Not by the sword, peacefully (अ + शस्त्र)
आसत्ति :	Attachment, desire (अ + सक्ति)
असत्तो :	Free from attachment or desire (अ + सक्त = सज्ज)
आसत्तो :	Attached, clinging: intent, attentive, diligent (आसक्त = सज्ज)
आसवक्खयो :	Exclusion or cessation of passion, arahatta (आस्रव + क्षय)
आसवति :	To track, to flow (आ + स्त्रु)
आसवो :	Distilled spirit (आसव)
आसवो :	Dozing, scum; misfortune; human-passion, sin, corruption, depravity (आस्तव)
असहो :	Invisible (अ + सह्य = सह)
आसयो :	Hearing, intimation, inclination: dependance; support; abode, retreat, haunt (आश्रय)
असेचनो :	Charming, captivating, bewitching (असेचन)
असेखो :	Belonging to an <i>asekha</i>
असेखो :	One who is no longer a <i>sekhi</i> : one who has nothing to learn, who is perfect in knowledge— an <i>Arahata</i> (अ + शैक्ष)
असेसको :	All, entire (अ + शेष + क)

54 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

असेसतो :	Without omission, entirely (अशेष + तस्)
असेसितो :	All (अ + शेषित = शिष्)
असेसो :	All, every (अ + शेष)
आसेवति :	To practice (आ + सेव्)
आसेवी :	Addicted to (आसेविन्)
असि :	Thou art
असि :	A sword (असि)
आसि :	It was; he was, there was
आसि :	Blessing (आशिस्)
आसी :	Fang of a snake (आशी)
असीलको :	Immoral, impious (अ + शील + क)
असीलेसा :	Name of a Nakkhatta (अप्लेषा)
आसिं :	See अत्थि
आसिंसा :	hope: benediction (आ + शास्)
आसिंसना :	Wish; hope: benediction
आसिसु :	See अत्थि
आसिञ्चति :	To sprinkle: to moist: to anoint (आ + सिच)
आसीनो :	Sitting (आसीन् = आस्)
असिपुत्री :	A knife (असिपुत्री)
असीतब्बो :	To be eaten (असितब्ब्य = असू)
असितं + असितो :	A sickle
असीति :	Eighty (अशीति)
असितो :	Black (असित)
असितो :	Eaten, enjoyed (अशित = अश्)
असित्थो :	Wished, prayed for (आ + शिष्ट = शास्)
असित्तो :	Sprinkled: (आ + सिक्त + सिच्)
आसिवादी :	Blessing (आशिस् + वाद)
आसीविसो :	A snake (आशीविष)
अस्मा :	We are
अस्मा :	Ayam
अस्मा :	A stone (अश्मन)
अस्मारी :	Name of a plant (अश्मरी)
अस्मि :	I am
अस्मि :	See अयं

अस्मिमानो :	That pride of self (अस्मि = अख् + मान)
आसो :	Eating (आशू)
असोक :	Free from sorrow (अशोक)
अस्सा :	Of him, his: to him, to it
अस्सा :	a mare (अश्वा)
अस्सा :	See अयं
अस्सादन :	Tasting (आस्वादन्)
अस्सद्धी :	Without faith, unblessing; not eredulous (अ + श्रधा)
अस्सादो :	Tasting, enjoyment, happiness (आस्वाद)
अस्सकण्णो :	One of the 7 circles of rock that surround Meru
अस्सं, अस्सामा :	See अत्थि
अस्समणो :	Not a samana, not a true priest of Buddha (अ + श्रमण)
अस्समारको :	A kind of medicine (अश्व + मारक)
अस्समेधो :	Name of a sacrifice (अश्व + मेध)
अस्सामिको :	Without a master or owner (अ + स्वामिन + क)
अस्समो + मं :	Hermitage (आश्रम)
अस्सरो :	Not a vowel, a consonant (अ + स्वर)
अस्ससति :	To intake air, to inspire (आ + धस्)
अस्सासेति : (eaus)	To refresh, to comfort, to encourage (आ + श्वासयति = श्वस्)
अस्सासो :	Inhaled air; comfort, consolation (आश्वास)
अस्सतरो :	A mule: name of a Nagar (अश्वतर)
अस्सथ :	See अत्थि
अस्सत्थ :	The bo tree (अश्वत्थ)
अस्सत्थो :	Encouraged, comforted (आश्वस्त - श्वस्)
अस्सवनं :	Not hearing (अ + श्रवण)
अस्सवो :	Discharge, matter, pus (आस्त्रव)
अस्सवो :	Obedient (आश्रव)
अस्सयुजो :	Name of a Nakkhatta (आश्वयुज)
अस्सो :	Corner, edge (अश्र)
अस्सो :	A horse (अश्व)
अस्सोसि :	See सुगोति
अस्सु :	Tear
अस्सु :	Let them be

56 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अस्सुतवा :	Not learned = ignorant = (अ + श्रुतवन्त)
अस्सुतो :	Unheard (अ + श्रुत = श्रु)
असु :	Breath of life (असु)
असु :	This, that (असौ + अदस्)
आसु :	Quickly (आशु).
असुभो :	Bad, ugly, disagreeable: nasty, disgusting: offensive (अ + शुभ)
असुचि :	Impure (अ + शुचि)
असुद्धो :	Impure (अ + शुद्ध = शुध्)
असुको :	Such a one (अमुक)
आसुं :	They were
आसुणाति + णोति :	To hear, to listen to (आ + श्रु)
असुरो :	An asura (असुर)
असुत्तो :	Without seam (अ + सूत्र)
अतविक्रतो :	Unexpected (अतर्कित = तर्क)
अतलम्फस्सो :	Unfathomable (अत्यलस्पर्श)
अतन्द्रितो :	Unwearied, unremitting (अतन्द्रित)
अटनी :	Name of a part of bed-stead (अटनी)
आतङ्को :	Sickness, affliction, pain (आतङ्क)
आतापनं :	Sunshine: burning (अ + तापन्)
आतपत्त :	A parasol (आतपत्र)
आतापी :	Ardent, zealous, strenuous, active (आ + ताप + इन्)
आतपो :	Sunshine; sunlight (आतप)
आतापी :	Heat, burning; energy = arduous, zeal (आ + ताप)
आतप्य :	Ardous, zeal, energy (आ + ताप + य)
अतासी :	Flax (अटासी)
अटटं :	One of the high numerals
आततं :	Drums covered with leather on one side (आतत + तन्)
आततायी :	A felon, murderer (आततायिन्)
अतति :	To go (अत्)
अटति :	To roam (अट्)
अटवी :	A forest (अटवी)
अथ :	And; but: then: how (अथ)
अथब्बनवेदो :	The Atharvaveda (अथर्वन् + वेद)

अथवा :	Or (अथ + वा)
अथेनो :	Not a thief; honest (अ + स्तेन)
अथो :	and; also; then (अथो)
अति :	Over; beyond; exceedingly; too much (अति)
अतिबहु :	Too much (अति + बहु)
अतिबलो :	very strong (अति + बल)
अतिभायति :	To be much afraid (अति + भी)
अतिभीतो :	Much alarmed (अति + भीत = भी)
अतिचरति :	To transgress = to commit: adultery (अति + चर)
अतिचारी :	Transgressing (अतिचारिन्)
अतिचरिया :	Adultery (अति + चर्या)
अतिचारो :	Transgression, adultery (अतिचारो)
अतिच्छथा :	Formula for civilly refusing alms to a Bhikkhu, to ask to go further
अतिचिरायति :	To carry long (अति + चिराय)
अतिदस्सनो :	Beyond ken, invisible (अति + दर्शन)
अतिधोनचारी :	Indulging too much in the use of Dhonas (अति + धोनचारी)
अतिदूरे :	Very far, too far (अति + दूर)
अतिगच्छति :	To overcome (अति + गम्)
अतिगतो :	Escaped from (अति + गत = गम्)
अतिगो :	Escaping from = going beyond (अतिग)
अतिहत्थयति :	To cross on an elephant (अतिहस्तय)
अतिखिणो :	Not harsh, gentle (अ + तीक्ष्ण)
अतिक्रमनं :	Going beyond, passing (अति + क्रमण्)
अतिक्रमति :	To escape from, go beyond, to pass, to cross; to transgress; to elapse; to excel: to surpass (अति + क्रम्)
अतिक्रामेति :	To go beyond, to exceed (अतिक्रामयति = क्रम्)
अतिक्रमो :	Passing away, transgression (अतिक्रम्)
अतिक्रान्तो :	Past, surpassing (अतिक्रान्त = क्रम्)
अतिमानी :	Vain-glorious, conceited (अतिमानिन्)
अतिमञ्जति :	To despise, to dislike, neglect (अति + मन्)
अतिमापेति :	To injure, to destroy (अति + मापयति = मी)
अतिमत्तो :	Exceeding, excessive (अति + मात्र)
अतिमुत्तको :	Name of a tree (अतिमुत्तक)

58 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अतिमुक्तो :	The croper <i>Gastnera Racemosa</i> (अतिमुक्त)
अतिनामेति :	To cause to pass : to let go by (अति + नामयति = नम्)
(Caus)	
अतिन्द्रियो :	Beyond the reach of senses (अतिन्द्रिय)
अतिपातो :	Very early (अति + प्रात्)
अतिपातो :	Injuring, destruction : transgression (अतिपात)
अतिप्यगे :	Too early (अति + प्रगे)
अतिप्यसत्थो :	Very excellent (अति + प्रशस्त = शंस्)
अतिरेकलाभो :	Extra allowance (अतिरेक + लाभ)
अतिरेकतरो :	More excessive : More abundant (अतिरेक + तर)
अतिरेको :	Exceeding, excessive (अतिरेक)
अतिरिक्तको :	In excess, superfluous (अतिरिक्त + क)
अतिरिक्तो :	Exceeding, in excess, extra superfluous (अतिरिक्त = रिच्)
अतिरोचति :	To outshine (अति + रुच्)
अतिसायं :	Very late in the evening (अति + सायम्)
अतिसयो :	Excess, excellance (अतिशय)
अतिसुनो :	A mad-dog (अति + शुन)
अतिसूरता :	Great heroism (अति + शूर + ता)
अतीतंसो :	Past-time (अतीत + अंश्)
अतिथि :	A guest; a stranger (अतिथि)
अतिथोको :	Very little, too little (अति + स्तोक)
अतीतो :	Passed : elapsed (अतीत = इ)
अतीत्तो :	Unsatiated (अ + तृप्त = तृप्)
अतीव + अतिविय :	Very exceedingly (अतीव)
अतिवाक्यं :	Bad language, abuse, blame, reproach (अति + वाक्य)
अतिवसो :	Subject to, in the power of (अति + वश्)
अतिवत्तति :	To go beyond, to pass: to overcome: to transgress (अति + वृत्त)
अतिवेलो :	Unseasonable (अति + वेला)
अतिविसा :	Name of a plant (अतिविषा)
अतिवृद्धो :	Very old (अति + वृद्ध = वृध्)
अतो :	Hence, now, therefore (अतस्)
अतोज्ज :	A musical instrument (आतोद्य = तुद्)
अत्र :	Here (अत्र)

अत्रजो :	Offspring, son (आत्मज)
अत्ता + आतुमा :	Self, body, person, individuality = life, mind, soul (आत्मन्)
अत्तभावी :	Having a body (आत्मभाव + इन्)
अत्तभावो :	Person, self, individual, personality = body : form (आत्मन + भाव)
अत्तदंडो :	Punishment (आत्त = दा + दण्ड)
अत्तदत्थो :	One's own advantage or good
अत्ताघिनो :	Independent (आत्मन् + अधीन)
अत्ताधिपतेय्यं :	See (अधिपतेय्य)
अत्तदुतियो :	With one companion (आत्मन् + द्वितीय)
अट्ट हसो :	Horseslaughter (अट्ट हस)
अट्टजो :	Proceeding from oneself: self begotton (आत्मज)
अत्तको :	Name of a Rishi
अट्टालको :	A watch tower (अट्टालक)
अत्तमनता :	Reapture or delight
अत्तमनो :	Rapti, delighted, joyful (अत्त = दा + मनस्)
अत्तना-अत्तनो :	See (अत्ता)
अत्तनीयो :	Belonging to oneself, own (आत्मन् + य)
अत्तञ्जू :	Knowing oneself (आत्मज्ञ)
अत्तनोपदं :	Grammatical term meaning (आत्मनेपद)
अत्तनतपो :	Self mortifying (आत्मन् + तपस्)
अत्ततो :	Awarding to self (आत्मन् + तस्)
अत्तत्थो :	Self-interest, one's own good (आत्मन् + अर्थ)
अत्तवादो :	Assertion of self or individuality (आत्मन + वाद्)
अत्थ :	Ye are
अत्थ :	Here
अट्ट :	Eight (अष्टम्)
अत्थचरिया :	Good or wise conduct (अर्थ + चर्या)
अट्ठादस :	Eighteen (अष्टादशन्)
अट्ठदस्सी :	A name of one of the twenty four Buddhas (अर्थ + दर्शिन)
अट्ठधा :	Eight fold (अष्टधा)
अट्टागमनं :	Setting of sun : destruction (अस्तम् + गमन)
अट्टगमो + :	Setting of sun : disappearance; perishing, destruction,
अट्ठङ्गमो :	Annihilation (अस्त + गम)

60 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अट्टकं :	Collection of eight things-Octad (अष्टक)
अत्थकरो :	Beneficial, advantageous, useful (अर्थ + कर्)
अट्टकथा :	A commentary : exposition of meaning (अर्थ + कथा)
अट्टक्खायी :	Giving good advice (अर्थ + आख्यायिन्)
अट्टं :	Disappearance, destruction (अस्त)
अट्टं :	Meaning, for the sake of, purpose of: on account of, for (अर्थम्)
अट्टमेति :	To set (अस्तम् + इ)
अट्टमितो :	Set, gone down (अस्तम् + इत = इ)
अट्टमो :	Eighth (अष्टम)
अट्टम्मो :	Octagonal (अष्टन् + अंश)
अट्टंसु :	See तिष्ठति
अट्टना :	Request, begging (अर्थना)
अट्टानं :	Wrong place (अं + स्थान)
अट्टंगच्छति :	To set, to perish, to vanish (अस्तम् + गम्)
अट्टङ्ग :	Eight divisions or parts : Eight qualities (अष्टन् + अङ्ग)
अट्टङ्गमो :	See (अट्टङ्गतो)
अट्टङ्गसीलं :	The Eight fold moral practice : Eight precepts (अष्टन् + अङ्ग + शील)
अट्टङ्गतो :	Disappeared (अस्तम् + गत = गम्)
अट्टङ्गिको :	Eight parts or divisions : Eightfold (अष्टन् + अङ्ग + इक्र)
अट्टङ्गुलो :	Eight inches long or thick (अष्टन् + अङ्गुल)
अट्टङ्गुपोसथ :	Observing the eight fold uposatha viz. Athangsila (अष्टाङ्ग + उपवसथ + इन्)
अट्टपदं-पदो :	A chequered board for draughts, dice (अष्टापद्)
अत्थरणं :	Covering; a rug : a carpet (आस्तरण)
अत्थरापेति :	To cause, to be spread
अट्टारस :	Eighteen (अष्टादशन्)
अट्टारसमो :	Eighteenth (अष्टादशन + म)
अत्थरति :	To spread, to lay out, to cover (आ + स्तृ)
अत्थारो :	Spreading (आस्तर)
अत्थसत्थं :	Ethics (अर्थ + शास्त्र)
अत्थसो :	According to the sense or the spirit as opposed to the letter (अर्थ + शस्)

अत्थतो :	According to sense or meaning : intelligently, sensibly (अर्थतस्)
अत्थतो :	Spread, laid out (आ + स्तृत् = स्तृ)
अत्थत्थं :	For the good or advantage of (अर्थ + अर्थम्)
अत्थवादी :	Speaking truthfully (अर्थ + वादिन्)
अट्ठविधो :	Eightfold (अष्टन् + विधा)
अत्थाय :	For the sake of : in order to : on account of : for (अर्थाय)
अत्थेन :	On account of : by reason of (अर्थ instru)
अत्थति :	To request (अर्थ)
अत्थि :	To be, to exist (अस्)
अट्ठी :	A bone: a kernal or stone of a fruit or a seed (अस्थि)
अत्थि :	Desirous, wishing for (आर्थिन्)
अत्थिभावो :	Being, existence (अस्ति = अस् + भाव)
अत्थिकं :	A bone, kernal, seed (अस्थि + क)
अत्थिको :	Connected with existence (आस्तिक)
अट्ठिको :	Desirous of (अर्थिन् + क)
अट्ठिमिज्जा :	Marrow (अस्थि + मज्जा)
अत्थिता :	Being, existence (अस्ति = अस् + ता)
अट्ठतो :	Not standing : not staying (अ + स्थित = स्था)
अत्थितं :	Existence (अस्ति = अस् + त्व)
अत्थो :	Setting, disappearance, destruction : the western mountain behind which the sun sets (अस्त)
अत्थो :	Desire, want, need, occasion; cause, reason, purpose : object, aim; substance, object, thing: property, wealth; advantage, good, welfare, meaning, sense, significance (अर्थ)
अत्थुद्धारो :	Exegesis-explanation (अर्थ + उद्धार)
अत्तो :	Thrown (अस्त् = अस्)
अट्ठो :	A watch tower (अट्ठ)
अट्ठो :	Hurt, distressed, afflicted (आर्त)
अट्ठो :	A case, a cause, Law-suit (अर्थ)
अतुलो :	Incomparable, admirable (अ + तुला)
आतुमा :	A rare form of atta
आतुरो :	Ill-: diseased : affected (आतुर)
अत्तप्पो :	Very small (अति + अल्प)

62 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अव :	Away, off : down (अव)
अवबोधनं :	Instruction (अवबोधन)
अवबोधो :	Full knowledge or understanding (अवबोध)
अवच :	See वचति
अवचरति :	To go through, to traverse, to occupy, to make one's home (अव + चर्)
अवचरो :	Sphere, realm, home (अवचर)
अवदारणं :	A spade or hoe (अवदारण)
अवधानं :	Attention (अवधान)
अवधारणं :	Ascertainment : affirmation, emphasis : reconstruction (अवधारण)
अवधारेति :	To ascertain (अव + धारयति = धृ)
(caus)	
अवधि :	Limit (अवधि)
अवगण्डो :	A protuberance on the cheek (अव + गण्ड)
अवगणेति :	To neglect, to disregard (अव + गण्)
अवगतो :	Known, understood (अवगत = गम्)
अवगो :	Unassessed (अ = वर्ग)
आवहनं :	Bringing (आ + वह + अन)
आवाहनं :	Getting a wife for a young man (आवाहन)
अवहरणं :	Taking away, stealing (अवहरण)
अवहरति :	To take away, to steal : to draw down (अव + ह्)
अवहारो :	Taking away (अवहार)
आवहति :	To bring (आ + वह)
आवाहो :	Marriage (आवाह)
अवजहति :	To leave, to abandon (अव + हा)
अवजानाति :	To despise (अ + ज्ञा)
अवजातो :	Low born (अवजात जन्)
अवजीयति, :	To be conquered (अव + जीयते = जि)
अवज्जं :	Blame (अवद्य)
अवज्जनं :	Meditation (अ + वर्जन)
आवज्जति :	To reflect, to consider (आ + वृज)
आवज्जेति : (caus)	To bend, to incline, to upset (आ + वृज)
अवज्जायति :	To waste away, to perish (अव + ज्ञै)

अवज्जो :	Not to be shunned, not forbidden, not wrong, harmless (अ + वज्ज्य = वृज्)
आवज्जो :	Low, bad, inferior
अवकड्ढति :	To drag down, to remove (अव + कृष्)
अवकंसो :	Inferiority, abasement (अव + कर्ष)
अवकासो :	See ओकासो
अवक्कन्ति :	Introduction, descending into (अव + क्रम् + ति)
अवलम्बनं :	Hanging, depending from (अवलम्बन)
अवलेपो :	Anjointing; pride (अवलेप)
आवलि :	Row or range (आवली)
अवलित्तो :	Smeared (अवलित्त = लिप्त्)
अवलोकेति :	See ओलोकेति
अवमान :	Disrespect (अवमानम)
अवमानेति : (Caus)	To despise (अवमानयति = मन्)
अवस्सिरो :	Head downwards, head foremost (अवाञ्च + शिरस्)
अवनद्धो :	See ओनद्धो
अवनि :	The earth (अवनि)
अवज्जा :	Disrespect, contempt (अवजा)
अवज्जातो :	Dispised (अवजात = जा)
अवज्जितो :	Dispised
अवण्णो :	Blame, dispraise, reproach (अ + वर्ण)
अवन्ति :	Name of a country and its people (अवन्ति)
अवन्तिको :	Belonging to Avanti (अवन्ति + क)
अवापुरणं :	A key (अ + आ + वृ + अन)
आवरणं :	Covering : obstruction : restraint : introduction : prohibition (आवरण)
अवसानं :	See ओसान
अवसन्नो :	Depressed, languid (अवसन्नस् = सद्)
अवसरति :	To go to (अव + सु)
अवसरो :	Opportunity : occasion : turn (अवसर)
आवसथो :	Dwelling place, abode, house (आवसथ)
आवसति :	To dwell or to inhabit (आ + वस्)
अवसेसेति :	To leave, to spare (अवशेषयति = शिष्)
अवसेसो :	Remainders (अवशेष)
अवसेसो :	Remaining (अवशेष)

64 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

आवासिको :	Resident; living at home (आवास + इक्)
अवसिस्सनं :	Being left : remainder (अव + शिष् + अन)
अवसितो :	Furnished, determined, known, ascertained (अवसित = सो)
अवसिद्धो :	Remaining, left (अवशिष्ट = शिष्)
अवसो :	Unsubdued, independent, powerless (अ + वश्)
आवासो :	Residing, dwelling : residence : monastery (आवास)
अवस्सं :	Certainty, surely (अवश्यम्)
अवस्सयो :	Support, help, protection, refuge (अव + आश्रय)
अवस्सुतो :	Filled with desire, lustful (अव + आ + सुत = सु)
अवसुस्मति :	To dry up (अव + शुष्)
आवटकं :	A pit
आवतंसो :	A crest: an earring (अवतंसु)
अवतारो + :	See ओतारो
अवतरति	
अवति :	To protect (अव्)
अवतिण्णो :	See ओतिण्णो
आवटो :	Covered, enveloped, shrouded (आवृत = वृ)
आवाटो :	A pit, a hole in the ground (अवट)
अवत्तब्बत :	Ineffability (अ + वक्तव्य = वच् + ता)
आवत्तति :	To turn : to return (आ + वृत्त)
आवहतो :	In circumference (आवर्त + तस्)
अवत्था :	State, condition: time: period (अवस्था)
अवत्थानं :	Standing place: state: abiding (अवस्थान)
अवत्थापनं :	Fixing, settling (अवस्थापन)
अवत्थरति :	To strew, to cover over or up
अवट्ठिति :	Abiding, steadiness (अवस्थिति)
अवट्ठितो :	Abiding, steady, firm (अवस्थित = स्था)
अवत्थो :	Naked (अ + वस्त्र)
आवत्ती :	Returning (आ + वृत्त)
आवट्टो :	Whirlpool; circuit; circumference (आवर्त)
अवयवो :	Limb; member: a part (अवयव)
अवेक्खति :	To look down upon, to look at: to consider: to perceive: to foresee: to contemplate (अव + ईक्ष)
आवेला :	A garland worn on the crown of the head

आवेणिको :	Free from contract, detached, independent (अ + वेणि + क)
अवेरं :	Friendliness, mildness, kindness (अ + वैर)
अवेरी :	Free from hatred, mild, peaceable (अ + वैरीन्)
अवेरो :	Peaceable (अ + वैर)
अवेसनं :	A workshop: a dwelling: fury: entrance (आवेशन)
आवेसिको :	Entering, arriving, adventitious (आदेश + इक)
अव्हा :	Name or appellation (आव्हा)
आव्हानं :	Calling, addressing (आव्हान)
आव्हायनं :	Invocation, summons (आव्हायन)
अव्हयो :	Name, calling, invocative (आहूय)
अव्हि :	A ram or a sheep (अवि)
आव्हि :	Full view: close before the eyes (आविस्)
आविभवति :	To become visible or manifest, to appear : to be evident (आविस् + भू)
आविभावो :	Appearance, manifestation (आविस् + भाव)
अवीचि :	Name of one of the Eight Narakas or hells (अ + वीचि)
अविद्दुसु :	Ignorant
आविद्धो :	Thrown (आविद्ध = व्यध्)
अविदूरो :	Not very far, near (अ + वि + दूर)
अविग्गहो :	The God of Love (अ + विग्रह)
अविहिंसा :	Merry, humanity (अ + वि + हिंसा)
अविहो :	The 12th of 16 Brahma-words (अवृह)
अविज्जा :	Ignorance, error (अ + विद्या)
अविज्जमानो :	Non-existent (अ + विद्यमान = विद्)
अविकरोति :	To make manifest, to show, to explain (आविस् + कृ)
आविकत्ता :	One who manifests (आविस् + कर्त्तृ)
अविकखेपो :	Equanimity, calmness (अ + विक्षेप)
अविलम्बितो :	Speedy (अविलम्बित = लम्ब्)
आविलो :	Turbid; stained: agitated (आविल)
अविनयो :	Wrong or false Vinaya : misconduct : sin (अ + विनय)
अविज्जाणको :	Without intelligence or consciousness, inanimate (अ + विज्ञान)
अविज्जु :	Ignorant, foolish, stupid (अ + विज्ञ)
अविरतो :	Uninterrupted, continual (अविरत = रम्)
अविरुद्धो :	Not contrary: unobstructed: certain: absolute (अविरुद्ध = रुध्)

66 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

अविरूढो :	Not grown (अ + विरूढ = रुह)
आविसति :	To approach, to enter (आ + विश्)
अविसेसेन :	Not specially, generally (अ + विशेषेण)
अवितथो :	True (अ + वि + तथा)
आवितो :	Guarded, protected
अवोच :	See वक्ति
आयुधं :	A weapon (आयुध)
आवुणाति + णोति :	To cover: to enclose, to string (आ + वृ)
आवुसो :	Friend! Brother! Sir
आवुतौ :	Covered; hedge; enclosed = surrounded: strung (आवृत = वृ)
अव्याकतो :	Undefined, unexplained (अव्याकृत = कृ)
अव्यापादो :	Absence of malice or desire to injury another person (अ + व्यापाद्)
अव्यापञ्जो :	Free from suffering
अव्यापन्नो :	Free from malice or foul-desire (अव्यापन्न = पद्)
अव्यासेको :	Charming, fascinating (अ + वि + आ + सेक)
अव्ययीभावो :	A grammatical term (अव्ययीभाव)
अव्ययेन :	Without loss, safely (अ + व्यय)
अव्ययो :	Unchangeable (अ + व्यय)
आयाचनं :	Request (आ + याच् + अन)
आयाचति :	To speak, to ask to request (आ + याच्)
अयं :	This (अयम् = इदम्)
अयं :	Iron
आयमति :	To draw; to stretch; to extend (आ + यम्)
आयामतो :	In length (आयाम + तस्)
आयामो :	Length (आयाम)
अयनं :	A road: going: motion (अयन)
आयस्मा :	Old, venerable (आयुष्मन्त्)
अयसो :	Ill reputation : disgrace (अ + यशस्)
आयसो :	Made of iron (आयस)
आयतनं :	Place: dwelling place: home: abode: seat: rendezvous, haunt, receptacle, mine = altar, shrine: place of origin, source (आयतन)
अयति :	To go (अयति)

आयति :	Futurity, the future : length = majesty (आयति)
आयाति :	To go; to approach: to return (आ + या)
आयतिको :	Future (आयति + क)
आयतो :	Long (आयत + यम्)
आयत्तता :	Dependence (आयत्त + आ)
आयत्तो :	Dependent, belonging to (आयत्त = यत्)
अयो, अयं :	Iron (अयस्)
आयो :	Gain; revenue: coming in, entrance (आय)
आयोधनं :	Battle (आयोधन)
अयोग्गो :	An iron-lipped pestle for husking paddy (अयस् + अग्र)
अयोघनो :	A sledge hammer (अयस् + धन)
अयोगो :	Wrong practice (अ + योग)
आयोगो :	Occupation (आ + योग)
अयोगुलो :	An iron ball (अयोगुड)
अयोमयो :	Made of iron (अयस् + मय)
अयोनिस्सो :	See योनिस्सो
आयु :	Life आयुस
आयुद्धं :	See अवुद्धं
आयुको :	Living (आयुस् + क)
आयुसं :	Duration of life (आयुष)
आयुत्तो :	Endowed, furnished with (आयुत्त = यु)
आयुत्तको :	An agent, manager, superintendent (आयुत्त + एक)
अयुत्तो :	Improper, wrong (अ + युत्त = युज्)
अय्यको :	A grandfather, an ancestor (आर्यक)
अय्यो :	A Lord: chief: master: a Buddhist priest (आर्य)

B

बब्बजो :	A sort of coarse grass (बल्बज)
बब्बु :	A mongoose (बभ्रु)
बदरा :	Cotton (बदरा)
बदरी :	The jujube tree (बदरी)
बदरो :	The jujube fruit (बदर)
बद्ध :	A leather thong or strap (वर्ध)
बद्धो :	Bound; fixed; continuous; acquired; contracted (बद्ध = बन्ध्)
बाधा :	Annoyance, refutation; affliction (बाधा)
बाधति :	To obstruct; to annoy; to afflict; to oppress (बाध्)
बाधिरो :	Deaf (बाधिर)
बाहा :	The arm (बाहा)
बहालतो :	In thickness (बहल + तस्)
बहालो :	Thick (बहल)
बाहति-बाहेति :	To remove, to put away, to reject (बाह)
बहि + बहिं :	Outward, outside (बहिस्)
बहिद्धां :	Outside (बहिस् + धा)
बाहिरा :	From outside (बाह्यत्)
बाहिरको :	External, foreign, heretical (बाह्यक)
बाहिरतो :	From outside (बाह्यतस्)
बाहिरे :	Outside, externally (बाह्य)
बाहितो :	See बाहति
बहु :	Much; many : large : ample (बहु)
बाहु :	Arm (बाहु)
बहुब्बीहि :	Equivalent of बहुब्रीहि
बहुभाणी :	Garrulous (बहु + भाण + इन्)
बहुभागिता :	Garrulousness
बहुभावो :	Quality, multiplicity (बहु + भाव)
बहुभेदो :	Multiform, various (बहु + भेद)
बहुदको :	Holding much water (बहु + उदक)
बहुधा :	In many ways (बहुधा)
बहुजागरो :	Keeping many vigils, very watchful (बहु + जागर)
बहुजनो :	Most people, the multitude, the world, mass of people, crowd (बहु + जन)

बाहुजो :	A Khattiya (बाहुज)
बहुकिच्चो :	Having many duties: very busy (बहु + कृत्य)
बहुको :	Much; many (बहु + क)
बहुलीकरोति :	To increase, to extend (बहुली + कृ)
बहुलीकतो :	Enlarged, increased, multiplied (बहुली + कृत)
बाहुल्लं :	Abundance (बाहुल्य)
बहुमतो :	Esteemed: venerated (बहु + मत = मन्)
बाहुमूलं :	The armpit (बाहु + मूल)
बहुनदिको :	Receiving many rivers - an epithet of ocean (बहु + नदी + क)
बहुपकारो :	Very helpful, very useful (बहु + उपकार)
बहुप्पदो :	Liberal, munificent (बहु + प्रद)
बाहुसच्चं :	Great learning (बहु + श्रुत + य)
बहुसो :	Greatly, abundantly (बहुसस्)
बहुस्सुतत्तं :	Learnedness, erudition (बहु + श्रुत + त्व)
बहुस्सुतो :	Learned, erudite (बहु + श्रुत = श्रु)
बहुतर :	More (बहुतर)
बहुत्तं :	Multitude (बहुत्व)
बहुत्थं :	In many ways बहु + थम्)
बहुवचन :	Plural number
बहुवारको :	The tree eordiamyxa (बहुवारक)
बहुविधो :	Various, multiform (बहु + विधा)
बाह्यो :	External (बाह्य)
बद्धति :	To be bound: to be imprisoned (बद्धते = बन्धु)
बको :	A crane (the bird) (बक)
बाकुचि :	The plant <i>Veronia anthelminthica</i> (बाकुचि)
बलगं :	Front of an army, troops in array (बल + अग्र)
बलाका :	A crane (bird) (बलाका)
बलकायो :	An army (बल + काय)
बलकारो :	Violence (बलात्कार)
बालको :	A boy; a child: young one of an animal (बालक)
बलं :	Strength, power, force: an army, troops, forces: Bulkiness (बल)
बलानीको :	With strong array (बल + अनीक)
बालता :	Childhood (बाल + ता)

70 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

बालातपो :	The rays of the newly risen sun (बाल + आतप)
बलति :	To live (बल्)
बालत्तं :	Childhood (बाल + त्व)
बलत्थो :	A royal messenger or peon: a palace servant
बलवा :	Strong (बलवन्त)
बलवक्तरो :	Stonger (बलवन्त् + तर्)
बालावतारो :	Name of a well known Pali Grammar (बाल + अवतार)
बालेय्यो :	Fit for a child: soft (बालेय)
बाळ्हो :	Hard, severe, excessive (बाढ)
बलि :	Religious offering, oblation (बलि)
बलि :	Strong (बलिन्)
बलिकम्मं :	Religious offering, offering of food to Bhutas (बलि + कर्मन्)
बलिमा :	Receiving offerings (बलिमन्त्)
बलिपुत्थो :	A crow (बलि + पुष्ट = पुष्)
बालिसिको :	A fisherman (बलिश + इक)
बलिसो :	A fish hook (बलिश्)
बालिसो :	Young, childish (बालिश्)
बलिवद्दो :	An ox (बलिवर्द)
बालो :	Young, ignorant, foolish (बाल)
बाल्यं :	Youth, childhood (बाल्य)
बाणाधि :	Quiver (बाणाधि)
बन्धागारं :	A prison (बन्ध + अगार)
बन्धकी :	An unchaste woman (बन्धकी)
बन्धनागारं :	A prison (बन्धन + अगार)
बन्धनं :	Binding: bonds: a fetter: a band: ligature: a snare, a trap: the state of a leaf or flower (बन्धन)
बन्धनीयो :	To be bound, fit to be bound (बन्धनीय)
बन्धापेति :	To cause to be bound: to cause to be embanked (of a river)
(caus)	
बन्धति :	To bind: to fasten: to fix: to embank: to acquire, to get, to contract (बन्ध्)
बन्धवो :	A kinsman (बन्धव)
बन्धेति :	To cause to be bound: to bind: to tie: to fix: to fasten (बन्धयति = बन्धु)
बन्धो :	Binding: bonds: union: bondage (बन्ध)

बन्धु :	A relative, a kinsman (बन्धु)
बन्धुजीवो :	The plant <i>Pentapetes Phoenicea</i> (बन्धुजीव)
बन्धुको :	The plant <i>Pentapetes Phoenicea</i> (बन्धुको)
बन्धुरो :	Uneven, undulating (बन्धुर)
बन्धुमा :	Having relatives (बन्धुमन्त्)
बाणो :	An arrow (बाण)
बप्पो :	A tear (बाष्प)
बाराणसेय्यको :	Belonging to Benaras (बाराणसेय + क्)
बाराणसी :	City of Benaras. (बाराणसी)
बारस :	Twelve (द्वादशन्)
बरिहं :	A peacock's tail (बर्हं)
बरिही :	A peacock (बर्हिन्)
बरिहिसं :	Sacrificial grass (बर्हिस्)
बत्तिसा :	Thirty two (द्वात्रिंशत्)
बह्वाबाधो :	Much sickness (बहु + आबाध)
बावीसति :	Twenty two (द्वाविंशति)
बेलुवो :	Relating to the vilva tree; made of vilva wood (वैल्व)
भा :	Light, ray, splendour (भा)
भाब्बो :	Right, proper, good, well-conducted; future (भव्य - भाव्य)
भच्चो :	A servant, an attendant (भृव्य)
भदन्त :	A venerable man; a Buddhist priest (भदन्त)
भह्ददास :	The tree <i>Pinus, Deodara</i> (भद्र + दास)
भह्दकच्चाना :	Name of Siddhartha's wife
भह्दको :	Good, happy (भद्रक)
भह्दकुम्भो :	A jar with holy water; an auspicious vase (भद्र + कुम्भ)
भह्दमुत्तं :	The grass <i>Eyperus Rotundas</i> (भद्र + मुत्तं)
भह्दपदा :	Name of two Nakkhattas (भद्रपदा)
भहे :	Madam (भद्रे)
भहो + भद्रो :	Good, excellent, noble, worthy, pious; fortunate auspicious, happy (भद्र)
भागधेय्यं :	Lot, destiny (भाग + धेय = धा)
भगं :	Power, majesty; fortune, prosperity; fame, glory; virtue, merit; desire, love: <i>pudendum muliebre</i> (भग)
भगन्दल :	Fistula (भगंदर)

72 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

भगवा :	Worshipful, venerable, blessed, holy (भगवन्त्)
भागवा :	Partaker of, having a share in (भागवन्त्)
भग्गा :	Name of a people of country (भार्ग)
भग्गवो :	A descendent of Bhrigu (भार्गव)
भग्गो :	Broken (भग्न - भञ्ज)
भागी :	Partaking in, undergoing, suffering (भागिन्)
भागिनेय्यो :	A sister's son, nephew (भागिनेय)
भागिनी :	A sister (भागिनी)
भागीरथी :	The Ganges (भागीरथी)
भागीयो :	Connected with, conductive to (भाग + य)
भागो :	A portion, part, share; region, quarters; lot, destiny (भाग)
भृगु :	Name of one of the ten Rishis (भृगु)
भाग्यं :	Fortune, lot, destiny; good and evil aquired in former existences, karma (भाग्य)
भाजनं :	A vessel, bowl, jar: dividing, distribution (भाजत)
भाजपेति : (Caus)	To cause to be distributed (भाजपेति)
भजति :	To serve, to honour; to be devoted to; to follow (भज्)
भाजेति :	To divide, to distribute (भाज्)
भाज्जापेति : (caus)	To cause to be fried or baked
भज्जति :	To fry, to roast, to bake (भ्रज्ज्)
भाकरो :	The sun (भास्कर)
भक्खको :	Voracious (भक्षक)
भक्खणं :	Eating, enjoying (भक्षण)
भक्खेति :	To eat: to devour: feed upon (भक्ष)
भक्खो :	Eating, feeding on (भक्ष)
भक्खो :	Eatable, to be eaten (भष्य = भक्ष्)
भल्लातको + की :	The marking nut plant, <i>semicarpus anacardium</i> (भल्लातक)
भल्ली :	The marking nut plant (भल्ली)
भं :	A star, a lunar asterium = a planet (भ)
भमकारो :	A turner (भ्रम + कार)
भमापेति : (caus)	To cause to revolve
भमरो :	A bee (भ्रमर)
भमति :	To whirl about: to revolve, to roam (भ्रम)

भमेति :	To cause to revolve, to whirl (भ्रमयति = भ्रम्)
भमो :	Whirling a lathe: a watercourse, drain (भ्रम)
भमु, भमुको :	An eyebrow
भाणको :	A jar (भाण्डक)
भाणको :	Reciting, saying, preaching (भाणक)
भाण :	Reciting, saying (भाण्)
भणं :	Expounding: telling (भणन्)
भणति :	To say, to speak, to recite, to preach (भण्)
भाणवारं :	A recitation, a portion for recital (भाण + वार)
भण्डगब्धो :	A store-room (भण्ड + गर्भ)
भण्डागारिको :	A treasurer; royal - treasurer (भाण्डागारिक)
भण्डकं :	A utensil, implement (भण्डक)
भण्डाकी :	The plant <i>solanum Melongena</i> (भण्डाकी)
भण्डं :	Utensil, wares; goods property: the stock in trade of a tradesman (भाण्ड)
भण्डनं :	Quarrelling, strife (भण्डन)
भण्डति :	To quarrel, to abuse (भण्ड)
भण्डिका :	An article: utensil: a bundle (भण्डिका)
भण्डिको :	The plant <i>Pentapetes Phoxenicea</i> (भण्डिक)
भण्डिलो :	The tree <i>Mimosa Sirisha</i> (भण्डिल)
भण्डु :	Shaven, bald, used as an interjection of emphasis, Like to be some look here, It is a familiar term of address
भणे :	A term often used for addressing inferiors
भाङ्गो :	Hemp (भाङ्ग)
भाणी :	Speaking, talking (भाण + इन्)
भणीतो :	Speaking, talking (भाणित् = भण्)
भञ्जनं :	Breaking, fracturing, injuring, destruction
भञ्जति :	To be spoken, told : preached
भन्ते :	Short form of भदन्त
भन्तो :	Whirling, rolling, confused (भ्रान्त = भ्रम्)
भानु :	The Sun (भानु)
भानुमा :	Luminous, brilliant (भानुमन्त)
भारद्वाजो :	Name of one of the ten Rishis
भारको :	A load (भारक)
भरणं :	Bearing, supporting, maintenance

74 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

भरणी :	Name of the 2nd Nakkhatta (भरणी)
भारपादता :	Elephantiasis of the leg (भार + पाद + ता)
भारतं :	The Mahabharata (भारत)
भरति :	To bear, to support, to flourish (भृ)
भारती :	Speech (भारती)
भारी :	Carrying, bearing (भारिन्)
भारिको :	A porter (भारिक)
भारिको :	Serious, grievous (भारिक)
भारितो :	Filled with (भरित)
भरिया :	Wife (भार्या)
भारियो :	Serious, grievous
भरो :	Supporting (भर)
भरो :	A load: much, excessive (भर)
भरो :	a weight, burden: charge: duty, business (भार)
भासा :	Speech, language (भाषा)
भासा :	Light, radiance (भासा)
भासनं :	Lustre, radiance (भासन)
भासति :	To speak, to say, to address (भाष्)
भासति :	To shine (भास्)
भासेति :	To illuminate
(Caus)	
भासिता :	One who speaks or utters (भाषितृ)
भासितो :	Spoken; told; spoken to; addressed (भाषित्)
भस्मं :	Ashes (भस्मन्)
भस्मीभवति :	To be reduced to ashes (भस्मी + भू)
भस्मीकरणं :	Reducing to ashes (भस्मी + करण)
भासो :	A vulture (भास)
भस्सं :	Talk (भाष्य)
भस्सरो :	Shining, brilliant (भास्वर)
भस्सति :	To fall (भ्रंश + भ्रश्)
भस्त :	A bellows (भस्ता)
भासुरो :	Shining (भासुर)
भाता :	A brother; a cousin germane (भ्रातृ)
भतको :	A servant or hireling (भृतक)

भति :	Support, maintenance: wages, hire (भृति)
भाति :	To <i>shine</i> , to appear (भा)
भातिकत्तं :	State of being a brother (भ्रातृ + क + त्व)
भतिको :	One who works on wages: labourer (भृति + क)
भातिको :	A brother (भ्रातृ + क)
भटो :	A soldier (भट)
भत्ता :	A husband (भतृ)
भत्तगग :	A refractory (भक्ताग्र)
भत्तकारो :	A cook (भक्त + कार)
भत्तकिच्चं :	Business of food i.e. meal (भक्त + कृत्य)
भत्तं :	Boiled rice: meal (भक्त)
भत्थो :	Fallen (भ्रष्ट = भ्रंश)
भत्थो :	Fried or roasted (भ्रष्ट = भ्रञ्ज)
भत्ति :	Division; service: devotion (भक्ति)
भत्तुद्देशको :	One whose duty is to regulate the distribution of food to the priests (भक्त + उद्देश + क)
भातुको :	A brother (भ्रातृ + क)
भातुनो + भातुस्सा :	See भाता
भवाभवो :	Repeated births; existence under different forms successively (भव + भव)
भवदिद्धि :	The heresy of believing matter and being to be everlasting (भव + दृष्टि)
भवगगं :	Culmination of 'existence' (भव + अग्र)
भवक्खयो :	Ceasation of birth or existence, Nirvana (भव + क्षय)
भवं :	Lord, Sir (भवन्त)
भावना :	Producing, increasing, developing; being devoted to; realizing, attaining; earnest consideration, meditation (भावना)
भवनं :	Being, existence: a house: dwelling, palace (भवन्)
भावनं :	Consideration, reputation (भावन)
भावनामयो :	Consisting of or sprung from meditation (भावना + मय)
भवनेत्ति :	Desire, lust (भवनेत्री)
भवनीयो :	That ought to be; that must be
भवन्ता :	See (भवं)

भवन्तरं :	Another birth or existence, either, previous or subsequent (भव + अन्तर)
भवति + होति :	To be: to exist: to become: to take place: to befall: to behave (भू)
भावेति :	To cause to exist; to produce; to increase, to enlarge,
(caus)	to perfect: to be occupied with, to practice, to be versed in: to develop the idea of: to dwell upon; to contemplate (भावयति = भू)
भावि :	Future (भाविन्)
भविस्सन्ति :	Future tense
भवितव्यो + :	That is or ought to be (भवितव्य = भू)
होतव्यो	
भावितो :	Increased, enlarged: perfected: trained: practiced: occupied with, intent; attained: performed (भावित = भू)
भवो :	Being, existence: birth, origin: renewed existence: gain, increase, welfare (भव)
भावो :	Property, nature: state, condition: meaning, intention: gesture, amorous, dalliance: substance, thing (भव)
भव्यो :	Existing: being (भव्य = भू)
भयं :	Fear, fright; danger, calamity (भय)
भयानको :	Frightful, horrible (भयानक)
भयङ्करो :	Fearful, dreadful (भयंकर)
भायति :	To fear, to be afraid (भी)
भयद्रो :	In danger; terrified (भय + स्थ)
भेदको :	One who breaks or causes disunion (भेदक)
भेदनको :	Liable to be broken (भेदन + क)
भेदनं :	Breaking, division (भेदन)
भेदेति :	To break, to cleave, to divide (भेदयति = भिद्)
भेदी :	Breaking, cleaving (भेदिन्)
भेदो :	Breaking; division; disunion; = breach: schism, sort kind (भेद)
भेको :	A frog (भेक)
भेरण्डो :	A jackal (भेरण्ड)
भेरवो :	Fearful, terrible (भैरव)
भेरि :	A Kettle-drum, tomtom (भेरि)

भेसजं :	A medicine, drug (भेषज)
भेसज्जं :	A medicine, drug (भेषज्य)
भेसमो :	Terrible (भेष)
भेत्ता :	One who breaks (भेतृ)
भेत्वा :	See भिन्दति
भी :	Fear (भी)
भिदा :	Difference, kind (भिद्)
भिज्जनं :	Breaking up dissolution
भिज्जति :	See भिन्दति
भिज्जो :	To be broken (भिघ = भिद्)
भिक्षा :	Begging: alms: begged food (भिक्षा)
भिक्षाचरिया :	Going about for alms, going the rounds (भिक्षा + चर्या)
भिक्षाचारो :	Going the rounds for alms (भिक्षा + चार)
भिक्षति :	To ask for food, to beg (भिक्ष्)
भिक्षुणी :	A female mendicant: a Buddhist nun or priestess (भिक्षुणी)
भिक्षुसङ्घो :	A company of priests (भिक्षु + संघ)
भिमो :	Dreadful, horrible, cruel (भीम)
भिसनो :	Dreadful, horrible (भीषण)
भिसापेति :	To frighten, to terrify (भीषय = भी)
भिसिका :	Terrifying, an alarm (comp भीषा)
भिन्दनं :	Breaking; destroying (भिन्दन)
भिन्दति :	To break, to destroy, to divide, to separate (भिद्)
भिन्दिवालो :	A sort of spear (भिन्दिपाल)
भिङ्गराजो :	Name of a shrub, <i>Eclipta Prostrata</i> (भृङ्ग + राज)
भिङ्गारो :	A golden vase (भृङ्गार)
भिङ्गो :	A young elephant
भिन्नको :	Schismatic (भिन्नक)
भिन्नो :	Broken; divided; disunited: separated: other: different: joined, connected
भीरु :	Timid; afraid (भीरु)
भीरुको :	Timid; afraid (भीरुक)
भीरुता :	Timidity; dread (भीरुता)
भिसक्को :	Physician (भिषज्)

78 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

भिसं :	Film or fibres of the stalk of the water-lily (भिस)
भिसी :	A mat or mattress (वृषी)
भिसील्लो :	Timid (भी + शील)
भीति :	Fear (भीति)
भीति :	Frighten, afraid (भीत = भी)
भित्ति :	A wall of earth or masonry (भित्ति)
भीयो + भिव्यो :	More (भूयंस)
adj.	
भीयो + भिव्यो :	Again, further, besides: repeatedly, frequently: much (भूयस्)
भिव्योसोसत्ताय :	More and more, exceedingly and abundant (भूयशस् + dat मात्र)
भो :	Sir! Friend! (भो + ओस्)
भोगवा :	Wealthy (भोगवन्त्)
भोगी :	A snake, a village headman (भोगिन्)
भोगिनी :	A royal concubine (भोगिनी)
भोगो :	A snake's body: snake's expanded hood: a fold: eating, enjoying food, wealth (भोग)
भोजको :	A village headman (भोजक)
भोजन :	Food (भोजन)
भोजनीयो :	To be eaten (भोजनीय)
भोजापेति :	To feed, to entertain
भोजयति :	To cause to eat, to feed: to maintain: to entertain (भोजयति = भुज्)
भोजी :	One who eats (भोजिन्)
भोज्जो :	To be eaten, edible (भोज्य = भुज्)
भान्तो, भोन्ती :	See भवं
भोत्ता :	One who enjoys eating (भोक्तृ)
भोत्तब्बो :	To be eaten (भोक्तव्य)
भोत्त :	See भुज्जति
भोवादी :	A Brahman, who utters Bho (भो + वादिन्)
भू :	The earth (भू)
भ्रू :	An eyebrow (भ्रू)
भ्रूभुजो :	A king (भ्रूज्ज्)

भूधरो :	A mountain (भू + धर)
भूजा + भूजो :	The arm (भुज्)
भुजगो, भुजङ्गमो, :	A snake (भुजंग)
भुजङ्गो :	
भुजपत्तो :	The Bhojpatra tree (भूर्ज + पत्र)
भुजसिरो :	The shoulder (भूज + शिरस्)
भुजिस्सो :	A feed slave, a freedman: a freeman (भुजिष्य)
भूमको :	Having stages or stories (भूम + क)
भूमि :	The earth, the stage, place, degree, state: the ground: storey of a house (भूमि)
भूमिका :	Story or stage (भूमिका)
भूमिन्दो :	A king (भूमि + इन्द्र)
भूमिपालो :	A king (भूमि + पाल)
भूमिपो :	A king (भूमि + प)
भुम्मत्थरणं :	A carpet (भूमि + आस्तरण)
भुम्मट्ठो :	Standing on the ground
भुम्मो :	Terrestrial (भूम्य)
भूनाथो :	A king (भूनाथ)
भुञ्जनं :	Enjoying, eating
भुञ्जति :	To eat, to partake of, to enjoy: to possess, to govern (भुज्)
भुञ्जी :	Eating (भुज् + इन्)
भूपालो :	A king (भू + पाल)
भूपति :	A king (भू + पति)
भूपो :	A king (भूप)
भूरि :	Much, many, abundant, Wisdom (भूरि)
भूरी :	The earth (भूर्णि or भूरिज्)
भूसा :	Adornment (भूषा)
भुसं :	Chaft or corn (बुस)
भुसं :	Much, exceedingly (भृशन्ट)
भूसनं :	Ornament (भूषण)
भूसेति, भूसापेति :	To adorn (भूष)
भूसो :	Much, excessive (भृश)
भूतधरा :	The earth (भूत + धर)

80 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

भूतगामो :	Vegetation, grass, plants, shrubs (भूत + ग्राम)
भूतपति :	Indra (भूत + पति)
भूतपो :	A yakkha chief or king (भूत + प)
भूतपुब्बो :	Existing before (भूत + पूर्व)
भूतत्तं :	State of being a <i>bhuta</i> (भूत + त्व)
भूतवादी :	Speaking according to facts or truthful (भूत + वादिन्)
भूतवेज्जो :	An exorcist (भूतवैद्य)
भूतविज्जा :	Knowledge of spirits or demons, exorcism (भूत + विद्या)
भूति :	Being, existence, birth: welfare (भूति)
भूतिणं + णकं :	A fragrant grass (भूनृण)
भूतो :	Been, become, being: past, former: true, real, right (भूत = भू)
भुत्तवा :	Having eaten (भुक्तवन्)
भुत्तावी :	Having eaten (भूक्त + विन्)
भुत्ति :	Eating, enjoying (भुक्ति)
भुत्तो :	Eaten, possessed, used (भुक्त = भुज्)
भुत्त्वा :	See भुज्जति
भुवनं :	The world (भुवन)
भुवि :	See भू
भुयति :	See भवति
बीभच्चो :	Loathsome: dreadful: altered: disguised (बीभत्स)
बीजगामो :	Collection of seeds (बीज + ग्राम)
बीजं :	A germ; a seed: cause: origin: primum (बीज्)
बिलालं :	A sort of salt
बिलालो :	A cat (बिडाल)
बिलं :	A hole or charm (बिल)
बिलं :	A part or a bit (बिड)
बिलङ्गो :	Sour gruel
बिलारो :	A cat (बिडार)
बिलस :	Bit by bit (बिड + शस्)
बिल्लो :	The tree eagle <i>Masmelos</i> (बिल्व)
बिम्बा :	A name of Yasodhara (बिम्बा)
बिम्बिका :	The plant <i>Momordica Monodelpha</i> (बिम्ब + इका)

बिम्बिसारो :	Name of a king of Magadha; convert of Buddha (बिम्बी + सार)
बिम्बो + बिम्बं :	Reflection or image: disc of Sun or Moon (बिम्ब)
बिम्बोहनं :	A pillow
बिन्दु :	A drop or spot: a little circle or dot used as a symbol for anusvara (बिन्दु)
बीरणं :	A fragrant grass (वीरण)
बोधकारो :	One whose duty is to awaken a prince with music and song (बोध + कर)
बोधनं बोधनेय्यो :	Knowing, Understanding (बोधन)
बोधिपक्खियो इको :	Accessory to Bodha or supreme knowledge (बोधि + पाक्षिक)
बोधिपक्खियो	
बोधति :	See बुञ्जति
बोधेति : (caus)	To inform: to teach: to cause to blossom (बोधयति = बुध)
बोधि :	The knowledge possessed by a Buddha; supreme or infinite knowledge; omniscience, the truth; a Bodhi-tree; a precept (बोधि)
बोधिमालको :	The sacred enclosure in which a Bo-tree stands
बोधिमण्डलं :	The region surrounding the Bo-tree
बोधिमण्डो :	The miraculous throne under Bodhi which was occupied by Buddha when he attained Buddhahood (बोधि + मण्ड)
बोधिसत्तो :	A being destined to attain Buddhahood (बोधि + सत्त्व)
बोधो :	Knowledge, wisdom, intelligence: supreme knowledge, Buddhahood (बोधि)
बोज्झङ्गो + :	Member or constituent of Bodhi
बोधि-अङ्गे	
बोन्दि :	The body
ब्रह्म :	Large, great (बृहत्)
ब्रह्मा :	The Hindu Brahma: a Brahmin parents : a Buddha: an arahata (ब्रह्मन्)
ब्रह्माबन्धु :	A Brahmin (ब्रह्मन् + बन्धु)
ब्रह्मचारी :	A religious student: celibate: chaste: holy (ब्रह्मन् + चारिन्)
ब्रह्मचरियं :	Duties or practice of a religious student : celibacy, chastity, purity: life of holiness led by the sanctified : living according to Buddha's precepts (ब्रह्मन् + चर्य)

82 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

ब्रह्मचरिया :	Celibate, chaste, holy, virtuous (ब्रह्मचर्य + वन्त्)
ब्रह्मचरियवासो :	Living as a religious student; living life according to Buddhist law (ब्रह्मचर्य + वास्)
ब्रह्मघोसो :	Glorious voice, or voice like that of Mahabrahma (ब्रह्मन् + घोष)
ब्रह्मजालं :	Name of first sermon of the Sutta Pitaka (ब्रह्मन् + जाल)
ब्रह्मजो :	Sprang from Brahma or Brahmin (ब्रह्मन् + ज)
ब्रह्मकायिको :	Belonging to the suit of Mahabrahma (ब्रह्मन् + काय + इक्)
ब्रह्मलोको :	World of Brahma (ब्रह्मन् + लोक)
ब्रह्मं :	The practice of austere devotion; the vedas (ब्रह्म)
ब्राह्मणमहासालो :	A wealthy Brahmin (ब्राह्मण + महाशाल)
ब्राह्मणी :	A brahmin woman (ब्राह्मणी)
ब्रह्मज्जता :	Brahminhood (ब्राह्मण्य + ता)
ब्राह्मणो :	A Brahmin or an Arahata (ब्राह्मण)
ब्रह्मपक्खिको :	Belonging to the Brahmanical party (ब्रह्मन् + पक्ष + इक)
ब्रह्मपारिसज्जो :	Belonging to the retinue of Mahabrahma (ब्रह्मन् + पार्षध)
ब्रह्मपुरोहितो :	Minister or priest to Mahabramha (ब्रह्मन् + पुरोहित)
ब्रह्मस्सरो :	The voice of a Mahabrahma (ब्रह्मन् + स्वर)
ब्रह्मविहारो :	Excellent or perfect state; abode in Brahma world (ब्रह्मन् + विहार)
ब्रवि ब्रूति :	To say; to tell; to call, to name (भू)
ब्रूहेति : (caus)	To increase, to augment, to develope, to perfect, to devote oneself to (ब्रूहयति = वृह)
बुब्बुळकं :	A bubble (बुब्बुद् + क)
बुब्बुळं :	A bubble: a blister : a pimple (बुब्बुद्)
बुभुक्खति :	To wish to eat, to be hungry (बुभुक्षते = भुज्)
बुभुक्खितो :	Hungry (बुभुक्षित्)
बुद्धभावो :	Buddhahood (बुद्ध + भाव)
बुद्धभूमि :	Degree or condition of Buddhahood (बुद्ध + भूमि)
बुद्धचक्षु :	Buddha's eye or omniscience (बुद्ध + चक्षुस्)
बुद्धधम्मो :	Condition or attribute of a Buddha (बुद्ध + धर्म)
बुद्धघोसो :	An eminent Buddhist who flourished in the 4th century A.D.
बुद्धकप्पो :	A Kalpa in which one or two Buddhas appear (बुद्ध + कल्प)
बुद्धकिच्चं :	That which is to be done by Buddha or his mission (बुद्ध + कृत्य)

बुद्धङ्कुरो :	One destined to be a Buddha or his embryo-like (बुद्ध + अङ्कुर)
बुद्धन्तरं :	Period between death of and appearance of the other Buddha (बुद्ध + अन्तर)
बुद्धसासनं :	Religion or commandment of Buddha (बुद्ध + शासन्)
बुद्धता :	Knowledge (बुद्ध + ता)
बुद्धता :	Seniority or old age (बुद्ध + ता)
बुद्धतरो :	Elder or senior (बुद्ध + तर)
बुद्धत्तं :	Buddhahood (बुद्ध + त्व)
बुद्धविसयो :	The extent of Buddha's power or wisdom (बुद्ध + विषय)
बुद्धि :	Understanding, knowledge, intelligence (बुद्धि)
बुद्धिको :	Having faith in Buddha (बुद्ध + इक)
बुद्धिमा :	Intelligent, wise (बुद्धिमन्त्)
बुद्धो :	Known, intelligent, understood, enlightened, wise (बुद्ध = बुध)
बुद्धो :	A supreme Buddha : Gautam Buddha or Sakya muni (बुद्ध)
बुद्धो :	Old, aged (बुद्ध = वृध)
बुद्धप्पादो :	Birth of a Buddha in the world (बुद्ध + उत्पाद्)
बुधो :	Wise (बुध्यन्)
बुद्धनं :	Knowing
बुद्धति :	To know, to perceive, to understand (बुध्यते + बुध)
बुन्दिकाबद्धो :	Name of a sort of a bed
व्यञ्जनं, व्यापनं, :	See Vyanjanani, Vyapanani and Vyuhō etc.
व्युहो	

C

च (conj) :	And, but, even (च)
चच्चरं :	A square, where four roads meet; a courtyard (चत्वर)
चागक :	Generous, liberal (त्याग + वन्त्)
चागी :	Giving away, liberal (त्यागित्)
चागो :	Abandoning, forsaking, resigning, giving away, self sacrifice, liberality (त्याग)
चजति :	To abandon, to resign, to give up, sacrifice (त्यज्)
चजनं :	Being abandoned, or given away
चक्कलखणं :	The figure of a wheel under the foot of a Buddha (चक्र + लक्षण)
चक्कं :	A wheel: a potter's wheel: a circle: discuss: an army, a multitude: a body of religious doctrine: a region, tract circuit: happy state, good fortune (चक्र)
चक्कपादो :	A cast, carriage (चक्र + पाद)
चक्कपाणि :	Vishnu (चक्र + पाणि)
चक्करतनं :	The magic wheel of a <i>cakkavatti</i> moarch, which rolls before him, when he makes his royal tour (चक्ररत्न)
चक्कवाको :	The ruddy goose, <i>annas casarca</i> (चक्रवाक)
चक्कवाळं, लं :	A world, a sphere (चक्रवाट or चक्रवाल)
चक्कवाळपब्बतो :	The lofty wall of mountains, encircling the <i>cakkavala</i> , forming the world's limit (चक्रवाट + पब्बत)
चक्कवत्ती :	A universal monarch (चक्रवर्तिन्)
चक्कव्हो :	The ruddy goose, <i>annas casarca</i> (चक्र + आहवा)
चक्खायतन + :	The organ of the eye, the sense of the sight (चक्षुस् + आयतन)
चक्खवायतनं	
चक्खु + चक्खुं :	The eye: insight, perception, supernatural insight or knowledge (चक्षुस्)
चक्खुमा :	Having eyes or sight, seeing, having supernatural insight or wisdom (चक्षुष्मन्त्)
चक्खुन्द्रियं :	The organ of the eye, the faculty of sight, the vision (चक्षुस् + इन्द्रिय)
चक्खुपथो :	Range or reach of vision (चक्षुस् + पथ)
चक्खुविज्ञानं :	The faculty of vision: eye-consciousness (चक्षुस् + विज्ञान)

चङ्कीको :	A bard or encomiast (चाक्रिक)
चकोरो :	The greek partridge (चकोर)
चलाचलो :	Unsteady (चलाचल)
चलनं + चालनं :	Shaking, trembling (चलन + चालन)
चलनी :	A swift, antelope (चलनी)
चलति :	To move, to shake, to tremble (चल्)
चालेति : (caus)	To move, to shake (चालयति = चल्)
चलितो	Trembling; shaking (चलिन् = चल्)
चलो	Trembling, unsteady, uncertain, transient (चल्)
चालो :	A shaking (चाल)
चामरं :	A yak's tail used as a whisk to drive away flies, it is one of the insignia of Royalty (चामर)
चमरो :	The yark ox (चमर)
चामीकरं :	Gold (चामीकर)
चम्मकारो :	Cobbler (चर्मकार)
चम्मं :	Skin, hide; a shield (चर्मन)
चम्पा :	Name of a town in India, the present Bhagalpur (चम्पा)
चम्पको :	The Champak tree, <i>Michelia Champaca</i> (चम्पक)
चम्पेय्यको :	Belonging to, an inhabiting champa (चम्पा + एय + क्)
चम्पेय्यो :	The champak tree (चम्पा + एय)
चमू :	An army (चमू)
चमूपति :	A general, a commander in chief (चमू + पति)
चमुरु :	A sort of deer (चमुरु)
चणको :	A chick pea (चणक)
चञ्चलति :	To move, to proceed: to dance (चञ्चल)
चन्द्रभागा :	Name of a river in India (चंद्रभागा)
चन्द्रको :	An eye in the pea-cock's tail (चंद्रक)
चण्डालो :	A chandala or a man of lowest caste (चण्डाल)
चन्दनं, नो :	The sandal-wood, tree : unctuous, fragrant preparations made from sandal wood (चन्दन)
चन्दनिका :	A dirty pool at the entrance of a village
चन्दिका :	Moon-light (चंद्रिका)
चण्डीकतो :	Provoked, angry (चण्डी + कृत = कृ)

86 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

चन्दिमा :	The moon (चंद्रमस्)
चन्दो :	The moon (चन्द्र)
चण्डो :	Wrathful; harsh; cruel; fierce; savage; violent (चण्ड)
चन्दोदय :	The rising of the moon (चन्द्र + उदय)
चङ्कोटको :	A casket
चङ्कमनं :	Walking up and down: a covered walk or cloister (चङ्क्रमण)
चङ्कमति :	To walk up and down (चङ्क्रम् = क्रम)
चङ्कमो :	A covered walk, arcade, portico, cloister (चङ्क्रम् = अ)
चपलो :	Tickle; unsteady; swift (चपल)
चापिको :	An archer (चाप् + इक)
चापो, चाप :	A bow (चाप)
चराचरो :	Movable (चराचर)
चारको :	Walking about, wandering (चारक)
चरणं :	The foot; a fixed observance or practice: good conduct (चरण)
चरापेति :	To cause to walk; to drive
(Caus)	
चरति :	To walk; to wander: to act, to behave: to live (चर्)
चारी :	Walking, living, acting (चारिन्)
चारिका :	Moving or walking about, wandering, roaming (चर् + इका)
चरिमो :	Last: subsequent (चरम)
चरितं :	Action: conduct, life (चरित् = चर्)
चरित्तं :	Practice; observance (चरित्र)
चरिया :	Walking, roaming: observance, practice, conduct (चर्या)
चरियापिटकं :	“Treasury of conduct”—15th book of Khuddaka Nikaya
चरो :	Going, walking, moving (चर)
चरो :	A spy (चर्)
चारो :	Walking, roaming; a spy (चार)
चरु :	An oblation to the Devas (चरु)
चारु :	Agreeable, charming, beautiful (चारु)
चसको + चसकं :	A drinking vessel (चषक)
चटको :	A sparrow (चटक)
चातको :	A sort of cuckoo, <i>Cuculus Melanoleucus</i> (चातक)
चतरसो :	See Cattaro
चाटि :	An earthenware vessel; a chatty: a jar: water pot (चाटि)

चत्ता :	One who resigns or gives away (त्यक्)
चत्तारिसं, :	Forty (चत्वरिंशत्)
चत्तालीसति, रिसा	
चत्तारो, चतुरो :	Four (चत्वार)
चत्तो :	Relinquished, sacrificed (त्यक्त = त्यज्)
चतु :	See Cattaro
चतुब्बग्गो :	Assemblance of four things (चतुर + वर्ग)
चतुब्बिधो :	Four-fold (चतुर + विधा)
चतुभागो :	Fourth part quarter (चतुर् + भाग)
चतुभूमिको :	Having four stages (चतुर + भूमिका)
चतुद्दस :	Fourteen (चतुर्दशन्)
चातुद्दसिको :	Belonging to the 14th day (चातुर्दशी + क)
चातुद्दसी :	Fourteenth (चतुर्दश)
चतुद्दिसं :	The four cardinal points (चतुर् + दिश)
चतुद्दिसो :	Coming from the four quarters; ruling the four quarters (चतुर + दिश)
चतुद्द्वारं :	Four gates (चतुर + द्वार)
चतुद्दधा :	In four parts, fourfold (चतुर्धा)
चतुद्दजातिगन्धी :	Perfume of four sorts (चतुर + जाति + गन्ध्)
चतुद्दक्कं :	A square, where four-roads meet, a collection of four things (चतुष्क)
चतुद्दक्कंसं :	Four Kamas
चतुक्कण्णं :	Four corners (चतुर + कर्ण)
चतुक्कणो :	Heard only by two people, secret council (चतुर् + कर्ण)
चतुक्को :	Consisting of four: four-fold (चतुष्क)
चतुमग्ग :	Four paths (चतुर् + मार्ग)
चतुमासं :	Four months (चतुर् + मास)
चातुम्महाभतिको :	Consisting of, or relating to, the four elements (चतुर + महा + भूत + इक्)
चतुम्मुखो :	Having four faces or fronts (चतुर् + मुख)
चतुनिकायको :	Versed in the four Nikayas (चतुर् + निकाय + क)
चतुपच्चयं :	The four requisites (चतुर + प्रत्यय)
चतुपरिसं :	Four assemblies (चतुर + परिषद)
चतुपारिसुद्धिसीलं :	Four precepts of purity (चतुर + परिशुद्धि + शील)
चतुप्पदो :	A quadruped (चतुर् + पद)

चतुष्पादो :	Having four Padas (चतुर् + पाद)
चतुरङ्गी :	Consisting of four divisions (चतुर + अङ्गीन्)
चतुरङ्गुलं :	Four fingers or inches (चतुर् + अङ्गुल)
चतुरन्ता :	The earth (चतुरन्ता)
चातुरन्तो :	Lord of the earth or of the four priests
चतुरापस्सेनो :	Endowed with the four <i>aparsenas</i>
चतुरासीति :	Eighty four (चतुरशीतिः)
चतुरस्सो :	Quadrangular, regular (चतुर + अश्र)
चतुरो :	See चत्तारो
चतुरो :	Skillful, clever (चतुर)
चतुसच्चं :	The four truths
चतुसंवरसीलं :	Four precepts of restraint (चतुर + संवर + शील)
चतुसदृठि :	Sixty four (चतुर + षष्टि)
चतुर्थो :	Fourth (चतुर्थ)
चतुत्तिसत्तिमो :	Thirty-fourth
चतुवर्गो :	Consisting of four individuals (चतुर् + वर्ग)
चतुवीसति :	Twenty-four (चतुर + विशति)
चतुवीसत्तिमो :	Twenty-fourth
चवनको :	Disappearing (च्यवन्)
चवति :	To disappear; to vanish; to leave: to have one world and to be reborn in another (च्यु)
चावेति : (Caus)	To cause to fall, or depart from; to cause to vanish from one world or reborn elsewhere (च्यावयति = च्यु)
चयो :	A heap, quantity, a bundle (चय्)
चे :	Even if (चेद्)
चेलं :	A cloth: a garment (चेल)
चेलुक्खेपो :	Throwing up or a waving a cloth (चल + उत्क्षेप)
चेटको :	Servant, a slave (चेटक)
चेतना :	Consciousness, thought, sense, intention (चेतना)
चेतापनं :	Purchase money
चेतापेति :	To collect, to get to-gether
चेतसा :	See चेतो
चेतसिक :	Mental (चैतसिक)

चेतेति :	To think (चेतयति = चित्)
चेति :	Name of a people who inhabited Bundelkhanda (चेदि)
चेटी, चेटीका :	A maid servant, a slave girl (चेटी) (चेटिका)
चेतियं :	A religious building or shrine, or temple or Buddhist relic-shrine (चेत्य)
चेतो + चेतं :	The mind, the heart, the thoughts (चेतस्)
चेटक :	A servant or slave (चेट)
चेतोखिलो :	Hardness of heart or stubbornness (चेतस् + खिल्)
चेतोपरियजाणं :	Encompassing the heart of others, the ways of the heart
चतोपरियायजाणं,	(चेतपरिविज्ञान)
छळ :	Six (षष्)
छव्वगियो :	Causing of six individuals (षष् + वर्ग + य)
छव्वणो :	Six-coloured (षष् + वर्ण)
छव्वस्सं :	Six years (षष् + वर्ष)
छव्विधो :	Six fold (षष् + विधा)
छव्विसति, छव्वीसा :	Twenty-six (षड्विंशति)
छव्वीसतिमो :	Twenty-sixth (षष् + विंशतिम्)
छदनं :	Covering, roof; a leaf (छदन्)
छादनं :	Covering (छादनं)
छादापेति :	To cover; to endorse
छड्ढको :	Throwing away, removing
छहं :	A roof (छहन्)
छहनं :	Rejecting; see <i>chaddeti</i>
छहन्तो :	Name of a mythical elephant; name of one of the seven great lakhs (षष् + दन्त)
छड्ढापेति :	To cause to be removed
छड्ढेति :	To throw away, to remove, to abandon, to reject, to cast off; to set aside: to leave out, to omit; to put, to place: to throw up, to vomit (छर्द, च्छृद्)
छद्दा :	In six ways (षडधा)
छदिका :	Vomiting (छर्दिका)
छड्ढीतो :	Thrown away, rejected, abandoned, left
छादेति :	To cover, to conceal: to render invisible (छद्)

90 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

छदि :	A covering or roof (छदिस्)
छादितो :	Covered, concealed (छादित = छद्)
छादो :	A cover or a leaf; a wing (छद्)
छद्दरं :	The six apertures or avenues of body (षष् + द्वार)
छद्दारिको :	Connected with the six apertures
छज्जो :	Name of one of the notes of the Hindu gamut (षड्ज्)
छकलको :	A he-goat (छगलक)
छकलो :	A he-goat (छगल)
छकं :	A dung or excrement (शकृत)
छकनं :	The dung of animal (शकृत)
छक्कणो :	Heard only by three people: secret counsel (षष् + कर्ण)
छक्खत्तुं :	Six times (षष् + कृत्वस्)
छल :	See छ
छळभिज्जा :	The six supernatural faculties (षष् + अभिज्ञा)
छळं :	Fraud; stratagem; pretext; trembling (च्छल् comp स्वलन्)
छळङ्गं :	Six qualities (षष् + अङ्ग)
छमा :	The earth (क्षमा)
छम्भति :	To tremble; to be alarmed: to be paralysed with fear (स्तम्भ्)
छम्भितत्तं :	Trembling, consternation, stupefaction (स्तीभित + त्व)
छम्मासं :	Six months (षष् + मास)
छन्दसो :	Conversant with the वेदाऽ, a brahmin (छान्दस्)
छन्दो :	Wish, desire, intention; will, resolve: power: consent: approval (छन्द्)
छन्दो, छन्दं :	The vedas; metrics; prosody (छान्दस्)
छन्दोविचिति :	One of the Vedangas-prosody (छान्दस् + विचिति)
छङ्गुलं :	Six finger-breadth or inches (षष् + अङ्गुल)
छन्नं :	See छ
छन्नवुति :	Ninty six (षणवति)
छन्नो :	An ordinance
छन्नो :	Concealed; secluded; private; covered; clothed; suitable; appropriate (छन्न = छद्)
छण्णो :	Festival (क्षण्)
छापो, छापको :	The young of an animal (शाव)
छाप्यदो :	A bee (षट्पद)

छप्पन्नास :	Fifty-six (षट्पंचाशत्)
छरत्त :	A period of six nights (षष् + रात्र)
छारिका :	Ashes (क्षारिका)
छतकं :	Famine
छातो :	Hungry, famished (प्साल = प्सा)
छत्तधरो :	Parasol bearer (छत्र + धर्)
छत्त :	A parasol or umbrella: the royal parasol or canopy, one of the insignia of royalty: royal dominion, sovereignty (छत्र)
छतं :	A body or corpse
छत्तपण्णो :	Name of a tree (छत्र + पर्ण)
छट्ठो :	Sixth (षष्ठ)
छत्तिसा, छत्तिसति :	Thirty six (षट्त्रिंशत्)
छत्तिसत्तिमो :	Thirty-sixth
छत्तियति :	To treat as a parasol
छवको, छवो :	A corpse (शव + क) (शव)
छवि :	The skin (छवि)
छवो :	Vile (शव)
छाया :	Shade; shadow; reflected image: splendour: pretext, fiction (छाया)
छेदको :	That ought to be torn (छेदन + क)
छेदनं :	Cutting, severing: destruction, loss, expenditure (छेदन्)
छेदापेति :	To cause, to be cut off (छेदयति + छिद्)
छेदो :	Cutting, loss, severing; destruction waste (छेद)
छेज्जो :	That ought to be cut off (छेघ)
छेको :	Skilful, expert, clever (छेक्)
छेत्वा, छिन्दति, छिद्दं	A hole: aperture: a rent: a gap = a defect (छिद्र)
छिद्दवा :	Full of holes (छिद्र + वन्त्)
छिद्दितो :	Perforated (छिद्रित + छिद्)
छिद्दो :	Perforated (छिद्र)
छिग्गलं :	A hole
छिन्दापेति : (caus)	To cause to be cut off or cut down
छिन्दति :	To cut: to cut off: to cut down: to interrupt, to stop: to remove: to destroy (छिद्)

92 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

छिन्देति :	To cause to be cut (Caus)
छिनो :	Cut off, cut down, interputed, stopped, destroyed, removed (छिन्न = छिद)
छुद्धो :	Mean, contemptible (क्षुद्र)
छुपनं :	Touching (छुप + अन)
छुपति :	To touch (छुप्)
छुरिका :	A knife (छुरिका)
चिच्चिटं :	The splash to the seat; the bubbling or boiling water
चिच्चिटायाति :	To spalsh, to hiss, to bubble
चिण्ह, चिन्हं :	A mask, a sign (चिन्ह)
चिकिच्छति :	To cure (चिकित्सति = कित्)
चिक्खल्लं :	Mud or swamp (चिखल + य)
चीनापिट्टं :	Red lead (चीन + पिष्ट = पिष्)
चीनरुद्रु :	China (चीन + राष्ट्र)
चिनाति :	To heap up: to collect: to gather (चि)
चिञ्चा :	Tamarind tree (चिञ्चा)
चिङ्गुलकं :	A mimic windmill made with palm leaves
चिण्णो :	Performed or practised (चीर्ण + चर्)
चिन्ता :	Thought, meditation (चिन्ता)
चिन्तेति :	To think: to think of: to devise: to mind: to regard (चिन्त्)
चिन्तितो :	Thought, thought of (चिन्तित)
चिपिटो :	Flattered, stumpy (चिपिट)
चिरक्रियो :	Dilatory (चिर + क्रिया)
चिरं :	Bark, fire (चीर)
चिरन्तनो :	Old, ancient (चिरंतन)
चिरप्पभुति :	Since long
चिररत्तं :	A long time (चिर + रात्र्)
चिरस्स :	For a long time : long since
चिरस्सुतो :	Not heard of for a long time (चिर + श्रुत = श्रु)
चिरत्तरो :	Longer, slower (चिर + तर्)
चिरट्ठिति :	Lasting long, perpetuation (चिर + स्थिति + क)
चिरायति :	To tarry (चिराय)

चीरी, चीरिका :	A cricket (चीरी) (चीरी + का)
चिरो :	Long continued, lasting (चिर)
चिता :	A funeral pyre or pyre (चिता)
चितका :	A funeral pile (चिर + का)
चितको :	A funeral pile (चिर + क)
चितो :	Heaped up, heaped or pressed together (चित = चि)
चित्रकथि :	Eloquent (चित्र + कथा + इन्)
चित्रो :	See चित्तो
चित्ता :	Name of a <i>Nakkhatta</i> (चित्रा)
चित्ताभोगो :	Consciousness, sensitiveness (चित्त + आभोग)
चित्तागार :	A theatre (चित्र + आगर)
चित्तजो :	Sprung from the heart, mental (चित्त + ज)
चित्तका :	A woolen woven counterpane of many colour (चित्र + का)
चित्तकं :	A sectarial mark on the fore-head (चित्रक)
चित्तकतो :	Variegated, painted (चित्र + कृत = कृ)
चित्तक्खेपो :	Madness (चित्त + क्षेप)
चित्तको :	The plant <i>plumbago Zeylanica</i> (चित्रक)
चित्तकूटो :	Name of a mountain in Bundelkhand (चित्र + कूट)
चित्तलता :	Name of one of Indra's gardens (चित्र + लता)
चित्तं :	A painting (See Citto)
चित्तं :	The heart; the mind; thought; an idea: will, intention (चित्त)
चित्तपीळा :	Swooning (चित्त + पीडा)
चित्तविब्भमो :	Madness (चित्त + विभ्रम्)
चित्तेति :	To paint, to variegated (चित्र्)
चित्तीकारो :	Consideration, respect (चित्त + कार)
चित्तो :	Name of a month (चैत्र or चित्र)
चित्तो, चित्रो :	Shining; variegated, painted: various: beautiful: wonderful (चित्र)
चीबरं :	The tattered dress of a mendicant, the dress or robes of a Buddhist monk (चीवर)
चीयति :	To be heaped up (चीयते = चि)
चोदको :	One who rebukes or exhorts (चोदक)
चोदना :	Rousing: inciling: rebuke: reproof, accusation: complaint (चोदना)

94 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

चोदनावत्थु :	Ground or cause for accusation (चोदना + वस्तु)
चोदापेति :	To cause to be rebuked, or urged
चोद्दस :	Fourteen (चतुर्दशन्)
चोद्दसो :	Fourteenth (चतुर्दश)
चोदेति : (Caus)	To rouse; to exhort; to urge; to rebuke, to reprove; to complain, to accuse; to draw a person's attention, to remind; to speak to, to warn (चोदयति + चुद्)
चोल :	Name of a people (चोल)
चोलको :	Belonging to the Cola country (चोलक)
चोलो :	Cloth (चोल)
चोरेति :	To steal (चोरयति = चुर)
चोरिका :	Theft (चौरिका)
चोर :	A thief: robber: bandit: outlaw; a felon (चोर)
चुबुकं :	The chain (चुबुक)
चुच्यु :	A radish (चुच्यु)
चुचुकं :	A nipple (चूचुक)
चुद्दस :	Fourteen (चतुरदर्शन)
चुद्दसो :	Fourteenth (चतुर्दश)
चूळा :	A single lock of hair left on the crown of the shaven head: top knot; a crest: diadem (चूडा)
चूळामणि :	A jewel worn in the crest or diadem (चूडा + मणि)
चूलिका :	Root of an elephants ear (चूलिका)
चूळ्हासीति :	Eighty four
चुल्ली :	A fire place (चुल्ली)
चुल्लो, चुलो, चुल्लो :	Small (क्षुल्ल)
चुम्बको :	A load stone, a magnet (चुम्बक)
चुम्बटं, चुम्बटकं :	A circular roll of cloth used as a support for a vessel carried on the head (चुम्बक)
चुम्बति :	To kiss (चुम्ब)
चुन्दकारो :	A turner (कुन्द + कार)
चुण्णकं :	Aromatic powder (चूर्ण + क)
चुण्णं :	Aromatic powder for the toilet (चूर्ण)
चुणेति :	To grind, to crush, to pulverise (चूर्ण)

चुण्णं :	Dust powder, Chuman or lime cement (चूर्ण)
चूति :	Disappearance, vanishing, death: leaving one world to be born in another (च्युति)
चुतो :	See चावति
चूतो :	The mango tree, <i>Magnifera Indica</i> (चूत)
चुतुपपातो , :	Vanishing and reappearance; leaving one world and being
चुतुप्पातो	born in another (च्युति + उपपात + उत्पात)

D

दब्बं :	Object, thing; material, substance; a fit object; wealth, property; fuel (द्रव्य)
दब्भो :	Kusa grass (दर्भ)
दब्बी :	A spoon (दर्वी)
दाब्बी :	Name of a plant (दार्वी)
ददाति, देति, ददति	To give, to grant, to give up; to allow (दा)
दद्दालति :	To blaze, to shine brilliantly (जाज्वल्यति = ज्वल्)
ददरी, ददरीको :	A sort of drum (comp दर्दर) (दर्दरिक)
ददरो :	Name of a mountain (दर्दर)
दद्धो :	Burned, scorched, consumed (दळध + दह)
दहु :	A kind of entaneous eruption (दट्ट)
दहुरो :	A frog (ददुर)
दधाति, दहति :	To put, to hold, to bear (धा)
दधि :	Milk curds (दधि)
ददो :	Giving (दद्)
दाहको :	Setting on fire (दाहक)
दहनं :	Consuming by fire, burning (दहन)
दहनो :	Fire (दहन)
दहरो :	Young (दहर)
दाहति :	To burn; to consume by fire; to torment (दह)
दहो :	A lakh (द्रह)
दाहो, डाहो :	Burning, conflagration; suffering, torment, grief (दाह)
दज्जा :	See ददाति
दज्जति :	To give
दकं :	Water (दक)
दक्खता :	Skill (दक्षता)
दक्खति :	See Passati
दक्खिणा :	A gift or present to a Buddhist monk: an offering to a <i>peta</i> (दक्षिणा)
दक्खिणाग्गि :	One sort of sacred fire, that which is taken from the domestic fire and placed to the south (दक्षिण + अग्नि)

दक्खिणम्बु :	Same thing as Dakkhinodakam (दक्षिण + अम्बु)
दक्खिणापथो :	The southern country (दक्षिण + पथ)
दक्खिणतो :	On the south; on the right hand (दक्षिणत्तस्)
दक्खिणावत्तो :	Turning to the right (दक्षिण + आवर्त)
दक्खिणाविसुद्धि :	Purity of a gift (दक्षिणा + विशुद्धि)
दक्खिणायनं :	The half of the year, when the sun moves to the south of the equator (दक्षिणायन)
दक्खिणेय्यो :	Worthy of offerings (comp. दक्षिणीय)
दक्खिञ्जं :	Kindness, affability (दाक्षिण्य)
दक्खिणो :	Right = southern = dextrous (दक्षिण)
दक्खिणोदकं :	Water of donation (दक्षिणा + उदक)
दक्खन्ति :	See (पस्सति)
दक्खो :	Clever, skilful (दक्ष)
डाक, डाकं :	A vegetable; a herb (शाक)
दलं :	A leaf (दल)
दालेति : (Caus)	To split, to break (दालयति = दल्)
दल्हयति :	To make firm (द्रढ्य किंवा दृढ्य)
दळ्हीकं, दळ्हीकरणं :	Making firm, strengthening, confirmation (दृढी + कर्मन + करण)
दळ्हो :	Hard, firm, strong, excessive (दृढ = दृह)
दळ्हो, दलिहो :	Poor, neady (द्ररिद्र)
दालिमो :	Pompergranatetree (दालिम)
दमको :	Who practices self mortification by living on the remnants of offered food (दम + क)
दामं :	A rope, a string or wreath (दामन्)
दमनं :	Subduing (दमन)
दमथो :	Self control, self command, subjugation (दमथ)
दम्भो :	Deceit (दम्भ)
दमेति : (Caus)	To tame, to subdue, to overcome: to convince (दमयति = दम्)
दमिल्लो :	A Tamil, Dravidian, a Malabari
दामिल्लो :	A Dravidian
दमितो :	Tamed, subdued (दमित = दम)
दमेति :	To be tamed or subdued (दम)
दम्मि :	See ददाति

98 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

दम्पो :	To be tamed (दम्य = दम्)
दमो :	Self command, subjugation of the senses, self-restraint, abstinence: long suffering: punishment, discipline: temperance; sobriety (दम्)
दंसो :	A gad-Fly (दंश)
दानं :	Purification (दान from दै)
दानं :	Cutting or breaking off (दान from दा to cut)
दानं :	Giving a gift, a donation: almsgiving, charity, liberality (दान)
दानं :	The fluit that flows from an elephants temples when in rut (दान)
दानमयो :	Consisting of, or connected with alm-giving (दान + मय)
दानारहो :	Worthy of grifs (दान + अर्ह)
दानसोण्डो :	Profusely, liberal, munificent (दान + शौण्ड)
दानवत्थु :	Cause for giving: object for a gift (दान + वस्तु)
दानवो :	An Asura (दानव)
दण्डकम्मं :	Atonement, penance, penal, discipline, ecclesiastical punishment (दण्ड + कर्मन्)
दण्डको :	A stick, a staff (दण्डक)
दण्डनीति :	The science of criminal justice (दण्ड + नीति)
दण्डेति :	To punish (दण्ड्)
दन्धो :	Idle, slothful, slow, heavy, foolish (तन्द्र)
दण्डी :	One who carries a staff (दण्डिक)
दण्डियो :	Punishable (दण्डय)
दण्डो :	A staff, a pole = a handle: a stalk or stem: punishment, penalty: violance, cruelty (दण्ड)
दानि :	Now (इदानिम्)
दन्तच्छदो :	The lip (दन्त + छद्)
दन्तधावनो :	The tree acacia catechu (दन्त + धावन)
दन्तजो :	Dental (दन्त + ज)
दन्तकट्टं :	A tooth brush, a piece of wood used for cleaning the teeth (दन्त + काष्ठ)
दन्तमयो :	Made of ivory (दन्त + मय)
दन्तपोणो :	A tooth cleaner (दन्त + पवन)
दन्तसट्टो :	The lime or lemon (दन्त + शठ)

दन्तावरणं :	The lip (दन्त + आवरण)
दन्ति :	Self control (दान्ति)
दन्ती :	An elephant (दन्तिन्)
दन्तो :	A tooth; an elephant's tusk: ivory (दन्त)
दन्तो :	Tamed, subdued: trained: broken: self controlled: temperate (दान्त = दम्)
दन्तोद्वजो :	Dental labial
दनु :	Name of the mother of the asuras (दनु)
दानुप्पत्ति :	Rebirth of an arms giver according to his wish (दान + उत्पत्ति)
दापेति : (Caus)	To cause to be given (क्षपयति = दा)
दप्पनो :	A mirror (दर्पण)
दप्पवा :	Proud (दर्प + वन्तु)
दप्पो :	Pride (दर्प)
दारको :	An infant, a child, a boy, a son (दारक)
दारणं :	Clearing (दारण)
दरथो :	Oppression, Suffering, pain (दर + थ)
दरी :	A cave, a grotto (दरी)
दारिका :	A girl or young woman (दारिका)
दारित्तो :	Torn asunder, divided (दारित + दू)
दरो :	Tear, pain, suffering (दर)
दारा :	A wife (दार)
दारु :	Wood (दारु)
दारुहलिद्दा :	Name of a plant (दारु + हरिद्दा)
दारुजो :	Made of wood (दारु + ज)
दारुकं :	A wood or log (दारु + क)
दारुमयो :	Made of wood, wooden (दारुजय)
दारुणो :	Harsh, evere, terrible, dreadful (दारुण)
दस :	Ten (दशन्)
दस :	The skirt or border of a garment: condition, state: period or age (दशा)
दसबलं :	Ten forces
दसबलो :	One who possesses the ten <i>Balas</i> (दशन् + बल)
दसधा :	In ten ways (दशधा)

100 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

दसधम्मं :	Ten objects (दस + धर्म)
दसदिस्सं :	Ten directions
दसाहं :	Ten days (दशन् + अहं)
दसमो :	Tenth (दशम्)
दसनं :	Biting
दसनो :	A tooth (दशन)
दसन्तो :	The border of the skirt (दशा + अन्त)
दससतनयो :	Thousand eyed, a name of Indra (दशन् + शत + नयन)
दससीलं :	The ten precepts (दशन + शील)
डसति :	To bite (दंशु)
दसवग्गो :	Consisting of ten individuals (दशन् + वर्ग)
दासव्यं :	Slavery, servitude
दासीदासं :	Maid servants and man servants (दासी + दास)
दासो :	A slave, a servant (दास)
दस्सं :	See ददाति
दस्सनं :	Seeing, sight; meeting or associating with: opinion, doctrine, belief: knowledge (दर्शन)
दस्सनीयो, दस्सनेय्यो :	Beautiful (दर्शनीय = दृश्)
दस्सति :	See ददाति
दस्सावी :	Seeing
दस्सति : (Caus)	To show; to point out; to show oneself (दर्शयति = दृश्)
दस्सी, दस्सिथ :	See पस्सति
दस्सी :	Seeing, showing (दर्शन्)
दस्सितो :	Shown, exhibited (दर्शित = दृश्)
दस्सिवा :	Having seen (दर्शिवसु)
दस्सीयती :	To be shown
दाता :	A giver (दातृ)
दातब्बो :	To be given (दातव्य = दा)
दाठा :	A tooth, a tusk, a fang (दंष्ट्रा, दाढा)
दाठाधातु :	Tooth-relic (दाढां + धातु)
दाठी :	Having tusks or fangs (दांष्ट्रिन)
दातो :	Cuts (दात = दौ)
दात्तं :	A sickle (दात्र)

दट्टब्बो :	To be seen (द्रष्टव्य = दृश्)
दट्टो :	Held or siezed, in the mouth or teeth: bitten (द्रष्ट = दंश्)
दट्टुं :	See <i>Passati</i>
दत्ति :	Offering (दत्ति)
दत्तिमो :	Received by donation (दत्तिम्)
दत्तु :	Stupid
दात्तुं, दत्त्वा :	See <i>ददाति</i>
दात्युहो :	A gallinule (दात्यूह)
दबनं :	Burning, heat
दबथु :	Burning, heat, inflammation (दवथु)
दवो :	Quick, motion; sport, amusement (द्रव्य)
दवो :	Burning, inflammation; a forest (दव)
दावो :	A forest (दाव)
दया :	Mercy, compassion (दया)
दायादो :	A kinsman; an heir (दायाद)
दायज्जं :	Inheritance; dowery (दायाध)
दायको :	Giving, a giver, a benefactor (दायक)
दयालु :	Compassionate, merciful (दयाळु)
दायनं :	Reaping (from दौ)
दयापन्नो :	Compassionate (दया + आपन्न = पद्)
दयापरो :	Compassionate (दया + पर)
दयति :	To give, to allot, to protect (दय्)
दायति :	To give (दाय्)
डहति :	See <i>डहति</i>
दायी :	Giving (दायिन्)
दयितो :	Beloved (दयित = दय्)
दायो :	A gift, separate property of a wife (दाय्)
दायो :	A forest, a wood (दाव)
देहुभो :	A kind of lizard without legs
देहनी :	A threshold (देहली)
देही :	An animal or creature (देहिन्)
देहो, देहं :	The body (देह)
देण्डयो :	A kind of drum (डिण्डिम)

102 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

देसको :	A district (देश + क)
देसको :	Showing, teaching, a teacher (देशक)
देसना :	Instruction: preaching; a sermon; or discourse; showing (देशना)
देसापेति :	To cause to be pointed out
देसेति : (Caus)	To point out; to teach: to show: to preach: to expound: to confess (देशयति = दिव्य)
देसिको :	One who shows or teaches (देशिक)
देसितवा :	Having preached or taught (देशित + वन्त्)
देसितो :	Shown, pointed out, taught, preached (देशिन् = दिश्)
देसियो :	Belonging to a country (देशीय)
देसो :	A place; a region; a district: a country: a part, a side (देश)
देति :	To give
डेति :	To fly (डयति = डी)
देव :	See (देवो)
देवरारू :	Deodar wood or pine (देव + दारु)
देवदत्त :	Buddha's cousin and rival (देवदत्तो)
देवदेवो :	Angel of angels, highest of celestial beings, an epithel of Buddha (देव + देव)
देवधम्मो :	Of Celestial nature, godlike (देव + धर्म)
देवधिता :	A female goddess or angel (देवदुहितृ)
देवदुन्दुभि :	Thunder (देव + दुन्दुभि)
देवदूतो :	A messenger from the Gods (देव + दूत)
देवखातकं :	A natural pond (देव + खात + खन् + क)
देवकुलं :	A non-Buddhist temple: a family of royal blood (देव + कुल)
देवकुसुमं :	Cloves (देव + कुसुम)
देवालयो :	A Hindoo temple (देव + आलय)
देवलोक :	World of devas or angels, the god, world, heaven: a deva heaven, a god-world (देवलोकै)
देवनं :	Sport: custom: desire to win: praise (देवन)
देवपुत्तो :	A deva (देव + पुत्र)
देवराजा :	King of the devas Indra (देव + राज)
देवरज्जं :	Sovereignty over the devas (देव + राज्य)
देवरो :	A husband's brother: a brother-in-law (देवर)
देवसिकं :	Daily (दिवस + इक् + म्)

देवता :	A deva, a celestial being, an angel, a deity (देवता)
देवताडो :	The grass lipeocercis (देवताड)
देवतं :	A Deva (दैवत)
देवातिदेवो :	The deva who is over all devas i.e. Buddha (देवातिदेव)
देवत्तं :	Devaship (देवत्व)
देवट्टानं :	A holy place : a cetiya: celestial abode (देव + स्थान)
देवयोनी :	Of celestial origin (देव + योनी)
देवी :	A female deva; a nymph: a goddess, a green (देवी)
देविन्दो :	King of the Devas Indra (देव + इन्द्र)
देवित्तं :	Queenship (देवीत्व)
देवित्थि :	A female deva. a goddess or nymph (देव + स्त्री)
देवो :	A god: celestial being, an angel; a cloud, a king, the sky: the air: the death (देव)
देय्यधम्मो :	A gift, an offering (देय + धर्म)
देय्यो :	To be given (देय = दा)
धजालु :	Adorned with flags (ध्वज् + आलु)
धजवा :	Adorned with flags (ध्वजवन्त्)
धजी :	Having flags (ध्वनिन्)
धजो :	A flag: a mark or symbol (ध्वज)
धामं :	Light or splendour or dignity (धामन्)
धमनी :	A Vein; a nerve (धमनि)
धमनो :	A reed (धमन)
धमति :	To blow (ध्मा)
धम्मभण्डागारिको :	Treasurer of the law, a name of Ananda (धर्म + भाण्डागारिक)
धम्माभिसमयो :	Comprehension of the truth (धर्म + अभि + समय)
धम्मचक्कं :	Dominion of the laws (धर्म + चक्र)
धम्मचक्खु :	The eye of the law (धर्म + चक्षुस्)
धम्मचारी :	Living according to the law: virtuous (धर्म + चारिन्)
धम्मचरिया :	Religious life, piety (धर्म + चर्या)
धम्मचारो :	Pious (धर्म + चार)
धम्मदानं :	Gift of the knowledge of the law of Dhamma (धर्म + दान)
धम्मदस्सी :	Name of one of the twenty four Buddhas (धर्म + दर्शन्)
धम्मदेशना :	Religious teaching, a sermon, a discourse (धर्म + देशना)
धम्माधम्मो :	True and false doctrine (धर्म + अधर्म)

104 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

धम्मधरो :	Versed in the Buddhist Scriptures (धर्म + धर)
धम्माधिपसेय्यसीलं :	See अधिपतेय्यं
धम्मजीवी :	Living rightously (धर्म + जीविन्)
धम्मकथा :	A religious discourse, an exposition of the scriptures: conversation on religious subjects (धर्म + कथा)
धम्मकथिको :	One who expounds the law; one who has the gift of preaching (धर्म + कथा + इक)
धम्मकेतु :	Standard of the law (धर्म + केतु)
धम्मक्खण्डो :	Branch of doctrine; division of the dhamma or scriptures (धर्म + स्कन्ध)
धम्मं :	See धम्म
धम्मामतं :	The nectar of the law (धर्म + अमृत)
धम्मनी :	A rat- snake
धम्मानुधम्मो :	See अनुधम्मो
धम्मपदं :	A religious sentence: name of one of the books of the <i>Tipitaka</i> : body or portion of Dhamma
धम्मपक्खो :	The side, cause or party of true religion (धर्म + पक्ष)
धम्मराजा :	King of Dhamma, Buddha (धर्म + राजन्)
धम्मरामो :	One who dwells in the law (धर्म + आराम)
धम्मरसो :	Table or sweetness of law (धर्म + रस)
धम्मरति :	Delight in the law, pleasure caused by religion (धर्म + रति)
धम्मसभा :	A religious meeting place (धर्म + सभा)
धम्मसाला :	A hall where religious scriptures are expounded and read
धम्मासनं :	A pulpit, a seat on which the priest sat while preaching (धर्म + आसन्)
धम्मसङ्गणिप्पकरण :	Name of the first book of <i>Abhidhammapitaka</i>
धम्मसवणं :	Attending the preaching of a sermon or exposition of a religious doctrine (धर्म + श्रवण)
धम्मसेनापति :	Captain of the faith, a name of Sariputta (धर्म + सेना + पति)
धम्मसामी :	Lord of Dhamma - Buddha (धर्म + स्वामिन्)
धम्मता :	Custom, habit: nature (धर्म + ता)
धम्मट्टो :	Just, righteous (धर्म + स्थ)
धम्मवादी :	Speaking according to the law, orthodox (धर्म + वादिन्)
धम्मविचयो :	Investigation of Doctrine, religious research (धर्म + विचय)
धम्मविनयो :	Doctrine and discipline (धर्म + विनय)

धम्मायतनं :	Ideas, thoughts
धम्मि :	Having the nature or quality of (धर्मिन्)
धम्मी, धम्मीकथा :	See धम्मो
धम्मिको :	Religious, pious; orthodox: (धार्मिक)
धम्मिलो :	Braided hair (धम्मिल्ल)
धम्मिस्सरता :	Supremacy in religion, lordship of Dhamma (धम्म + ईश्वरता)
धम्मो, धम्मं :	Nature, condition, quality, property, characteristic, function, practice, duty: object, thing, idea, phenomenon: doctrine, law, virtue, piety: justice law or truth of Buddha: the Buddhist scriptures, religion (धर्म + धर्मन्)
धम्मो :	Religious (धार्म)
धंसको :	Destroying (ध्वंस + अक्)
धंसेति : (Caus)	To destroy: to fall (ध्वंसयति = ध्वंस्)
धंसि :	Destroying, mischievous, back biting (ध्वंसिन्)
धंसितो :	Felled, fallen (ध्वंसिन् = ध्वंस्)
धाना :	Fried Barly (धाना)
धनच्छेदो :	Expense, waste (धन + छेद्)
धनागमो :	Revenue (धन + आगम्)
धनकीतो :	A slave bought with money (धन + कीत = की)
धनं :	Property, wealth, treasure, money (धन)
धनञ्जानि :	Loss of wealth (धन + ज्यानि)
धनवा :	Wealthy (धनवन्त्)
धनि :	Sound, noise (ध्वनित = ध्वन्)
धनिट्टा :	Name of one of the Nakkhattas (धनिष्ठा)
धणको :	A crow; sort of crane (धाङ्ग)
धाञ्जं :	Grain, corn (धान्य)
धाञ्जमासो :	A certain measure (धान्य + माष)
धाञ्जम्बिलं :	Sour rice gruel (धान्य + आम्ल)
धञ्जो :	Fortunate, lucky (धन्य)
धनो :	A bow, a measure of length (धनुम्)
धनुग्गहो :	An archer (धनुस् + ग्रह)
धरा :	The earth (धरा)
धारा :	A torrent, a stream; a shower; the sharp edge of a cutting instrument (धारा)
धाराधरो :	A cloud (धारा + धर)

धारको :	Bearing (धारक)
धरमाणको :	Living (धरमाण = धृ + क)
धरणं :	Bearing; a weight of ten Palas (धरण)
धारणं :	Presuming; bearing in mind; bearing, supporting (धारण)
धरणी :	The earth (धरणी)
धरति :	To like (धृ)
धारेति :	To bear; to carry; to hold; to keep; to wear, to possess; to restrain; to bear in mind; to know by heart (धारयति = धृ)
धारी :	Bearing in mind; wearing (धारिन्)
धारियति :	To be carried, worn
धरो :	Bearing; wearing; possessing, keeping in mind knowing by heart (धर)
धातकी :	The shrub <i>Grislea Tomertoso</i> (धातकी)
धातरट्टो :	Name of one of the four Maharajas: a sort of goose (धृतराष्ट्र)
धाती :	A nurse; a woman servant (धात्री)
धातु :	Primary or elementary substance; principle, element, material; a property of a primary substance, as a colour, taste, sound; an organ of sense: a bodily principle or humour of which there are three phelgm, wind and bile; a Constituent of the body as flesh, blood, bones; the remains of a body after cremation: a sacred relic: a fossil: a metal (धातु)
धातुगब्धो :	A relic- receptacle or shrine: the inner room of a stupa in which the sacred relic was deposited (धातु + गर्भ)
धातुकथाप्पकरणं :	Name of the third book of the Abhidhamma (धातु + कथा + प्रकरण)
धातुको :	Affected with (धातुक)
धातुलोको :	World of Dhatus, the aggregate of different elements (धातु + लोक)
धातुं :	See <i>Dadhathi</i>
धवलो :	White, glittering (धवल)
धावनं :	Running, going; washing (धावन)
धावति :	To run, to go (धाव)
धवो :	A husband, a shrub (धव)
धेनु :	A milch cow (धेनु)
धेनुका :	A milch cow (धुनका)

धेवनी :	Name of one of the notes of the Hindoo gamut (धैवती)
धेय्यं :	Realm, region (ध्येय = धा)
धी, धि :	Shame! fie! woe! (धिक्)
धी :	Knowledge, intellect (धी)
धीमा :	Wise (धीमन्त्)
धीरत्तं :	Fortitude (धीर + त्व)
धीरो :	Wise: resolute, firm, brave (धीर)
धीता :	A Daughter (दुहित्)
धिति :	Wisdom; fortitude; energy; courage (धृति)
धीतिका :	A daughter (दुहित् + का)
धितिमा :	A courageous, firm (धृतिमन्त्)
धीवरो :	A fisherman (धीवर)
धीयति, धीय्यति :	To be contained (धीयते = धा)
धोरहो :	A beast of burden, an ox (धुर + वाह + य)
धोतो :	Washed, cleaned, clear (धोल = धाव्)
धोवनं :	Washing (धावन)
धोवति :	To wash, to cleanse (धाव्)
धूलि :	Dust (धूलि)
धूमकेतु :	Fire, a comet (धूम + केतु)
धूमो :	Smoke, cremation of a dead-body (धूम)
धूम्याटो :	The fork-tailed strike (धूम्याट)
धूननं :	Shaking off
धूनाति :	To shake (धु)
धूपति, धूपायति :	To fumigate; to spit smoke (धूप)
धूपितो :	Suffering, pain (धूपित)
धूपो :	Incense (धूप)
धुरंधरो :	Bearing a burden: used metaphorically of a priest who supports, who is a supporter or pillar of religion
धुरो, धुरं :	A yoke: a burden, an office, charge, trust: a chief, Leader: the front of the head (धुर)
धूसरो :	Grey (धूसरो)
धूतङ्ग :	The thirteen Dhutangas are certain ascetic practices, the observance of which is meritorious in a Buddhist priest
धूतो, धूतो :	Shaken: removed (धूत, धूत = धू)

108 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

धुत्तो :	Fraudulent and gamster (धूर्त)
धुवति :	To go (धु)
धुवो :	Firm, stable: continual, permanent: fixed, certain (ध्रुव)
दिब्बचक्खु :	Divine eye, supernatural vision (दिव्य + चक्षुस्)
दिब्बचक्खुको :	Possessing the heavenly eye (दिव्य + चक्षुस् + क)
दिब्बमयो :	Celestial (दिव्य + मय)
दिब्बसोतं :	Divine ear, supernatural hearings (दिव्य + श्रोत्र)
दिब्बति :	To play, to sport (दिन्)
दिब्बो :	Celastial, heavenly, angetic, divine (दिव्य)
दिस्सति :	To see (दृश्)
दिद्धो :	Smearred (दिग्ध = दिह)
दीधिति :	Ray, light (दिथिति)
दिगच्छा :	Another form of <i>jigaccha</i>
दिगम्बरो :	Naked (दिगम्बर)
दिग्धिक्का :	An oblong pond or a moat (दीर्घिका)
दीघभाणको :	See (भाणको)
दीघदसो :	Having a large fringe or border (दीर्घ + दसा)
दीघदस्सी :	Far seeing, prophetic (दीर्घ + दर्शिन्)
दीघजीवी :	Long lived (दीर्घ + जीवित्)
दीघकालं :	For a long time (दीर्घ + काल)
दीघको :	Long (दीर्घ + क)
दीघनिकायो :	Long collecton (दीर्घ + निकाय)
दीघपिट्टिको :	A snake (दीर्घ + पृष्ठ + इक)
दीघरतं :	For a long time (दीर्घ + रात्र)
दीघसो :	In length, lengthways (दीर्घ + शस्)
दीघसुत्तो :	Slow, dilatory (दीर्घ + सूत्र)
दीघता :	Length (दीर्घता)
दीघतो :	In length (दीर्घ + तस्)
दीघत्त :	Length (दीर्घत्व)
दीघवण्टो :	The tree <i>calosanthos Indica</i> (दीर्घ + वृन्त)
दीघायुको :	Long lived (दीर्घ + आयु + क)
दीघो :	Long (दीर्घ)
दिगु :	A grammatical term, one of the <i>samasas</i> (द्विगु)
दिगुच्छति :	Another form of <i>Jigucchati</i>

दिगुणो :	Two fold, double, twice as many (द्वि + गुण)
दिजो :	See (द्विजो)
दिक्खा :	Sacrifice; worship, devotion (दीक्षा)
दिनकरो :	The sun (दिन + कर)
दिनं :	Day (दिन)
दिनपति :	The sun (दिन + पति)
दिन्दिभो :	Name of a bird (टिट्ठिभ)
दिन्नादायी :	Taking what is given, honest (दत्त + आदायिन्)
दिन्नो :	Given (दत्त = दा)
दीनो :	Poor, wretched (दीन = दी)
दिपादको :	Biped (द्वि + पाद् + क)
दीपदीपो :	Lamp or light of the island (द्वीप + दीप)
दिपदो :	Biped-a man (द्विपद्)
दिपदुत्तमो :	Greatest of men- Buddha (द्विपद् + उत्तम)
दिपको :	An island (द्वीप + क)
दीपको :	Illuminating; expounding; illustrating; publishing (दीपक)
दीपनं :	Expounding, illustrating; explaining (दीपन)
दीपङ्करो :	Name of one of the 24 Buddhas (दीपंकर)
दीपनो :	Explaining, proclaiming; illustrating (दीपन)
दीपट्टो :	Living of the island i.e. Ceylon (द्वीप + स्थ)
दीपवंसो :	Royal dynasty of Ceylon (द्वीप + वंश)
दीपेति :	To kindle; to illuminate; to throw light on; to illustrate; to
(Cans)	explain; to expound; to show, to point out, to announce, to
	declare, to publish (दीपयति = दीप्)
दीपी :	A panther (द्वीपिन्)
दीपी :	Teaching, proclaiming (दीप + इन्)
दीपिका :	A lamp; a torch (दीपिका)
दीपितो :	Manifested, declared (दीपित = दीप्)
दीपो :	A car covered with a panther's skin (द्वैप)
दीपो :	A lamp (दीप)
दीपो, दीपं :	An island: one of the four continents; a resting place, shelter,
	refuge (द्वीप)
दिप्पति :	To shine; to be illustrious; to prosper (दीप्)
दिरत्तं :	Two nights (द्वि + रात्र)
दिसा :	A quarter or point of the compass (दिश् + दिशा)

110 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

दिसाभागो :	A region, quarter (दिश् + भाग)
दिसागजो :	One of the elephants at the eight points (दिश् + गज)
दिसम्पति :	A king (दिश् + पति)
दिसन्तरं :	A foreign country (दिश् + अन्तर)
दिसन्तो :	End of the earth, a great distance (दिश् + अन्त)
दिसापामोक्खो :	Eminent, famed for a wide
दिसावासी :	Living in a foreign country or at a distance foreign (दिश् + वासिन्)
दिसावासिको :	Living in a foreign country (दिश् + वासिन् + क)
दिसो :	An enemy (द्विष्)
दिसो :	Appearance, resemblance (दृश्)
दिस्सको :	Visible (दृश्य + क)
दिस्सति, दिस्वा :	See पस्सति
दिट्ठा :	An exclamation expressive of joy, Thank heaven! (दिष्टा)
दिट्ठाधम्मिको :	Belonging to this world, temporal (दृष्ट + धर्म + इक)
दिट्ठधम्मो :	The visible condition, the present state of things; this world, this life, this state of existence (दृष्ट + धर्म)
दिट्ठधम्मो :	One who has seen the truth (दृष्ट + धर्म)
दिट्ठन्तो :	Example; illustration (दृष्ट + अन्त)
दिट्ठपदो :	One who has seen a Nirvana <i>Sotapanna</i>
दिट्ठपुब्बो :	Seen before: having formerly seen (दृष्ट + पूर्व)
दिट्ठि :	Sight, view, the eye: religious belief, the doctrine: false doctrine: heresy (दृष्टी)
दिट्ठो :	Seen, met with found (दृष्ट = दृश्)
दिट्ठो :	Hateful, hostile (द्विष्ट = द्विष्)
दित्ति :	Splendour, light (दीप्ति = दीप्)
दित्तो :	Blazing, radiant (दीप्ति = दीप्)
दित्तो :	Proud, arrogant (दृप = दृप्)
दिवा :	A day (दिवा)
दिवड्ढो :	See दियड्ढो
दिवाकरो :	The sun (दिवा + कर)
दिवसभागो :	Day time, time of day (दिवस + भाग)
दिवसो, दिवसं :	A day (दिवस)
दिवो :	The sky, the heavens: the devaloka (दिव्)
दिवोको :	Deva (दिवौकस्)

दियद्धो, दिवद्धो :	One and half (द्वितीय + अर्ध)
दीयति :	See ददाति
दो :	Giving (द)
दोहलिनी :	A pregnant woman (दौहदिनी)
दोहलो :	The longing of a pregnant woman; desire; longing (दोहद)
दोहति :	To milk (दुह)
दोला :	A swing, a palanquin (दोला)
दोमनस्सं :	Melancholy, gloom, dejection, grief (दौर्मनस्य)
दोमनस्सो :	Sorrowful, dejected (दौर्मनस्थ)
दोणी :	A trough a coffin: a tub: a dhoney or trough shaped canoe with an outrigger to steady it (द्रोणी)
दोणो, दोणं :	A dona or measure of capacity (द्रोण)
दोसञ्जू :	Skilled, expert, wise (दोष + ज्ञ)
दोसिनो :	Clear spotless night
दोसो :	By night (दोषा)
दोसो :	Defect, blemish; offence, guilt, sin, crime = injury, damage (दोष)
दोसो :	Anger (द्वेष)
दोवचस्सं :	Abusiveness, unruliness (दौर्वचस्य)
दोवचस्सता :	Abusiveness, unruliness (दौर्वचस्य + ता)
दोवारिको :	Watchman, warder or gate-keeper (दौवारिक)
द्रवो :	Liquid (द्रव)
दु :	See (द्वि)
दुब्बा :	The grass <i>Panicum Dactylon</i> (दूर्वा)
दुब्बचतं :	Unruliness (दुर्वचस् + त्व)
दुब्बचो :	Abusive, unruly, violent (दुस् + बचस्)
दुब्बलको :	Weak (दुर्बल + क)
दुब्बलत्तं :	Weakness (दुर्बलत्व)
दुब्बल्ल्यां :	Weakness (दुर्बल + य)
दुब्बण्णो :	Ill-favoured, ugly (दुस् + वर्ण)
दुब्भगो :	Unfortunate (दुस् + भग)
दुब्भासितो :	Ill spoken (दुस् + भाषित = भाष)
दुब्भक्खं :	Famine, want (दुस् + भिक्षा)
दुब्बिनीतो :	Miscreant, a scoundrel (दुस् + विनीत = नी)
दुब्भुट्ठि :	Drought (दुस् + वृष्टि)

112 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

दुच्चरितो :	Ill-conducted, bad (दुस + चरित = चर)
दुच्छन्नो :	Ill covered, badly roofed (दुस् + च्छन्न = च्छद्)
दुहमो :	Difficult to train, or tame (दुस् + दम)
दुहसो :	Difficult to see, difficult to perceive or understand: ugly (दुस् + दृश्)
दुद्धो :	Milked (दुग्ध = दुह)
दुद्दिनं :	A cloudy day (दुस् + दिन)
दुद्धिष्ठो :	Foolish, misguided (दुस् + दृष्ट = दृश्)
दुग्गहितो :	Badly grasped: deluded (दुस + गृहीत = ग्रह)
दुग्गमो :	Difficult to pass (दुस् + गम)
दुग्गन्धि :	Bad smell (दुस् + गन्धि)
दुग्गन्धो :	Ill-smelling, stinking (दुस् + गन्ध)
दुग्गति :	Distress, suffering, state of punishment (दुस् + गति)
दुग्गतो :	Distressed, wretched, poor (दुस् + गत = गम्)
दुग्गो :	Difficult to pass (दुर्ग)
दूहरो :	Difficult to take away (दुस् + हर)
दुहयति :	To injure (दुह)
दुहिता :	Daughter (दुहितृ)
दुज्जनो :	A bad man (दुस् + जन)
दुज्जरो :	Not easy to wear out, imperishable (दुस् + जरस्)
दुज्जीवं :	Hard to live, a hard life (दुस् + जीव)
दुज्जीविका :	Hard life (दुस् + जीव + इक)
दुज्जीवितं :	Hard life, wretched life (दुस् + जीवित)
दुकं :	Pair, two (द्विक)
दुक्करो :	Difficult (दुस् + कर)
दुक्कतं, दुक्कटं :	An offence; a sinful act: a sin (दुस + कृत = कृ)
दुक्खक्खयो :	Ceasation of suffering-Nirvana (दुःख + क्षय)
दुक्खापेति :	To cause to suffer: to afflict
दुक्खप्पत्तो :	Grieved, suffering (दुःख + प्राप्त = आप्)
दुक्खतां :	Suffering (दुःख + ता)
दुक्खी :	Sorrowful, suffering (दुःख + इन्)
दुक्खितो :	Afflicted, suffering, grieved; sick, ill: in difficulty or distress (दुःखित)
दुक्खीयति :	To be afflicted (दुःख)
दुक्खो :	Painful, grievous, unpleasant, difficult (दुःख)

दुक्खुपसमो :	Ceassation or destruction of suffering (दुःख + उपशम)
दुकूलं :	Fine cloth (दुकूल)
दुल्लभो :	Difficult to obtain, or to find, rare, few and far between (दुर्लभ)
दुमत्तो :	Two, about two (द्वि + मात्र)
दुम्बरिका :	The opposite leaved fig. tree
दुमिन्दो :	Forest king; monarch of trees (द्रुम + इन्द्र)
दुम्मनो :	Sad (दुस् + मनस्)
दुम्मति :	Foolish; evil-minded, wicked (दुस् + मति)
दुम्मेधी :	Foolish (दुस् + मेध + इन्)
दुम्मेधो :	Foolish (दुस् + मेध)
दुम्मोचयो :	Difficult to undo (दुस् + cou + मुख + य)
दुम्मुखो :	Foul-mouthed, scurrilous, sad (दुस् + मुख)
दुमो :	A tree (द्रुम)
दुमुप्पलो :	The plant <i>plerospermum, accriolium</i> (द्रुम + उत्पन्न)
दुन्दुभि :	A kettle drum (दुन्दुभि)
दुन्नामकं :	Hasmorrhoids (दुर्नामक)
दुन्नयता :	Wrong, drawing rut, misunderstanding (दुस् + नय + ता)
दुन्निग्गहो :	Difficult to restrain (दुस् + निग्रह)
दुनिवट्टो :	Wrongly or badly dressed
दुन्निवारयो :	Difficult to hold back (दुर्निवार्य = वृ)
दुफस्सो :	Rough (दुस् + स्पर्श)
दुप्पब्बज्जं :	The hard life of a Mendicant friar (दुस् + प्रव्रज्य)
दुप्पमुज्जो :	Difficult to loose (दुस् + प्र + मुच्)
दुप्पज्जो :	Foolish (दुस + प्रज्ञ)
दुप्पसहो :	Difficult to master or excel (दुष्प्रसह)
दुप्पतिमन्तियो :	Difficult to argue with (दुस् + प्रति = मंत्र + य)
दुप्पटिपज्जो :	Difficult to walk in or follow (दुस् + प्रति + पद् + य)
दुप्पटिविज्झो :	Difficult to penetrate or comprehend (दुस् + प्रति + व्याध्य = व्यध्)
दुप्पवेशो :	Difficult to enter (दुस् + प्रवेश)
दुप्पूरो :	Difficult to fall or to fulfill (दुष्पूर)
दूरो :	See दूरो
दुरभिरमो :	Difficult to enjoy, irksome (दुस् + अभिरम)
दुरच्चयो :	Difficult to overcome (दुस् + अत्यय)

114 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

दूरगामी :	Going far (दूर + गामिन्)
दूरक्खातो, :	Ill-preached or shown (दुस् + आख्यान = ख्या)
दुराख्यातो	
दूरक्खो :	Difficult to guard or watch (दूरक्ष)
दूरमं :	Absence of enjoyment, irksomeness (दुस् + रम)
दूरङ्गमो :	Going far (दूरंगम)
दुरन्नयो :	Difficult to follow (दुस + अन्वय)
दुरनुबोधो :	Difficult of comprehension (दुस + अनु + बोध)
दुरासदो :	Difficult to approach or to equal (दुरासद)
दूरतो :	From a far (दूरतस्)
दुरतं :	Two nights (द्वि + रात्र)
दुरावासो :	Disagreeable to live in (दुस् + आवास)
दुरितं :	Sin (दुस् + इत = इ)
दूरो :	Far, distant, remote (दूर)
दूरुत्तो :	Ill-spoken: abusive: badly pronounced (दुस् + उक्त = वच्)
दूसको :	Defiling: injuring: destroying (दूषक)
दूसनं :	Defilement (दूषण)
दूसेति : (cans)	To pollute, to spoil: to injure, to ruin (दूषयति = दुष्)
दुस्सहो :	Insupportable, violent (दुस् + सह)
दस्सं :	Cloth
दुस्सति :	To offend, to wrong (दुष्)
दुस्सीलो :	Immoral, wicked; impious (दुस् + शील)
दुस्सील्यं :	Wickedness, impiety (दुस् + शील + य)
दुस्सुतो :	Imperfectly heard (दुस् + श्रुत = श्रु)
दूतको :	A messenger (दूतक)
दूतेय्यो :	Suited to a messenger (दूत + एय)
दूती :	Female messenger (दूती)
दुत्तिको :	Second (द्वितीय + क)
दुत्तियो :	Second (द्वितीय)
दूतो :	A messenger, an emissary (दूत)
दूत्तरो :	Hard to cross (दुस् + तर)
दुट्ठो :	Compt, wicked, depraved: Bearing ill-will, angry (दुष्ट = दुष्)

दुष्टल्लो :	Wicked, lowed (दुष्टु + ल + य)
दुष्ट :	Ill, badly (दुस् + स्थ)
दुवारं :	A door (द्वार)
दुवे :	See (द्वे)
दुविधो :	Two fold, of two sorts (द्वि + विधा)
दुवुपसन्तो :	Ill-calmed, imperfectly tranquelized (दुस् + उपशान्त = शम्)
दुह्यति :	See (दोहति)
द्वाचताळीसा :	Forty two (द्वाचत्वारिंशत्)
द्वादसा :	Twelve (द्वादशन्)
द्वादसाकारो :	Having twelve aspects, twelve fold (द्वादशन् + आकार)
द्वादसमो :	Twelfth
द्वन्द्वं :	A couple (द्वन्द्व)
द्वन्द्वो :	Name of one of the samasas (द्वन्द्व)
द्वङ्गुलं :	Two finger-breadths or two inches (द्वि + अङ्गुल)
द्वारपरं :	Name of one of the Yugas or great periods (द्वारपर)
द्वारवाहा :	Door post (द्वार + वाहा)
द्वारबन्धनं :	The terrace before a house (द्वार + बन्धन)
द्वारकोट्टको :	The towers or battlements of a town-gate: a gate (द्वार + कोष्ट + क)
द्वारं :	A door, a gate: an entrance, an operature (द्वार)
द्वारद्वो :	A door-keeper, a porter (द्वार + स्थ)
द्वासट्ठी :	Sixty two (द्वाषष्टि)
द्वासीति :	Eighty-two (द्वशीति)
द्वत्तिक्खत्तुं :	Two or three times (द्वा + त्रि + कृत्वस्)
द्वत्तिस, स, सती :	Thirty two (द्वत्तिंशत्)
द्वत्तिसतिमो :	Thirty second
द्वावीसति, द्वावीसा :	Twenty two (द्वाविंशति)
द्वयो :	Of two sorts: two (द्वय)
द्वे, दुवे :	Two (द्वि)
द्वेभागो :	Broken in two. sundered (द्वि + भाग + अ)
द्वेभावो :	Doubling (द्वि + भाव)
द्वेभूमको :	Having two storeyed (द्वि + भूम + क)
द्वेभूतो :	Doubled (द्वि + भूत)
द्वेचत्तालीसा :	Forty two
द्वेधा :	In two parts (द्वेधा)

116 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

द्वेज्जं :	Duplicity (द्वैध्य)
द्वेकोट्टासो :	Divided into two parts
द्वेळक :	Doubt (द्वैध + क)
द्वेनवृत्ति :	Ninety-two (द्वानवृत्ति)
द्वेपक्खो :	Divided into two parts (द्वैपक्ष)
द्वि, वि, दु :	Two
द्विभावो :	Doubling (द्वि + भाव)
द्विभूमको :	Two storeyed (द्वि + भूम + क)
द्विधा :	In two ways, of two kinds (द्विधा)
द्वीहं :	Two days (द्वि + अहन्)
द्विहत्यो :	Two cubits long (द्वि + हस्त)
द्विजिह्वो :	Double tongued: treacherous (द्वि + जिह्व)
द्विजो :	Twice-born: oviparous: proceeding from one cause (द्विज्)
द्विजो, विजो :	A brahmin, a bird, tooth (द्विज)
द्विकं :	Two, a pair (द्विक)
द्विक्खत्तुं :	Twice (द्वि + कृत्वस्)
द्विपञ्च :	Ten (द्वि + पञ्चन्)
द्विपो :	An elephant (द्विप)
द्विरदो :	An elephant (द्वि + रद)
द्विसहस्सं :	Two thousand (द्वि + सहस्त्र)
द्विसतं :	Two hundred (द्वि + शत)
द्वित्ति :	Two or three (द्वि + त्रि)
द्वियासीति :	Eighty-two (द्वि + अशीति)

E

एधति :	To prosper, to increase (एध)
एधो :	Fire-wood (एध)
एदी :	Such (इदम् + दृश्)
एदिक्खो, एरिक्खो :	Such (इदम् + वृक्ष)
एदिसो, एदिसको :	Such (इदम् + दृश्)
एहिपस्सिको :	Inviting
एहिसागतवादी :	One who says to come and to be-welcomed (ehi + स्वागत + गम् + वादिन्)
एहिसी, एहिति :	See एति
एजा :	Desire, lust, craving, distraction, motion (एज)
एकाबद्धो :	Contiguous; continuous (एक + आबद्ध + बन्ध्)
एकभत्तं :	One meal a day (एक + भक्त)
एकभत्तिको :	Having one meal a day (एक + भक्त + इक)
एकचरिया :	Walking alone, solitary (एक + चर्या)
एकाचरियो :	Having the same teacher (एक + आचार्य)
एकचरो :	Walking alone, solitary (एक + चर)
एकच्छन्दो :	Unanimous (एक + च्छन्द्)
एकच्छत्तं :	A single, dominion (एक + छत्र)
एकच्चो :	One or a certain (एकतर)
एकचित्तो :	Having the same thought, of one mind (एक + चित्त)
एकचीवरो :	Wearing a single garment (एक + चीवर)
एकदा :	One day, once: on the same day (एकदा)
एकादस :	Eleven (एकादशन्)
एकादसमो :	Eleventh (एकादशम्)
एकदसी :	Eleventh day of the half month (एकादशी)
एकदेसो :	A part, a portion (एक + देश्)
एकधा :	In one way (एकधा)
एकधीतिका :	An only daughter (एक + दुहितृ + का)
एकदिवसं :	One day, on a certain day (एक + दिवस)
एकागारिको :	A thief, a robber (एकागारिक)
एकगता :	Tranquillity of the mind, abstraction of the mind, contemplation (एकाग्र + ता)

118 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

एकगो :	Calm, tranquil (एक + अग्र)
एकघनो :	Solid (एक + घन)
एकाहं :	One day (एक + अहं + म्)
एकाहेन :	In one day
एकजालीभवति :	To become one mass of fame (एक + ज्वाल + ई + भू)
एकज्झं :	In the same place, in conjunction, together (एकाध्यम्)
एकज्झासयता :	Unanimity (एक + अधिआशय + ता)
एकजो :	Proceeding from one cause (एकज)
एकाकी :	Alone, solitary (एकाकित्)
एकक्खणे :	At the same moment (एक + loc. क्षण)
एकक्खत्तुं :	Once (एक + कृत्वस्)
एकक्खी :	One eyed (एक + अक्ष + इन्)
एकको :	Alone, solitary (एकक)
एकमानसो :	Unanimous (एक + मानस्)
एकमनो :	Unanimous (एक + मनस्)
एकमन्तं :	On one side, apart (एक + अन्त + म्)
एकमन्ते :	On one side (एक + अन्त loc)
एकमन्तिकं :	On one side (एक + अन्त + इक)
एकमेको :	Each (एक + एक)
एकमिदाहं :	See (इदं)
एकंसं :	One one shoulder (एक + अंस)
एकांसिको :	Certain (एक + अंश + इक)
एकंसो :	This word is a compound of (एक + अंश)
एकनिन्नादो :	Filled with noise (एक + निस् + नाद)
एकन्तो, एकन्तं :	One end, one side (एक + अन्त)
एकपदी :	A path (एकपदी)
एकप्पहारेन :	Unanimously, in unison, simultaneously (Inst. एक + प्रहार)
एकपुत्तो, एकपुत्तको :	An only son (एक + पुत्र + पुत्रक)
एकरज्जं :	Solve sovereignty (एकराज्य)
एकारम्मणो :	Having the same substratum, basis or object (एक + आलम्बन)
एकारस :	Eleven (एकादशन्)
एकारो :	The letter (एकार)
एकासनं :	Sitting apart or alone (एक + आसन)

एकासनिकङ्गः	Precept enjoying eating at one sitting (एक + आसन + इक + अङ्ग)
एकसेय्या :	Sleeping alone, or apart: single couch (एक + शय्या)
एकसो :	One by one (एकशस्)
एकातपत्तः	One dominion, lit, one parasol (एक + आतपत्र)
एकतो :	Together: on one side; apart, alone (एकतस्)
एकत्तः	Unity (एकत्व)
एकट्टानं :	One place, the same place (एक + स्थान)
एकवचनं :	One word: the singular number in grammar (एक + वचन)
एकवत्थु :	One subject (एक + वस्तु)
एकवत्थुको :	Having the same ground or cause (एक + वस्तु + क)
एकविधो :	Single (एक + विधा)
एकायनं :	The only way or means
एकेको :	One by one, each, severally (एकेक)
एकीभावो :	Solitude (एकीभाव)
एको :	One, single: alone: a certain: the same: chief: pre-eminent, unique: general (एक)
एकोदिभावो :	One pointedness, concentration
एकुद्देशो :	Having the same teaching or studies (एक + उद्देश)
एकूनको :	Deficient by one (एक + ऊन + क)
एकूनो :	Deficient by one, minus one (एक + ऊन)
एला :	Cardamoms (एला)
एळा :	Saliva
एळगलो :	The plant Cassia Tora (एडगल)
एळको :	A ram a wild goat (एडक)
एळको :	A threshold
एळालुकं :	A kind of Cucumber (एवरू + क)
एनं :	Fault, sin (एनस्)
एळमूगो :	Deaf and dumb (एडमूक)
एळिका :	See (एकको)
एन :	'This' or 'it'—a pronominal base (एन)
एण्यो :	A kind of antelope (एण + एय)
एणो :	A kind of antelope (एण)
एरण्डो :	The castor-oil plant (एरण्ड)
एरावणो :	Indra's elephant (ऐरावण)

120 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

एरावत :	The orange tree (ऐरावत)
एरिसो :	See (एदिसो)
एसा :	See (एसो)
एसको :	Seeking (एस + अक)
एसं, एसानं, एसु :	See (अयं)
एसना :	Wish, desire (एषणा)
एसति :	To seek, to search, to desire, to strive, to obtain (एष्)
एसी :	Seeking, desiring (एषिन्)
एसिका :	A pillar in front of a city gate
एसिकद्वयी :	Stable as a pillar (Esika + स्थायिन्)
एसो, एसा :	This, this one; that (एतद्)
एतब्बो :	That ought to go (एतव्य = इ)
एतद :	See एसो
एतदग्गं :	Chief place, pre-eminence, the chief, the best (एतद् + अग्र)
एतादिसो, एतारिसो :	Such (एतादृश)
एतं :	See एसो
एतरहि :	Now (एतर्हि)
एत, एतेसं :	See एसो
एति :	To come, to go, to attain, to undergo (इ)
एतिहयं :	Oral tradition (ऐतिह्य)
एत्तको :	So great, so much, so many
एत्तावता :	So far, to that extent, thereabout, thus (Instr एकवन्त्)
एत्थ :	Here, herein, now
एत्तो :	So great, so much
एत्तो :	Hence (इदम् + तस्)
एव, येव, हेव :	Just, quite, even, only (एव)
एवं :	Thus
एवमादि :	Beginning thus, such and the like (एवमादि + क)
एवमाहारो :	Living on such and such a food (एवम् + आहार)
एवंधम्मो :	Of such a nature, such (एवम् + धर्म)
एवमेव :	In this very way, even thus (एवम् + एवम्)
एवंमहानुभावो :	Of such great power (एवम् + महा + अनुभाव)
एवं नामो :	Having such and such a name (एवम् + नामन्)
एवंसञ्जी :	Having this thought (एवम् + संज्ञा + इन्)

एकमुच्चो :	Of such a height (एवम् + उच्च)
एवंवादी :	Saying thus, holding this doctrine (एवम् + वादिन्)
एवंवादिता :	Saying thus, adherence to this doctrine (एवम् + वादिन + ता)
एवंविधो :	Of such kind, such (एवम् + विधा)
एवंविपाको :	Having such and such a result (एवम् + विपाक)
एवङ्गरुको :	Of such importance or value (एवम् + गुरु + क)
एवङ्गतिको :	Such, similar, analogous (एवम् + गत + इक)
एवङ्गोत्तो :	Of such a family (एवम् + गोत्र)
एवंहि :	See एवं
एवंनामको :	So named (एवम् + नामक)
एवरूपो :	Such, of this sort (एवम् + रूप)

G

गब्भरं :	A cavern (गहूर)
गब्भासयो :	The womb (गर्भ + आशय)
गब्भासेय्या :	The womb (गर्भ + शय्या)
गब्भावकृन्ति :	Entrance of the embryo into the womb, commencement of pregnancy (गर्भ + अवकृन्ति)
गब्भिणी :	A pregnant woman (गर्भिणी)
गब्भो :	The womb; interior: an embryo: a foetus: a sprout: an inner room, a closet, a private sitting room, a bed room, : the early stage of a flower (गर्भ)
गब्भुप्पत्ति :	Conception (गर्भ + दत्पत्ति)
गब्भितो :	Proud (गर्वित)
गब्भो :	Pride (गर्व)
गभीरो, गम्भीरो :	Deep (गभीर)
गच्छापेति :	To cause to go; to send
गच्छति :	To go; to go to; proceed: to depart (गम्)
गच्छो :	A shrub, a plant (गच्छ)
गदा :	A club (गदा)
गदति :	To speak (गद)
गद्दभण्डो :	The tree, the spesia, Populneoides (गद्दभाण्ड)
गद्धो :	A vulture (गृध्र)
गाधति :	To stand fast; to have a firm footing (गाध्)
गधितो :	Clinging to, desiring (गध्)
गदितो :	Spoken; said (गदित = गद्)
गदो :	Disease (गद)
गद्दभो :	An ass (गद्दभ)
गगनं :	The sky (गगन)
गग्गरी :	A churn: a blacksmith's bellows (गग्गरी comp.)
गाहको :	Taking, receiving, holding (ग्राहक)
गहं, गहो :	A house (गृह)
गहनं :	See गहनो
गहणं :	Taking, receiving, holding, grasping, seizing; acquiring, learning, mastering, comprehension; clinging to the world, attachment, desire; an eclipse (ग्रहण)
गहणी :	The belly, the internal fire promoting digestion (ग्रहणी)

गहनो :	Impervious, tangled, impenetrable (गहन)
गाहपच्चो :	The sacred fire kept up by the house-holder (गार्हपत्य)
गाहापको :	Causing to take distributing
गाहपनं :	Causing to take
गहपति :	A householder; the head of a household, master of a house (गृह + पति)
गहपतिको :	A householder (गृहपति + क)
गहपतिमहासालो :	A wealthy house-holder (गृहपति + महा + सार)
गहापेति :	To cause to be taken: to deliver to (caus गण्हाति)
गहट्टो :	One who lives in a house: a gentleman, as opposed to priest (गृहस्थ)
गाहति, गहेति :	To wade, to dive, to enter (गाह)
गाहेति, : (Caus) गण्हाति	To cause to take; to include, to embrace, to hold, to contain, to take, to seize; to obtain, to receive, to acquire, to buy; to inform, to teach; to undergo (ग्राह्यति = ग्रह्)
गहितको :	Accepted (गृहित + क)
गहितो :	Taken, received: held, kept: grasped, seized: caught, captured: occupied, taken possession of (गृहीत = ग्रह्)
गहो :	Taking, holding (ग्रह)
गहो :	Taking, receiving, seizing: a planet: a yakkha: a shark: a crocodile (ग्रह)
गाहो :	Taking, holding, seizing (ग्रह)
गाहो :	Taking, acceptance: capture, seizure: holding: a seizure or eclipse of a planet: one that seizes, a yakkha, a crocodile: idea, inclination attachment, desire (ग्रह)
गजता :	A herd of elephants (गज + ता)
गज्जनं :	Roaring or thundering (गर्जन)
गज्जति :	To roar, to thunder (गर्ज्)
गजो :	An elephant (गज)
गकारो :	The letter G. (ग + कार)
गलति :	To flow away; to fall; to vanish; to eat (गल्)
गालनो :	The tree <i>symplokos Racemosa</i> (गालन)
गलो :	The throat (गल)
गळोची :	The shrub <i>loceulus cordifolins</i> (गुडूची)
गमा :	See (गच्छति)
गामधम्मो :	Sexual intercourse, fornication (ग्राम + धर्म)

124 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

गामको :	A village (ग्रामक)
गमनं :	Going, journey: march: departure, walk, (गमन्)
गामणी :	Chief or head of a village (ग्रामणी)
गमनीयो :	Transient; accessible: that ought to go (गमनीय)
गामणीयो :	An elephant or horse trainer (ग्रामणीय)
गामन्तरं :	Distance between two villages (ग्राम + अन्तर)
गामन्तो :	Border or outskirts of a village (ग्राम + अन्त)
गमापेति :	To cause to go, to send (गम) (caus गच्छति)
गामता :	A collection of villages (ग्रामता)
गम्भीरता :	Depth (गम्भीर + ता)
गम्भीरतो :	In depth (गम्भीर + तस्)
गम्भीरो, गभीरो :	Deep, unfathomable: profound, abstruse; full of meaning; important, weighty (गम्भीर, गंभीर)
गमेति, गामेति :	To cause to go, to send (गमयति = गम्) (caus गच्छति)
गमि :	See गच्छति
गामी :	Going, loading to, attaining (गामिन्)
गमिको :	Going, travelling (गम् + इक)
गामिको :	Travelling (गमिक)
गामिको :	A villager, or perhaps a village headman (ग्रामिक)
गमिस्सति :	See गच्छति
गमितब्बो :	That ought to go
गमितो :	Gone (गम = गच्छति)
गमीयति :	See गच्छति
गम्मा :	See गच्छति
गम्मो :	Accessible, attainable (गम्य = गम्)
गम्मो :	Belonging to villages, rustic, pagan (ग्राम्य)
गमो :	Going (गम)
गमो :	Going, journey, march (गम)
गामो :	A village; a multitude, a collection (ग्राम)
गामुचारो :	Outskirts or entrance of a village (ग्राम + उपचार)
गम्यते :	See गच्छति
गणकम्मं, गणभोजनं :	See गणो
गणको :	An accountant, treasurer = an astrologer (गणक)

गानं :	A song (गान)
गणना, गणनं :	Counting, calculation; number (गणना)
गणनपथो :	Range of calculation or counting (गणन + पथ)
गणापेति :	To cause to be counted
गणसञ्जायो :	A repetition by a number of priest in unison, a chorus (गण + स्वाध्याय)
गच्छि :	See गच्छति
गण्डको :	A rhinseeros: a sort of fish (गण्डक)
गण्डम्बो :	Name of a tree
गन्धब्बो :	A Gandharva or celestial musician (गन्धर्व)
गन्धकुटी :	Perfumed chamber, name of a room or hut occupied by the Buddha (गन्ध + कुटी)
गन्धमादनो :	Name of a mountain (गन्ध + मादन)
गन्धनं :	Injuring, destroying (गन्धन)
गन्धारा :	Name of a people (गन्धार)
गन्धारो :	One of the notes of the Hindu Gamut (गान्धार)
गन्धि :	A substitute for Gandhs at the end of some compounds
गन्धिको :	A perfume seller (गान्धिक)
गन्धो :	Smell, odour: perfume, fragrance; fragrant substances, a mere whiff or scent of a thing (गन्ध)
गण्डो :	Elephant's temples: cheek: a boil (गण्ड)
गण्डुलो :	Humpbacked (गण्डुल)
गण्डुप्पादो :	A sort of worm (गण्डूपद)
गणेति :	To count, to reckon: to value, to regard (गण)
गङ्गा :	The river ganges, the milky way (गङ्गा)
गङ्गेय्यो :	Belonging to the Ganges (गङ्गेय)
गणहनं :	Taking, receiving, catching
गणहापेति :	To cause to be taken
गणहाति :	To take, to receive, to accept; to catch, to capture; to arrest, to sieze: to buy; to acquire, to obtain, to get possession of; to adopt, to grasp with the mind, to perceive, to comprehend, to learn, to approve, to agree to, to mind, to regard (ग्रह)
गणी :	Having many disciples (गणिन्)
गणिका :	A courtesan (गणिका)
गणितो :	Counted, reckoned (गणित = गण)

126 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

गणो :	A multitude, number, assemblage, troop, herd: a chapter of priests: the priesthood (गण)
गन्तव्यो :	That ought to go (गन्तव्य = गम्)
गन्थति, गन्थेति :	To connect; to tie to connect, to compose (ग्रन्थ्)
गन्थि :	A joint; a knot; a tie, bond (ग्रन्थि)
गन्थो :	A bond, a tie; a literacy composition, book (ग्रन्थ)
गन्तुं, गन्त्वा :	See गच्छति
गरहा :	Blame, reproof, contempt (गर्हा)
गरहनं :	Blame, contempt (गर्हण)
गरहति :	To blame, to disparage, to despise (गर्ह)
गरही :	Censuring, despising (गर्हिन्)
गरलं :	To venom of a snake (गरल, गरद्)
गारबता :	Respect (गौरवत्व)
गारवो :	Respect, reverence; weight, authority, importance (Gara + अ, comp. गौरव)
गारह्यो :	Contemptible, blamable, low, base, absurd (गार्ह्य)
गरु :	Heavy: large, weighty: important: venerable (गुरु)
गरु :	A parent; a teacher; a religious preceptor (गुरु)
गरु :	A bird's wing (गरुत)
गरुगल्भता :	Pregnancy (गुरु + गर्भ + ता)
गरुको :	Heavy; severe: serious: grievous: weighty, important (गरुक)
गरुळो :	A Garuda, bird (गरुड)
गतद्धी :	One whose journey is ended, who has reached his destination (गत + अध्वन् + इन्)
गतसत्तो :	Lifeless (गत + सत्त्व)
गाथा :	A verse or stanza (गाथा)
गति :	Journey, going, march: course: refuge, resting place, abode: way of turning out, result, issue, consummation: mode of rebirth after death, state of existence, future state, destiny: rebirth, transmigration, existence: good state, safety, happiness: discretion, prudence, wisdom (गति)
गतिमा :	Having the power for motion (गतिमन्त्)
गतो :	Gone to, reached : walking, going: having come to, having attained: directed to, devoted to, occupied with; having entered, being in, being upon: departed, gone, disappeared (गत = गम्)

गतं :	The body = a limb (मात्र)
गवजो :	See (गवयो)
गवखो :	A round window: air-hole: bull's eye (गवाक्ष)
गवं, गावं :	See गो
गवम्पति :	One who owns or herds cattle (गो + पति)
गवस्सकं :	Cows, horses (गो + अश्व + क)
गवयो, गवजो :	A species of ox (गवय)
गवेळक :	Cows and sheeps (गो + एडक)
गवेसको :	Seeking (गवेष् + अक)
गवेसना :	Search (गवेषणा)
गवेसति, गवेसेति :	To seek (गवेष्)
गवेसी :	Seeking (गवेषिन्)
गावेय्यो :	Belonging to cattle (गो + एय)
गावी :	A cow
गावो :	See (गो)
गावुत :	A measure of length - the fourth part of a योजन league (गव्यूति)
गव्यो :	Bovine (गव्य)
गायको :	A singer, chorister (गायक)
गायनं :	Singing (गायन)
गायति :	To sing (गै)
गायत्ति :	Name of a metre (गायत्री)
गह्य, गह्यति :	See (गण्हाति)
गह्यो :	That can be taken, seized, grasped (ग्राह्य = ग्रह)
गेधो :	Greed, desire (from गृध्)
गेहं, गेहो :	A house (गेह)
गेलञ्जं :	Sickness, illness (ग्लानि)
गेण्डुको :	A ball to play with (गेण्डुक)
गेरुकं :	Red chalk (गैरिक)
गेय्यं :	Mixed prose and verse (गे = गै)
घच्चो :	To be destroyed (घात्य)
घम्मति :	To go
घम्मो :	Heat, hot season; sweat (घर्म)
घंसति :	To grind, to rub (घृष्)
घनच्छायो :	Deep standed, thickly wooded (घन् + छाया)

128 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

घानं :	The nose, the organ of smell (घ्राणं)
घनसारो :	Comphor (घन + सार)
घञ्जं :	Destruction (from हन्)
घनो :	Dense, solid, firm uninterrupted (घन)
घनोपलं :	Hail (घन + उपल)
घण्टा :	A bell (घण्टा)
घण्टिको :	A balled singer (घण्टिक)
घरगोलिका :	A lizard (गृह + गोधिका)
घरकं :	A house (गृह + क)
घरं, घोरो :	A house (गृह)
घरणी :	A wife (गृहिणी)
घरावासो :	Living in a house or at home; the householder's or layman's life as opposed to the life of an ascetic (गृह + आवास)
घसति :	To eat (घस्)
घस्मरो :	Gluttonous (घस्मर)
घासो :	Eating, pasturing; food, fodder, meadow's grass (घास)
घटा :	Multitude, many; junction (घटा)
घातको :	Killing, destroying, murdering, sacking (घातक)
घतं :	Ghee or clarified butter (घृत)
घटनं :	Junction (घटन)
घातनं :	Slaughter (घातन)
घातनो :	Destroying (घातन्)
घातापेति :	To cause, to be slain (घात)
घाटापेति :	To cause to be united
घाटति :	To endeavour, to strive, to exert oneself; to join, to adapt (घट्)
घाटेति :	To join, to unite: to endeavour, to strive (घटयति, घाटयति = घट्)
घातेति :	To kill; to cause to kill (घातयति = हन्)
घटी :	A jar (घटी)
घाति :	Killing (धातिन्)
घटिका :	The sixtieth part of a day and night, twenty four minutes (घटिका)
घातिको :	Mixed with clarified butter (घार्तिक)
घातितो :	Slain (घातित + हन्)

घटीयन्तं :	The rope and bucket of a well (घटी + यन्त्र)
घटो :	A jar: a bowl (घट)
घातो :	Slughter, destruction (घात)
घट्टनं :	Touching, knocking, rubbing, shaking (घट्टन)
घट्टेति :	To touch: to shake: to speak spitefully to, to annoy: to join (घट्ट)
घातुको :	Mischievous, destructive (घातुक)
घायनीयो :	Odorous (घ्राथनीय)
घायति :	To smell (घ्रा)
घेप्पति :	To take (ग्रभ्)
घोरो :	Dreadful, terrible (घोर)
घोसना :	Sounding, proclaiming (घोषणा)
घोसनो :	Sounding (घोषण)
घोसवा :	Sounding, sonant (घोषवत्)
घोसेति, घोसापेति :	To shout, to proclaim (caus. घुष)
घोसो :	Sound, noise: rumour: voice: a village of herdsmen (घोष)
घोटको :	A sort of horse (घोटक)
घुट्टो :	Shouted, proclaimed (घुष्ट = घुष्)
गिद्धी :	Greedy (गृध्र)
गिही :	A layman, as opposed to a priest (गृहिन)
गिज्झति :	To be greedy (गृध्)
गिज्झो :	A vulture
गिलानको :	Ill (ग्लान + क)
गिलानो :	Sick or ill (ग्लान = ग्लै)
गिलति :	To devour, to swallow (गृ)
गिम्हानं :	The hot season (ग्रीष्म)
गिम्हो :	The hot season; summer (ग्रीष्म)
गिङ्गामकं :	A sort of ornament
गिनि :	Fire (अग्नि)
गिञ्जका :	A tile; a brick
गिरा :	Voice, utterance, speech (गिरि)
गिरि :	A mountain (गिरि)
गिरिकण्णी :	The plant, <i>elitoria tematea</i> (गिरिकण्णी)
गिरिमल्लिका :	The plant <i>wright a auldysenterica</i> (गिरि + मल्लिका)

130 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

गिरिमेखलो :	Name of Mara's elephant (गिरि + मेखला)
गीतं :	Singing, a song or hymn (गीत = गै)
गीतिका :	A song (गीतिका)
गीवा :	The neck or throat: debt (ग्रीवा)
गीवट्टि :	The collar-bone (ग्रीवा + अस्थि)
गीवेय्यं :	A neck ornament, necklace (गैवेय)
गो, गु :	Going: being (ग) only at the end of a compound word
गो :	A bullock, a bull, an ox : a cow, the earth: speech गो
गोचरियो :	Brown, reddish
गोचरो :	Pasture: food: prey: abode, resort: sphere, range, province: an object of sense, as form, sound (गोचर)
गोच्छको :	A bunch; or a cluster of blossome (गुच्छक)
गोध्या :	An iguana a very large sort of lizard (गोध्या)
गोधनं :	Property in cattle (गो + धन)
गोधूमो :	Wheat (गोधूमो)
गोधातको :	A cow-killer (गो + धातक)
गोकण्णो :	A large species of deer, called elk, in Ceylon: a span (गो + कर्ण)
गोकण्टको :	The hoof of an ox: the plant <i>astracantha, longifolia</i> (गोकण्टक)
गोखीरं :	A cow's milk (गो + क्षीर)
गोकुलं :	A shed for cows: cow-stable (गो + कुल)
गोळिको :	A ball or hump (गोलक)
गोळिको :	Prepared with molasses (गौडिक)
गोलिसो :	Name of a plant (गोलिह or गोलिढ)
गोळो :	A ball (गोल)
गोलोमी :	Name of several plants (गोलामी)
गोमा :	A cattle owner (गोमन्त्)
गोमयो, गोमयं :	Cow-dung (गोमय)
गोमिको :	A cattle owner (गोमिन् + क)
गोनको :	A woollen coverlet with a very long fleence
गोनङ्गुलो :	The black faced monkey (गो + लाङ्गुल)
गोनसो :	A kind of large snake, viper (गो + नस)
गोणो :	A bullock, an ox (गो + ण)
गोपखुमो :	Having eyelashes like a heifer (गो + पक्ष्मन्)
गोपको :	A cow-herd (गोपक)

गोपको :	One who guards or takes care of, guardian, watchman (<i>cans from गुप्</i>)
गोपानसी :	The A shaped rafters of the roof of a hut (<i>गोपानसी</i>)
गोपति :	A bull (<i>गो + पति</i>)
गोपति, गोपयति, :	To guard, to keep, to protect (<i>गुप्</i>)
गोपेति, गोपायति :	
गोपी :	A cowherd, a herdsman (<i>गोप</i>)
गोप्फको :	The ankle (<i>गुल्फ + क</i>)
गोप्फो :	The ankle (<i>गुल्फ</i>)
गोपुरं :	The towers or battlements over the gates of a fortified town; a watch tower (<i>गो + पुर</i>)
गोपुरद्वो :	Standing on the battlements (<i>गोपुर + स्थ</i>)
गोरक्खा :	Cow-keeping (<i>गो + रक्षा</i>)
गोरक्खो :	A cowherd (<i>गो + रक्ष</i>)
गोरसो :	Produce of the cow (<i>गो + रस</i>)
गोरो :	White (<i>गौर</i>)
गोसाला :	Cow-stable (<i>गो + शाला</i>)
गोसामिको :	A cattle-owner (<i>गो + स्वामिन् + क</i>)
गोसङ्गयो :	A cowherd (<i>गो + संख्य</i>)
गोसीसं :	A kind of sandalwood (<i>गो + शीर्ष</i>)
गोतमो :	Descended from or belonging to Gotama, a Gautama or Gotamid (<i>गौतम</i>)
गोत्रभू :	One who is in a fit state to receive sanctification, a priest (<i>गोत्र + भू</i>)
गोत्तं :	Family, lineage, family name (<i>गोत्र</i>)
गोद्वं :	A cattle shade, a cow stable (<i>गोष्ठ</i>)
गोविन्दो :	A cattle owner: a head herdsman (<i>गोविन्द or गोपेन्द्र</i>)
गोयूथं :	A herd of cattle (<i>गो + यूथ</i>)
गू :	See (<i>गो</i>)
गुदं :	The anus (<i>गुद</i>)
गुग्गुलु :	A fragrant gum (<i>गुग्गुलु</i>)
गुहा :	A cave: the heart (<i>गुहा</i>)
गुहासयो :	Whose seat is the heart (<i>गुह + शय</i>)
गुहेति :	To conceal (<i>गूहयति cans. गुह</i>)
गुला :	A pock, or a pimple (<i>गुला</i>)

132 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

गुळको :	A ball (गुडको)
गुळाफलो :	The tree <i>careya urborea</i> (गुड + फल)
गुळ्हो :	Secret, concealed (गूढ = गुह)
गुळिकीळा :	Game of a ball (गुली + क्रीडा)
गुळो :	Molasses, sugar: a ball, a globe: a ball or mouthful of food (गुड)
गुणवा :	Excellent, virtuous (गुणवन्त्)
गुणडा :	The grass <i>cyperus perteruis</i> or its root (गुन्दा)
गुणितो :	Multiplied (गुणित = गुण)
गुञ्जा :	The shrub <i>abms precatorius</i> : the smallest weight of a jeweller (गुञ्जा)
गुणियो, गुणिट्टो :	Better and best
गुणो :	A bow string: a lime: a quality: property characteristic, merit; efficiency; virtue: excellence: piety (गुण)
गुण्ठेति :	To cover, to ensnare (गुण्ठ)
गुण्ठको :	See (अहिगुण्ठको)
गुरु :	Heavy
गुरुवारो :	Thursday (गुरु + वार)
गूढं, गूढो :	Excrement (गूथ)
गुत्ती :	Preserved, protected; guarded, hidden (गुप्त = गुप्)
गुह्यको :	A class of demigods, who are attendants of Kuvera (गुह्यक)
गुह्य :	A secret; <i>pudendum</i> (गुह्य = गुह)

H

ह :	An emphatic particle, the sanskrit, ह, sometimes used after Iti
हा :	Ah! Oh! alas! (हा)
हृदयोग :	Going to the heart, vital (हृदय + ग)
हृदयालु :	Good hearted, kind, the beat (हृदयालु)
हृदयं :	The heart, the mind, the breast (हृदय)
हृदयङ्गमो :	Going to the heart, touching, affectionate, touching, kind (हृदयङ्गम्)
हृदयङ्गतो :	Learn by heart (हृदयम् + गत = गम्)
हृदयि :	Benevolent, kind (हृदयिन्)
हृज्जो :	Beloved, dear, pleasant (हृध)
हलाहलो :	A sort of poison (हलाहल)
हलं :	This is another form of alam (अलं)
हलं :	A plough (हल)
हलिद्धा :	Turmeric (हरिद्रा)
हलिद्धाभो :	Yellow (हरिद्र + आभा)
हम्भो :	Here! Sirrho! (हंहो)
हम्मियं :	A house (हर्म्य)
हंसियति :	To bristle (from हृष्)
हंसो :	A goose, a swan (हंस)
हानं :	Relinquishing, falling away from (हान)
हाननं :	Killing, destroying; removing (हानन)
हनापेति :	To cause to be killed (caus. हन)
हानति :	To smile, to kill (हन्ति)
हन्त :	Come! alas! (हन्त)
हनेति :	To cause to be killed (caus. हन)
हानि :	Loss, deterioration, decay, abandonment
हञ्जति :	See हनति
हन्ता :	One who strikes or kills (हन्तृ)
हन्ति :	To strike, to beat: to kill, to murder; to destroy, to put an end to: to remove (हन्)
हनु :	The jaw (हनु)

134 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

हनुति :	To conceal oneself (हु)
हापेति :	To dismiss: to forego: to forsake: to neglect: to loose: to omit (हापयति = हा)
हारको :	One who takes (हारक)
हरणं :	Taking: stealing: removal (हरण)
हरापेति :	To cause to be removed
हरति :	To carry, to convey, to bring; to carry away, to remove; to take, to sieze; to steal, to plunder: to bring, to offer: to charm (ह)
हरे :	Here! Sirrah!
हारेति :	To cause to be carried: to take away, remove (हारयति = ह)
(caus हरति)	
हरि :	Green, yellow, towny (हरि)
हरि :	Green or yellow colour: gold: Vishnu (हरि)
हारि :	Handsome (हारि)
हारी :	Taking, robbing: captivating (हारिन्)
हरिचंदनं, चंदनो :	Yellow sandalwood (हरि + चन्दन्)
हारिणिको :	A deer- hunter (हारिणिक)
हरिणो :	A deer or antelope (हरिण)
हरीतकी, को :	Yellow myrobalan (हरीतकी)
हरितालं :	Yellow orpiment (हरिताल)
हरितत्तं :	Yellowness (हरित + त्व)
हरितो :	Green (हरित, हरित्)
हारियो :	To be taken, removed (हार्य = ह)
हरो :	Taking, seizing (हर)
हरो :	Siva (हर)
हारो :	Taking: necklace (हार)
हसमानको :	Laughing, merry
हसनं :	Laughter (हसन)
हसति :	To laugh, to be merry (हस्)
हसितो :	Smiling, laughing, merry (हसित = हस्)
हासो :	Laughter; mirth, joy (हास)
हस्सो :	Ridiculous (हास्य = हस्)
हातव्यो :	That ought to be abandoned (हातव्य = हा)
हाटकं :	Gold (हाटक)

हातत्तं :	Destruction (हत = त्वं)
हतावकासो :	One who has removed all occasions for good or evil (हत = हन् + अवकाश)
हठो :	Violence, force, rapine (हठ)
हतो :	Killed, destroyed, injured, spoilt: removed, put an end to (हत = हन्)
हटो :	Seized, carried away (हत = ह)
हट्टचित्तो :	Joyful (हृष्ट + चित्त)
हत्थगतो, हत्थङ्गतो :	Passed into a person's hands, in his power or possession, secure, certain (हस्त + गत = गम्)
हत्थगो :	In one's power, in one's possession, secure (हस्त + ग)
हत्थकम्मं :	Manual labour (हस्त + कर्मन्)
हट्टलोमो :	Astonished, overjoyed (हृष्ट + लोमन्)
हत्थानीकं :	The elephants of an army, elephant-host (हस्तिन् + अनीक)
हत्थपासो :	A measure of distance (हस्त + पाश)
हत्थप्पत्तो :	Come to hand, received, obtained (हस्त + प्राप्त = आप्)
हत्थारोहो :	One who rides on an elephant, an elephant driver, mahout (हस्तिन् + आरोह)
हत्थस्सं :	Elephants and horses (हस्तिन् + अश्व)
हत्थतलं :	The palm of the hand (हस्त + तल)
हत्थी :	An elephant (हस्तिन्)
हत्थिको :	Carried in the hand (हस्त + इक)
हत्थिलिङ्गो :	A vulture with a bill like an elephant's trunk (हस्तिन् + लिङ्ग)
हत्थिनखो :	A covered way, covering the access to the gate of a town (हस्तिन् + नख)
हत्थिनी :	See <i>Hatthi</i>
हत्थिनिका :	A she elephant for riding (हस्तिनी + का)
हत्थिपो :	An elephant's keeper or driver (हस्तिप)
हत्थो :	The hand: an elephant's trunk: a name of a Nakkhatta: an enbit: the measure from the elbow to the tip of the little finger, a quantity (हस्त)
हत्थो :	Bristling: joyful, delighted (हृष्ट + हृष्)
हावको :	One who sacrifices (<i>from caus</i> हु)
हवनं :	Sacrifice (हवन)
हवे :	Indeed, certainly

136 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

हवी :	An oblation, sacrifice: clarified butter (हविस्)
हवो :	A summons, challenge (हव)
हावो :	Coquetry; dalliance (हाव)
हव्यं :	An oblation (हव्य = हु)
हायनं :	Diminution, decay (from हायति)
हायानीकं :	Cavalary (हय + अनीक)
हायनो :	A year (हायन)
हायति :	See जहति
हयो :	A horse (हय)
हे :	Oh! हे
हेहिति :	A fut, from Bhavati
हेला :	Sport, dalliance (हेला)
हेमं :	Gold (हेमन्)
हेमन्तो :	The cold season, winter (हेमन्त)
हेमो :	A sort of elephant (हेम)
हेरञ्जिको :	A royal treasurer (हिरण्य + इक)
हेसा :	Neighing (हेषा)
हेसितं :	Neighing (हेषित)
हेस्सति :	See भवति
हेठेति :	To injure, to harass (हेल्)
हेति :	A weapon (हेति)
हेत्था :	Under; below, low down (अधस्तात्)
हेत्थतो :	Below, underneath (अधस्तात् + तस्)
हेत्थिमो :	Lower, lowest: last
हेतु :	Cause, reason, motive: origin: the reason or middle term of an inference (हेतु)
हेतु :	On account of, by reason of, by means of, for the sake of (हेतौ)
हेतुजो :	Produced by a cause (हेतु + ज)
हेतुको :	Having a cause: causing, instrumental (हेतुक + हेतुक)
हेतुमा :	Having a cause (हेतुमन्त्)
हेतुष्भावो :	Proceeding from a cause, having its origin in a pre-existing cause (हेतु + प्रभव)
हेतुसो :	Casually, necessarily (हेतु + शस्)
हेवा :	Quite, just, even

हेय्यो :	To be abandoned (हेय = हा)
हि :	For, because: certainly: indeed: alas!
हिलादति :	To be glad (हाद्)
हिलादो :	Pleasure (हाद्)
हिलितो :	Ashamed (हीत = ही)
हिमाचलो :	The Himalayan mountain (हिम + अचल)
हिमवा, हिमवन्तो :	Cold, snowy (हिमवन्त्)
हिमो :	Cold (हिम)
हिंसा :	Hunting, killing (हिंसा)
हिंसनं :	Injuring, killing (हिंसन)
हिंसापनं :	Injury
हिंसति :	To hurt, to injure: to kill (हिंस्)
हीनाजच्चो :	Of low family, low-caste (हीन + जात्य)
हीनको :	Deprived of (हीन + क)
हीनप्पणीतता :	Inferiority and superiority; goodness and badness (हीन + प्रणीत् + ता)
हीनसीलं :	Keeping the moral precepts imperfectly or from unworthy motives (हीन + शील)
हिङ्गुलको :	Vermilion (हिङ्गुल + क)
हिङ्गुलि :	Vermilion (हिङ्गुलि)
हीनो :	Wasted, decayed, low, bad, inferior: poor, wretched: forsaken, deprived (हीन = हा)
हिन्तलो :	A sort of palm (हिन्ताल)
हिरञ्जं :	Gold, bullion, treasure (हिरण्य)
हिरी :	Shame, modesty: the shame which deters a man from sinning (ही)
हिरीमा :	Modest (हिमन्त्)
हिरिवेरं :	A perfume (हीवेर)
हिरोत्तप्पं, :	Shame and fear of sinning
हिरिओत्तप्पं	
हितकारो :	A benefactor (हितकर)
हितो :	Fit, suitable; beneficial (हित = धा)
हित्वा, हीयति :	See जहति
हियत्तनो :	Of yesterday (ह्यस्तन)
हीयो, हिय्यो :	Yesterday (ह्यस्)

138 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

होमो :	An oblation (होम)
होरापाठको :	An astrologer (होरा + पाठक)
होतव्यो :	That ought to be offered or sacrificed (हेतिव्य = हु)
होति :	See भवति
हुङ्कारो :	Making a noise, roaring (हुंकार)
हुराहुरं :	In various existences; in successive: births
हुरं :	In other birth or existence (स्वर)
हुसा :	Daughter -in-law (स्नुषा)
हुतासो :	Fire (हुताशा)
हुतवा :	That has sacrificed (हुत + वन्त्)
हुतावहो :	Fire (हुत + आवह)
हुतावी :	That has sacrificed (हुत + आविन्)
हुति :	Calling, challenge (हूति)
हुतो :	Sacrificed (हुत = हु)
हुत्तं :	Sacrifice (होत्र)

I

इब्भो :	Wealthy (इभ्य)
इभो :	An elephant (इभ)
इच्च :	See इति
इच्छा :	Wish, desire, covetousness, ambition (इच्छा + चार)
इच्छापेत्ति :	To cause, to desire
इच्छति :	To wish, to desire; to approve, to like, to endeavour to obtain, to seek (इच्छति = इष्)
इच्छितो :	Wished, desired (ईप्सित)
इद :	See इध
इदं :	This (इदम्)
इदं :	Here, now, even (इदम्)
इदानि :	Now (इदानीम्)
इदप्पच्चया :	From an assignable cause, from an ascertained cause (इदम् + abl. प्रत्यय)
इदत्तं :	These three (इदम् + त्रय)
इद्धि :	Prosperity, power, majesty; supernatural power, magical power, miraculous faculty; a miracle (ऋद्धि)
इद्धिमा :	Possessed of supernatural power (ऋद्धिमन्त्)
इद्धिमयो :	Created or made to appear by supernatural powers (ऋद्धि + मय)
इद्धिपादो :	Constituent or basis of magic power (ऋद्धि + पाद)
इद्धिप्पभेदो :	The different sorts of magic power (इद्धि + प्रभेद)
इद्धिप्पत्तो :	Possessed of miraculous power (ऋद्धि + प्राप्त = आप्)
इद्धिविधा :	The various sorts of Iddhis
इद्धिविसयो :	Range of power, extent of Iddhi (ऋद्धि + विषय)
इधा :	Here, hither, in this world (इह)
इधागतत्तं :	Fact of having come (इह + आगत = गम् + त्व)
इधलोको :	This state of existence, this world (इह + लोक)
इधुमं :	Firewood (इध्म)
ईदी :	Like this, such (इदृश्)
ईदिक्खो :	Such (ईदृक्ष)
ईदिसको :	Like this, such (ईदृश + क)
इदिसो, ईदिसो :	Like this, such, of such a sort, so great (ईदृश्)

140 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

इह :	Here (इह)
ईहा :	Exertion, endeavour (ईहा)
इहलोकिको :	Belonging to this world (इहलोक + इक)
ईहति :	To endeavour (ईह)
इज्जा :	Sacrifice (इज्या)
इज्जति :	See (यजति)
इज्जति :	To prosper, to succeed, to be accomplished (ऋध)
इक्खनं :	Sight, looking (ईक्षण)
इक्खणिको :	Fortune teller (ईक्षणिक)
इक्खति :	To look, to see (इक्ष्)
इक्को :	A bear (ऋक्ष)
इल्ली :	One edged weapon or short sword (ईली)
इमा, इमं, इमे :	See अयं
इणं :	Debt (ऋण)
इणायिको :	A debtor, a borrower (ऋण + आय + इक)
इन्दधनु :	The rainbow (इन्द्र + धनुस)
इन्दगोपको :	A sort of insect (इन्द्र + गोपक)
इन्दजालिको :	A magician, juggler, conjurer (इन्द्र + जालिक)
इन्दखीलो :	A threshold: a large slab of stone let into the ground at the entrance of the house: a pillar in front of a city gate (इन्द्र + नील)
इन्दनीलो, इन्दनीलं :	A sapphire (इन्द्र + नील)
इन्दपत्तं :	Name of a town (इन्द्रप्रस्थ)
इन्दसालो :	Name of a tree (इन्द्र + शाल)
इन्दवारुणी :	Coloquintida (इन्द्र + वारुणी)
इन्दयवो :	The seeds of <i>wrightia qualidysentricas</i> (इन्द्र + यव)
इन्दयुधं :	The rainbow (इन्द्र + आयुध)
इन्दधनं :	Fire wood, fuel (इन्धन)
इन्दीवरं :	The blue water lily; the cassia fistula (इन्दीवर)
इन्द्रो :	Chief Lord; a king; Indra (इन्द्र)
इन्द्रियग्रहयो :	Perceptible to the senses (इन्द्रिय + ग्राह्य = ग्रह)
इन्द्रियं :	An organ of sense; a power, faculty, function organ; a moral quality; sense, perception acquisition (इन्द्रिय)
इन्द्रियसंवरो :	Restrain or subjugation of the senses (इन्द्रिय + संवर)
इन्दु :	The moon (इन्दु)

इङ्गति :	To move (इङ्ग)
इङ्गा :	Come! Pray!
इङ्गो :	Gesture, sign (इङ्ग)
इङ्गुदी :	The plant <i>terminalia calappa</i> (इङ्गुदी)
इञ्जति :	To move, to be shaken (इङ्ग)
ईरति : (caus)	To cause to move, to shake; to cause to utter (ईरयति = ईर)
ईरिणं :	Barren-soil: a desert (ईरिण)
ईरिसो :	See Idiso
ईरितो :	Thrown; uttered; spoken, said (ईरित = ईर)
इरित्विजो :	An officiating (Brahmanical) priest (ऋत्विज्)
इरिया :	Movement; posture; deportment (ईर्या)
इरियापथो :	Way of deportment (ईर्या + पथ)
इरियतो :	After the manner of; according to the custom of (ईर्या + तस्)
इरुं :	The Rigveda (ऋच्)
इरुब्बेदो :	The Rigveda (ऋग्वेद)
ईसा :	The pole of a plough (ईशा)
ईसाधरो :	Concentric circles of rock the surround Meru (ईषा + धर्)
ईसकं :	A little (इर्षत् + क)
ईसक्करो :	Easy to do (इर्षत् + कर)
ईसं :	A little (इर्षत्)
इसि :	A sage: a saint (ऋषि)
इसिगिली :	Name of a mountain in Magadha (ऋषि + गिरि)
इसिका :	A reed (इषिका)
इसिपब्बज्जा :	The life of an anchorite (ऋषि + प्रव्रज्या)
इसिपतनं :	Name of a place near Banaras (ऋषि + पतन)
इसो, इस्सो :	A sort of bear (इश)
ईसो :	Lord or Master (ईश)
इस्सा :	Envy, jealousy, ill-will (ईर्ष्या)
इस्सरियं, इस्सेरं :	Dominion, supremacy (ऐश्वर्य)
इस्सरो :	Lord; Ruler: Siva (ईश्वर)
इस्सासं :	A bow (इष्वास)
इस्सयति :	To envy, to be jealous (ईर्ष्य)
इस्सुकी :	Envious, jealous (ईर्षु + क = इन्)
इतरथा :	In another way (इतरथा)

142 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

इतरथत्ता :	In another way (इतरथा + त्व)
इतरीतरो :	One and another; of all sorts (इतर + इतर)
इतरो :	Other; different (इतर)
इति, ति :	Thus
ईति :	Calamity, accident (ईति)
इतिह :	See इति
ईतिहा :	Oral tradition (ईति + ह + आ)
इतिहासो :	Legendary lore, tradition, history (इति + हास)
इतिपि :	See इति
इतिवुत्तकं :	This is a name of the forth book of Khuddakanikaya (इति + उक्त = वच् + क)
इतिवुत्तं :	A legend or tradition (इति + उक्त = वच्)
इतो :	Gone (इत् = इ)
इतो :	Hence, from this world: from this time: ago: here (इतस्)
इत्तरो :	Low; poor: mean (इत्वर)
इद्रुगन्धो :	Fragrant (इष्ट + गन्ध)
इत्थागारं :	Women's apartment (स्त्री + आगार)
इद्रुका :	A brick, a tile (इष्टका)
इद्रुकामयो :	Made of Bricks (इष्टका + मय)
इत्थं :	Thus (इत्थम्)
इद्रुं :	As one wishes (इष्टम् = इष)
इत्थम्भूतो :	Such (इत्थम् + भूत = भू)
इत्थन्नामो :	Such and such a name; so and so (इत्थम् + नामन्)
इत्थत्तं :	Existence in this world (इत्थम् + त्व)
इत्थी :	A woman: a female (स्त्री)
इत्थिका :	A woman (स्त्री + का)
इद्रिका :	A brick or tile (इष्टिका)
इत्थिलिङ्गं :	Pudendum Mulibre: feminine gender (स्त्री + लिङ्ग)
इत्थिन्द्रियं :	The female sex (स्त्री + इन्द्रिय)
इत्थिरत्नं :	Beautiful or noble woman (स्त्री + रत्न)
इद्रो :	Desired, good (इष्ट = इष्)
इव, विय, व :	Like, as (इव, व)

J

जच्चन्धकियो :	Connected with being born blind
जच्चन्धो :	Born blind (जात्यन्ध)
जच्चो :	Belonging to a family (जात्य)
जागरति :	To wake, to watch (जागृ)
जागरिया :	Waking, watching, vigil (जागर्या)
जागरो :	Waking, vigil (जागर)
जगति :	The earth; the floor of a terrace (जगती)
जग्गति :	To watch (जागृ)
जघनं :	The buttocks (जघन)
जहापेति :	To cause to leave
जहाति :	To leave, to forsake, to renounce (हा)
जहो :	Leaving, (comp जहक)
जप्जरितो :	Weakened (जर्जरित)
जाला :	A flame (ज्वाला)
जलाबु :	The womb (जरायु)
जलाभुजो :	Born from the wound, viviparous (जरायुज)
जलचरो :	A fish (जल + चर)
जलदायको :	A golden vase (जल + दायक)
जलाधारो :	A tank, a reservoir (जल + आधार)
जलद :	A rain-cloud (जलद्)
जलजो :	Water-born (जल + ज)
जालकं :	A bud: a net (जालक)
जलालयो :	A reservoir, a lake (जल + आलय)
जलं :	Water (जल)
जालं :	A net: a web: window or lattice: reticulation, a multitude, quantity, accumulation: intricacy: illusion (जाल)
जलनिधी :	The ocean (जल + निधि)
जलापेति :	To cause to be kindled
जलासयो :	A tank, lake, reservoir (जल + आशय)
जलसुत्ति :	A bi-valve, shell (जल + शुक्ति)
जलति :	To burn, to blaze, to glow, to shine (ज्वल्)
जळत्तं :	Dullness; stupidity (जडत्व)

144 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

जलट्टो :	Living in the water (जल + स्थ)
जालेति :	To kindle (ज्वालयति + ज्वल)
जालिका :	A coat of mail (जालिका)
जालिको :	Living by nets, a fisherman, a fowler (जालिक)
जालिनी :	Desire or lust (जालिनी)
जळो :	Stupid, dull (जड)
जलोगी :	Toddy or fresh juice of palm
जलूका :	A leech (जलूक)
जामाता :	A son-in-law (जामातृ)
जम्बाली :	A dirty pool at the entrance to a village
जम्बालो :	Mud (जम्बाल)
जाम्बवं :	The fruit of the Jambu tree (जाम्बव)
जम्बीरो :	The lemon or lime tree (जम्बीर)
जम्बोनदं :	See जम्बुनद
जम्बु :	A rose apple-tree (जम्बु)
जम्बुदीपो :	Jambudvipa- one of the four Mahadipas, it is the southernmost and includes India (जम्बु + द्वीप)
जम्बुको :	A jackal (जम्बुक)
जम्बुनदं, जम्बोनदं :	Gold (जाम्बुनद, जाम्बूनद)
जम्मं :	Birth, appearance (जन्मन्)
जम्मो :	Reckless, worthless, low, contemptible (जाल्म)
जनाधिपो :	A king (जन + अधिप)
जनको :	Producing, causing (जनक)
जानको :	Knowing
जनालयो :	A mandapa or temporary hall (जन + आलय)
जानं :	Knowing, or understanding, wise: consciously, intentionally (जानन्त्) = ज्ञा)
जाननको :	Knowing
जननं :	Production, bringing forth, causing (जनन)
जाननं :	Knowing, ascertaining (from ज्ञा)
जननी :	Mother (जननी)
जननो :	Producing, bringing forth, causing (जनन)
जनपदो :	A country, province, district: a people (जन + पद)
जानपदो :	Living in a country (जानपद्)
जानापेति :	To cause to know: to teach

जनता :	People, mankind (जनता)
जानाति :	To know: to perceive: to comprehend: to be intelligent. (ज्ञा)
जनवादो :	Scandal, gossip (जन + वाद)
जनेति :	To beget, to give rise, to produce, to cause, to bring forth (जनयति = जन्)
जनेत्ति :	A mother (जनयित्री)
जङ्गलो :	A forest (जङ्गल)
जङ्गमति :	To go about (जंगम्यते = गम्)
जङ्गमो :	Movable (जंगम)
जङ्घा :	The leg (जङ्घा)
जानि :	Loss, decay (ज्यानि)
जनिका :	A mother (जनिका)
जानिपति :	Husband and wife (जानि + पति)
जनिता :	A father (जनित्)
जानितब्बो :	That ought to be produced (जनितव्य् = जन्)
जनितब्बो :	That ought to be known
जनितो :	Produced or caused
जञ्जा :	See जानाति
जञ्जति :	To be begotten or produced
जञ्जो :	To be produced (जन्)
जन्तु, जानु :	The knee (जानु)
जन्नकं :	The knee (जानु + क)
जनुमत्तो :	Knee-deep (जानु + मात्र)
जन्तुगधो :	Knee-deep
जनो :	Human-beings: men: a person or a creature (जन्)
जन्ताघरं :	A room in which fire is kept, a hot room for steam bath
जन्तु :	An animal: a creature: a man (जन्तु)
जानु :	See जन्तु, जानु
जपा :	The China rose (जपा)
जपनं :	Whispering, muttering (जपन)
जपति :	To whisper, or mutter (जप्)
जप्पा :	Desire, or lust, greed
जप्पनं :	Speaking (जल्पन)
जप्पति :	To speak, to mutter, to whisper (जल्प्)

146 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

जप्पितो :	Muttered, whispered, said, spoken (जल्पित)
जप्पो :	Words or speech (जल्प)
जरा :	Old-age (जरस्)
जरग्गवो :	An old-ox (जरद्गव)
जरामरणं :	Old-age and death (जरस् + मरण)
जरता :	Old-age (जरस् + ता)
जारी :	An adulteress (जारी)
जरो :	Fever (ज्वर)
जारो :	A lover, paramour (जार)
जटा :	Matted hair worn by ascetics: desire: lust: the tangled branches of Bamboos and other trees
जातभूमि :	Birth-place (जात + भूमि)
जटाधरो :	An ascetic with matted hair (जटा + धर)
जातकं :	Birth, nativity: birth or existence in Buddhist sense (जातक)
जातं :	See Jito
जातापच्चा :	A woman who has brought forth a child (जात + अपत्य)
जातरुपं :	Gold (जात + रूप)
जातस्सरो :	A natural pond, a lake (जात + सर)
जातवेदो :	Fire (जातवेदस्)
जठरो :	The belly (जठर)
जाति :	Birth: re-birth in Buddhist sense: lineage, family, caste: sort, kind, variety (जाति)
जाती, जाति :	The great flower jasmine (जाती)
जटौ :	Matted-hair (जटिन्)
जाटिक्रियो :	Congenital
जातिक्खयो :	Ceassation of existance by the attainment of arahatta (जाति + क्षय)
जातिको, जातियो :	Belonging to a family or species, having a particular nature or particular habits (जाति + क + य)
जातिकोसो :	Nutmeg (जाती + कोश)
जाटिलो :	An ascetic wearing long hair (जटिल)
जातिमा :	High-born: of good quality (जातिमन्त्)
जातिमयो :	Caused by birth or species, congenital (जाति + मय)
जातिफलं :	A nutmeg (जाति + फल)
जातिस्सरो :	One who remembers his former existences (जाति + स्मर)

जातिसुमना :	The great flowered jasmine (जाति + सु + मनस्)
जातियो :	See जातिको
जातो :	Born: produced: caused: arisen, sprung-up, grown: become, being: taken place, happened (जात = जन्)
जन्तु :	The collar-bone (जत्रु)
जतु :	Lac (जतु)
जातु :	Surely, certainly (जातु)
जतुका :	A bat (जतुका)
जतुमयो :	Made of lac, lacquered (जतु + मय)
जवाधिको :	A fleet-horse, a racer (जव + अधिक)
जवनिका :	A curtain (जवनिक)
जवनो :	Quick, fleet (जवन)
जवति :	To hasten, to hurry, to run (जू)
जवो :	Spead (जव)
जाया :	A wife (जाया)
जयगगहो :	Victorious (जय + ग्रह)
जयपति :	Husband and wife
जयनं :	Victory (जयन)
जयपानं :	Drink of a victorious warrior (जय + पान)
जायापती :	Husband and wife (जाया + पति)
जयसुमनं :	The plant Pentapetesh Phoenica (जय + सु + मनस्)
जयति, जेति, :	To conquer, to defeat, to win, to surpass, to exceed (जि)
जिनाति	
जायति :	To be born, to be produced, to grow, to spring up, to arise (जन्)
जयी :	Victorious (जयिन्)
जायिका :	Wife (जाया + इका)
जयो :	Victory, conquest (जय)
जे :	Oh!
जेगुच्छो :	Contemptible, loathsome
जेनादत्ति :	Son of Jinadatta (जिन + दत्त + इ)
जेता :	A conqueror (जेतृ)
जेतब्बो :	To be conquered (जेतव्य + नि)
जेतवनं :	Name of a famous monastery in Savatthi; Name of a monastery in Ceylon

148 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

जेति, जेत्वा :	See जयति
जेठ्ठा :	Name of one of the lunar mausions (ज्येष्ठा)
जेठ्ठको :	Eldest: first: chief (जेष्ठ + क)
जेठ्ठमूलो :	Month of Jyaishta (ज्येष्ठा + मूल)
जेठ्ठो :	Chief, first, best: eldest (ज्येष्ठ)
जेठ्ठो :	Name of a month (ज्यैष्ठ)
जेतुत्तरं :	Name of a town
जेय्यो :	Better, elder (ज्यायस्)
जेय्यो :	To be conquered (जेय = जि)
झा :	Name of a plant
झाल्लिका :	A cricket (झिल्लिका)
झामो :	Consumed, burnt (क्षाम = क्षै)
झानं :	Meditation, contemplation, religious meditation: mystic meditation or ecstasy or trance (ध्यान)
झापनं :	Conflagration or consumption
झापेति :	To cause to be burnt, to burn, to consume
झसा :	Shrub Urari, a Laqodiades (झषा)
झसति :	To hurt (झष्)
झसो :	A fish (झष)
झाटलो :	The tree <i>Bignonia Sanveolens</i> (झाटल)
झावुको :	The tree tamarix Indica (झानुक)
झायति :	To burn, to consume, to waste away (क्षै)
झायति :	To meditate, to contemplate, to practice mystic meditation (ध्या)
झायी :	Thoughtful, meditating, practicing jhana (ध्या + इन्)
जी, दि, जितो :	Victorious (जित्)
जिघच्छा :	Hunger (जिघत्सा)
जिघच्छति :	To wish to eat, to be hungry (जिघत्सति = घस्)
जिघञ्जो :	Last: lowest: inferior: vile (जघण्य)
जिगिसति :	To wish to take
जिगुच्छा :	Disgust, dislike, loathing, contempt (जुगुप्सा)
जिगुच्छनं :	Dislike, contempt (जुगुप्सन)
जिगुच्छति :	To dislike, to loathe, to despise (जुगुप्सति = गुप्)
जिम्हो :	Crooked, oblique (जिम्ह)
जीमूतो :	A cloud (जीमूत)

जिनालय :	A Buddhist temple (जिन + आलय)
जिनाति :	See जयति
जिनेरितो :	Uttered by Buddha (जिन + ईरित)
जिनितब्बो :	To be conquered
जिञ्जको :	Ganja plant
जिण्णको :	Old, aged: worn out: dilapidated (जीर्ण + क)
जिण्णो :	Old aged; worn out: decayed (जीर्ण + जृ)
जिनो :	Victorious (जिन)
जीरणं :	Growing old; decay
जीरति, जिध्यति :	To grow old: to decay: to wear out: to be digested (जृ)
जीयति	
जिति :	Victory (जिति)
जितिन्द्रयो :	One whose senses are subdued; a Rishi or arahata (जित + इन्द्रिय)
जितो :	Conquered, defeated (जित + जि)
जीवगाहं :	Taken alive (जीवग्राहम्)
जीवको :	Name of a certain medicinal plant (जीवक)
जीवं :	See जीवो + जीवति
जीवनं :	Subsistence or livelihood, living (जीवन)
जीवञ्जीवो :	A kind of pheasant (जीवञ्जीप)
जीवन्ति, जीवति :	Medicinal plant (जीवन्ति)
जीवसुमनं :	The china-rose (जीव + सु + मनस्)
जीवति :	To live; to maintain oneself: to get one's living (जीव्)
जिह्वा :	The tongue (जिह्वा)
जीवी :	Living (जीविन्)
जीविका :	Life, livelihood, means of subsistence (जीविका)
जीवितक्ख्यो :	End of life or death (जीवित + क्षय्)
जीवितं :	Life (जीवित)
जीवितिन्द्रियं :	Principle of life; life: vitality (जिवित + इन्द्रिय)
जीवो :	Living (जीव)
जिया, ज्या :	Bow-string (ज्या)
जीयति, जिध्यति :	See जिरति
जो :	Born; produced: proceeding from: caused (ज)
जोतको :	Illuminating, illustrating (द्योतक)

150 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

जोतयति :	To illuminate (द्योतयति = द्युत्)
जोतनं :	Illumination (घोतन)
जोतति :	To shine (घुत, ज्युत्)
जोतयति, जोतेति :	To cause to shine: to illumine: to glorify: to exalt (द्योतयति, ज्योतयति, घुत, ज्युत्)
जोति :	Light, fire (ज्योतिस्, द्योतिस्)
जोतिका :	See जोतको
जोतिपथो :	The sky (ज्योतिस् + पथ)
जोतिरसो :	A certain jewel having the power of conferring every wish (ज्योतीरस)
जोतिसत्थं :	Astronomy (ज्योतिस् + शास्त्र)
जुहनं :	Sacrifice: offering
जुहोति :	To sacrifice (हु)
जुणहा :	Moonlight (जोत्स्ना)
जूतं, जूतो :	Gambling: dicing (द्यूत = दिव्)
जुति :	Splendour, ray (द्युति)
जुतिकारो :	Brilliant (द्युति + कर)
जुतिमा :	Brilliant (द्युतिमन्त्)
जुतिन्धरो :	Light giver (द्युति + धर)
ज्या :	See जिया

K

का :	See को
कबलिङ्कारो :	Made into balls or mouthfuls (कवल + कार)
कवलो, कवलं :	A mouthful, a morsel (कवल)
कवरो :	Mixed, confused, variegated (कवर)
कब्बकरणं :	Making poems or ballads (काव्य + करण)
कब्बकारो :	A poet (काव्य + कार)
कचवरो :	Sweepings, dust, rubbish
कच्चति :	To shine (कच्)
कच्चायनो, :	Name of a famous grammarian-name of the Pali grammarian
कच्चानो	(कात्यायन + अ)
कच्चायनो :	Belonging to kaccayana (कात्यायन + अ)
कच्छा :	A girdle; a girth; the end of the loin-cloth tucked into the waist-band; an enclosure; a room (कक्षा, कक्ष्या)
कच्छको :	The tree Cedrela Toona (कच्छ + क)
कच्छन्तरं :	A king's private room or cabinet (कक्षा + अन्तर)
कच्छपो :	A tortoise (कच्छप्)
कच्छ :	The arm-pit; the end of a loin-cloth; a spreading creeper; grass-weeds (कक्ष)
कच्छो, कच्छं :	Marshy land (कच्छ)
कच्छु :	The scab (कच्छु)
कच्चि :	Perhaps, surely (कच्चिद्)
काचो :	A siliceous earth or clay used in making glass; glass; ophthalmia (काच)
काचो, काजो :	The string of a balance or of a carrying pole (काच, काज)
कदा :	When? at what time? (कदा)
कदाचि :	At sometimes: sometimes: perhaps (कदा + चिद्)
कदलि :	The plantain or banana tree (कदली)
कदलिका :	The plantain or banana tree (कदलिका)
कदम्बकं :	Abundance, plenty (कदम्बक)
कदम्बको :	The tree Nauclea, Cadamba
कादम्बो :	A kind of goose
कदन्नं :	Bad food (कदन्न)
कदरियो :	Avaricious, slinging, miserly (कदर्य)

152 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कदर :	The white Mimosa (कदर)
कदसनं :	Bad food (कद् + अशन)
कद्मेय्यो :	Muddy (कर्दम + एय)
कद्दमो :	Mud (कर्दम)
कङ्कनं :	Resigning, rejecting (कर्षण)
कङ्कति :	To draw: to drag (कृष्)
कहं :	Where? whither?
काहापणिको :	Worth a <i>kahapana</i> (कार्षापणिक)
काहापणो + णं :	A certain weight: a certain coin (कार्षापण)
काहति :	See करोति
कज्जलं :	A sort of collyrium (कज्जल)
काजो :	See काचो
ककचो :	A saw (क्रकच)
काकली :	A soft sound in music (काकली)
काकणिका :	A very small coin, a farthing (काकिणिका)
काकण्टको :	A chameleon
काकपक्खो :	A tuft of hair on the shaved head of a child or boy (काक + पक्ष)
काकसूरो :	An Impudent fellow (काक + सूर)
काकतालियो :	Inconsiderate: accidental (काकतालिय)
काकतिन्दुको :	A sort of ebony (काकतिन्दुक)
काकी :	A hen-crow (काकी)
कक्कुरेति :	To express disgust (कात् + caus कृ)
कक्कारी :	A kind of cucumber
कक्कसो :	Rough, hard, cruel (कर्कश)
ककटाको :	A crab (कर्कटक)
कक्खालो :	Hard: solid: rough, harsh: cruel (कक्खट)
कक्को :	Sediment: paste (कल्क)
काको :	A crow (काक)
काकोदुम्बरिका :	The opposite leaved fig-tree (काक + उदुम्बर + इका)
काकोलो :	A raven (काकोल)
काकोलूकं :	Crows and owls (काक + उलूक)
ककु :	The hump of an Indian bull (ककुद्)
ककुधो :	The hump of an Indian bull an ensign or symbol of royalty (ककुद, ककुभ)

ककुसन्धो :	Name of one of the 24 Buddhas (ककुद् + संधा)
ककुटो :	A pigeon or dove
कला :	A part, a fraction; the 16th part of the moon's disk: a mechanical or elegant art: a division of time (कला)
काळा :	The plant, Ipomoea Turpethum (काला)
कळभो :	A young elephant (कलभ, करभ)
काळागरु :	Black agallochum (काल + अगरु)
काळहंसो :	The Kadamba goose (काल + हंस)
कलहो :	Quarrel, strife, battle (कलह)
काळका :	A squirrel (कालका)
कलकलो :	A confused noise: hullabaloo (कलकल)
काळकञ्जको :	A sort of Preta (कालकञ्ज + क)
कालकण्णी :	Adversity: adversity personified: goddess of adversity (कालकर्णी)
काळकण्ठको :	A gallinule (कालकण्ठक)
कालकतो :	Dead (काल + कृत = कृत)
कालकिरिया :	Death (काल + क्रिया)
काळक्खन्धो :	A sort of ebony (काल + स्कन्ध)
काळको :	A black grain in rice: a black speck (कालक)
काळकूटो :	Name of one of the Himalayana peaks,, sort of poison (काल + कूट)
कललं, लो :	The embryo immediately after conception (कलल)
कललं :	Mud
काळलोणं :	Dark, coloured salt (काल + लवण)
कलम्बको :	Name of a potherb (कलम्बक)
कलन्दको :	A squirrel (कलन्तक)
कलन्दो :	A squirrel (कलन्तक)
कलङ्को :	Spot: blemish: mark: defamation (कलङ्क)
कालन्तरं :	Lapse of time, interval of time: period (काल + अन्तर)
कालानुकालं :	From time to time (काल + अनु + काल)
काळानुसारी :	A dark fragrant sandalwood (काल + अनुसारिन्)
काळपक्खो :	The dark half of a month during which the moon is waving (काल + पक्ष)
कलापको :	a string or row of pearls (कलापक)

154 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कालपरियन्तसीलं :	Taking upon oneself the Sila precepts for a definite terminable period (काल + पर्यन्त + शील)
कलापी :	A peacock (कलापिन्)
कलापो :	A bundle: a tuft: a peacock's tail: a row, string, multitude: a quiver (कलाप)
कळारो :	Tawny, tan-coloured (कडार)
कलसो, सी, सं :	A water-pot, a cup (कलश)
काळसोको :	Name of an Indian monarch who reigned from 453 to 425 B.C. and was a supporter of the Buddhist religion in his reign the Second General Council was held (काल + अशोक)
काळसुत्तो :	Name of one of the eight Narakas or hells (काल + सूत्र)
काळातिपत्ति :	The conditional tense (काल + अतिपत्ति)
काळतो :	See (काळो)
कलत्तं :	A wife (कलत्र)
कलवा :	Long, tasting (कालवन्त्)
कालवादी :	Speaking at the right time or appropriately (काल + वादिन्)
काळाबकी :	Name of a sort of Elephant
कालवणं :	A very little salt (कद् + लवण)
कलविङ्को :	A sparrow (कलविङ्क)
काळायसं :	Iron (कालायस)
कलायो :	A chick: pea (कलाय)
कालयुत्तो :	See Kalo
काले :	Sea Kalo
कलेवरं :	A corpse (कलेवर)
कालेन :	See Kalo
कलि :	Sin, demerit, depravity: name of one of the Yugas (कलि)
कलिका :	A flower-bud (कलिका)
कालिको :	Belonging to the time (कालिक)
कलिलो :	Choked, in pervion, impenetrable (कलिल)
कलिमा :	Sinful (कलिमन्त्)
कलिङ्ग :	Name of a people and country on the coromandal coast (कालिङ्ग, कलिङ्ग)
कळिङ्गरो :	A log, or faggot
कलिङ्गो :	The fork, tailed shrike (कलिङ्ग)

कलीरो :	The top sprout of a plant or tree
काळीयं :	A dark sandalwood from which a perfume is made (कालीय)
कलियुगं :	See युग
कल्लहारं :	The white water lily (कल्लहार)
कल्लणो :	See कल्याणो
कल्लति :	To sound indistinctly (कल्लति)
कल्लो, कल्ल्यो :	Healthy: ready: prepared: skilful: possible (कल्ल्य)
कल्लोलो :	A billow (कल्लोल)
कलो :	Low, soft, indistinct (कल)
कालो :	Time: meal time: right time: due-season
काळो :	Black, dark-blue, dark (काल)
कालुसियं :	pollution, obscuration (कालुष्य)
कलुसो :	Polluted, turbid, impure (कलुष)
कल्याणो, कल्लणो :	Fortunate, blest, happy: beautiful, charming, pleasant: good, virtuous (कल्याण)
कल्पता :	State of being ready (कल्य + ता)
कं :	See Ko
कं :	Water, the head (क)
कामभवो :	Sensual existence (कामभवो)
कामच्छन्दो :	Wish for sensual enjoyment (काम + च्छन्द)
कामदो, कामददो :	Giving what is wished for giving pleasure (कामद्)
कामगुणो :	Quality or constituent of sexual pleasure (कामगुण)
कामजो :	Proceeding from or caused by desire (कामज)
कामकामो :	Fond or desirous of sensual pleasure (काम + काम)
कामको :	Desirous (काम + क)
कमलं :	A lotus (कमल)
कामलोको :	World of sense: sensual pleasure (काम + लोक)
काम :	At pleasure, certainly indeed (कामम्)
कमण्डलु :	Water-pot used by ascetics (कमण्डलु)
कामङ्गमो :	Going as one lists (काम + गम)
कमनीयो :	Beautiful (कमनीय + कम)
कामनो :	Lustful (कमन)
कामता :	Desirousness (काम + ता)
कमतो :	Successively, respectively (कमतस्)
कामत्तं :	Desirousness (कामत्व)

156 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कामावचरो :	Belonging to the Kamaloka, within the domain of sensual pleasure (काम + अवचर)
कामयति :	To love, to desire (कम्)
कामयिता :	Lustful (कामयितृ)
कम्बलो, लं :	A blanket or woolen garment (कम्बल)
कम्बोजो :	Name of a country and it's inhabitants (कम्बोज)
कम्बु :	A shell, a couch: a bracelet: gold (कम्बु)
कम्बुगीवा :	A neck marked with three lines or folds like a shell, considered indicative of exalted fortune (कम्बु + ग्रीवा)
कम्बुगीवो :	Prosperous: fortunate
क्रमेण :	By degrees: successively: in due course (क्रमेण)
कामि :	Lustful (कामि)
कामी :	Desirous (कामिज्)
कामिता :	A lustful, wanton (कामितृ)
कम्मधारयो :	A grammatical term, one of the Samasas (कर्मधारय)
कम्पजो :	Caused by Karma (कर्मन् + ज)
कम्मकारको :	A workman, a labourer (कर्मकार + क)
कम्मकरो :	Hired labourer, a servant (कर्मकार)
कम्मकारो :	A hired labourer, a servant (कर्मकार)
कम्मं :	Doing; action, work, labour, business: a deed, action operation: a religious or ecclesiastical act: moral merit, karma (कर्मन्)
कम्मनियो, कम्मज्जो :	Workable, malleable: fit for work, pliant, ready, alert, active (कर्मण्य)
कम्मज्जता :	Adaptability, pliancy, readiness
कम्पन्तो :	Business, work, occupation, craft, profession (कर्मन्ति)
कम्पपथो :	Course or means of action (कर्मन् + पथ)
कम्मरो :	A blacksmith, a smith (कर्मार)
कम्मसो :	Dirt, stain, guilt (कल्मष)
कम्मसो :	Variegated, spotted (कल्माष)
कम्मास्सको :	Having karma for his portion; having his own individual karma (कर्मन् + स्वक)
कम्पट्टानं :	Basis of action (कर्मन् + स्थान)
कम्पट्टानिको :	Connected with or practising karmasthana (कर्मस्थान + इक)
कम्मवाचा :	An ecclesiastical vote or resolution (कर्मन् + वाचा)

कम्मवाचं :	Collection of kammavacas
कम्मी :	Acting, working (कर्मिन)
कम्मिको :	Working (कर्मन + इक)
कम्मुना :	See कम्प
कमो :	Order, step, succession, method (क्रम)
कामो :	Wish, desire, desired object; the God of Love, Kama or cupid; sensual desires or pleasures, pleasure, passion, lust (काम)
कम्पनं :	Shaking (कम्पन)
कम्पति :	To shake, to tremble (कम्प)
कम्पो :	Trembling agitation (कम्प)
कंसकूटं :	Counterfeit metal (कास्य + कूट)
कंसनीलं :	Blue vitriol (कास्य + नील)
कंसतालो :	A gong (कास्य + ताल)
कंसथालं :	A bronze dish or plate (कास्य + स्थाल)
कंसो :	Metal; bronze; a gong; a bowl to eat from (कास्य, कंस)
कंसो :	A coin worth four Kahapanas (कर्ष)
कमुको :	The areca palm (क्रमुक)
कामुको :	Desirous (कामुक)
कामुपपत्ति :	Sensual existence (काम + उपपत्ति)
कम्यता :	Desire (काम्यता)
कनकं :	Gold (कनक)
काननं :	A forest, a grove (कनक)
कणति :	To sound (कण)
कणयो :	A sort of spear (कणय, कणप)
कञ्चनं :	Gold (काञ्चन)
कञ्चि :	See कोचि
कञ्चुकि :	An attendant on the women's apartment (कञ्चुकिन)
कञ्चुकितो :	Having the hair bristling with joy (कञ्चुकित)
कञ्चुको :	A jacket: the skin or slough of a snake: a coat of mail: a case, sheath, covering, envelope (कञ्चुक)
कण्डरा :	A tendon (कण्डरा)
कन्दरि, कन्दरो :	A cave: a grotto (कन्दर)
कन्दति :	To cry, to wail, to weep (क्रन्द)
कन्धरा :	The neck (कन्धरा)

158 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

क्रन्दितं :	Wailing, crying, weeping (क्रन्दित = क्रन्द)
कन्दो :	A bulb (कन्द)
कण्डो, कण्डं :	The part of a plant from one joint to another: a stalk; an arrow a section or chapter of a book: a part, a portion, a piece: opportunity, season (काण्ड)
कण्डु :	The itch (कण्डु)
कन्दुको :	A ball to play with (कन्दुक)
कण्डुति :	Itching (कण्डूति)
कण्डूयनं :	Itching (कण्डूयन)
कण्डूवति :	To scratch (कण्डूय)
कण्डूया :	Itching (कण्डूया)
करेणु :	An elephant (करेणु)
कणेरुका :	A female elephant (करेणुका)
कंगु :	A sort of millet- Panicum Italicum
कणहवण्टा :	The plant Bignonia Sunaveolens (कृष्ण + वृण्ट)
कणहवत्तनी :	Fire (कृष्णवत्सन्)
कणहायनो, कणहानो :	Offspring of Krishna (काष्णायन)
कण्हि :	Offspring of Krishna (काष्णि)
कणहो :	Black, dark, sinful (कृष्ण)
कणिका :	An ear-ornament: the plant Premma Spindso (कर्णिका)
कणिकारो :	The tree pterospermum aceifolium (कर्णिकार)
कनीनिका :	The pupil of the eye (कनीनिका)
कनिट्टिका, :	A younger sister (कनिष्ठिका)
कनिट्टिका	
कनिट्टो :	A smallest, very small: youngest (कनिष्ठ)
कनियो :	Less, smallest; younger (कनीयंस्)
कञ्जिकं, कञ्जियं :	Sour rice-gruel (काञ्जिक)
कङ्कणं :	An ornament; a bracelet (कङ्कणं)
कङ्कटो :	Mail (कङ्कट)
कङ्का :	Doubt (काङ्का)
कङ्कति :	To doubt (काङ्क)
कङ्को :	A heron (कङ्क)
कञ्जा :	A young woman: a girl: a virgin (कन्या)
कण्णधारो :	A steersman, pilot (कर्णधार)
कण्णजलूका :	A centipede (कर्ण + जलूका)

कण्णजपो :	A tale, bearer, informer (कर्ण + जप)
कण्णमुण्डो :	Name of one of the Mahasaras (कर्ण + मुण्ड)
कण्णिणका :	Earring or ear-ornament: the Pericarp of the lotus: the peak or dome of a hut or pagoda (कणिका)
कण्णो :	The ear; a rudder; a corner edge (कर्ण)
कणो :	The fine red powder which adheres to the grain of rice beneath the husk a particle, bit, atom (कण)
काणो :	One-eyed; blind of one eye (काण)
कण्टकितो :	Having the hair-bristling with joy (कण्टकित)
कण्टको, कण्ठको :	A thorn: an enemy; horripitation; an obstacle; pest, nuisance (कण्टक)
कण्टकुरण्डो :	The plant <i>baneria cristata</i> (कण्टकुरण्ड)
कन्तनं :	Cutting; spinning (कृन्तन)
कन्तरो :	A forest, a wilderness; a difficult road (कान्तार)
कन्तति :	To cut (कृत्)
कन्तति :	To spin (कृत्)
कण्ठजो :	Guttural (कण्ठज्)
कन्था :	Patched cloth (कन्था)
कण्ठको :	See कन्तको
कण्ठो :	The neck or throat (कण्ठ)
कन्ति :	Beauty, wish, pleasure (कान्ति)
कन्तितो :	Cut
कन्तो :	Loved; beautiful, charming, - delightful, agreeable (कान्त = कम)
कपालं, लो :	The skull, forehead; a Potsherd (कपाल)
कपल्लं	
कपणि :	A miserable man, a pauper (कृपणिन्)
कपणो :	Miserable, afflicted, poor: miserly (कृपण)
कपटं, कपतं :	Fraud, hypocrisy (कपट)
कापेय्यो :	Belonging to the apes (कापेय)
कपि :	Monkey (कपि)
कपिकच्छु :	The plant <i>Mucuna-Pruritus</i> (कपिकच्छु)
कपिलो :	Reddish (कपिल)
कपिलवस्थिको :	Belonging to Kapilavastu (कपिलवस्तु)
कपिसीसो :	A Lintel of a door

160 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कपीतनो :	The tree <i>The spesia Populneoider</i> (कपीतन)
कपित्थो :	The tree <i>feronia Elephantum</i> (कपित्थ)
कपोलो :	The cheek (कपोल)
कपोणि :	The elbow (कफोणि)
कापोतको :	Grey, White (कापोत + क)
कपोतो :	A pigeon, a dove (कपोत)
कापोतो :	Belonging to pigeons (कापोत)
कप्पबिन्दु :	A black spot which Buddhist Priests are instructed to attach to a new robe to disfigure it (कल्प + बिन्दु)
कप्पक्खयो :	That period of the kalpa when the process of destruction is going on (कल्प + क्षय)
कप्पको :	A Barber (कल्पक)
कप्पना :	Thought Cutting (कल्पना)
कप्पनं :	Cutting; making; caparisoning an elephant or horse (कल्पन)
कप्पनीयो :	To be thought or believed (कल्पनीय)
कप्पनो :	The trappings of an elephant (कल्पन)
कम्पापेति :	To cause to be caparisoned or made ready (Caus कम्पेति)
कप्परो :	The skull (कर्पर)
कप्परो :	The elbow (कूर्पर)
कप्परुक्खो :	A celestial tree, yielding all wishes: it grows in Indra's Heavens (कल्प + वृक्ष)
कप्पसिको :	Made of cotton (कार्पासिक)
कप्पासि, कप्पसो :	Cotton (कर्पास)
कप्पति :	Befitting, allowable, right, proper (क्लृप्)
कप्पटो :	Soiled or tattered cloth, rags (कर्पट)
कप्पायुको :	Whose age is a kalpa, living a kalpa (कल्प + आयुष + क)
कप्पेति :	To arrange to make, to establish, to enter upon: to think: to imagine: to cut (कल्पयति + क्लृप्)
कप्पिको :	Thinking, reasoning (tr. क्लप्)
कप्पिको :	Belonging to a kalpa (कल्प + इक)
कप्पितो :	Made ready; cut, cut off (कल्पित)
कप्पीयति :	To be thought or imagined
कप्पियो :	Right, proper, suitable, appropriate, acceptable, agreeable (कल्प्य)

कप्पो :	Fit, suitable, worthy: nearly equal to, rivalling resembling like (कल्प + कल्प्य)
कप्पो :	Time, a moment: precept, rule, ordinance: the rules concerning rites, one of the Vedangas; practice, usage, mode; alternative, permission; a chapter or section of a book: thought: all the whole; a vast period; age; cycle (कल्प)
कप्पूरो, कप्पूरं :	Camphor (कपूर)
कापुष्पं :	Bad flowers (का + पुष्प)
कारा :	A jail (कास)
कारभो :	The metacarpus: a camel (करभ)
करभूस :	A bangle or bracelet (कर + भूषा)
करगं :	The lip of an elephants trunk (कर + अग्र)
करहचि :	Sometimes (कर्हि + चिद्)
करहाटं :	A bulbous root (करहाट)
करजो :	A finger— nail (करज)
करका + को :	Hail (करक)
कारकं :	Relation of a noun and verb in a sentence, construction, case-relation (कारक)
करको :	A water-pot: the pomegranate tree (करक)
कारको :	Making, doing, causing (कारक)
करमद्दो :	The shrub carissa carandes (करमर्द)
करमरो :	A prisoner (comp. करमरिन्)
कारणा :	Agony, torture (कारण)
कारणा : (adj)	On account of, for the sake of (कारणात्)
करणं :	Making; doing: action; instrument; the body; an organ of sense (करण)
कारणं :	Motive, cause, reason, means, thing, matter, case event, substance; destruction (कारण)
करण्डको :	A box (करण्डक)
कारण्डवो :	A sort of duck (करण्डव)
कारण्डो, ण्डं :	A basket, a wicker-work box (करण्ड)
कारणिको :	Investigating, judging (करणिक)
करणीयो :	That ought to be done or made (करणीय = कृ)
करञ्जो :	The plant Pongamia Globra (करञ्ज)
करणो :	Making, causing (करण)

162 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

करानो :	See (करोति)
करण्टकीफलो :	The jack-tree or bread-fruit tree
करपालिका :	A wooden sword a cudgel (करपालिका)
कारापनं :	Causing to be made
कारापेति :	To cause to be made or done
(cans, karoti)	
करपुटो :	The cavity formed by joining the bent palms of the hands (कर + पुट)
करसारवा :	A finger (कर + शाखा)
कारवेल्लो :	The plant <i>Momordica charantia</i> (कारवेल्ल)
करवीको :	The Indian Cuckoo
करवीरो :	Oleander (करवीर)
कारनो :	See कारु
करेणु :	An elephant (करेणु)
करेरि :	The tree <i>Ipparis trifoliata</i>
कारेति :	To cause to be done or made, to make, to perform (कारयति = कृ)
करी :	An elephant (कारिन्)
कारी :	Doing, acting (कारिन्)
कारिका :	Work, action, a memorial verse: a metrical explanation (कारिका)
करीरो :	The plant <i>Capparis aphylla</i> (करीर)
करीसं :	Excrement (करीष)
करीसं :	A superficial measure = four ammanas
करिसापणो :	A karshapana (कार्षापण)
करिस्सं :	See करोति
कारितो :	Caused to be made or done, made, constructed or performed (कारित = कृ)
कारिया :	See करोति
करिया, करियति :	See करोति
कारियो :	That ought to be done (कार्य)
करो :	The hand, an elephant's trunk: tax, toll, revenue; a ray of light (कर)
करो :(adj)	Making, causing, doing (कर)
कारो :	Making, action; a prison; a song of praise (कर)

कारो :	Making (कर)
(adj)	
करोति :	To act: to do: to cause: to cause to become, to render, to make: to perform (कृ)
कारु :	An artisan (कारुक)
कारुको :	An artisan (कारुक)
करुणा :	Compassion, mercy (करुणा)
करुणावा :	Merciful (करुणावन्त्)
कारुणिको :	Compassionate, merciful (कारुणिक)
कारुञ्जं :	Compassion (कारुण्य)
कारुञ्जता :	Compassionateness (कारुण्य + ता)
कारुणो :	That which moves compassion, the pathetic pathos (करुण)
कसा :	A whip (कशा)
कसको :	A plough share (कृषक)
कासं :	See (कासो)
कासमद्दो :	The plant Carria Sophora (कासमर्द)
कसम्बु :	Sweepings, rubbish
कसापेति :	To cause to be ploughed
कसति :	To plough, to till the ground (कृष्)
कासति :	To shine (काश)
कसायितो :	Stained (कषाचित)
कसायो, कसावो :	Having astringent test; fragrant (कषाय)
कासायो, कासावो :	Reddish yellow, yellow (काषाय)
(adj)	
कसेरू :	Name of a kind of grass (कशेरु)
कसि :	Ploughing, agriculture (कृषि)
कासि :	Name of a people and country (काशि)
कासिको :	Belonging to Kashi country (काशिक)
कसिमा :	A husband-man, cultivator (कृषि + मन्त्)
कसिणो :	All entire (कृत्स्न)
कसिणो, कसिणं :	This is a name for one of divisions of karmasthanas of a process by means of which mystic meditation may be induced
कसिरो :	Painful, grievous, miserable (कृच्छ्र)
कसितो :	Ploughed

164 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कस्मा, कस्मि :	See (को)
कस्मीरजं :	Saffoon
कस्मीरो :	Kashmere (काश्मीर)
कासो, कासं :	The grass Sacchurum Spontaneum (काश)
कासो :	Cough (कास)
कस्सा, कस्सचि :	See को, कोचि
कस्सको :	A husbandman, farmer, cultivator (कर्षक)
कस्सपो :	Name of one of the 24 Buddhas, the last before Gotama; Name of a famous disciple of Buddha, president of the first Mahasangiti, name of a Rishi (काश्यप)
कासु :	Hole in the ground; a pit; a multitude (कर्षू)
कातब्बो :	See कत्तब्बो
कताभिनीहारो :	Having formed the resolution to become a Buddha (कृत + अभिनीहार)
कताभिसेको :	Whose inauguration ceremony has been performed (कृत + अभिषेक)
कटच्छु :	A spoon
कटाहं, कटाहकं :	A jar, vase, flower-pot (कटाह, कटाहक)
कतहत्थो :	Skilful (कृत + हस्त)
कटकं, कटको :	A bracelet, The side of a mountain
कताकतो :	Wrought and unwrought; done and not done (कृत + अकृत)
कतको :	Artificial, feigned (कृतक)
(adj)	
कतको :	The nut plant, strychnos Potatorum, the seed of which is used to clear water (कतक)
कतमाली :	The tree Carsia fistula (कृतमाल)
कतमो :	What? Which? (कतम)
कतञ्जलि :	Saluting respectfully (कृत + अञ्जलि)
कतञ्जु :	Grateful (कृतज्ञ)
कतञ्जुता :	Gratitude (कृतज्ञता)
कतपुञ्जता :	Meritoriousness; state of having done good works (कृतपुण्य + ता)
कतरो :	What? which? (कतर)
कत :	Fact of having been done or made (कृत + त्व)
कतका :	Having done or made (कृतवन्त्)

कतावकासो :	Having obtained an opportunity, having received permission (कृत + अवकाश)
कातवे :	See करोति
कतवेदि :	Grateful (कृतवेदिन्)
कतावी :	Having done or made (कृत + विन्)
कथा :	Speech, discourse: conversation; discussion; a story, tale, account (कथा)
कठलो :	A pot-herd or fragments of broken pottery; gravel (कठर)
कथं :	How? (कथम्)
कथनं :	Saying, talking; conversing, relating (कथन्)
कथानं :	One of the high numerals or 1 followed by 126 ciphers
कथञ्चि :	Scarcely, with difficulty (कथम् + चिट्)
कथंकथा :	Doubt
कथापेति :	To cause to be said; to cause to be told, to learn (from कथ्)
(Caus)	
कथावत्थु :	Subject to discourse (कथा + वस्तु)
कथावत्थुपकरणं :	Book of subjects of discussions; book of contraverted points (कथा + वस्तु + प्रकरण)
कथेति :	To say, to narrate, to recite, to repeat, to preach, to converse, to speak to, to mean (कथ)
कथी :	Speaking (कथा + इन्)
(adj)	
कथिका :	Talk, parley, a pact or agreement (कथ + इका)
कथिको :	Speaking, preaching (कथिक)
कठिनो :	Hard, solid: severe, difficult (कठिन)
(adj)	
कथितो :	Spoken, said, related: told: spoken of, meant (कथित = कथ्)
कठितो :	Boiled, boiling (from कृथ्)
कथीयति, कथति :	See कथेति
कति :	How many? कति
कटि :	The waist, the hip (कटि)
कतिचि :	Few, some (कतिचिद्)
कतिका :	See कथिक
कतिपाहं :	A few days (कतिपय + अह)
कतिपयो :	A few, some, several (कतिपय)

166 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कतो, कटो :	Made: done: composed: performed (कृत = कृ)
कटो :	Matting; temples of an elephant; mon-veneris (कट)
कटो :	Made, done (कृत)
कतोपकारो :	Having had a service done for one, assisted (कृत + उपकार)
कत्ता :	An agent, a doer, maker (कर्तृ)
कत्तब्बो, कातब्बो :	Duty; work to be done (कर्तव्य = कृ)
कत्तरेति :	To be loose, flaccid, weak
कत्तरो :	A weak, or decept man; an oldman ((from, कर्त्)
कत्थ :	Where? whether? wherein (कुत्र)
कत्थचि :	Anywhere, somewhere: in some places; in some cases, ever (कुत्र + चिद्)
कट्टको :	Name of a sort of reed
कट्टं :	A piece of wood, a stick: a jungle (काष्ठ)
कट्टमयो :	Made of wood (काष्ठ + मय)
कत्थना :	Praise, or boasting (कत्थन्न)
कत्थति :	To praise, to boast (कत्थ्)
कट्टिस्सं :	A silken coverlet embroidered with gems
कट्टो : : (adj)	Miserable, bad (कष्ट)
कट्टो :	Ploughed (कृष्ट = कृष्)
कत्थूरिका :	Musk (कस्तूरिका)
कत्तिका :	Name of a Nakkhatta (कृत्तिका)
कत्तिकेय्यो :	The God of war (कार्तिकेय)
कत्तिको :	Name of month (कार्तिक)
कत्तु :	See कत्त, कम्मो
कत्तुं :	See करोति
कत्तु :	Sacrifice, oblation (क्रतु)
कटु :	Harsh, severe, pungent or acrid taste
कटुको :	Harsh, severe, pungent or acrid taste (कटुक)
कटुकरोहिणी :	Black hellebore (कटुकरोहिणी)
कात्तुं, कातून :	See करोति
कत्वा :	
कवचो :	Mail (कवच)
कवन्धो, धं :	A headless trunk, especially one retaining the power of motion (कवन्ध)

कवाटको, कं, :	A door: a trap-door: a window (कपाट, कवाट)
कवाटो + टं	
कावेरी :	River in India (कावेरी)
कावेर्य्यं :	Poetry (कवि + एय)
कवि :	A monkey (कपि)
कवि :	Wise (कवि)
कविट्टफलिको :	Belonging to the fruit of <i>faronia Elephantum</i> (कपित्थ + फल + इक)
कविट्टो :	The tree, Belonging to the fruit of <i>faronia Elephantum</i> (कपित्थ)
कायबन्धनं :	A waist-band, girdle (कायबन्धन)
कायगतो :	Referring to the body (काय + गत = गम्)
(adj)	
कयक्कयं :	Trading; commerce (क्रय + क्रय)
कायानुपस्सना :	See (सतिपट्टान)
कयविक्कयिको :	A trader (क्रय + विक्रय + इक)
कयिको, कायिको :	A buyer (क्रयिक, कायिक)
कायिको : (adj)	Bodily, corporeal (कायिक)
कायिरमानको :	Being made
(adj)	
कायिरति :	See करोति
कायिरो :	That ought to be done (कार्य + कृ)
कयो :	Purchase (क्रय)
कायो :	The body; a collection, multitude (काय)
कय्यति :	See करोति
कय्यो :	That ought to be done (कार्य = कृ)
के, केचि :	See को, कोचि
केदारं, रो :	Cultivated field, especially one irrigated (केदार)
केहं :	An anomalous sandhi for Kim-aham
केहि :	See को
केका :	The cry of pea-cock (केका)
केकरो : (adj)	Squinting (केकर)
केकी :	A peacock (केकिन्)
केलासो :	Name of a mountain in India (कैलास)
केलि :	Amusement: sport: amorous sport (केलि)

168 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

केन :	See (को)
केनिपातो :	A rudder (केनिपात)
केरवं :	The white esculent water lily (कैरव)
केसगं :	The tip of a hair (केश + अग्र)
केसं :	See (को)
केसपासो :	A tuft or mass of hair (केश + पाश)
केसरं :	The filament of a lotus or other plant; the mane of a lion or horse (केशर)
केसरी :	A maned lion, a lion (केशरिन्)
केसरो :	The filament of a lotus or other plant
केसवो :	Name of Vishnu (केशव)
केस :	Hair (केश)
केसो :	See को
केतकी :	The tree Pandanus Odoratissimus (केतकी)
केतनं :	A sign or device on banner: a banner: a dwelling or house (केतन)
केतवं :	Gambling; fraud, deceit (कैतव)
केतु :	A sign by which an object may be recognised; a banner (केतु)
केटुभं :	The ritual the kalpa as it is called as one of the Vedangas (कैटभ)
केतुमाला :	A lambent flame depicted as resting on the head of Buddha and answering to our halo (केतु + माला)
केवलकण्ठो : (adj)	All, whole, entire (केवल + कल्प)
केवली :	One who is accomplished (केवलिन्)
केवलो : (adj)	Only, mere, alone, exclusive: all, entire, whole, complete (केवल)
केवट्टो :	Fisherman (कैवर्त)
केयूरं :	A bracelet or bangle worn on the arm (केयूर)
खचितो :	In-laid (खचित)
खादको :	One who eats (खादक)
खादनं :	Eating; food (खादन)
खादनियो :	Eatable (खादनीय)
खादति :	To eat, to clear (खाद्)
खदिरो :	The tree ocacia catechu (खदिर)
खादिता :	One who eats (खाद + तृ)

खादितब्बको :	(adj) Eatable (खाद + तव्य + क)
खादितो :	Eaten (खादित)
खग्गो :	A sword: a rhinoceros (खड्ग)
खगो :	A bird (खग)
खज्जा :	See (खो)
खज्जभोज्जं :	Various kinds of food (खाद्य + भोज्य)
खज्जकं :	Various kinds of food (खाद्य + भोज्य)
खज्जति :	To be eaten (खाद्यते)
खज्जो :	That can be eaten or chiewed (खाद्य)
खज्जु	Itching, seratching (खर्जु)
खज्जूरी :	Wild date palm tree, phoenix sylvestris (खजूरी)
खलग्गं :	First fruits of the threshing floor (खल + अग्र)
खलं :	A threshing floor
खलति :	To stumble, to fall (स्खल्)
खलीनो, नं :	The bite of a bridle (खलीन)
खलितं :	Stumbling, fall: error, failing, fault (स्खलित)
खल्लटो :	Bald (खल्लट)
खलो :	Mischievous, vile (खल)
खलो :	A threshing floor; oil-cake, paste (खल)
खलोपी :	A pot
खलु :	Indeed, truly (खलु)
खलुङ्को :	A sort of horse
खं :	The air, the sky (ख)
खमनं :	Patience, forbearance (क्षम + अन)
खमनो : (adj)	patient, forbearing (क्षम + अन)
खमापेति :	To forgive; to apologize: to propitiate: to cause to beg pardon (क्षमयति)
खमति :	To endure, to have patience; to forgive; to be permitted; to be approved, to approve or command itself (क्षम्)
खम्भकतो :	Having one or both hands resting on the hip (स्कम्भ + अ + कृत)
खमो :	Patient; enduring, forgiving, durable: suitable, favourable : able (क्षम)
खाणलयो :	See मुहुत्तो
खनापेति :	To cause to be dug; to cause to be interred

170 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

खनति :	To dig (खन्)
खण्डाखण्डं, :	In pieces (खण्ड + खण्ड)
खण्डिकं	
खण्डनं :	Dividing, breaking (खण्डन)
खण्डफुल्लो : (adj)	Broken (खण्ड + फुल्ल)
खण्डेति, खण्डन :	To divide, to break (खण्ड)
खन्धादिसो :	Like the skandhas (स्कन्ध + दृश्)
खन्धकं :	See विनयो
खन्धावारो :	A stockade; a fortified camp; an army (स्कन्धवार)
खन्धिको :	Carried on shoulders (स्कन्धि + क)
खन्धो :	The God skanda (स्कन्द)
खन्धो :	The shoulder: the turn of a tree: Quantity one of the five elements of being (स्कन्ध)
खण्डिच्चं :	State of being broken (खण्डित + य)
खण्डो :	Broken, fragmentary, imperfect (खण्ड)
खनेति :	See खनति
खनिति :	A spade or hoe (खनित्र)
खानित्तिको :	One who digs (खनित्र + इक)
खञ्जनो :	A wagtail (खञ्जरीट)
खञ्जत्तं :	Lameness (खञ्ज + त्व)
खञ्जो :	Lame (खञ्ज)
खञ्जति :	See (खनति)
खणो :	Moment; a brief measure of time: leisure, right moment: opportunity (क्षण)
खन्तब्बो :	See खनति
खन्ति :	Patience, longsuffering, forbearance, endurance (क्षान्ति)
खन्तिमा :	Patient, forbearing (क्षान्तिमन्त्)
खन्तो :	Patient, enduring (क्षान्त = क्षम्)
खाणु :	The stump of a tree
खाणुको, कं :	The stump of a tree
खानुमा :	Having stumps
खरादिया :	A proper noun
खारको :	Alkali, potash soda: a bud: name of a tree (क्षारक)
खरणं :	Pouring, flowing (क्षरण)
खरति :	To flow, to stream (क्षर)
खारी :	A measure of grain containing about three bushels (खारी)

खरो :	Solid, sharp, severe, hoarse, rough, harsh (खर)
खारो :	Salty, alkaline (क्षार्)
खटको :	The fist (खटक)
खातं :	Pond or tank (खात = खन्)
खति :	Digging, excavating (from खन्)
खतो :	Dug, excavated
खत्ता :	A door-keeper; a charioteer (क्षत्र)
खत्तं :	A kshatriya (क्षत्र)
खत्तियमहासालो :	A wealthy kshatriya (क्षत्रिय + महा + सार)
खत्तियो :	A kshatriya, a warrior; nobleman (क्षत्रिय)
खत्तुं :	Adverb forming multiplicative numerals (कृत्वस्)
खांयति :	To be known, to be seen, to appear (ख्यायते = रव्या)
खायिको :	Eating (खादिन् + क)
खायितो :	Eaten (खादित)
खायो :	An abode; diminution, loss, decay; phthisis, end, destruction (क्षय)
खेदनं :	Suffering (खेदन)
खेदो :	Affliction, suffering, weariness (खेद)
खेलो :	Saliva, phlegm (खेट)
खेमि (adj) :	Safe, tranquil (क्षेमिन्)
खेमो (adj) :	Safe, secure, prosperous, peaceful (क्षेम)
खेपको :	Throwing, letting fall (क्षेपक)
खेपनं :	Throwing (क्षेपण)
खेपेति :	To throw, to spend, to pass (क्षेपयति = क्षिप्)
खेपो :	Throwing, abuse, contempt, blame (क्षेप)
खेतकं :	A shield (खटक)
खेत्ताजीवो :	A husbandman, farmer, cultivator (क्षेत्र + आजीव)
खेत्तं :	Landed property: cultivated field; a wife, the body; place, region, domain, extent (क्षेत्र)
खिड्डा :	Play, sport (क्रीडा)
खिज्जति :	To be afflicted (खिद)
खिलजातो (adj) :	Stubborn (खिली + भूत)

172 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

खिलो :	Stubbornness, obstinacy, waste or follow land (खिल)
खिलो :	A pin, a stake (कील)
खीणबीजो :	Whose germ of existence has withered, whose karma is exhausted, an Arhata (क्षीण + बीज)
खीणपुनर्भवो :	One for whom rebirth has come to an end, an Arhata (क्षीण + पुनर् + भव)
खीणासवो :	One in whom human passion is extinct, an Arhata (क्षीण + आस्रव)
खिन्नो :	Tired, distressed (खिन्न = खिद्)
खीणो :	Decreased, decayed, ceased, died out (क्षीण = क्षि)
खिपनं :	Throwing (क्षिप् + अन)
खिपति :	To throw, to discharge to shoot (क्षिप्)
खिपति :	To sneeze (क्षिव्, क्षीवू, क्षीवू, क्षुं)
खिपितकं :	A sneeze
खिप्पो : (adj)	Quick, speedy (क्षिप्र)
खीरं :	Milk (क्षीर)
खीरणवो :	The mythical ocean or sea (क्षीर + अर्णव)
खीरापको :	Drinking milk (क्षीरप + क)
खीरिका :	A sort of dali-tree Buchanania Latifolia (क्षीरिका)
खीरोदक, खीरोदो :	Water from the milk ocean (क्षीर + उदक)
खितो :	Exhausted (क्षित = क्षि)
खित्तो :	Thrown; darted (क्षिप्त = झिप्)
खीयनं :	Being angry, complaining, murmuring
खीयति :	To waste away, to be exhausted, to come to an end: to be angry, to complain (क्षीयते = क्षि)
खो :	Indeed (खलु)
खोभेति :	To shake, to agitate, to stir-up (क्षोभयति = क्षुभ्)
खोमो :	Flaxen (क्षौम)
खोण्डो :	Lame (खोड)
खोपन :	See खो
खुदा :	Hunger (क्षुधा)
खुद्घण्टिका :	A fringe of bell used as ornaments (क्षुद्रघण्टिका)
खुद्घजन्तु, न्तुको :	A worm (क्षुद्र + जन्तु)
खुद्घको :	Small (क्षुद्रक)
खुद्घं :	Honey (क्षौद्र)

खुद्दानुखुद्दको :	Small and trifling (क्षुद्र + अनु + क्षुद्र + क)
खुद्दो :	Small, vile, low, poor, miserable (क्षुद्र)
खुदितो :	Hungry (क्षुधित)
खुच्चो :	Hump backed, crooked (कुब्ज)
खुलुखुलुकरको :	Making a scraping noise
खुप्पिपासा :	Hunger and thirst (क्षुध + पिपासा)
खुप्पिपासितो :	(Adj) Hungry and thirsty (क्षुधपिपासित)
खुरगां :	Hall in which the heads of Buddhist-priest were shaved (क्षुर + अगार)
खुरको :	Name of a tree (क्षुरक)
खुरण्णो :	An arrow with a horse-shoe head (क्षुरप्र)
खुरति :	To cut, to scratch (क्षुर, खुर)
खुरो :	A razor; a sharp-blade (क्षुर)
खुरो :	The hoof of a horse or ox (खुर)
ख्ख :	See खो
ख्या :	Indication, sign (ख्या)
ख्यातो :	Known, famous (ख्यात = ख्या)
किब्बिधानं :	Rules of Krit affixes (कृत् + विधान)
किब्बिसं :	Fault, demerit, sin (किलिष)
किचको :	A sort of Bamboo arundo kaska (कीचको)
किच्चाधिकरणं :	A question or case that arises in connection with the performance of ecclesiastical duties or rites (कृत्य + अधिकरण)
किच्चकारो :	Performing services or duties (कृत्य + कर)
किच्चाकिच्चानि :	Duties great and small, all sorts of duties (कृत्य + कृत्य)
किच्छो : (adj)	Difficult, troublesome, wearisome, labourious, painful (कृच्छ)
किच्चो :	That ought to be done (कृत्य)
कीदी :	Like what ? (कीदृश्)
कीदिक्खो :	Of what sort ? (कीदृश्)
कीकी :	The blue jay (किकि)
किल :	So they say (किल)
किळा :	Sport, amusement, play (क्रीडा)
किलमनं :	Fatigue (क्लम् + अन्)
किलमथो :	Fatigue (क्लमथ)

174 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

किलमति :	To be tired, worn out, troubled, exhausted (क्लम्)
कीळनं :	Playing, sport (क्रीडन)
किलज्जो :	A mat, matting (किलिज्ज)
किलन्तो :	Wearied, exhausted (क्लान्त = क्लम)
किलासो :	A contagious complaint, dry leprosy (किलास)
कीळति :	To play, to sport (क्रीड)
किलेसो :	Sin, depravity, corruption, human-passion, moral defilement, lust (क्लेश्)
किलिन्नो :	Wet (क्लिन्न + क्लिद्)
किलिस्सति :	To suffer, to be injured; to be deprived (क्लिश्)
कीळितं :	See कीळति
कीलितो :	Bound (कीलित = कील्)
किलिट्ठो :	Afflicted, suffering; deprived; sinful, polluted, vicious: soiled: dirty: contradictory (क्लिष्ट = क्लिश्)
कीलो :	A pin; a stake (कील)
कीलोमकं :	This word is (क्लीमन् + क)
किं :	Why? Pray! What! (किम्)
किमङ्गः (adv)	Far more (किम् + अङ्ग)
किमपि :	Far more (किम् + अपि)
किमत्थो :	What need? (किम् + अर्थ)
किमि :	A worm, an insect (कृमि)
किमिजो (adj) :	Produced by a worm; silken (कृमिज)
किंनामो, किन्नामो (adj)	Having what name (किम् + नामन्)
किंनिमित्तो (adj) :	Having what mark? (किम् + निमित्त)
किंपच्चया :	By means of what? (किम् + प्रत्ययात्)
किंपमाणो (adj) :	How large? of what dimensions? (किम् + प्रमाण)
किंप्पुरिसो :	A class of demigods in the service of kuvera (किम् + पुरुष)
किंसण्ठानो (adj) :	Having what shape? (किम् + संस्थान)
किंसु (adv) :	How? (किम् + स्विद्)
किंसु (neut. pron.) :	What (किम् + स्विद्)
किंसुको :	The tree Butea frondosa (किंशुक)
किमु :	How much more! (किम् + उ)
किमुता :	How much more! (किम् + उत)
किंबदन्ती :	Report, rumour (किंबदन्ती)

किंम्वादी (adj) :	Saying what? holding what doctrine? (किम् + वादिन्)
किंम्यथा (adv.) :	How? (किम् + यथा)
किणाति :	To buy (क्री)
किञ्चन :	Anything, something; moral defilement, sin, clinging to the world, attachment (किञ्चन)
किञ्चापि :	However much, although (किञ्चिद् + अपि)
किञ्चेति :	To crush, to trample
किञ्चि (adv) :	A little, rather (किञ्चिद्)
किञ्चिकं :	A small thing, any trifle
किञ्चिमत्तं :	A little, some trifle (किञ्चिद् + मात्र)
किञ्जिखो :	A filament, especially of the lotus (किञ्जल्क)
किङ्कारणा (adv) :	On account of what? Why?
किङ्करणीयं :	Business, job (किम् + करणीय = कृ)
किङ्करो + किङ्कारो :	A servant (किंकर)
किङ्किणी :	A small bell (किङ्किणी)
किङ्किणीकं + को :	A small bell (किङ्किणिक)
किङ्किरातो :	Name of a plant (किंकिरात)
किण्णं :	Ferment, yeast (किण्व)
किन्नामो :	See Kimnamo
किन्नरो :	A class of semigods in the service of Kuvera (किंनर)
किन्निमित्तो (adj) :	Having what mark? (किम् + निमित्त)
किन्नु :	See को, किं
किन्ति (adv) :	How? Pray! (किम् + इति)
किपिलो :	An ant (पिपील)
किपिल्लिको :	An ant (पिपीलिक)
किरा (adv) :	They say: its said (किल)
किरणो :	A ray of light (किरण)
किरातो :	A man of a tribe of out caste hillmen or aborigines (किरात)
किरीटो + टं :	A diadem (किरीट)
किरिया + किरियं :	Action, performance, work, deed (क्रिया)
किरो :	A parrot (कीर)
किसलयं :	A sprout, a shoot (किसलय)
किस्मिच्चि :	See Koci

176 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

किसो : (adj)	Thin, emaciated; small, poor, mean (क्लिश्)
किसोरो :	A colt (किशोर)
किस्सा :	See को
कित + कितो :	A grammatical term, a krit affix (कृत्)
कितको :	A word formed with a krit affix (कृत् + अक)
कितवो :	A gambler; a cheat, a rogue (कितव)
कितो :	Bought (क्रीत = क्री)
कीटो :	A worm, an insect (कीट)
कित्तको (adj) :	How much? How great? How many?
कित्तनं :	Mention, report (कीर्तन)
कित्तावता (adv) :	How far? to what extent? In how many ways?
कित्तेति :	To proclaim, to celebrate, to publish, to announce, to propound, to call (वृत्)
किटुं :	Growing corn, the crop of the ground (कृष्ट = कृष)
कित्ति :	Fame, renown; report, rumour (कीर्ति)
कित्तिमा (adj) :	Renowned (कीर्तिमन्त्)
कित्तिमो (adj) :	Artificial, factitious, false (कृत्रिम)
कित्तिसद्दो :	Fame reputation (कीर्ति + शब्द)
कीवा (adv) :	How? how much? (कियन्त्)
को (Interr. pron.) :	Who? which? what? of what sort? (किम्)
कोच्चं :	A comb: some sort of couch
कोचि + कोचिद् :	Any, some (किम् चिद्)
कोदण्डं :	A bow (कोदण्ड)
कोधनो (adj) :	Angry, passionate (क्रोधन)
कोधेति :	To make angry (क्रोधयति = क्रुध)
कोधो :	Anger, wrath (क्रोध)
कोहञ्जं :	Hypocrisy, deceit (कुहन + य)
कोजवो :	A goat's hair, cover-let of fine workmanship
कोकनदं :	The red lotus (कोकनद)
कोकासको :	The red lotus
कोकिलो :	The Indian cuckoo (कोकिल)
कोको :	A wolf (कोक)
कोलाहलो + लं :	Uproar, tumult, shouting, screaming (कोलाहल)
कोलकं :	Black-pepper: a particular perfume (कोलक)

कोलं + कोलो :	The jujube fruit (कोल)
कोलंबो :	A pot
कोलावल्ली :	A sort of pepper: Piper chaba (कोलवल्ली)
कोलय्यो :	Of noble family (कोलेय)
कोली :	The jujube tree (कोली)
कोलितो :	A name of apostle Moggallana (कोलित)
कोमलो (adj) :	Soft (कोमल)
कोमारभच्चो :	A proper-name (कौमारभृत्य)
कोमुदी :	Moonlight (कौमुदी)
कोणागमनो :	Name of one of the twenty four Buddhas
कोणको :	A corner (कोण + क)
कोनामो (adj) :	Having what name?
कोञ्चो + कोञ्चा :	A heron (क्रौंच)
कोण्डञ्जो :	Name of one of the twenty four Buddhas (कौण्डिण्य)
कोणो :	A corner or angle : a bow or a quill for musical instrument : the point of a sword (कोण)
कोपेति :	To make angry, to annoy, to offend: to disturb, to spoil: to throw into confusion (कोपयति = कुप्)
कोपी (adj) :	Warthful (कोपिन्)
कोपीनं :	Pudenda : improper act: a cloth to cover Pudenda (कोपिन्)
कोप :	Anger, ill temper (कोप)
कोरकं + को :	A flower, bud (कोरक)
कोसज्जं :	Indolence, sloth (कौसीद्य)
कोसल :	Name of a country and its people (कोसल)
कोसल्लं :	Skill, proficiency, knowledge, mastery (कौशल्य)
कोसलो (adj) :	Belonging to kosala (कोसल + अ)
कोसम्बको (adj) :	Belonging to the kausamba country (कौशाम्ब + क)
कोसम्बी :	Name of the capital of the Kausamba Country (कौशाम्बी)
कोसफलं :	Bolellium, a fragrant gum (कोश + फल)
कोसेय्यो (adj) :	Made of silk (कौशेय)
कोसी :	See को
कोसी :	The sheath of a sword (कोशी)
कोसिको :	Bolellium, a fragrant gum (कौशिक)
कोसिनारो :	Belonging to Kusinara

178 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कोसियो (adj) :	Silken (कोश + य)
कोसियो :	Indra: an owl (कौशिक)
कोसो :	A shout, a call; a measure of length, equal to 600 yards (क्रोश)
कोसो + कोसं :	A sheath: a bud: treasure: a testicle (कोश)
कोसोहितो (adj) :	Sheathed, hidden (कोश + अवहित = धा)
कोटरावनं :	Proper name (कोटरावण)
कोटरो + रं :	The hollow of a tree (कोटर)
कोटि :	Point, tip, end, extremity, top, summit, length; emmence, exceeds; ten-million (कोटि)
कोटिल्लं :	Crookedness, deceitfulness (कौटिल्य)
कोटिप्पकोटि :	One of the high-numerals followed by twenty one ciphers (कोटि + प्र + कोटि)
कोटिप्पत्तो (adj) :	Having reached the end or summit, having fully accomplished or attained; perfectly attained, perfect (कोटि + प्राप्त = आप्)
कोट्टको (adj) :	Breaking, cutting
कोट्टनं :	Pounding, cutting
कोट्टापेति :	To cause to be pounded
कोट्टेति :	To strike, to break, to pound, to cut (कुट्ट)
कोट्टागारं :	A store-room, store house (कोष्ठ + आगार)
कोट्टागारिको :	A treasurer or store-house keeper (कोष्ठागार + इक)
कोट्टको :	A room: a store-room (कोष्ठ + क)
कोट्टं :	A granary (कोष्ठ)
कोट्टासयो (adj) :	Contained in the intestine (कोष्ठ + आशय)
कोट्टासो :	A part, a portion, a share : portion, lot, destiny
कोट्टो :	A Granary; a store-room; the abdomen: a room: a closet (कोष्ठ)
कोट्टु :	A jackal (कोष्ठु)
कोट्टिमो (adj) :	Smoothed, beaten (?) (कुट्टिम)
कोट्टिमो + मं :	A floor or pavement made of pounded stones (कुट्टिम)
कुट्टो (adj) :	Breaking (कुट्ट)
कोट्टूहलं :	See Kutuhalam
कोट्टुम्बरं :	A sort of cloth
कोविदो :	Knowing, acquainted with, skilled, wise (कोविद)

कोविळारो :	A sort of ebony, Bauhinia Variegata: a tree in the Devaloka (कोविदार)
क्रिया :	Action, act, performance (क्रिया)
कु :	The earth (कु)
कु :	A pronomical base found in interrogatives
कुब्बानो :	Doing, making (कुर्वाण)
कुब्बरो :	The pole of a carriage (कूबर)
कुब्बति :	See करोति
कुबुद्धि (adj) :	Weak-mind: foolish (कुबुद्धि)
कुच्छा :	Blame; contempt (कुत्सा)
कुच्छनं :	Contempt (कुत्सन)
कुच्छि :	The belly, the womb, cavity, hollow; interior (कुक्षि)
कुच्छितो (adj) :	Contemptible, vile, bad (कुत्सित)
कुच्छिट्ठो (adj) :	Contained in the abdomen (कुक्षि + स्थ)
कुचो :	The female-breast (क्रुच)
कुदाचनं (adv) :	Ever, sometimes (कदा + चन)
कुदारो :	A bad-wife (कु + दार)
कुदासो :	A bad-servant (कु + दास)
कुदालिको :	One who digs with a kudala (कुदाल + इक)
कुदालं + लो :	A spade (कुदाल)
कुड्डं :	A wall (कुडा)
कुद्धो :	Angry; indignant (क्रुद्ध = क्रुध्)
कुदिट्ठि :	Septism, unbelief, heresy (कु + दृष्टि)
कुद्रूसो :	A sort of grain
कुडुबो :	A measure of capacity equal to a forth of pattha (कुडव)
कुडुमलो :	An opening bud (कुडमल)
कुगन्धि (adj) :	Ill-smelling (कु + गन्धि)
कुगेहं :	Bad-house (कु + गेह)
कुहको (adj) :	Deceitful, cheating (कुहक)
कुहं (adv) :	When? Whither? (कुह)
कुहना :	Deceit, hypocrisy (कुहना)
कुहनो (adj) :	Deceitful, hypocritical (कुहन)
कुहरं :	A hole, a cavity (कुहर)
कुहेति :	To deceive (कुह)

180 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कुहिं (adv) :	Where? Whither? (कुह)
कुहिञ्चनं (adv) :	Anywhere, somewhere (कुह + चन)
कुहिञ्चि (adv) :	Anywhere, to any place (कुह + चिद्)
कुञ्झति :	To be angry (क्रुध)
कुजो :	A tree (कुज)
कुक्कु :	A measure of length
कुक्कुच्चको (adj) :	Remorseful, sensitive (कौकृत्य + क)
कुक्कुच्चं :	Misconduct: remorse: doubt: moroseness, querulousness, restlessness (कौकृत्य)
कुक्कुच्चायति :	To feel remorse
कुक्कुहो :	A osprey
कुक्कुलो :	Hot ashes, embers
कुक्कुरो :	A dog (कुक्कुर)
कुक्कुटो :	A cock (कुक्कुट)
कुक्कुट्टको :	A sort of bird
कुलाचलो :	Principal mountain (कुल + अचल)
कुलजो :	Of good family (कुलज)
कुलको :	Of good family (कुलक)
कुलालो :	A bird of the falcon tribe
कुलालो :	A potter (कुलाल)
कुलं :	A flock, a herd, a multitude: family, species: a house, a building, lineage, good family, nobility (कुल)
कूलं :	A slope, a bank (कूल)
कुलटा :	An unchaste woman (कुलटा)
कुलत्थ :	A kind of vetch, Dolichos, uniflours (कुलत्थ)
कुलवा :	Belonging to a high family (कुलवन्त्)
कुलावकं :	A nest (कुलाय + क)
कुलिको (adj) :	Belonging to a family (कुलिक)
कुलीनको :	A thorough bred horse (कुलीनक)
कुलीनो (adj) :	Belonging to a family: of good or noble family (कुलीन)
कुलीरो :	A crab (कुलीर)
कुलिसो + सं :	Indra's thunderbolt (कुलिश)
कुलित्थि :	A woman of good family: a lady (कुल + स्त्री)
कुल्लो :	A winnowing basket: a raft (कुल्ल्य)

कुलुपको, कुलुपगो :	A family friend: a confident (कुल + उपग)
कुमारको :	A child, a youth: a royal infant or youth: a prince (कुमारक)
कुमार :	A child: a youth: a prince: skunda the God of war (कुमार)
कुम्भकं :	The mast of a ship (कुम्भक)
कुम्भकारो :	A potter (कुम्भ + कार)
कुम्भण्डो :	Demons, supernatural beings: name of a plant (कुम्भाण्ड)
कुम्भथूनं :	A drum or similar musical instrument
कुम्भी :	A pot: name of a plant (कुम्भी)
कुम्भिको :	Containing a kumbha-measure (कुम्भ + इक)
कुम्भीलो :	A crocodile or alligator (कुम्भीर)
कुम्भो :	A water-pot, a pitcher, one of the frontal lobes of an elephant which swell in the utting season a measure of capacity (कुम्भ)
कुमिनं :	Tunnel-shaped basket, fish-net
कुम्मासो :	Sour gruel (कुल्माष)
कुम्भो :	A tortoise (कूर्म)
कुमुदं :	White water-lily: one of the high numerals followed by 105 ciphers (कुमुद)
कुमुदिका :	Name of a plant (कुमुदिका)
कुणालो :	The Indian Cuckoo (कुणाल)
कुणपो + पं :	A corpse (कुणप)
कुञ्चनादो, :	The roaring or trumping of an elephant
कोञ्चनादो	
कुञ्चिका :	A key (कुञ्चिका)
कुञ्चितो :	Bent, crooked (कुञ्चित = कुच्)
कुण्डको :	The red powder which adheres to the grain of rice under the husk
कुण्डल :	Ring, an earring, an ear-ornament (कुण्डल)
कुण्डली :	Having rings (कुण्डलिन्)
कुन्दं :	Jasmine multiform (कुन्दा)
कुण्डं :	A jar, a water-pot (कुण्ड)
कुण्डति :	To heat (कुण्ड्)
कुण्डिका :	The water-pot of an ascetic (कण्डिका)
कुण्डो :	An iguana or Ichene umon (कुण्ड)
कुणि :	Having a crooked limb (कुणि)

182 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कुञ्जरो :	An elephant (कुञ्जर)
कुञ्जो + कुञ्जं :	A place overgrown with creeping plants (कुञ्ज)
कुङ्कुमं :	Saffron, Crocus salivus (कुङ्कुम)
कुङ्कुमो :	Dyed with saffron (कुङ्कुम)
कुन्दी :	A very small river (कु + नदी)
कुन्तलो :	Hair (कुन्तल)
कुन्तनी :	A curlew
कुण्ठो (adj) :	Slow, lazy (क्रुण्ठ)
कुन्तो :	A lance or spear (कुन्त)
कूपको :	The mast of a ship (कूपक)
कुपितो :	Angry, enraged excited (कुपित = कुप्)
कूपो :	A pit; a well: the mast of a ship (कूप)
कुप्यं :	Any metal except gold or silver, as copper, zinc etc. (कुप्य)
कुप्यनं :	Being angry
कुप्पति :	To be angry, to be disturbed, shaken, agitated, thrown into confusion (कुप्)
कुपुरिसो :	A bad-man (कु + पुरुष)
कुपुत्तो :	A bad-son (कु + पुत्र)
कुरं :	Boiled rice (कूर)
कुरण्डको :	A sort of Amaranth (कुरण्डक)
कुरङ्ग :	An antelope (कुरङ्ग)
कुरो :	Sea-eye or Osprey (कुरर)
कुरवीको :	A fine-voiced bird
कुरु :	From Karoti
कुरू :	Name of a people (कुरू)
कुरुमानो :	From 'Karoti' formed upon 'Kurute'
कुरुन्दि :	Name of one of the three great collection of Atthakatha
कुरुङ्गो :	A sort of deer
कुरुरो (adj) :	Cruel; hard: severe: formidable (क्रूर)
कुरूते :	See करोति
कुरुविन्दो :	A ruby (कुरुविन्द)
कुसा :	A rein, bridle (कुशा)
कुसगं :	The lip of a blade of kusa grass (कुश + अग्र)
कुसलकम्मपथो :	Way of virtuous action or merit (कुशल + कर्मन + पथ)

कुसलाकुसलं :	Good and bad (कुशल + अकुशल)
कुसलता :	Skill, knowledge (कुशलता)
कुसलत्तं :	Skillfulness (कुशल + त्व)
कुसली (adj) :	Prosperous, meritorious (कुशलिन्)
कुसलो (adj) :	Skilful, expert, clever, lucky, happy, prosperous good, right, virtuous, meritorious (कुशल)
कुसेसयं :	Water-lily or lotus (कुशेशय)
कुसि :	One of the four cross-seams of the robe of a Buddhist-monk
कुसिनारा :	The capital of the Mallas, in India (कुशिनगरी)
कुसीतो (adj) :	Slothful, inert, indolent (कुसीद)
कुसो :	A blade of grass: the sacrificial grass (कुश)
कुसुम्भ :	A small pond, a puddle (कुज्वम्भ)
कुसूलो :	Granary (कुशूल)
कुसुमं :	The flower: the menses (कुसुम)
कुसुम्भं :	Safflower, carthamus timetorius (कुसुम्भ)
कुटधारिका :	A maid-servant (कुट + धारिका)
कूटागारं :	A pagoda or a building with a peaked roof or pinnacles: a room at the top of a palace: a Belvedere, attic: a funeral hearse, a catafalque (कूट + आगार)
कुटजो :	The plant Wrihglia antidysentica (कूटज)
कूटकं :	A heap, a mound: a peak (कूट + क)
कुटन्नटं :	The plant, cyperus Rotindus (कुटन्नट)
कूटसिम्बली :	A variety of the silk-cotton-tree (कूट + शल्मली)
कूटस्सो :	A vicious horse (कूट + अश्व)
कूटट्टो (adj) :	Continuing unattested, inchargeable, permanent (कूटस्थ)
कूटट्टो :	A false suit or action at law, one supported by fake or frivolous evidence (कूट + अर्थ)
कुटेत्थ :	कूटो एत्थ
कुठारी :	An axe (कुठारी)
कुथो + कुथं :	A woollen blanket (कुथ)
कुटी :	A hut, a cabin, a house, a tent, shed (कुटी)
कुटिका :	A hut or tent (कुटिका)
कुटिलो (adj) :	Crooked, shifty, deceitful (कुटिल)
कुटिम्बं :	See Kutumba
कुटीरं :	A box, a kennel (कुटीर)

184 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

कुतो (adv) :	Whence? how? much less (कुतस्)
कुटो + कुटं :	A water-pot (कुट)
कुटो + कूटं :	Top, summit, peak: a leap, a mass, a multitude: a sledge-hammer; a trap: deceit; deception, falsity, fraud: a part of a plough (कूट)
कूटो (adj) :	False, fraudulent, lying (कूट)
कुटोचि (adv) :	From any place (कुतस् + चिद्)
कुत्र (adv) :	Where? (कुत्र)
कुत्तकं :	A woollen carpet
कुत्था (adv) :	Where? (कुत्र)
कुत्थं :	Leprosy, the plant costus speciosus (कुष्ठ)
कुट्टी :	A laper (कुष्ठिन)
कुत्तिमो (adj) :	Artificial (कृतम्)
कुतूहलं - कौतूहलं :	Eagerness, desire, passion: vehemance, violence: excitement, tumult (कुतूहल, कौतूहल)
कुटुम्बं, कुटिम्बं :	Family: family property: family estates wealth (कुटुम्ब)
कुटुम्बी :	The head of a family: a landed proprietor, a man of property (कुटुम्बिन्)
कुटुम्बिको, कुटिम्बिको :	Same as last (कुटुम्बिक)
कुवलयं :	The water lily (कुवलय)
कुवं (adv) :	Where? (क्व)
कुवेणी :	A funnel-shaped wicker-basket for catching fish कुवेणी
कुबेरो :	A name of Vessavana (कुबेर)
क्व (adv) :	Where? Whither (क्व)
क्वचि (adv) :	Somewhere: sometimes: in some cases: in some places (क्व + चिद्)
क्वथो :	What need of? (क्वः + अर्थ)

L

लब्धा :	Allowable, possible (लभ्य)
लब्धनेय्यो (adj) :	Obtainable
लभति :	To be taken: to be obtained: to be received: to be permitted (लभ्यते = लभ्)
लब्धो :	Obtainable; proper, right, suitable, admissible (लभ्य = लभ्)
लाभा :	See लाभो
लाभगं :	Highest gain (लाभ + अग्र)
लभनं :	Taking, receiving, acquisition (लभन)
लभति :	To obtain, to get, to acquire: to meet with, to fix: to receive; to take: to obtain permission: to allow; to receive an opportunity, to get a chance: to be able (लभ्)
लाभि (adj) :	Possessed of (लाभिन्)
लाभो :	Gain; receipts; receiving; obtaining; acquisition (लाभ)
लाबु :	A pumpkin (लाबु)
लबुजो :	The tree artocarpus lacucha (लकुच)
लच्छति :	See लभति
लद्धा :	Ger from Labhati (लद्धा)
लद्धव्यो :	That ought to be received or obtained (लद्धव्य = लभ्)
लद्धको (adj) :	Delightful, pleasing (लद्ध + क)
लद्धि :	Religious belief: wrong views: heresy (लद्धि)
लद्धिको :	Heretical, schismatic (लद्धि + क)
लद्धो :	Taken, obtained, received (लद्ध = लभ्)
लद्धं :	See लभति
लग्गापेति :	To cause to be hung up
लग्गति, लगति :	To adhere, to stick fast, to hang from (लग्)
लग्गेति, लगेति :	To fasten, to tie, to hang up (caus)
लग्गो :	Attached, tied, adhering (लग्न = लग्)
लगितो :	Adhering (लगित = लग्)
लगुळो :	A club, a mallet (लगुड)
लहु (adj) :	Light; quick: vain: frivolous, flighty: trifling, insignificant: beautiful delightful (लघु)
लहु, लहुं (adv) :	Quickly; surely, certainly (लघु)

लहुको (adj) :	Light, trifling (लघु + क)
लहुता :	Lightness, buoyancy (लघुता)
लहुट्टानं :	Bodily, vigour (लघु + उत्थान)
लज्जा :	Shame, modesty, timidity (लज्जा)
लज्जानं :	Being ashamed (लज्ज + अन)
लज्जति :	To be ashamed (लज्ज्)
लज्जी (adj) :	Feeling ashamed, modest, quiet, well-conducted (लज्जा + इन्)
लज्जितो (adj) :	Ashamed, shameful (लज्जित)
लाजो + लाजा :	Fried-grain; parched corn (लाज)
लकारो :	The letter L (ल + कार)
लकारो :	A part of a ship
लाखा :	Lac, an animal dye (लाक्षा)
लखं :	A mask; a target; a lac or 100,000 (लक्ष)
लखणं :	Mask, sign, symptom, characteristic: attribute, property, nature, quality: a definition: a grammatical rule: a lucky mark; a personal characteristic from which good fortune may be predicted; the art of fortune telling (लक्षण)
लखणञ्जू (adj) :	Knowing signs, skilled in predicting man's future from the marks on his future (लक्षणज्ञ)
लखणीयो (adj) :	Distinguished, characterised (लक्षणीय)
लखञ्जो (adj) :	Auspicious, beautiful (लक्षण्य)
लखेति :	To mark, to characterize, to distinguish, to discuss (लक्ष)
लखी :	Prosperity, splendour, beauty, royal, power: Lakshmi, the Goddess of prosperity (लक्ष्मी)
लखितो :	Distinguished, marked, renowned (लक्षित)
लकुण्टको :	A dwarf
लाला :	Saliva (लाला)
ललना :	A woman (ललना)
लालनं :	Dalliance, sport (लालन)
लालप्पति + :	To lament (लालायते = लप्)
लालपति	
लालसा :	Ardent desire (लालसा)
ललाटं :	Fore-head (ललाट)
ललाति :	To sport, to dolly (लल्)

लामको (adj) :	Low inferior, vile
लम्बकण्णो (adj) :	Having hanging ears or ears with long holes (लम्बकर्ण)
लम्बति :	To drop, to fall; to hang down, to be suspended (लम्बति)
लम्बिको :	Hanging, suspended (लम्बिन् + क)
लम्बितो :	Suspended; hanging downwards (लम्बित)
लम्बो :	Pendulous, long, large (लम्ब)
लञ्चनं :	A mark, the seal of a letter (लाञ्छन)
लञ्छति + लञ्छेति :	To seal (लञ्छ्)
लञ्छो :	A mark, an imprint (लञ्छ + अ)
लञ्चो :	A present; a bribe (लञ्च)
लण्डं :	The dung of animals (लण्ड)
लङ्गली :	Name of a plant (लाङ्गली)
लङ्घति :	To disregard, to step over, to jump over (लङ्घ)
लङ्घेति :	To jump over, to lift-up (लङ्घ)
लङ्घि :	A bolt or bar (लङ्घि)
लङ्का :	Ceylon (लङ्का)
लङ्कादीपट्टो :	Living in Ceylon (लङ्काद्विप + स्थ)
लङ्कादीपो + षं :	Island of Ceylon (लङ्का + द्वीप)
लङ्घिको :	Belonging to Ceylon (लङ्का + इक)
लङ्घिन्द्रो :	King of Ceylon (लङ्का + इन्द्र)
लङ्घिस्सरो :	King of Ceylon (लङ्का + इश्वर)
लपको :	One who fawns or intrigues (लप् + अक)
लपनजो :	A tooth (लपन + ज)
लपनं :	Speaking: the mouth (लपन)
लपायेति :	To cause to talk or beg
लपति :	To talk; to prattle: to mutter; to whine; to lament (लप्)
लपयति :	To talk, to prattle, to whine: to beg
लापयति :	See लपति
लपितं :	Talk, voice (लपित = लप्)
लापो :	A sort of quail Perdix chenensis (लाब, लाव)
लापु :	See (अलापु)
लासनं :	Dancing (लासन)
लसति :	To shine, to sport (लस)
लसी :	Brains

लसिका :	The fluid which lubricates the joints (लसिका)
लसुनं :	Garlic (लशुन)
लता :	Creaper: a branch (लता)
लाति :	To take (ला)
लक्तकं :	Lac, a red animal dye (लक्तक)
लट्टि, लट्टिका :	A staff, a stick: an offshoot, a plant (यष्टि, यष्टिका)
लटुकिका :	The diminutive Indian quail (लट्किका + इका)
लावको :	A reaper (लावक)
लवनं :	Cutting, reaping (लवन)
लवणं :	Salt (लवण)
लवङ्गं :	Clove (लवङ्ग)
लवनो (adj) :	reaping (लवन)
लावेति :	To cut, to reap (लावयति = लू)
लायति :	To reap (लू)
लयो :	A brief measure of time (लय)
लेइडु :	A clod of earth (लेष्टु)
लेहति :	To lick (लिह)
लेखा :	A line, a streak, a scratch (लेखा)
लेखको :	A secretary (लेखक)
लेखनं :	Writing: a letter (लेखन)
लेखेति :	To write, to delineate (लेखयति = लिख्)
लेखो :	Writing, manuscript, inscription: a letter epistle: a drawing, delineation (लेख)
लेखयं :	Writing (लेख्य = लिख)
लेणं :	A rock cavern, a cave: retreat, refuge, Nirvana (लयन)
लेपनं :	Smearing, plastering (लेपन)
लेपो :	Plaster, mortar (लेप)
लेप्यं :	Plastering, modelling in clay (लेप्य)
लेसो :	A bit, a little (लेश)
लेसो :	A trick, a stratagem
लय्यो :	To be licked or lapped, or sipped (लेह्य = लिह्)
लिच्छवी :	A race of Indian princes, also called Vajji's (लिच्छवि)
लिखनं :	Writing (लिखन)
लिखापेति :	To cause to be written: to cause to be cut

लिखति :	To inscribe; to write; to scratch (लिख्)
लिखितको (adj) :	Written (लिखितक)
लिखितो :	Scratched, written: inscribed (लिखितक = लिख्)
लिक्खा :	A measure of weight (लिक्खा)
लिकोचको :	The plant alangium flexapetalum
लिकुचो :	A sort of bread-fruit, artocarpus Lacucha
लीला :	Play, spot, dalliance (लीला)
लीळहा :	Ease, grace, playfirliness, facility, adroitness, skill proficiency, mastery (लीळा = लिह्)
लिम्पनं :	Smearing, plastering (लिप्)
लिम्पति :	To smear, to daub, to plaster, to stain (लिप्)
लिङ्गं :	A mark, sign, characteristic: pudendum, gender, sex (लिङ्ग)
लिङ्गवा (adj) :	Having marks or characteristicks (लिङ्ग + वन्त्)
लिङ्गि (adj) :	Having gender (लिङ्गिन्)
लीनो :	Attached, adhering (लीन = ली)
लिपि :	Writing, script (लिपि)
लिप्पति :	See Limpati
लित्तो :	Smeared, plastered (लिप्त = लिप्)
लीयति :	To adhere (ली)
लोभनीयो (adj) :	Connected with covetousness (लोभनीय)
लोभो :	Covetousness, desire, cupidity, greed (लोभ)
लोचनं :	The eye (लोचन)
लोहो :	The tree symplocos Raccmosa (लोभ)
लोहगुळो :	An iron or metal ball (लोह + गुड)
लोहजं :	Brass, bronze (लोहज)
लोहकारो :	A black-smith (लोह + कारक)
लोहकुम्भी :	An iron cauldron: name of a lake in hell (लोह + कुम्भी)
लोहं :	Agallochum (लोह)
लोहपिट्टो :	A heron (लोहि + पृष्ठ)
लोहितको (adj) :	Red (लोहितक)
लोहितङ्को :	A ruby (लोहित + अङ्क)
लोहितपाणि (adj) :	Red-handed, bloody, murderous, destroying life whether animal or human (लोहित + पाणिन्)
लोहितो (adj) :	Red (लोहित)

लोहितुप्पादको :	One who has committed the crime of shedding the blood of Buddha
लोहितुप्पादो :	The crime of wounding supreme Buddha so as to drop blood (लोहित + उत्पाद)
लोहो + लोहं :	Iron, copper, brass: any metal (लोह)
लोकधम्मता :	The vicissitudes of life, the vanity of worldly things (लोक + धर्म + ता)
लोकधम्मो :	World conditions (लोक + धर्म)
लोकधातु :	A world or sphere (लोक + धातु)
लोकाधिपतेय्यं :	Influence of the world (लोक + आधिपतेय्या)
लोकगुरू :	Teacher of the world, an epithet of Buddha (लोक + गुरु)
लोकगो :	Chief of the world i.e. Buddha (लोक + अग्र)
लोकव्ययिका :	See Akkhayika and Lokayatam
लोकामिसं :	Temptation of the world, pleasures of senses (लोक + आमिष)
लोकनाथो :	Protector or Saviour of the world, an epithet of Buddha (लोक + नाथ)
लोकन्तरिको (adj) :	Belonging to the lokantaram or space between three (लोक + अन्तर + इक)
लोकपालो :	Guardian of the world (लोल + पाल)
लोकविदू (adj) :	Knowing the universe, a common epithet of a Buddha (लोक + विद्)
लोकायतं :	Controversy on fabulous or absurd points casuistry (लोकायत)
लोकेसो :	Brahman (लोक + ईश)
लोकियो (adj) :	Common, popular: worldly, earthly, temporal (लौक्य)
लोको :	The universe; the world: the inhabitants of a world or region; mankind: a being, a creature (लोक)
लोकुत्तरो (adj) :	Transcending the world, supernatural, spiritual (लोक + उत्तर)
लोलता :	Longing, eagerness (लोल + ता)
लोलो (adj) :	Tremulous; desirous, longing: greedy: unsteady, agitated (लोल)
लोलुपो (adj) :	Desirous, covetous, greedy (लोलुप)
लोमहंसनं :	Horripilation or bristling of the hair of the body caused by astonishment or fear or delight (लोमन् + हर्षण)
लोमहंसनो (adj) :	Causing horripilation, astounding, stupendous (लोमहर्षण)
लोमहंसो :	Horripilation (लोमन् + हर्ष)

लोमहट्टजातो (adj) :	Having the hair of the body erect with wonder or fear, terrified, astounded, thunderstruck (लोमन् + हृष्ट = हृष + जात = जन्)
लोमं :	The hair of the body (लोमन्)
लोमसो (adj) :	Hairy (लोमश)
लोमी (adj) :	Having hair (लोमन् + इन्)
लोणं :	Salt (लवण)
लोणिको (adj) :	Relating to salt, having a salt taste (लावणिक)
लोपो :	Cutting off; in grammar elision, a pocope (लोप)
लुङ्को :	A huntsman, a sportsman (लुब्धक)
लुब्धो :	Greedy, covetous (लुब्ध = लुभ्)
लुद्धो (adj) :	Cruel, muderous (लुब्ध = लुभ्)
लूखो (adj) :	Rough; unpleasant; hard, harsh (रुक्ष, लूक्ष)
लुलायो :	A buffalo (लुलाय)
लुनाति :	To cut, to reap (लू)
लुञ्चति :	To pull up or out (लुञ्च)
लूनो :	Cut, reaped (लून = लू)
लुपनं :	Cutting off (लुप + अन्)
लुप्यति :	To be elided (लुप्यते = लुप्)
लूता + लूतिका :	A spider (लूता + लूतिका)
लुत्तो :	Cut off, elided (लुप्त = लुप्)
लूयति :	To be cut or reaped (लूयते = लू)

M

मा :	The moon (मास्)
मा :	Not, do not (<i>Prohibitive Particle</i>) (मा)
मच्छा :	Good-soil (मृत्सा)
मच्छबन्धो :	A fisherman (मत्स्य + बन्ध)
मच्छको :	A fish (मत्स्यक)
मच्छण्डी :	Inspissated juice of the sugar-cane (मत्स्यण्डी)
मच्छरायति :	To be envious (मत्सर)
मच्छरी (adj) :	Envious, niggardly (मत्सरिन्)
मच्छरियं + मच्छेरं :	A vice, niggardliness, selfishness, envy, churlishness (मात्सर्य)
मच्छरो (adj) :	Niggardly, envious, grudging (मत्सर)
मच्छिको :	A fisherman (मात्सिको)
मच्छो :	A fish (मत्स्य)
मच्चो :	Mortal (मर्त्य = मृ)
मच्चो (adj) :	Maternal (मातृ + य)
मच्चु :	Death, yama (मृत्यु)
मच्चुधेय्यं :	The realm of Death (मृत्यु + धेय = धा)
मादनं :	Delighting: clover (मादन)
मदनीयो (adj) :	Intoxicating (मदनीय)
मदनो :	Kama, the God of love; the plant <i>Vanguiera spinosa</i> (मदन)
मद्दा :	Name of a country and its inhabitants (मद्र)
मद्दलो :	A sort of drum (मर्दल)
मद्दनं :	Rubbing, grinding, crushing, trampling (मर्दन)
मद्दति :	To rub, to compress, to crush, to trample, to destroy (मृद्)
मद्दवो (adj) :	Flaccid, withered (मार्दव)
मधु (adj) :	Sweet, pleasant, nice honey (मधु)
मधुब्बतो :	A honey-bee (मधु + व्रत)
मधुच्छिद्रुं :	Wax (मधुच्छिष्ट)
मधुहुमो :	The tree <i>Bassia latifolia</i> (मधु + हुम)
मधुकरो :	A bee (मधुकर)
मधुकरो (adj) :	Sweet (मधुकर)
मधुको (adj) :	Sweet (मधुक)

मधुलट्टिका :	Liquorice (मधु + यष्टिका)
मधुलीहो :	A bee (मधुलिह)
मधुमेहो :	Diabetes (मधु + मेह)
मधुपो :	A bee (मधु + प)
मधुरको :	The Jivaka plant (मधुरक)
मधुरसा :	A grape; the plant sanseveria Roxburghinia (मधु + रस)
मधुरस्सरो :	A sweet voice (मधुर + स्वर)
मधुरत्तं :	Sweetness (मधुर + त्व)
मधुरो (adj) :	Sweet, agreeable (मधुर)
माधुरो (adj) :	Belonging to the town of Madhura
मध्वासवो :	Wine made from the flowers of Bassia Latifolia (मधु + आसव)
मादी (adj) :	Like me (मादृश्)
मादिरा :	Spirituos liquor (मादिरा)
मादिसो + मारिसो (adj) :	Like me, such as I (मादृश)
मदीयो (adj) :	Mine (मदीय)
मदो :	Intoxication; pride, enjoyment: the juice that flows from an elephants temples when in rut (मद)
मादो :	Pride (माद)
मगध :	Name of a people and country: southern Behar (मगध)
मागधको + : मागधिको (adj)	Belonging to Magadha (मागध)
मागधो (adj) :	Belonging to Magadha (मागधक)
मगसिरं :	Name of a Nakkhatta (मृगशिरस्)
मागसिरो, मगसिरो :	Name of a month (मार्गशिर)
मागविको :	A deer-stalker; sportsman; huntsman (मृगयस + इक)
मगामगो :	The right and wrong way (मार्ग + अमार्ग)
मगना + नं :	Research, tracing out (मार्गण)
मगति + मगेति :	To trace out, to seek (मार्ग)
मगट्ठो (adj) :	Walking in one of the four paths (मार्ग + स्थ)
मगिको :	A traveller (मार्गिक)
मगो :	Road: path: track: passage: urethra (मार्ग)
मगुरो :	A sort of fish (मद्गुर)
मधा :	Name of a Nakkhatta (मधा)

माघातो :	Non-slaughter, interdiction of slaughter (मा + घात)
मघवा :	Indra (मघवन्)
माघो :	Name of a month (माघ)
माघ्यं :	The blossom of the many flowered jasmine (माघ्य)
मगो :	A deer or antelope (मृग)
महा (adj) :	Great (महा)
महा :	Great, a Vedic adjective much used as a substitute for महत् in the formation of compound noun and adjectives
महाअट्टकथा :	The great commentary (महा + अर्थ + कथा)
महाबलं :	Great strength (महा + बल)
महाबलो (adj) :	Strong, mighty (महा + बल)
महब्वलं :	Great strength; a strong force, a great army (महत् + बल)
महाबलो (adj) :	Having great strength, powerful, might (महत् + बल)
महाब्भयं :	Great fear, horror (महद्भय)
महाभद्रकण्डो :	The great auspicious cycle (महा + भद्र + कल्प)
महाभयं :	Great fear (महा + भयं)
महाभिनिक्खेमनं :	The great retirement (महा + अभिनिष्क्रमण) क्खे
महाभोगो (adj) :	Wealthy; having a great hood (cobra) (महा + भोग)
महाभूतो + तं :	A principal element (महा + भूत)
महाबोधि :	The great Bo-tree (महा + बोधि)
महाब्रह्मा :	The archangel Brahman, also called Brahma Sahampati (महा + ब्रह्मान्)
महाचगो (adj) :	Munificent (महा + त्याग)
महच्छणो :	A great festival (महत् + क्षण)
महादानं :	Great gifts or charity (महा + दान)
महादरो :	Anguish (महा + दर)
महादयो (adj) :	Very compassionate, all merciful (महा + दया)
महद्धनो (adj) :	Wealthy (महत् + धन्)
महाधिति (adj) :	Having great fortitude or perseverance (महा + धृति)
महादीपो :	Great island (महा + द्वीप)
महागणी :	Having crowds of disciples or followers (महागण + इन्) frequently used of eminent divines or apostles
महग्गतो (adj) :	Enlarged, extensive, great, lofty (महत् + गत = गम्)
महग्घसो (adj) :	Eating much, highly fed (महत् + घस्)

- महग्घयो (adj) : Costly (महाघ्यं)
- महग्घो (adj) : Of great value, costly, valuable (महा + अर्घ)
- महागुणो (adj) : Having great qualities, virtuous (महा + गुण)
- महाहसो : Loud laughter, a horse-laugh (महा + हास)
- महाहवो : War (महा + आवह)
- महाजनिको (adj) : Belonging to the people (महाजन + इक)
- महाजनो : The people, the public, the populace, mankind, a great number of people, a multitude (महा + जन)
- महाकन्दो : Garlic (महा + कन्द)
- महाकप्पो : See Kappo (महा + कल्प)
- महाकारुणिको : Very compassionate (महा + कारुणिक)
- (adj)
- महाकस्सपो : Name of a famous apostle of Buddha, who was president of the Mahasangiti (महा + काश्यप)
- महाकथानं : One of the high numerals or followed by 133 cipher
- महाकुलं : A high-family, a noble family (महा + कुल)
- महाकुलो (adj) : Belonging to a high or noble family (महा + कुल)
- महल्लकत्तं : Old age, seniority (महल्लक + त्व)
- महल्लको (adj) : Oldage; spacious, large, broad, big (महल्लक)
- महल्लो (adj) : Old (महल्ल)
- महामच्चो : A chief minister (महा + अमात्य)
- महामग्गो : A high-road (महा + मार्ग)
- महामही : The earth (महा + मही)
- महामहो : A great festival, pomp, festivity (महा + मह)
- महामाता : Grand-mother (महा + मातृ)
- महामत्ति (adj) : Wise (महा + मत्ति)
- महामत्तो : A king's minister or companion, a great noble at court (महा + मात्र)
- महामेघो : A storm of rain, a thunderstorm (महा + मेघ)
- महामुखो (adj) : Having a big mouth (महा + मुख)
- महामुनि : A great sage or philosopher (महा + मुनि)
- महानदी : A great river (महा + नदी)
- महानागो : A great elephant; a state elephant; a great snake or cobra; a great Naga; an eminent person; a leader, a king; a bold warrior, a champion (महा + नाग)

महानं :	A kitchen (महा + अनस्)
महानामो :	Name of a plant: name of the author of Mahavamsa (महा + नामन्)
महानसं :	A kitchen (महानस्)
महानिब्बानं :	Nirvana (महा + निर्वाण)
महानिलो :	A gate of hurricane (महा + अनिल)
महानिसा :	Midnight (महा + निशा)
महानिसंसो :	Great advantage, great blessing (महा + आनिसंक्ष)
महण्णवो :	The great ocean (महा + अर्णव)
महन्तता :	Greatness, bigness
महन्ततरो (adj) :	Greater, superior, bigger
महन्तो + महं + :	Great, large, big, eminent: much excessive: excellent (महत्)
महा (adj)	
महानुभावता :	Great power
महानुभावो (adj) :	Powerful, mighty (महानुभाव)
महापञ्जता :	Great wisdom (महा + प्रज्ञ + त्व)
महापञ्जो (adj) :	Having great wisdom, wise, learned (महा + प्रज्ञा)
महापराधो (adj) :	Very guilty, criminal (महा + अपराध)
महापरिच्चागो :	See Pariccago
महापरिनिब्बानं :	Greatest attainment of Nirvana: it also means death of Buddha (महापरिनिर्वाण)
महापातकं :	A great sin, a crime (महा + पातक)
महापथो :	A high-road (महा + पथ)
महप्फलो (adj) :	Very fruitful; having great reward (महत् + फल)
महापुञ्जो (adj) :	Possessing great virtue or merit (महा + पुण्य)
महापुरिसो :	A great man, an eminent man, a man born to greatness (महा + पुरुष)
महारहो (adj) :	Valuable, costly (महा + अर्ह)
महाराजा :	A great king (महा + राजन्)
महारञ्ज :	A great forest (महा + अरण्य)
महारट्टं :	Siam (महा + राष्ट्र)
महारोरुवो :	Name of one of the eight Narkas or hells (महा + रौरव)
महासद्धो (adj) :	Having great faith (महा + श्रद्धा)
महासहो :	A great noise, a loud shout (महा + शब्द)
महासहा :	Globe amaranath, Gomphrena globosa (महासहा)
महासालो :	A man of great wealth and position, a magnate (महाशाल)

महासमणो :	The great ascetic, the great philosopher, an epithet of Buddha (महा + श्रमण)
महासम्मतो :	The Great Elect (महा + सम्मत = मन्)
महासरो :	A great lake (महा + सरस्)
महासत्तो :	A noble or excellent man: Bodhisatta (महा + सत्व)
महासावको :	A great disciple (महा + श्रावक)
महासिरा :	A tondon (महा + सिरा)
महातण्हो (adj) :	Lustful (महा + तृष्णा)
महाथेरो :	A great or eminent thera (महा + स्थविर)
महाथूपो :	The great Dagoba in Anuradhapur (महा + स्तूप)
महति :	To revere, to worship (मह)
महति :	See Mahanto
महातिमि :	Name of a mythical fish of vast size (महा + तिमि)
महत्ता (adj) :	Great souled, magnanimous (महा + आत्मन्)
महत्थिको (adj) :	Productive of great good; very advantageous (महा + अर्थ + इक)
महावग्गो :	See विनय
महावंसो :	The great dynasty (महा + वंश)
महावनं :	A great forest (महा + वन)
महावाटो :	A great pit
महाविहारो :	Great monastery (महा + विहार)
महाविरेको :	Cholera (महा + विरेक)
महावीरो :	A might man, a great man (महा + वीर)
महायसो (adj) :	Illustrious (महा + यशस्)
महेसक्खत्तं (adj) :	Power, eminence, superiority
महेसक्खो (adj) :	Possessing great authority or influence; eminent (महा + ईश + आख्या)
महेसी :	Great stage (महर्षि)
महेसी :	A queen (महिषि)
महेसित्तं :	Queen-ship (महिषि + त्व)
मही :	The earth, the ground: place: land: name of a river (मही)
महिच्छता :	Lust, desire (महा + इच्छा + ता)
महिच्छो (adj) :	Lustful (महा + इच्छा)
महिद्धिकता :	Magical power

महिद्धिको + यो :	Possessing supernatural power, miraculous: magical (महा + ऋषि + क)
(adj)	
महीधरो :	A mountain (मही + धर)
महिका :	Frost (महिका)
महिला :	A woman (महिला)
महीलता :	An earth-worm (मही + लता)
महिंसकमण्डलं :	The Andhra-country (महिषक + मण्डल)
महिनधरो :	A mountain (मही + धर)
महिन्दो :	Indra; Mahindra, a great Buddhist Missionary (महा + इन्द्र)
महीपालो :	A king (मही + पाल)
महीपति :	A king (मही + पति)
महीपो :	A king (महीप)
महीरुहो :	A tree (मही + रुह)
महिसमण्डलं :	The Andhra country (महिष + मण्डल)
माहिसको :	Belonging to buffaloes (माहिषक)
महिसो :	A buffalo (महिष)
माहिसो (adj) :	Belonging to buffaloes (माहिष)
महिस्सरो :	Vishnu (महा + ईश्वर)
महिस्सरो :	A king (मही + ईश्वर)
महीतलं :	The ground (मही + तल)
महितो :	Revered, worshipped (महित = मह)
महीयते :	To be revered
महो :	A festival (मह, महस्)
महोदधि :	The sea (महा + उदधि)
महोघो :	A torrent, a flood (महा + ओघ)
महोघो (adj) :	Having a mighty stream (महा + ओघ)
महोरगो :	A great snake, a Naga (महा + उरग)
महोसधं :	Dry ginger, the plant alivisa (महा + ओषध)
महुस्सवो :	A great festival (महा + उत्सव्)
मज्जं :	Spirits, wine, liquor (मध)
मज्जनं :	Intoxication, pride
मज्जनं :	Rubbing, polishing (मार्जन)
मज्जपो (adj) :	A drunkard; one who drinks strong drinks (मद्य + प)
मज्जारो :	A cat (मार्जार)

मज्जति :	To be joyous; to be intoxicated (मद्)
मज्जति :	To polish; to rub (मृज्)
मज्झगतो (adj) :	Being in the midst of: (मध्य + गत = गम्)
मज्झगो (adj) :	Being in the midst of: going among (मध्यग)
मज्झन्हो + ण्हो :	Mid-day (मध्य + अन्ह)
मज्झन्तिको :	Midday (मध्य + अन्त + इक)
मज्झत्तता :	Impartiality, moderation, indifference (मध्यस्थ + ता)
मज्झत्तो (adj) :	Impartial, neutral (मध्यस्थ)
मज्झिमदेशो :	The central region, Central India (मध्यम + देश)
मज्झिमो (adj) :	Central middle, mean, moderate, of medium size (मध्यम)
मज्झो + मज्झं :	Middle, centre, interior; the waist (मध्य)
मज्झो (adj) :	Middle, central (मध्य)
मकरन्द :	The nectar of a flower (मकरन्द)
मकरो :	Name of a mythical fish or sea-monster (मकर)
मसको :	A mosquito (मशक)
मक्कटको :	A spider (मर्कटक)
मक्कटो :	A monkey (मर्कट)
माक्कवो :	The shrub Eclipta prostrata (मार्कव)
मक्खणं :	Smearing oil (म्रक्षण)
मक्खापेति :	To cause to be anointed
मक्खेति :	To smear, to anoint, to rub out (म्रक्ष्)
मक्खी (adj) :	Concaling one's vices (म्रक्ष् + इन्)
मक्खिका :	A fly; a bee (मक्षिका)
मक्खितो :	Smearing, anointed, stained, soiled (म्रक्षित = म्रक्ष्)
मक्खो :	Concaling one's vices, hypocrisy (म्रक्ष्)
मकुलो + लं :	An opening bud; a knob (मकुल)
मकुटो + टं :	A crest, diadem, topknot (मकुट, मुकुट)
माला :	A wreath, a garland; a necklace: a flower: a row: a line (माला)
मालागुळो :	A bouquet of flowers (माला + गुड)
मालागुणो :	A garland of flowers (माला + गुण)
मालाकारो :	A gardener (माला + कार)
मालको :	A circular enclosure, yard, terrace, a consecrated enclosure (माल + क)

मलं :	Dirt, filth; excrement, stain taint; fault, defect; impurity sin: rust (मल)
मलतरं :	A greater or worse taint (मल + तर)
मालती :	The great flowered jasmine (मालती)
मलयजो :	Sandal-wood
मलयो :	A mountainous in the Dekkan: a mountainous dist in Ceylon of which adam's peak is in the centre; a garden, a park: a jungle (मलय)
माली (adj) :	Having a garland or row (मालिन्)
मालिका :	A garland, double jasmine (मालिका)
मालिको :	A gardner, a florist (मालिक)
मलीमसो (adj) :	Dirty, polluted, stained (मलीमष्)
मलिनीभवति :	To be stained (मलिनी + भू)
मलिनीकरोति :	To stain, to pollute (मलिनी + कृ)
मलिनो (adj) :	Dirty; dark; brown, black (मलिन)
मल्लको :	A cup
मल्लिका :	Arabian Jasmine (मल्लिका)
मल्लिको :	A sort of goose with brown legs and bill (मल्लिको)
मल्लो :	A professional wrestler: name of a people (मल्ल)
मालो :	A pavilion, a pagoda (माल)
मालूरो :	The tree Egle Marmelos (मालूर)
मालुतो :	Wind, air (मारूत)
मालुवा :	A creeper
माल्यं :	A flower, a garland of flowers (माल्य)
मं, मम, ममं :	See अहं
ममको (adj) :	Mine
मामको (adj) :	Mine, my own; treating as one's, loving (मामक)
ममायति :	To be attached or devoted to (ममाय्)
ममायितो :	Concerning, belonging to oneself, own
मम्मच्छेदको (adj) :	Breaking the joints: (मर्मन् + छेदक)
मंसं :	Flesh, meat (मांस)
मानदो (adj) :	Inspiring: a term of respect मानद
मनक्कारो :	Acute consciousness of pain, or pleasure
मनं :	See Mano
मनं (adj) :	A little (मनाक्)

मानं :	Measuring, a measure (मान)
मानना + नं :	Honouring, reversing, offering (मानना, मानन)
माननीयो + निप्यो :	Honourable, venerable (माननीय)
(adj)	
मानापो (adj) :	Pleasing, pleasant, charming, pretty (मनआप)
मानासो :	See Mano
मानसं :	The mind: intention: purpose (मानस्)
मनसि :	See Mano
मनसिच्चति :	To wish, to desire (मनसि + इष्)
मनसिकारेति :	To fix the attention (मनसि + कारयति + कृ)
मनसिकारो :	Attention (मनसि + कार)
मनसिकरोति :	To mind, to attend, to pay attention to, to bear in mind, to think about, to ponder, to fix the mind on to take to heart (मनसि + कृ)
मनसिकतो :	Attended to, bore in mind, pondered (मनसि + कृत)
मानसिको (adj) :	Mental (मानसिक)
मनसो :	See Mano
मानसो :	Lust (मानस)
मनस्सी (adj) :	Sensible, intelligent, clever, prudent (मनस्विन्)
मानत्तं :	This is the name of some sort of punishment attached to the commission of a Sanghadisesa offence (मान + त्व)
मानवा (adj) :	Proud (मानवन्त)
माणवको :	A student: a young man or a Brahmin (माणवक)
मानवी :	A woman (मानवी)
माणविका :	A young girl, a girl-student (माणविका)
मानवो :	Mankind (मानव)
माणवो :	A youth, a boy: especially a young Brahmin (माणव)
मनायतनं :	The mind (मनस् + आयतन)
मञ्चाधारो :	A bedstead (मञ्च + आधार)
मञ्चको :	A bed (मञ्चक)
मञ्चो :	A bed (मञ्च)
मण्डब्बो :	Patronymic from Mandu (माण्डव्य)
मन्दभाणी (adj) :	Speaking little (मन्द + भाण + इन्)
मन्दगामि (adj) :	Slowly marching (मन्द् + गामिन्)
मण्डकप्पो :	See कप्पो

मन्दाकिनी :	A name of the akasaganga or ecclestial rivers: a name of one of the great lakes of Himvanta (मन्दाकिनी)
मण्डलगो :	A crooked sword; a sabre (मण्डल + अग्र)
मण्डलं :	A disk, a circle; a circuit, circumference; a district comprising number of villages; a region, a province; a heap; a multitude (मण्डल)
मण्डलमालो :	A circular house with a peaked roof; a pavillion (मण्डल + माल)
मण्डली (adj) :	A circle, a disk (मण्डली)
मण्डलिकं :	Anything round, a circle or globe (मण्डल + इक)
मण्डलिस्सरो :	A ruler, a sovereign (मण्डल + ईश्वर)
मण्डनं :	Adornment, an ornament (मण्डन)
मण्डनो (adj) :	Adorning (मण्डन)
मण्डपं :	A roofed open hall, generally built for a temporary purpose, a pavillion (मण्डप)
मण्डापेति :	To cause to be adorned
मन्दारवो :	Erythrina fulgens (मन्दारव)
मन्दारो :	A name of the western mountain behind which the sun sets (मन्दार)
मण्डेति :	To adorn, to decorate (मण्ड)
मन्दीभावो :	Slackening, dulling (मन्दी + भाव)
मन्दिरं :	A house, an edifice: a town (मन्दिर)
मण्डितो :	Adorned (मण्डित)
मन्दो :	Slow: stupid: dull: small: low: slight: weak (मन्द)
मण्डो :	Scum (मण्ड)
मण्डुकण्टको :	A Mandu thorn, supposed to destroy a tree or plant piecered with it
मण्डूको :	A frog (मण्डूक)
मनेसिका :	One of the amusements forbidden to a Bhikkhu, guessing the thoughts of others (मनस् + एष् + इका)
मानेति :	To honour, to revere (मानयति = मन्)
मङ्गलिट्टका :	Foundation stone (मङ्गल + इष्टक)
मङ्गलो (adj) :	Auspicious, lucky: joyous festive; belonging to state occasions (मङ्गल)
मणि :	A gem, a jewel: a waterpot (मणि)
माणि :	Proud, thinking, fancying (मानिन्)

मणिबन्धो :	The wrist (मणि + बन्ध)
मानिका :	A weight = four Donas (माणिका)
मणिकं + को :	A waterpot (मणिक)
मणिकखन्धो :	A magic jewel (मणि + स्कन्ध)
मणिलक्खणं :	Telling a person's fortune from the jewels in his possession (मणि + लक्षण)
मणिमयो (adj) :	Made of jems or jewelled (मणिमय)
मनिन्द्रियं :	The mind, the intellect (मनस् + इन्द्रिय)
मणिसप्पो :	A sort of venomous snake (मणि + सर्प)
मानितो :	Honoured (मानिन् + मन्)
मनित्तं :	See Mannati
मञ्जरी :	A sprout, a compound pedicle (मञ्जरी)
मञ्जेट्टो (adj) :	Light red (मञ्जीष्ठ)
मञ्जीरो :	A foot ring, bangle (मञ्जीर)
मञ्जिट्टा :	Bengal madder (मञ्जिष्ठ)
मञ्जु (adj) :	Beautiful, lovely, delightful (मञ्जु)
मञ्जुसा :	A basket, or casket (मञ्जूषा)
मञ्जूसको :	Name of a celestial flower (मञ्जूषक)
मङ्ग (adj) :	Troubles, restless, disturbed, put out, irritable, annoyed, angry-fretful, discontented (मङ्)
मञ्जति :	To think, to suppose, to imagine, to consider; to esteem, to know, to believe, to understand (मन्)
मनो + मनं :	The mind, the intellect, the thoughts, the heart (मनस्)
मानो :	Pride, arrogance, variety, honour, respect (मान)
मनोभू :	Kama, the God of love, Indian Cupid (मनोभू)
मनोदुच्चरितं :	Sin of the mind or thoughts (मनस् + दुस् + चरित)
मनोहरो (adj) :	Striking, beautiful, charming, captivating (मनोहर)
मनोमय (adj) :	Springing from the mind, caused by the mind (मनो + मय)
मनोपुब्बङ्गमो (adj) :	Having mind for its predecessor, following upon, one resulting from the mind or thoughts, caused by the mind (मनस् + पूर्व + गम)
मनोरमो (adj) :	Pleasant, delightful, beautiful (मनोरम)
मनोरथो :	Wish, desire (मनस् + रथ)
मनोसेट्टो (adj) :	Governed by the mind, founded on the mind (मनस् + श्रेष्ठ)
मनोसिला :	Redgar or red arsenic, vermillion (मनस् + शिला)

मन्ता :	Wisdom
मन्तव्यो :	To be thought, to be considered (मन्तव्य = मन्)
मन्तभाषी (adj) :	Speaking wisely
मन्तधरो (adj) :	Versed in the Mantras (मन्त्र + धर)
मन्तणं :	Deliberation, consultation, resolution (मन्त्रण)
मन्तेति :	To consult, to deliberate, to discuss; to talk, to converse (मन्त्र्)
मन्थनी :	A churn (मन्थनी)
मन्थानो :	A churning-stick (मन्थान्)
मन्थरो :	Stupid, slow (मन्थर)
मन्थो :	A churning-stick: a sort of rice-cake (मन्थ)
मन्ती :	A councillor, a minister (मन्त्रिन् + इन्द्र)
मन्तो :	Deliberation resolution, council, design, plan, artifice: Vedic hymns: a sacred text: a mystic verse; a charm, an incantation (मन्त्र)
मन्तुं + मन्त्वा :	See मञ्जति
मनुजाधिपो :	A king (मनुज + अधिप)
मनुज :	A man (मनुज)
मानुन्नकं :	Beauty, charm (मानोज्ञक)
मनुन्नो (adj) :	Beautiful, pleasing, delightful (मनोज्ञ)
मानुसको (adj) :	Human (मानुषक)
मानुसो (adj) :	Human (मानुष)
मनुस्सको (adj) :	Human (मनुष्य + क)
मनुस्सत्तं :	Man's condition, humanity (मनुष्यत्व)
मनुस्सो :	Human being, a man (मनुष्य)
मापको :	Causing to appear by supernatural
मापेति :	To make, to prepare: to cause to appear by supernatural power, to create (मापयति = मा)
मारधेय्यं :	The realm of Mara or Death, Sansara or continued existence (मार + धेय = धा)
मारजी :	Conqueror of Mara, epithet of Buddha (मार + जित्)
मारको :	A slayer (मारक)
मरम्मो (adj) :	Burmese
मरणं :	Death (मरण)
मरणं :	Killing, Slaughter (मारण)
मरणसति :	Recollection of death, meditation on death (मरण + स्मृति)

मारापेति :	To cause to be killed, to put to death
मरति, मीयति, मिध्यति :	To die (म्)
मारत्तं :	State of being Mara, Maraship
मारेति :	To destroy, to kill, to murder (मारयति + मृ)
मरिचं :	Pepper (मरिच)
मरीचि :	A ray of light: mirage (मरीचि)
मरीचिका :	Mirage (मरीचिका)
मारिचिको (adj) :	Prepared with pepper, peppered (मारिचिक)
मारिसो (adj) :	Madiso
मारिसो :	A venerable person: the plant amaranthus polygamus (मरिष)
मारितो :	See Mareti
मरियादा :	A boundary, limit: relitude good conduct (मर्यादा)
मरो :	Death (मर)
मारो :	Death: killing: the tempter, the Evil Principle (मार)
मरु :	A sandy desert: a mountain (मरु)
मरु :	A deva (मरुत्)
मारूतो :	Wind (मारूत)
मसक्कसारो :	A name of Indra's city
मासको :	A bean or vetch: a weight: two ganjas, a coin of low value (माषक)
मसारगल्लं :	A precious stone: a sort of cats-eye (मुसारगत्व)
मसारको :	A sort of bed
मसि :	Soot, ink (मषि)
मासो :	A sort of kidney-bean; a coin=Masaka (माष)
मासो + मासं :	A month (मास)
मस्सु :	The beard (श्मश्रु)
मसुर :	A sort of lentil (मसुर)
माता :	Mother or maternal grandmother (मातृ)
मातब्बो :	To be measured (मातव्य = मा)
मतको (adj) :	Dead, belonging to the dead (मृतक)
मातलि :	Name of a character of Sakka or Indra (मातलि)
मातामहो :	Maternal grandfather (मातामह)
मतङ्गजो :	An elephant (मतङ्गज)

मातङ्गो :	An elephant; low-caste person (मातङ्ग)
मातापेत्तिभरो (adj) :	Supporting ones parents (मातृ + पितृ + भर)
मातापेत्तिको (adj) :	Belonging to father and mother (मातृ, पितृ + क)
मातापितरो :	Parents (मातापितृ)
मतपीत्तिको :	One whose father is dead (मत + पितृ + क)
मातरा :	See माता
मथनं :	Churning, crushing (मथन)
मथति :	To churn; to stir up, to agitate: to crush, to destroy (मथ्)
मति :	Mind; intelligence: thought: imagination: knowledge: wisdom: wish: advise (मति)
माति :	See माता
माती :	A conduit, canal
मातिका :	A canal for irrigation: a conduit, watercourse: heading, outline, sketch: text: list: table of contents (मातृका)
मतिमा (adj) :	Sensible, intelligent, wise (मतिमन्त्)
मातितो (adj) :	On the mother's side (मातृ + तस्)
मातियो (adj) :	Maternal (मातृ + य)
मतो :	Having died: dead (मृत + मृ)
मतो :	Thought, considered; believed: understood; known (मत = मन्)
मत्ता :	Measure, quantity: right or suitable quantity, modernation: little: greatness, importance (मात्रा)
मत्तकासिनी :	A charming woman (मत्त + काशिनी)
मत्तकं :	A substitute for mattam
मत्तं :	This word is used only as the latter part of a compound with the meaning "measure, quantity" or exact quantity or "exact time, as soon as (मात्रा)
मत्तञ्जू (adj) :	Moderate, temperate (मात्र + ज्ञ)
मत्तञ्जूता :	Moderation (मात्र + ज्ञ + ता)
मत्तासिता :	Moderation in eating, temperance (मात्र + आशिन् + ता)
मत्तेय्यता :	State of being a mother, maternity (मातृ + एय + ता)
मत्तेय्यो (adj) :	Maternal (मातृ + एय)
मत्थको + कं :	The head: top; summit, end: excellence, eminance (मस्तक)
मत्थलुङ्गं :	The brain (मस्तुलुङ्ग)
मट्टो + मट्टो :	Polished, cleansed, pure (मृष्ट = मृज्)

मत्थु :	Whey (मस्तु)
मत्तिका :	Earth, loam, clay, mud (मृत्तिका)
मत्तिका मयो :	Earthen (मृत्तिका + मय)
मत्तिको :	Consisting of one syllable (मात्रिक)
मत्तिको :	Maternal (मात्रिक)
मत्तियो :	Maternal (मातृ + य)
मत्तो :	Intoxicated, drunk: mad, furious: excited: glad, joyful (मत् = मद्)
मट्टो :	See (मट्ठो)
मातु :	See माता
मातुच्छा :	Mother's sister, aunt (मातृष्यसृ)
मातुगामो :	Woman kind; a woman, a female (मातृ + ग्राम)
मातुघातको :	A matricide (मातृ + घातक)
मातुघातो :	Matricide (मातृ + घात)
मातुजो (adj) :	Born of a mother (मातृ + ज)
मातुको (adj) :	Having a mother (मातृक)
मातुलानी :	A mother's brother's wife- aunt
मातुलुङ्गो :	The citron tree (मातुलुङ्ग)
मातुया :	See माता
मया, मयं :	See अहं
माया :	Illusion, phanton, deceptive appearance, decept; jugglery, magic: name of Buddha's mother (माया)
मायावी (adj) :	Deceitful, hypocritical: subject to illusion: deluded (मायाविन्)
मह्यं, मयि :	See अहं
मयो (adj) :	Made of, consisting of (मय)
मायो (adj) :	Measuring (माय)
मायु :	Bite, gall (मायु)
मयूखो :	A ray of light (मयूख)
मायूरिको :	A peacock-hunter (मायूरिक)
मयूरो :	Peacock (मयूर)
मायूरो (adj) :	Belonging to peafowl (मायूर)
मे :	A substitute for the instru dat and gen. cases of अहं (मे)
मेचको (adj) :	Black, dark blue (मेचक)
मेधा :	Intelligence (मेधा)

मेधगो :	Quarrel, strife
मेधङ्करो :	Name of a Buddha (मेधा + कर)
मेधा (adj) :	Intelligent, wise (मेधाविन्)
मेधो :	Sacrifice (मेध)
मेदिनी :	The earth (मेदिनी)
मेदो :	Fat: serious secretion that spreads among the muscular fibres (मेदस्)
मेघवण्णो (adj) :	Cloud- coloured (मेघ + वर्ण)
मेघो :	A cloud, storm, rain (मेघ)
मेहनं :	Membrum virile (मेहन)
मेहो :	Urine, urinary disease (मेह)
मेज्झो (adj) :	Pure (मेध्य)
मेखला :	A zone, a girdle (मेखल)
मेलको :	Assemblage (मेलक)
मेण्डो :	A ram; a groom (मेण्ड)
मेनिको :	A fisherman (मैनिक)
मेरयं :	Intoxicating liquor, spirits, rum, arrack (मैरेय)
मेरु :	Mt. Meru-a vast mountain occupying the centre of each cakkavala (मेरु)
मेसो :	A ram: the zodiacal sign aries (मेष)
मेतब्बो :	To be measured
मेशुनो :	Relating to sexual intercourse (मैथुन)
मेत्ता :	Friendliness, goodwill, kindness, love, charity (मैत्री)
मेत्ताभावना :	Development of friendly feelings and goodwill towards all living beings (मैत्र + भावना)
मेत्तेय्यो :	Name of a Bodhisatta; who is to be the next Buddha (मैत्रेय)
मेत्ती :	Friendship, goodwill, love (मैत्री)
मेत्तो (adj) :	Friendly, kind, benevolent (मैत्री)
मेत्त्यं :	Friendship (मैत्र्य)
मेय्यो :	To be measured; measurable (मय = मा)
मिच्छा :	Falsely, wrongly (मिथ्या)
मिच्छाचारी :	Living wrongly; behaving wrongly (मिथ्याचार + इन्)
मिच्छाचारो :	Wrong conduct or living (मिथ्या + आचार)
मिच्छादिट्ठि :	Wrong views, false doctrine scepticism, heresy, unbelief (मिथ्या + दृष्टी)

मिच्छादिद्वि (adj) :	Heretical (मिथ्या + दृष्टि)
मिच्छादिद्विको (adj) :	Holding false doctrine, heretical, unbelieving, pagan (मिथ्या + दृष्टि + क)
मिच्छादिद्विता :	False doctrine, heresy (मिथ्या + दृष्टि + ता)
मिच्छासङ्कप्पो :	Wrong resolve (मिथ्या + संकल्प)
मिच्छन्तं :	Wrongness, falsity, wrong conduct (मिथ्या + त्व)
मिद्धं :	Sleepiness, drowsiness, somnolence, torpor, stupor (मिद्ध)
मिद्धी (adj) :	Sleepy, drowsy, torpid (मिद्ध + इन्)
मिगबन्धिनी :	A hunting net (मृगबन्धिनी)
मिगादनो :	A hyena (मृगादन)
मिगदायो :	A deer park (मृग + दाव)
मिगाधिभू :	King of beasts, the lion (मृग + अधिभू)
मिगमदो :	A musk (मृग + मद)
मिगमातुका :	A sort of antelope (मृग + मातुका)
मिगतण्हिका :	Mirage (मृगतृष्णिका)
मिगवो :	Hunting, deerstalking, the chase (मृगण्ण)
मिगव्यधो :	The chase (मृग + व्यध)
मिगी :	A doe (मृगी)
मिगिन्दो :	King of beasts, the lion (मृग + इन्द्र)
मिगो :	A deer or antelope: an animal, a game (मृग)
मिहितं :	A smile (स्मित = स्मि)
मिलक्खो + :	A barbarian, outcaste, a hillman, one of the aborigines (गलेच्छ)
मिलक्खको	
मीलति :	To wink (मील्)
मिलातो :	Withered, faded: languid, faint (म्लान = म्लै)
मिलायति :	To languish, to fade, to wither (म्लै)
मीढं :	Excrement (मीढ = मिह)
मिलिन्दो :	Menander—king of the yonakas whose theological discussions with the great Buddhist divine Nagasena from the subject of the well-known Pali-work Milindapanha
मिलिती :	Mixed, conjoined (मिलित)
मिननं :	Measuring, surveying
मिनाति :	To measure, to gauge, survey (मा)
मिज्जा + मिज्जं :	Marrow; pith; kernel of a fruit or vegetable (मज्जा)
मिज्जकं :	Marrow; pith; kernel of a fruit or vegetable (मज्जा + क)

मीनो :	A fish; zodiacal sign (मीन)
मिस्सको (adj) :	Mixed; combined (मिश्रक)
मिस्सति :	To be mixed (मिश्र)
मिस्सेति :	To mix (मिश्र)
मिस्सीभूतो (adj) :	Mixed, joined, associated with (मिश्रीभूत)
मिस्सो (adj) :	Mixed (मिश्र)
मितभाणी (adj) :	Speaking in moderation, a moderate talker (मित + भाण + इन्)
मिथिला :	Capital of Videhas (मिथिला)
मिथो + :	Mutually, reciprocally, with each other, together, privately
मिथु (adv)	(मिथस्)
मिथुनं :	A couple (मिथुन)
मितो :	Measured, reckoned: moderate (मित = मा)
मित्तदु + :	Injuring one's friends, treacherous, perfidious (मित्रद्रुह)
वित्तदु (adj)	
मित्तदुभी, :	Injuring one's friends, treacherous (मित्रद्रोहिन)
मित्तदुभिको (adj)	
मित्तदूभो, :	Treacherous (मित्रद्रुह)
मित्तदूभको	
मित्तवा :	Having friends (मित्रवन्त्)
मित्तो :	A friend (मित्र)
मीयति :	To be measured (मीयते = मा)
मीयति + मिय्यति :	See मरति
मोचनं :	Release, removing (मोचन)
मोचेता :	One who liberates (मोचयितृ)
मोचेति :	To be liberate; to release; to loose: to detach (मोचयति = मूच्)
मोचो :	The plantain or banana (मोच)
मोदको :	Sweet-meat; ferment (मोदक)
मोदनं :	Rejoicing (मोदन)
मोदङ्गिको :	One who plays the mutinga (मृदङ्ग + इक)
मोदति :	To rejoice (मुद्)
मोगगल्लनो :	Name of a famous apostle of Buddha, one of the aggasavakas = name of a Pali-grammarians who lived in the 12th century (मौद्मल्यायन)
मोघो :	Useless, vain, foolish (मोघ)

मोहितो :	Infatuated, deluded (मोहित = मुह)
मोहो :	Fainting, loss of consciousness, ignorance, error, folly, infatuation (मोह)
मोक्खचिंक :	Acrobatic feats
मोक्खति :	See मुञ्चति
मोक्खो (adj) :	Principal, pre-eminent (मौख्य)
मोक्खो :	Release, arhatship, nirvana (मोक्ष)
मोलेय्या :	Name of a people (मौलेय)
मोलि :	Top-knot of a hair: chignon: a crest; diadem aigrette (मौलि)
मोमूहो (adj) :	Silly, mad (मोमुघ)
मोनं :	Silence (मौन)
मोनेय्यं :	Moral Perfection
मोरो :	A peacock (मयूर)
मोसको :	A thief (मोषक)
मोसलिको (adj) :	Armed with a club (मुसल + इक)
मोसो :	Theft, robbery (मोष)
मुब्बा :	The creeper sanseviera zeylancia (मूर्वा)
मुचलिन्दो :	The tree Barringtonia acutangula : name of a Naga king (मुचिलिन्द)
मुच्चनं :	Being released
मुच्चति :	See मुञ्चति
मुच्छा :	Fainting; swooning, faintness (मूर्च्छा)
मुच्छना :	A musical note, the seventh part of the scale (मूर्च्छना)
मुच्छनं :	Fainting (मूर्च्छन)
मुच्छति :	To become faint (मूर्च्छति)
मुदा :	Joy, pleasure (मुदा)
मुद्दा :	Seal, a signet: a seal-ring stamp (मुद्रा)
मुद्देति :	To stamp
मुधा :	In vain: gratis, for-nothing (मुधा)
मुदिताभावना :	Feeling of kindliness (मुदिता भावना)
मुदितो :	Pleased, glad (मुदित = मुद्)
मुदु (adj) :	Soft: mild: weak: blunt, slow (मृदु)
मुदुको :	Soft (मृदु + क)
मुदुता :	Softness, impressibility (मृदुता)

मुग्गरिनो :	Armed with a club (मुद्गर + इक)
मुग्गरो :	A hammer, mallet, club (मुद्गर)
मुग्गो :	A sort of kidney bean (मुद्ग)
मूगो (adj) :	Dumb (मूक)
मुहु + मुहुं (adv) :	Momently, repeatedly (मुहुर)
मुहुत्तिको :	An astrologer (मुहूर्त + इक = मौहूर्तिक)
मुहुत्तो :	A moment, a while (मुहूर्त)
मुखाधानं :	The bit of a girdle (मुख + आधान)
मुखं :	The mouth: the face: front: entrance: commencement: brim: means, cause (मुख)
मुखपाठो :	Verbal recital (मुख + पाठ)
मुखरता :	Garrulity (मुखरता)
मुखरो (adj) :	Scurrilous: garrulous, noisy (मुखर)
मुखवाससो :	Mouth perfume: a fragrant substance used to make the breath smell sweet (मुख + वास + क)
मुखोदकं :	Water to rinse the mouth with (मुख + उदक)
मुखुल्लोकको (adj) :	Looking in a person's face, cheerful willing: said of a good servant
मुख्यो (adj) :	Chief (मुख्य)
मुक्को :	Another form of mutto (मुल्क)
मुकुलो + मुकुलं :	A bud (मुकुल)
मुकुरो :	A mirror (मुकुर)
मूला :	See मलं
मूलकं + को :	Raddish (मूलक)
मूलको (adj) :	Having its root or origin in: springing from (मूलक)
मुळालो :	The stalk of lotus (मृणाल)
मूलं :	A root: lowest part: base, foundation: origin, source, commencement: front, foremost, first: cause: nearness: sum: amount: mass: price, money: capital, principal (मूल)
मूळहो :	Foolish: ignorant: deceived: erring, astray: misguided, infatuated; perplexed, confused (गूढ : मूह)
मूल्यं :	Wages, price (मूल्य)
मुनाति :	To gain knowledge of, to learn, to know (मन्)
मुधापेति :	To cause to be released

मुञ्चति :	To loose, to release: to dismiss: to give up: to abandon, to omit: to send forth (मुच्)
मुण्डच्छडो :	A sort of house (मुण्ड + च्छद्)
मुण्डकं :	Tonsure (मुण्डक)
मुण्डको :	A shaveling (मुण्डक)
मुण्डनं :	Tonsure (मुण्डन)
मुण्डेति :	To shave (मुण्ड)
मुण्डिको (adj) :	Shaven, bald (मुण्डिन् + क)
मुण्डो :	Shaved, bald, bare (मुण्ड)
मुङ्गसो :	The mungoose or ichueumon
मुनि :	A sage, an inspired man, a holy ascetic, a saint (मुनि)
मुनिन्दो :	Chief of sages : an epithet of Buddha (मुनि + इन्द्र)
मुनिस्सरो :	Chief of sages : Buddha (मुनि + ईश्वर)
मुञ्जायनो, मुञ्जानो :	A common name patronymic from Munja (मौञ्जायन)
मुञ्जो :	A sort of grass, from the fibre of which the Brahmanical string is made = a sort of fish (मुञ्ज)
मुरजो :	A sort of drum, a tambourine (मुरज)
मुसा : (adv.)	Falsely (मृषा)
मूसा :	A erucible (मूषा)
मूसाभणित्ता :	A liar (मूषा + भण् + त्)
मुसली : (adj)	Armed with a club (मुसालिन्)
मुसलो + मुसल :	A club or pestle (मुसल)
मुसति :	To steal; to rob: to plunder (मुष्)
मुसावादि :	Lying; speaking falsely (मृषा + वादिन्)
मुसावादो :	Lying, falsehood (मृष + वाद)
मूसिको :	A mouse, a rat (मूषिक)
मुति :	Intelligence: understanding (मति)
मुतिमा :	Sensible, intelligent, wise (मतिमन्त्)
मुतिङ्गो :	A small drum, a labour (मृदङ्ग)
मुतो :	Thought, supposed, considered (मत = मन्)
मुत्ता :	A pearl (मुक्ता)
मुत्तागुणो :	A string of pearls (मुक्ता + गुण)
मुत्ताहारो :	A string or necklace of pearls (मुक्ता + हार)

मुत्तकामयो :	Made of pearls (मुक्ता + काः मय)
मुत्तः	Urine (मूत्र)
मुत्तमयो :	Made of pearls (मुक्ता + का + मय)
मुत्तामुत्तं :	A weapon which is both missile and non-missile as a bludgeon (मुक्त + अमुक्त)
मुत्तावली :	A string of pearls (मुक्ता + आवली)
मुद्गसच्चं :	Forgetfulness, bewilderment
मुद्गासति (adj) :	Forgetful, careless, inattentive, unconscious, bewildered
मुट्टि :	The fist : a handful, a smith's hammer (मुष्टि)
मुत्ति :	Deliverance; release; Nirvana (मुक्ति)
मुत्तिकं :	A pearl (मुक्त + इक)
मुत्तो :	Released: delivered: free from: discharged: shot (मुक्त = मुच्)
मुह्यति :	To faint: to be perplexed; bewildered: infatuated (मुह)
म्यायं :	Me ayam

N

न :	(Negative particle), Not (न)
नभं + नभो :	The sky, the air (नभस्, नभ)
नाभि :	The navel: the nave of a wheel; centre (नाभि)
नच्चको (adj) :	Dancing (नृत्य + क)
नच्चं :	Dancing, nautch; acting, pantomine; acrobatic, performance (नृत्य)
नच्चति :	To dance (नृत्)
नचिरो (adj) :	Not long, short (नचिर)
नदति :	To sound, to make a noise with the voice, to shout, to roar (नद्)
नद्धो :	Bound, fastened, covered (नद्ध = नह)
नादेय्यो :	Belonging to a river, fluviate (नादेय)
नदी :	A river (नदी)
नदीमातिको (adj) :	Watered by rivers, provided with rivers (नदीमातिक)
नदित्तं :	See नदति
नादो :	Sound, noise: cry, shout, roar (नाद)
नागबला :	The shrub uraria lagopodisides (नागबला)
नागदन्तको :	A peg fastened into the wall to hang things upon (नागदन्तक)
नागदीपो :	A large island said to be inhabited by Nagas, and visited by Buddha when he introduced his religion among the Nagas (नाग + द्वीप)
नागलता :	The betel-vine, Piper Betel (नाग + लता)
नागमालिका :	The iron-wood tree (नाग + मालिका)
नागराजा :	King or a chief of Nagas: said of noble elephant (नाग + राजन्)
नगर :	A town or city: a fortified town, a fortress or citadel (नगर)
नगरी :	A town or city (नगरी)
नागरिको (adj) :	Belonging to a town: urbane, civilised (नागरिक)
नागरी :	Belonging to a town (नागर)
नगगो (adj) :	Naked (नगन्)
नागी :	A female Naga (नागी)
नागिन्दो :	A Naga king (नाग + इन्द्र)
नगो :	A mountain: a tree (नग)

नागो :	A serpent: a cobra or hooded snake; an elephant: the iron-wood tree, a chief (नाग)
नहानं :	Bathing (स्नान)
नहानियो (adj) :	Used for bathing: ablutionary (स्नानीय)
नहापको :	A bath attendant (स्नापक)
नहापनं :	Bathing a person, attending him at the bath (स्नापन)
नहापेति :	To cause to bathe (स्नापयति = स्ना)
नहापितो :	A barber (नापित)
नहारु :	A tendon, a muscle (स्नायु)
नहातको :	One whose spiritual instructions are complete (स्नातक)
नहातो :	Bathed, washed, cleansed, pure (स्नात = स्ना)
नहायति :	To bathe (स्ना)
नहि :	See न
नहुत्तं :	A vast number, or 1 followed by 28 ciphers
नज्जा :	Nadi (नदी)
नखो, नखं :	A nail of the finger or toe (नख)
नक्खत्तं :	A star: a constellation: an asterism in the moon's path, a lunar mansion; festival (नक्षत्र)
नक्को :	A crocodile (नक्र)
नाको :	Heaven (नाक)
नकुलो :	A mongoose (नकुल)
नलकारो :	A basket maker (नल + कार)
नालं :	Not sufficient, not able
नालं :	A tubular or hollow stalk—that of the water-lily a tube: a tubular vessel (नाल)
नलमीनो :	A sort of fish (नल + मीन)
नलाटं :	The fore-head (ललाट)
नाळी, नाली :	A hollow stalk: a tube: a pipe: an artery: a measure of capacity (नाडी, नाली, नालि)
नाळिका :	A tube, pipe, hollow cylinder (नाडिका)
नाळिकेरो :	A coconut tree (नारिकेर, नाडिकेल, नारिकेल)
नाळिकोदनं :	A nali-measure of rice (नाडी + क + ओदन)
नलिनं :	A lotus flower (नलिन)
नालिन्धमो :	A gold-smith (नाडिधम)
नलिनी :	A pond (नलिनी)

नालिपट्टो :	A covering for the head, a cap
नाळीवणं :	A fistula, an ulcer (नाडी + व्रण)
नलो, नळो :	A kind of reed (नल, नड)
नं :	See So
नाम :	By name: indeed (नाम)
नामध्वेय्यं :	Name, appellation (नामन् + ध्वेय = धा)
नमक्कारो :	Veneration, reverence; worship (नमस्कार)
नामको (adj) :	Bearing the name of: named (नामक)
नामं :	A name: a noun (नामन्)
नामरूपं :	Name and form: mind and body: individual (नामन् रूप)
नमस्सा :	Reverence, veneration, worship (नमस्या)
नमस्सति :	To honour, to pay attention to, to revere, to venerate, to worship (नमस्य)
नमति :	To bow to, to be inclined (नम्)
नामतो (adj) :	By name (नामतस्)
नामत्थु :	See नामो
नामवा (adj) :	Bearing the name of (नामन् + इन्)
नमेति, नमयति, : नामेति	To bend (नमयति = नम्)
नामी (adj) :	Bearing the name of (नामन् + इन्)
नामिको :	Bearing the name of
नामितो :	Bent (नामित = नम)
नम्मदा :	River Narbada (नर्मदा)
नमो :	Salutation, reverence, honour (नमस्)
नमुचि :	Name of a Mara (नमुचि)
नाना (adv) :	Various, different, away from (नाना)
जानदस्सनं :	Insight given by knowledge (ज्ञान + दर्शन)
नानाधिमुत्तिको : (adj)	Having various dispositions or inclinations (नाना + अधिमुक्ति + क)
जानं :	Knowledge (ज्ञान)
ननन्दा :	Husband's sister (ननान्द)
नानप्यकारतो (adj) :	In many ways (नाना + प्रकार + तस्)
नानप्यकारेन (adj) :	In many ways (नाना + प्रकार)

नानाप्यकारो + :	Of various sorts (नाना + प्रकार)
नानाप्यकारको (adj.)	
नानारूपो : (adj.)	Various, diverse (नाना + रूप)
नानता :	Variety, diversity (नाना + ता)
नानातो : (adv)	In various ways (नाना + तस्)
नानत्तं :	Diversity (नानात्व)
नानाविधो : (adj)	Of various sorts (नाना + विधा)
नन्दा :	Name of a pleasure - lake in Indra's Heaven (नन्दा)
नन्दनं :	Gladdening: name of a garden in Indra's heaven
नन्दति :	To enjoy: to rejoice: to be pleased (नन्द्)
नन्देति :	To cause to delight or rejoice (नन्दयति)
नन्दि :	Joy (नन्दि)
नन्दी :	A leathern thong or strap (नन्धी)
नन्दी (adj) :	Rejoicing in (नन्दिन्)
नन्दियावट्टो (adj) :	Turning auspiciously, turning to the right (नन्दि + आवर्त)
नङ्गलं :	A plough (लाङ्गल)
नङ्गुट्टं :	The tail of an animal
जानी :	Learned (ज्ञानिन्)
नानिकामसेय्या :	Uncomfortable bed (न + निकाम + शय्या)
नञ्जो :	See न (Na)
नानो :	See नाना (Nana)
ननु :	A word generally used in questioning where an affirmative answer is expected (ननु)
जापको (adj) :	Informing, declaring (ज्ञापक)
जापनं :	Information, declaration (ज्ञापन)
जापेति :	To make known, to declare, to tell, to inform, to teach, to show, to inform (ज्ञापयति = ज्ञा)
नप्परूपो (adj) :	Abundant (न + अल्प + रूप)
नपुंसको (adj) :	Of neuter gender; of no sex (नपुंसक)
नाराचो :	An iron weapon of some sort, an arrow or light javelin (नाराच)
नराधमो :	Vilest of men (नर + अधम)
नराधिपो :	A king (नर + अधिप)
नारदो :	Name of one of the 24 Buddhas (नारद)
नरको :	Hell (नरक)

नारको :	A person suffering in hell (नारक)
नारङ्गो :	An orange-tree (नारङ्ग)
नरासभो :	Chief of men an epithet for Buddha (नर + ऋषभ)
नरसीहो :	Lion amongst men: greatest of men (नर + सिंह)
नरवरो :	Greatest of men, an epithet of Buddha (नर + वर)
नारी :	A woman (नारी)
नरिन्दो :	A king (नर + इन्द्र)
नरिस्सरो :	A king (नर + इश्वर)
नरो :	A man (नर)
नारो (adj) :	Belonging to a man, human (नार)
नासा :	The nose (नासा)
नासनं + नासना :	Destruction, ruin (नाशन)
नासङ्गं :	A sin involving expulsion from priest hood (नाशन + अङ्ग)
नासापुटो :	A nostril (नासा + पुट)
नासावातो :	The breath of the nostrils (नासा + वात)
नासेति :	To cause to disappear, to destroy, to ruin, to expel from priest (नाशयति = नश्)
नासिक :	The nose: a nostril (नासिका)
नासितो :	Destroyed: demolished: ruined: expelled from the priesthood (नाशित = नश्)
नासो :	Disappearance; destruction; ruin; death (नाश्)
नास्स :	Not to him; not to her: should not be
नस्सरत्तं :	Impermanence (नश्वरत्व)
नस्सति :	To be lost, to disappear, to perish (नश्)
जाता :	One who knows (ज्ञातु)
जातब्बो :	That ought to be known, perceptible (ज्ञातव्य = ज्ञा)
नाटकित्थि :	A dancing girl (नाटक + स्त्री)
जातकित्थि :	A female-relative (ज्ञातक + स्त्री)
नटको :	A dancer; an acrobat (नटक)
नाटको :	A dancer or mime a drama (नाटक)
जातको :	A relative, kinsman (ज्ञात + क)
नटनं :	Dancing, gymnastics, pantomime (नटन)
जातय्यो (adj) :	To be known (ज्ञातव्य = ज्ञा)
नाथो :	A protector, a seivour; lord, master, chief (नाथ)
जाति :	A relative, a kinsman (जाति)

नातिदूरे (adv) :	Not far off (न + अति + दूरे)
नटो :	A dancer, an acrobat (नट)
जातो :	Known, ascertained (ज्ञात = ज्ञा)
नत्ता :	A grandson, a descendant (नप्त्)
नत्तकं :	Dirty or tattered clothes (नत्तक)
नत्तको :	A dancer (नृत + क)
नट्टं :	Dancing (नृत = नृत्)
जातं :	Knowledge (ज्ञात्र)
नत्तमालो :	The plant Pongamia Glabra (नत्त माल)
नत्तनं :	Dancing (नर्तन)
नत्थि :	There is not
नत्थिकवादो (adj) :	Holding nihilist views, sceptic (नास्तिक + वाद)
नत्थिता, नत्थितं :	Non-existence (नास्तिता नास्तित्व)
नट्टो :	Lost, destroyed, ruined (नष्ट = नश्)
नत्थु :	The nose
जत्ति :	Announcement, declaration (ज्ञप्ति)
जत्तो :	Made known, announce (ज्ञप्त = ज्ञा)
जत्तो (adj) :	Near
नत्तुतं :	Grandsonship (नप्त + त्व)
जातुं, जत्त्वा :	See जानाति
नाट्यं :	Scenic art, the drama (नाट्य)
नव :	Nine (नवन्)
नावा :	A ship, a boat (नौ)
नवगुणं :	Nine attributes (नवन् + गुण)
नवकतरो :	Newer, younger (नवक + तर)
नवक्खत्तुं :	Nine times (नवन् + कृत्वस्)
नवको (adj) :	New, young, junior (नवक)
नवमालिका, :	Arbian jasmine (नवमालिका + नवमल्लिक)
नवमल्लिका	
नवमो (adj) :	Ninth (नवम्)
नवङ्गो (adj) :	Having nine members or divisions (नवन् + अङ्ग)
नवनीतं, नोनीतं :	Butter (नवनीत)
नावनीतो (adj) :	Resembling butter (नावनीत)
नवप्पभेदो (adj) :	Nine-fold (नवत् + प्रभेद)

- नवरियो (adj) : Irresistible (न + वार्य = वृ)
- नवविधो (adj) : Nine-fold (नवन् + विधा)
- नाविको : A sailor, a pilot, a helmsman (नाविक)
- नवो (adj) : Recent, new, fresh, young (नव)
- नवुति : Ninety (नवति)
- नाय : See सौ
- नायकत्तं : Lordship (नायक + त्व)
- नायको : A chief, a lord (नायक)
- नयनं : Leading, bringing, the eye (नयन)
- नयति + नेति : To lead, to conduct, to guide, to bring, to trace: to ascertain: to infer (नी)
- जायति : See जानाति
- नयतो (adv) : By implication, inferentially (नय + तस्)
- नयेनं : See नयो
- नायेति : See नयति
- नह्यनं : Binding
- नह्यति : To bind (नह)
- नयिमे : See न
- नयो : Leading, guidance: conduct: prudent conduct, prudence policy, polity: way, manner, means, mode, method: inference, logical deduction (नय)
- नायो : Method, manner, means, suitable manner, propriety, right conduct, justice (न्याय)
- ने : See सो
- नेदीयो, नेदिट्टो (adj) : Nearer, very near, nearest (नेदीयस् नेदिष्ठ)
- नेगमो : Townsman; trader; produce (नैगम)
- नेकधा (adv) : In many ways (नैकधा)
- नेकको (adv) : Many (नौक + क)
- नेकतिको (adv) : Fallacious (नैकृतिक)
- नेकायिको (adv) : Versed in four Nikayas (निकाय + इक)
- नेक्खम्मं : Forsaking, separating from: giving up the world, developing oneself to the ascetic life, entering the priesthood; self abnegation, giving up all pleasures
- नेक्खो : See निक्खो
- नेको (adv) : Several, many (नैक)

नेळो :	Blameless, innocent (न + एनस्)
नेमि :	The circumference of a wheel (नेमि)
नेमिन्धरो :	Name of one of the Kulacalas (नेमि + धर)
नेमित्तको :	One who predicts the future from bodily signs or omens: a fortune-teller: necromancer (निमित्त + क camp नैमित्तिक)
नेमित्तो :	A fortune teller (नैमित्त)
नेपच्चं :	Adornment of the person, dressing up: costume of an actor (नेपथ्य)
नेपक्कं :	Prudence, discrimination
नेपुञ्जं :	Cleverness (नैपुण्य)
नेरञ्जरा :	Name of a river flowing through Magadha (नैरञ्जना)
नेरयिको :	One suffering in hell, an inhabitant of one of the hells (नैरयिक)
नेरु :	A name of Mt. Meru
नेरुत्तिको :	An etymologist or philologist (नैरुत्तिक)
नेसादो :	A hunter; an aboriginal tribe (नैषाद्, निषाद्)
नेसज्जिकङ्गं :	Precept enjoining a sitting posture (निषथा + इक + अ)
नेसं :	See सो
नेता :	A guide, a leader, a commander-in-chief (नेतृत्व)
नेति :	See नयति
नेत्तं :	The eye; a kind of cloth (नेत्र)
नेत्तिको :	One who makes conduits for irrigating rice-fields (नेत्र + इक)
नेत्तिसो (adj) :	Merciless (निस्त्रिस)
नेव :	See न + एव
नेवन्तनान्तवादो (adj) :	Holding the doctrine that the universe is neither finite nor infinite (नैव + अन्त + न + अन्तत + वाद)
नेवसञ्जानासञ्जा :	Neither consciousness nor unconsciousness (नैव + सञ्जा + न + असञ्जा)
नेवसञ्जानासञ्जी (adj) :	One who is in a state of semi-consciousness
नेवसेक्खनासेक्खो :	One who is neither a Sekha nor an Asekha viz. unconverted man (नैव + शैक्ष + न + अशैक्ष)
नेवासिको (adj) :	Inhabiting; dwelling in (निवास + इक)
नैय्यायिको :	A dialectician, an adherent of the Nyaya philosophy (नैयायिक)

नैप्पो :	To be led, to be inferred (नेय = नी)
जेय्यो :	That should be known; cognisable, ascertainable (जेय = ज्ञा)
नि :	A preposition with the meaning downwards
नि :	Before, a vowel, a preposition meaning outwards
निबद्धं (adj) :	Continually, constantly, always (निबद्ध = बन्ध)
निबन्धनं :	Binding, bonds: cause, motive (निबन्धन)
निबन्धति :	To bind, to continue (नि + बन्ध्)
निबन्धो :	Binding, continuance, perseverance (निबन्ध)
निब्बाहको (adj) :	Accomplishing (निर्वाहक)
निब्बहति :	To remove (निस् + वह or वृह)
निब्बं :	The caves of a roof (नीत्र)
निब्बानं :	Extinction, destruction, annihilation: Nirvana annihilation of being: arahatship or final sanctification (निर्वाण)
निब्बनथो (adj) :	Free from desire or human passion (निस् + वन + थ)
निब्बन्धति :	To press hard (निस् + बन्ध्)
निब्बनो (adj) :	Free from desire or human passion
निब्बापको (adj) :	Extinguishing, destroying
निब्बापेति (caus) :	To extinguish, to destroy, to put an end to, to sooth, to pacify, to delight, to annihilate (निर्वापयति = बा)
निब्बसनो (adj) :	No longer worn, cast off (निस् + वसन)
निब्बति + निब्बायति :	To be extinguished, to attain Nirvana to cease to exist, to be annihilated (निस् + बा)
निब्बत्तनं :	Springing up, growing, being born: being re-born at death in another world, causing to arise, producing (निर्वर्तन)
निब्बत्तति :	To spring up, to be born, to be produced, to grow, to arise: to be reborn after death in another world (निस् + वृत्)
निब्बत्तेति (caus) :	To cause to rise, to produce (निर्वर्तयति = वृत्)
निब्बत्ति :	Birth, rebirth, after-death in another-world (निवृत्ति)
निब्बत्तो :	Spring-up, arisen; born: re-born in a new existence (निवृत्त = वृत्)
निब्बायति :	See निब्बति
निब्बेधको (adj) :	Penetrating, discriminating (निस् + वेधक)
निब्बेधेति :	To pierce (निस् + व्याधयति = व्यध्)
निब्बेधो :	Penetration (निस् + वेध)

- निब्बेदिको (adj) : Connected with disgust or dissatisfaction (निर्वेद + इक)
- निब्बेमतिको (adj) : Unanimous, consentment (निस् + विमति + क)
- निब्बेसो : Payment, wages (निर्वेश)
- निब्बेठनं : Unwinding, explanation (निस् + वेष्टण)
- निब्बेठेति : To untwist, to unwind, to unravel; to explain: to say, to reject (निस् + वेष्ट्)
- निब्भरो (adj) : Excessive, ardent (निस् + भर)
- निब्भरो (adj) : Free from fear or danger, (निस् + भय)
- निब्भोगो (adj) : Deprived of enjoyment, miserable (निस् + भोग)
- निब्बिचिकिच्छा : Free from doubt (निस् + चिकित्सा)
(adj)
- निब्बिदा (adj) : Disgust with worldly life, aversion (निस् + विद् + आ)
- निब्बिज्झति : To pierce, to transfix, to wound (निस् + व्यध्)
- निब्बिकारो (adj) : Free from perturbation or emotion (निस् + विकार)
- निब्बिक्खेपं (adv) : Clearly, without confusion (निस् + विक्षेप)
- निब्बिन्दति : To be disgusted, to be wearied of the vanity of life (निस् + विद्)
- निब्बिण्णो : Disgusted, wearied (निर्विण = विद्)
- निब्बिरियो (adj) : Powerless, weak (निस् + वीर्य)
- निब्बिसति : To find, to obtain, to enjoy (निस् + विश्)
- निब्बिसेवनो (adj) : Not self, indulgent, self-denying (निस् + वि + सेवन्)
- निब्बिसो (adj) : Free from poison (निस् + विष)
- निब्बुद्धं : Close struggle, wrestling
- निब्बुति : Peace, tranquility, calm, serenity of mind, happiness, Nirvana (निर्वृति)
- निब्बुतो : Free from care or passion, serene, calm, peaceful, tranquil, happy: annihilated (having attained Nirvana), dead (निर्वृत = वृ)
- निभासो : Appearance (नि + भास् + अ)
- निभो (adj) : Like, resembling (निभ)
- निबोधति : To know, to learn (नि + बुध्)
- नीचकुलं : Any one of low origin (नीच + कुल)
- नीचकुलीनो (adj) : Coming from a low family
- नीचतरो (adj) : Rather low (नीच + तर)

नीचयो :	Heap, store, accumulation (निचय)
निच्चलो (adj) :	Firm, steady, quiet, at rest, immovable, unchangeable (निस् + चल)
निच्चमानको (adj) :	Unwilling, reluctant (न + इच्छमान = इष् + क)
निच्छन्दो (adj) :	Free from wish or desire (निस + च्छन्द)
निच्छारको (adj) :	Putting out, emitting (निश्चारक)
निच्छरति :	To come or go out, to proceed (निस् + चर्)
निच्छयो :	Determination, resolution, decision: conviction (निश्चय)
निच्छिनति :	To ascertain; to decide, to resolve: to investigate, try: inquire into (निश्चि)
निच्छितो :	Convinced, having ascertained (निश्चित)
निच्चित्तो (adj) :	Without thought or mind (निश्चित)
निच्चो (adj) :	Perpetual, lasting, constant (नित्य)
निचितो :	Piled up, accumulated (निचित)
नीचो (adj) :	Low: mean: base (नीच)
निचुलो :	The tree Barringtonia acutangula (निचुल)
निदाघो :	A hot season; heat, drought; sweat (निदाघ)
निदहति, निदेति, निधेति :	To put down, to lay aside, to deposit, hide, to bury: to enshrine (निघा)
नीडं :	See निडु
निदानं :	Primary source, origin, cause: cause of a disease: introduction (निदान)
निदस्सनं :	Pointing out, indicating, designation: example, illustration: sight view (निदर्शन)
निदस्सेति :	To point out, indicate, show, tell, set-fourth, communicate, advise (निदर्शयति = निदृश्)
निद्रा :	Sleep, slumber, sloth (निद्रा)
निद्रालू (adj) :	Sleepy, drowsy, sluggish, slothful (निद्रालु)
निद्रो (adj) :	Free from suffering (निर्दर)
निद्रासीली (adj) :	Drowsy, slothful (निद्रा + शील + इन्)
निद्रायनं :	Sleeping, sleepy
निद्रायति :	To sleep (निद्रा)
निद्रायिता :	One who sleeps, drowsy, slothful (निद्रै + तृ)
निद्रयो (adj) :	Merciless, cruel (निर्दय)

निद्देशो :	Pointing out, designation, specification, description, showing forth (निर्देश)
निड्ड :	A nest
निद्धमति :	To remove, get rid of (निर्धर्मा)
निद्धनो (adj) :	Poor, needy (निर्धन)
निद्धारणं :	Singling out, separating, specifying one of the many causes
निद्धोतो :	Washed (निर्धोत)
निद्धूनकं :	Throwing about the hands in eating
निद्दिसति :	To point out, specify, mention, enumerate declare, to describe, to narrate, explain (निर्दिश)
निद्दोसो (adj) :	Faultless, guiltless (निर्दोष)
निद्दुक्खो (adj) :	Free from suffering, Sootheless (निर्दुःख)
निधानगो (adj) :	Treasured up (निधान + ग)
निधनं, नो :	Death (निधन, निधनस्)
निधानं :	Depositing, enshrining: a receptacle, treasury: store, wealth treasure (निधान)
निधानवा (adj) :	Worth treasuring up: precious (निधान + वन्)
निधाय + निधेति :	See निधति
निधि :	A depository: treasure (निधि)
निधायति :	See निधेति
निधुरो :	A bracelet
निदिद्धिका :	A sort of prickly nightshade (निदिग्धिका)
निगच्छति :	To enter, come into: to undergo (निगम्)
निगदति :	To tell, declare, recite explain (निगह)
निगादो :	Speech, recitation (निगद, निगाद्)
निगलो :	A chain, fetter (निगड)
निगमनं :	Deduction (निगमन)
निगमो :	The Veda: a market town (निगम)
निगण्ठो :	A naked ascetic (निग्रन्थ)
निगगच्छति :	To go out, depart, proceed or come forth from (निर्गम)
निग्गाहको :	One who rebukes: one who coerce or oppresses (निग्राह + क)
निग्गाहणो (adj) :	Free from attachment
निग्गाहनं :	Censure, chastisement (निग्रहण)
निग्गाहेस्सति :	See निग्गाहति
निग्गाहीतो :	Restrained, confined, held-back: rebuked, punished (निगृहीत)

निग्गहो :	Restrained, subduing, rebuke, censure, punishment, degradation (निग्रह)
निग्गमनं :	Exit, departure (निर्गमन)
निग्गमो :	Going forth, departure: an issue, out-let (निर्गम)
निग्गन्धो (adj) :	Inoderous: sweet: free from bad smell (निर्गन्ध)
निग्गण्हनं :	Restraint (निग्रह)
निग्गण्हति :	To restrain, coerce, subdue: to rebuke, humble: to chastise, degrade (निग्रह)
निग्गतो :	Gone-out: departed (निर्गत)
निग्गह्यवादी (adj) :	One who censures another for his faults instead of winking of them
निग्घोसो :	Noise, uproar (निर्घोष)
निग्गुम्बो (adj) :	Free from bushes, clear, even (निर्गुल्म)
निग्गुण्डी :	Name of a shrub (निर्गुण्ड)
निग्गुणो (adj) :	Devoid of good qualities, bad (निर्गुण)
निघण्डु :	A collection of names or vocabulary, a lexicon in which the words classed according to subjects and not alphabetically (निघण्टु)
निघातेति :	To kill, destroy (निघातयति)
नीघो :	Grief, suffering, woe
निग्रोधो :	The banyan or Indian fig tree (न्यग्रोध)
निगूहितो :	Covered, concealed (निगूहित = गुह)
निहन्ति :	To put down: to settle, to put an end to: to strike down, destroy (निहन्)
नीहारको (adj) :	Carrying away (निर्हारक)
नीहरणं :	Removal, taking out, expulsion (निर्हरण)
नीहरति :	To draw out, release, take out, carry away, remove, dismiss (निर्ह)
नीहारो :	Way, manner (निर्हार)
नीहारो :	Fog: frost (नीहार)
निहतो :	Struck down, destroyed, ruined: put an end to, decided, settled (निहत)
निहटो + निहतो :	Removed, taken-away (निर्हत)
निहीनको (adj) :	Low, vile (निहीन + क)
निहिनो :	Low, vile, bare, contemptible (निहीन)

निहितो :	Laid down: treasured up (निहीत)
निहीयति :	To deteriorate, perish, decay (निहीयते = निहा)
निजिगिंसना :	Covetousness
निजिगिंसति :	To wish to take, try to get: covet (नि + जिहीर्षति)
निजिगिंसति (adj) :	Covetous, rapacious (नि + जिहीर्ष + तु)
निज्जलो (adj) :	Without water, dry (निर्जल)
निज्जरो (adj) :	Free from decay: not growing old (निर्जर)
निज्जटो (adj) :	Disentagled (निस् + जटा)
निज्झामतण्हको :	A class of Pretas, wandering about the world of men tormented with perpetual thirst
निज्झानं :	Sight: insight: intuition: perception (निध्यान)
निज्झापेति :	To give to understand
निज्झरो :	A cascade (निर्झर)
निज्जीबो (adj) :	Lifeless (निर्जीव)
निजो (adj) :	Own (निज)
निकामं (adj) :	Willingly, voluntarily (निकामम्)
निकामेति :	To long for, care for (निकम्)
निकामो :	Desire (निकाम)
निकण्णिकं :	To whisper into ear (नि + कर्ण + इक)
निकन्ति :	Desire, wish (नि + कान्ति)
निकरो :	A multitude, quantity (निकर)
निकसो :	A touch stone: a whet-stone (निकष)
निकति :	Baseness, dishonest, fraud (निकृति)
निकतो :	Base, dishonest, wicked (निकृत)
निकटो (adj) :	Near (निकट)
निकट्टे (adj) :	In the neighbourhood, near: shortly, soon (निकृष्ट)
निकायो :	A multitude, assemblage: a collection: a class, order, group: an association, fraternity, congregation a house, dwelling (निकाय)
निकेतनं :	A house, habitation (निकेतन)
निकेतो :	A house, dwelling, home (निकेत)
निखनति :	To dig into, to bury (निखन्)
निखिलो (adj) :	Entire, all (निखिल)
निकिट्टो :	Low, vile, out-cast (निकृष्ट)

निक्कड्ढति :	To cast-out, expel, dismiss (निष्कृष्)
निक्कामी (adj) :	Free from kama to desire (निष्काम)
निक्कम्मो (adj) :	Without occupation (निष्काम)
निक्कङ्गा :	Absence of doubt, certainty (निस् + शंका)
निक्कङ्गो (adj) :	Free from doubt (नि + शंक)
निक्कसावो (adj) :	Free from impurity or sin (निस् + कषाय)
निक्केसो (adj) :	Bald (निष्केश)
निक्खमनं :	Going out, or away, departure (निष्क्रमण)
निक्खमति :	To go out, to set out, start, go-forth, go away depart (निष्क्रम्)
निक्खमो :	Going-out, exit (निष्क्रम)
निक्खन्तो :	Gone-out, departed (निष्कान्त)
निक्खेपो :	Putting down, depositing, rejection (निक्षेप)
निक्खिको :	A royal-treasurer or mint-master (नैष्किक)
निक्खिपनं :	Putting-down (निक्षिपण)
निक्खिपति :	To put down, throw down: to lay or throw aside: to lay up, deposit, keep (निक्षिप्)
निक्खित्तो :	Put down, thrown down: laid aside: deposited (निक्षिप्त)
निक्खो + निक्खं :	A golden ornament for neck or breast: gold, a weight of gold equal five suvannas (निष्क)
निक्किलेसो (adj) :	Free from kilesa (निष्कलेश)
निक्कसज्जो (adj) :	Overtaken, upside down (निस् + कुब्जित)
निकुब्बति :	To deceive, cheat, defraud (निकृ)
निकुज्जति :	To attach importance to, to lay at heart
निकुज्जो, जं :	A thicket, a bower (निकुज्ज)
नीलत्तं :	Dark blue-colour, blueness (नील + त्व)
निलयो :	A dwelling, habitation, nest (निलय)
नीली :	The indigo plant (नीली)
नीलिका :	Name of an aqualic plant (नीलिका)
नीलिनी :	The indigo-plant (नीलिनी)
निलीयति :	To settle-down, alight: to lurk, hide (निली)
निल्लज्जो (adj) :	Shameless (निल्लज्ज)
निल्लेहकं :	Licking (निस् + लेह + क)
निल्लोपो :	Plundering (निस् + लुप् + क)
नीलो (adj) :	Black : dark blue: dark green (नील)

नीळो + नीळं :	A nest: a haunt, receptacle (नीड)
निमन्तनं :	Invitation (निमन्त्रण)
निमन्तेति :	To invite, offer
निम्बो :	Nimb tree (निम्ब)
निमीलेति :	To close the eyes (निमील)
निमित्तं :	A sign, mark, token, omen: cause, reason: pudendum (निमित्त)
निम्मद्दनं :	Crushing subduing (नि + मर्दन)
निम्मद्देति (caus) :	To crush, subdue, overcome
निम्मक्खिको (adj) :	Free from flies (निर्मक्षिक)
निम्मलो (adj) :	Stainless, pure, innocent (निर्मल)
निम्मंसो (adj) :	Fleshless (निर्मांस)
निम्मानं :	Measuring: forming, making, creation, fabrication (निर्माण)
निम्मन्थ्यो (adj) :	To be stirred or rubbed (निर्मन्थ्य)
निम्माता :	A maker, creator (निर्मातृ)
निम्मातापित्तिको (adj) :	Without father or mother: orphan (निस् + मातापितृ + क)
निम्माथितो :	Agitated (निर्मथित)
निम्मिनाति + :	To form, make, fashion, build, to create, cause to appear by supernatural power (निमा)
निम्मायति	
निम्मित्तो :	Made, fashioned, created (निर्मित)
निम्मोको :	The slough or cast off skin of a snake (निर्मोक)
निमुग्गो :	Sunk, immersed (निमुग्ग)
निमुज्जति, :	To sink, dive, plunge (निमज्ज, निर्मज्ज)
निम्मज्जति	
निनादवा (adj) :	Noisy (निनाद + वन्त्)
निनदो, निनादो :	Noise (निनद, निनाद)
निन्दा :	Blame, rebuke, reproach: to despise (निन्द्)
निन्दति :	To blame, to reproach: to despise (निन्द्)
निङ्गो :	A sort of deer (न्यङ्ग)
निन्नादी (adj) :	Resounding
निन्नादो :	Noise, sound (निस् + नाद्)
निन्नगा :	A river (निन्नगा)

निन्नाहुत्तं :	One of high numerals : followed by 35 ciphers (निस् + स्नुत्)
निन्नं :	Depth, low ground: the sea the deep (निम्न)
निन्नामेति :	To put out as the tongue (निस् + नामयति = नम्)
निन्नयो :	Certainty (निर्णय)
निन्नेजको :	A washerman (निर्णेजक)
निन्नो (adj) :	Deep, lowlying (निम्न)
निपच्चाकारो :	Subjection, inferiority, servitude, service (निपत्य + आकार)
निपच्चति :	To be laid-down, settled, determined (निपत्यते)
निपज्जति :	To lie down (नि + पद्यते = पद्)
निपको (adj) :	Prudent, wise (निपक)
निपानं :	A trough near a well (निपान)
निपन्नो :	Lying down (नि + पन्न = पद्)
निपातनं :	Causing to descend; striking: flying down or about (निपातन)
निपतति :	To fall down, to descend: to rush or fly about (निपत्)
निपठो + निपाठो :	Reading, studying (निपठ, निपाठ)
निपाति (adj) :	Flying down or about, wandering (निपातिन्)
निपातो :	Falling down, descending (निपात)
निपीयति :	To be drunk in, imbibed
नीपो :	The tree Nauclea, Cadamba, a species of Asoka tree (नीप)
निष्पच्चयो (adj) :	Unprovided wish requisites, destitute (निस् + प्रत्यय)
निष्पज्जति :	To be accomplished, effected, to succeed: to ripen (निष्पद्)
निष्पक्को (adj) :	Boiled, infused (निष्पक्क)
निष्पज्जो (adj) :	Unwise, foolish (निस् + प्रज्ञ)
निष्पपञ्चो (adj) :	Free from delay: free from the conditions, such as lust, pride anger, which delay a man in his spiritual progress (नष्प्रपञ्च)
निष्पपो (adj) :	Sinless (निष्पाप)
निष्पावो :	Winnowing, clearing (निष्पाव)
निष्पेसिको :	A juggler (निष्पेसिक)
निष्पादनं :	Accomplishment (निष्पादनं)
निष्पादेति :	To accomplish, effect, settle, bring to a successful termination, perform, produce, procure (निष्पादयति)
निष्फलो (adj) :	Fruitless, useless, without reward, unprofitable (निष्फल)
निष्फन्नो :	Arisen, produced: formed, effected, accomplished: springing from, made (निष्फन्न)

निष्फातितो :	Ruined, destroyed (निष्फातित)
निष्फत्ति :	Perfection, accomplishment (निष्फत्ति)
निष्पीळेति :	To importune, vex
निष्पीतिको (adj) :	Free from active joy (निस् + प्रीति + क)
निष्पुुरिसो (adj) :	Without men, without people (निष्पुुरीष)
निपुणो (adj) :	Clever, skilled, sharp, intelligent: delicate, subtle abstruse (निपुण)
निरब्बुदं :	A vast number or 1 followed by 63 ciphers
निरब्बुदो (adj) :	Free from boils or tumours: free from heresy (said of religion) (निस् + अर्बुद)
निरगगलो (adj) :	Unobstructed (निरगल)
निराहारो (adj) :	Without food, fasting (निराहार)
निराकति :	Rejection, contradiction (निराकृति)
निराकुलो (adj) :	Clear, undisturbed, tranquil (निराकुल)
निरालम्बो (adj) :	Having no prop.: unsupported (निरालम्ब)
निरालयो (adj) :	Free from attachment or desire (निस् + आलय)
नीरं :	Water (नीर)
निरामयो (adj) :	Healthy (निरामय)
निरामिसो (adj) :	Free from worldly taint, disinterested, pure (निरामिष)
निरन्तरो (adj) :	Without interstices, compact, dense, solid coarse (निरन्तर)
निरपराधो (adj) :	Innocent, free from fault or error (निरपराध)
निरपेक्खो, पेक्खो (adj) :	Disregarding (निरपेक्ष)
निरासको (adj) :	Free from desire (निस् + आशा + क)
निरसनं :	Rejection (निरसन)
निरासङ्को (adj) :	Without apprehension, safe: without hesitation (निरासङ्क)
निरसनो (adj) :	Fasting (निरशन)
निरासयो (adj) :	Free from desire (निस् + आशय)
नीरसो (adj) :	Sapless, juiceless: tasteless, insipid, nasty (नीरस)
निरासो (adj) :	Free from desire (निस् + आशा)
निरातङ्को (adj) :	Free from disquiet, safe, peaceful (निस् + आनङ्क)
निरतो :	Pleased, delighted in (निरत)
निरत्थको, निरत्थो (adj) :	Vain, unmeaning, useless, unprofitable (निरर्थक, निरर्थ)
निरवसेसो (adj) :	Without a residue, complete (निरवशेष)

निरवो (adj) :	Noiseless, silent (नि + रव)
निरयपो :	Name of one of the guardians of hell (निरय + प)
निरयो :	Hell (निरय)
निरोधो :	Cessation, annihilation: Nirvana: obstruction impeding (निरोध)
निरोगो :	Healthy (निरोग)
निरोजो (adj) :	Tasteless, insipid (निस् + ओजस्)
निरुदको (adj) :	Free from water, waterless (निरुदक)
निरुद्धो :	Destroyed, brought to an end: annihilated: dead (निरुद्ध)
निरुञ्जति :	To cease, perish, be destroyed, annihilated
निरुपभोगो (adj) :	Useless, unattractive (निरुपभोग)
निरुपधि :	See उपधि
निरुपकारो (adj) :	Useless (निस् + उपकार)
निरुस्सुद्धो (adj) :	Careless, indifferent, idle (निस् + औत्सुक्य)
निरुक्ति :	One of the vedangas, explanation of difficult Vedic words: artificial explanation of the meaning of words (निरुक्ति)
निसा :	Night (निशा)
निसदा + निसदो :	A grandstone or milestone nether
निसादी (adj) :	Lying down, resting (निषादिन्)
निसादो :	The first of the seven musical notes of the Hindu gamut (निषाद)
निसर्गो :	Natural state, nature (निसर्ग)
निसज्जा :	Sitting, session (निषद्या)
निसाकारो :	The moon (निशाकर)
निसामनं :	Seeing, observing, attending to, listening (निशमन)
निसामेति :	To attend, to listen to, hear, observe, mind, be careful of (निशामयति)
निसम्पकारी (adj) :	Acting with care or attention, circumspect (निशम्य + कारिन्)
निसानाथो :	The moon (निशानाथ)
निसन्ति :	Careful, attention or observation (नि + शम् + ति)
निसेधनं :	Prevention (निषेधन)
निसेधेति (caus) :	To prevent, prohibit, put a stop to, dissuade (निषेधयति)
निसेधो :	Prevention, prohibition, restraint (निषेध)
निसेवति :	To attach oneself to, serve, wait upon, follow, embrace practice: to resort to, inhabit (निषेव्)
निसीदनं :	Sitting, a mat to sit on

निसीदति :	To sit down: alight: settle down (निषद्)
निसिन्नको (adj) :	Seated (निषणक)
निसिन्नो :	Seating, setting, perched (निषण)
निसीथो :	Midnight (निशीथ)
निस्नेहो (adj) :	Without love, indifferent (निस्नेह)
निसहो (adj) :	Noiseless, silent (निःशब्द)
निस्सगिगयो (adj) :	That should be rejected, given up, abandoned; to be forfeited
निस्सगो :	Giving up, surrendering (नि + सर्ग)
निस्सज्जनं :	Giving up, forfeiture
निस्सज्जति :	To give-up, abandon, surrender, forfeit
निस्सक्कनं :	Going out
निस्सको :	A name of the ablative (Grammatical term)
निस्संसयो (adj) :	Certain, undoubted (नि, संसय)
निस्सन्दे :	Consequence or result (निःस्यन्द, निस्स्यन्द)
निस्सनो :	Sound, noise (निस्वन)
निस्सरणं :	Departure, going out: exit, egress, outlet; outcome, result: escape from sansara, salvation (निःसरण)
निस्सारणं :	Expulsion (निःसारण)
निस्सारणीयो :	Connected with expulsion (निःसारणीयो)
निस्सरति :	To depart, escape (निःसु)
निस्सारो (adj) :	Sapless: vain, unsubstantial; non-existent (निःसत्व)
निस्सावो :	The scum or water of boiling rice (निःस्त्राव)
निस्साय :	Leaning upon, or towards, dependent upon: close to near by: on account of, by reason of, through, for
निस्सयदो :	One who gives protection (निःश्रय)
निस्सयति :	To depend on, belong to (नि + श्रि)
निस्सयो :	That on which anything depends or rests, refuge, shelter, help, protection, resource, requisite, necessary
निस्सेणी :	Ladder, stairs (निःश्रेणि)
निस्सेसो (adj) :	Complete, all, entire (निःशेष)
निस्सीलो (adj) :	Irreligious (निस् + शील)
निस्सीमो (adj) :	Outside the boundary (निः सीमन्)
निस्सिरीको (adj) :	Unfortunate, ill-fated, inglorious (निःश्रीक)
निस्सितको :	A pupil, adherent

निस्सितो :	Inhabiting: placing or stationing oneself in: having recourse to, dependent on, inherent in, connected with, resting on
निस्सोको (adj) :	Free from sorrow (निःशोक)
निसूदनं :	Destroying, slaughter (निसूदन)
नितम्बो :	The swell of the loins, the buttocks; the swell or slope of a mountain (नितम्ब)
नीतत्थो :	Natural meaning (नीत + अर्थ)
नीति :	Guidance, management, practice, conduct: habit, institutions: propriety, right conduct, prudent council, statemanship, polity (नीति)
नीतिमा (adj) :	Prudent, politic (नीतिमत्)
नीतो :	Led, inferred (नीत)
नीत्तचो (adj) :	Free from bark (निस् + त्वच्)
नित्तलो (adj) :	Spherical (निस्तल)
नित्तण्हो (adj) :	Free from desire or lust (निस् + तृष्ण)
निट्ठा :	Completion, accomplishment, perfection: end, conclusion: ascent, ascertainment: disappearance, destruction (निष्ठा)
नित्थद्धो (adj) :	Paralysed, slitted (निस्तब्ध)
निट्ठानं :	Accomplishment, completion (निष्ठान)
निट्ठापेति :	To complete, finish, accomplish (नि + स्थापयति)
नित्थरणं :	Release, escape (निस्तरण)
नित्थरति :	To get across, get over, get clear of, escape from (निस्तृ)
निट्ठाति :	To terminate, be finished or completed, to come to an end (नि + स्था)
नित्थिण्णो :	Passed through, escaped from (निस्तीर्ण)
निट्ठित्तो :	Completed, finished, accomplished, ended (निष्ठित्त)
निट्ठुभति :	To spit out (निष्ठीव्)
नित्थुनाति :	To bewail (नि + स्तन्)
निदुरो (adj) :	Harsh, hard (निष्ठुर)
नित्थुसो (adj) :	Without husks (निस्तुष)
निवहो :	A multitude, quantity (निवह)
निवापो :	Oblation to the manes of deceased relative; offering to Petas: offering, charity, alms: ration, allowance, bhatta: provision, food (निवाप)
निवारणं :	Keeping off, warding off: preventing (निवारण)
नीवरणं :	Obstacle, hindrance (निस् + वृ + अन)
निवारेता :	One who keeps off

निवारति :	To keep off, ward off: to restrain, hinder, prevent, stop (निवारयति)
निवारो :	Prevention (निवार)
नीवारो :	Wild rice or paddy (नीवार)
निवासनं :	Clothing, an undergarments (निवासन)
निवासनं :	Dwelling (निवासन)
निवासेति :	To put on, dress, wear (especially of an undergarment (निवासयति)
निवासेति :	To cause to dwell
निवासी (adj) :	Dwelling (निवासिन्)
निवासो :	Residence, dwelling, abode, station, night-quarters (निवास)
निवातो :	Loneliness, humility
निवर्त्तनं :	Turning back: refutation (निवर्त्तन)
निवर्त्तति :	To turn back, return, depart, to stop, halt: to cease, desist (निवृत्)
निवृत्यो :	Dressed, clothed: put on, worn
निवर्त्ति :	Turning back: returning, stopping (निर्वर्त्ति)
निवर्त्तो :	Returned, turned back: recoiling: stopped, ceased (निवृत्त)
निवेदनं :	Informing, announcement (निवेदन)
निवेदेति :	To make know, inform, announce, report, relate (निवेदयति)
निवेदी (adj) :	Making known, informing (निवेदिन्)
निवेशनं :	Resting-place, residence, dwelling (निवेशन्)
निवेशेति :	To cause to enter, to introduce, to place: to cause to settle or dwell: to fix, place, establish: to found, build (निवेशयति)
निविसति :	To settle, encamp (निविश्)
निविष्टो :	Encamped, settled, established, fixed on, devoted; married (निविष्ट)
निवृतो :	Surrounded, hemmed-in, obstructed (निवृत)
निवृत्यो :	Inhabited
नियामको (adj) :	Curbing, governing, restraining, guiding (नियामक)
नियमनं :	Restraining, regulation (नियमन)
नियमेति :	To restrain: to fix: to prescribe: ordain (नियमयति)
नियमो :	Ascertainment, certainty: restraint, training, self-imposed, religious observance: voluntary performance of a meritorious act (नियम)

नियामो :	Way, manner (नियाम)
नियन्ता :	One who restraints, guides or governs (नियन्तृ)
नियति :	Fate, luck, destiny (नियति)
नीयति, नीयाति :	See निय्यति, निय्याति
नियतो :	Fixed, certain, self-controlled, temperate (नियत)
नियो (adj) :	Own (निज)
नियोगो :	Injunction, appointment, order (नियोग)
नियोजनं :	Appointment, ordinance, bidding, enjoining (नियोजन)
नियोजनिको (adj) :	One who orders or urges (नियोजन + इक)
नियोजेति :	To appoint, commission, enjoin, ordain, decree, urge (नियोजयति)
नियुरो :	A bracelet
नियुत्तो :	Attached or appointed to (नियुक्त)
निय्यादेति, नीयादेति :	To give back, restore: to hand over, give up (निर्यत्)
निय्यमो :	See नियमो
निय्यानं :	Setting out, departure, marching (निर्याण)
निय्यानिको (adj) :	Leading to salvation (निर्याण + इक)
निय्यातनं :	Return of a deposit, gift (निर्यातन)
निय्यातेति :	See निय्यादेति
निय्यति, नीयति :	To be led, carried along, led away (नीयते)
निय्याति, नीयाति :	To go out, depart, escape: to fall out, result, conduct, lead to, conduce tend (निर्या)
निय्यूहो :	A chaplet, crest: a clothes peg: exudation of trees as sap, gum: a door gate (निर्यूह)
नो :	A substitute for some of the cases of the plural of the pronoun of the first person (नस्)
नो :	no (नो)
नोनीतं :	See नवनीतं
नु :	Pray ! I wander नु
नुदको (adj) :	Dispelling, putting away (नुद् + अक)
नुदनं :	Repulsion, rejection (नुद् + अन्)
नुदति :	To remove, dispel, avert, reject, put-away (नुद्)
नुदो (adj) :	Dispelling (नुद्)
नून (adj) :	Surely : perhaps I suppose (नूनम्)

चुन्नो :	Thrown, cast, dismissed, impelled (चुन्न)
चूपुरो :	An anklet (चूपुर)
चुतन (adj) :	New, fresh (चूतन)
चुति :	Praise (चुति)
चुतो :	Praised (चुत)
चुट्टुभति :	See (चिट्टुभति)
चुत्तो :	Thrown (चुत्त)
न्यासो :	A deposit, pledge, mortgage: multitude, assemblage (न्यास)

O

ओभग्गो :	Broken (अवभग्न)
ओभासति :	To shine (अवभास्)
ओभासति, अवभ :	To speak, to address (अवभाष्)
ओभासो, अवभ :	Lustre, radiance, light: appearance, manifestation : reach, range: a hint (अवभास)
ओचिक्खति :	To point out, draw attention to (अवचक्ष्)
ओचिनति :	To gather, pick (अवचि)
ओदहनं :	Depositing, stowing away
ओदहति :	To pit in, to deposit: to attend, apply (अवधा)
ओदकन्तिको :	A deep pit or hole in the earth
ओदक (adj) :	Belonging to water-watery, aqueous (ओदक)
ओदनं, नो :	Boiled rice (ओदन)
ओदनिको :	A cook (ओदनिक)
ओदातो :	White: pure, clean, clear (अवदात)
ओधि :	Limit, limitation: district, division (अवधि)
ओधिसो (adj) :	At the end of a period, ultimately (अवधि + शस्)
ओदिस्सा :	A ger, from दिश् with अव - meaning expressly
ओदुम्बरो (adj) :	Belonging to the udumbara tree (ओदुम्बर)
ओगच्छनं :	Going out
ओगधो (adj) :	Belonging to, connected with, contained in (अव + गाध)
ओगाहति, :	To dive, plunge into, enter (अवगाह)
ओगाहेति	
ओगाहो :	Plunging into, wading fording (अवगाह)
ओगाळ्हो :	See (ओगाहति)
ओगमनं :	Going down, setting (अवगम् + अन)
ओगह्य :	See (ओगाहति)
ओघो :	Flood, inundation, torrent, overflow: multitude, quantity (ओघ)
ओगिलति :	To swallow (अवगृ)
ओगुण्ठितो :	Covered, veiled, wrapped-up (अवगुण्ठित)
ओहारणं :	Removing
ओहारेति :	To remove (अवह)

ओहारी (adj) :	Dragging down (अवहार + इन्)
ओहाय :	See ओजहति
ओहितो :	Put in, deposited: put down, laid aside (अवहित)
ओहीयति :	To be left (अवहीयते)
ओजा :	Strength, sap of life, vitality: sap, juice (ऊर्ज्)
ओजदीपो :	A name of Ceylon (ऊर्ज् + द्वीप)
ओजहति :	To leave, forsake, abandon, renounce (अवहा)
ओजवा (adj) :	Juicy, succulent, sweet luscious (ऊर्जस्वत्)
ओजो :	Light, splendour: strength, vigour (ओजस्)
ओकं :	Water (उदक)
ओकष्णीयो (adj) :	Becoming, suitable, proper
ओकारो :	Vileness, worthlessness
ओकासलोको :	World or realm of space (अवकाश + लोक)
ओकासो, अवकासो :	Place, room, space: interval, occasion, opportunity: leave, permission: leisure, cause (अवकाश)
ओकिरणं :	Sprinkling
ओकिरति :	To sprinkle (अव + कृ)
ओक्काको :	A proper name (इक्ष्वाकु)
ओक्कमनं :	Descent
ओक्कमति :	To descend, step down: to disembark: to fall into, enter or come into (अवक्रम्)
ओक्कन्ति :	Descent, falling upon (अवक्रान्ति)
ओक्कन्तो :	Descended, entered: embarked (अव + क्रान्त)
ओक्कस्सा :	Having dragged away, abducted (अवकृष्)
ओक्कट्टो :	Lowered, low (अवकृष्ट)
ओक्खित्तो :	Cast-down, lowered (अवक्षिप्त)
ओलगितो :	Hanging down (अव् + लगित्)
ओलम्बको (adj) :	Hanging (अवलम्बक)
ओलम्बति :	To hang down (अवलम्ब)
ओलम्बो :	Something hanging, an appendage (अवलम्ब)
ओळारिको (adj) :	Large, great: gross: coarse: material (ओदारिक)
ओलिगल्लो :	A dirty pool near a village
ओलोकनं :	Looking, looking at (अवलोकन)

ओलोकेति, :	To look, see at, behold, look-down upon: to look for, await watch:
ओलोकति,	to consider, regard (अवलोक)
अवलोकति	
ओलुम्पिको (adj) :	Belonging to a raft (उडुप + इक)
ओमको (adj) :	Low, inferior, vile (अवमक)
ओमसति :	To revile, to reproach (अव + मृश)
ओमसवादो :	Scornful, contemptuous, reproachful speech (अवमृश + अ + वाद्)
ओमञ्चति :	To take off, unloose, remove (अवमुच्)
ओमुत्तेति :	To make water upon (अवमूत्र)
ओनद्धो, अवनद्धो :	Covered, bound (अवनङ्घ)
ओणमति :	To stoop, to bow (अवनम्)
ओनन्धनं :	Tying, entangling
ओनन्धति :	To cover, to bind (अवनह)
ओणतो :	Bent, stooping (अवनत)
ओजातो, अजातो :	Low-born (अव + ज्ञात)
ओनवीसतिवस्सो :	One who is there twenty years old i.e. under age for ordination
(adj)	
ओणीतो :	Drawn out, removed (अव + नीत)
ओपधिको : (adj)	Belonging to Upadhi (औपगव्)
ओपम्मं :	A simile, comparison, mataphor, analogy (औपम्य)
ओपनयिको : (adj)	Conducive (उपनय + इक)
ओपपातिको : (adj)	Accidental, phenomenal, apparitional (उपजात + इक)
ओपरज्जं :	The office of sub-king: royalty (उपराज + य)
ओपसमिको : (adj)	Leading to quiet or ceassation (उपशम् + इक)
ओपसिलेसिको :	Relating to immediate contract, containing, embracing
(औपश्लेषिक)	
ओपतितो :	Fallen down (अव + पतित)
ओपवह्यो : (adj)	Intended for riding on (औपवाह्य)
ओपायिको : (adj)	Proper, fit, right (उपाय + इक, औपयिक)
ओपनाति :	To winnow, sift: metaphorically, to expose, lay-bear, faults of
	others (अव + पू)
आपुञ्जति :	To heap or collect to-gether (अव + पुञ्ज्)
ओरब्धिको :	A butcher (औरधिक)

- ओरं : See ओरो
- ओरमत्तको : (adj) Belonging to the present life, mundane, subinary (अवर + मात्र + क)
- ओरम्भागियो : (adj) Belonging to the lower part: belonging to the Kamabhava (अवरम् + भाग + य)
- ओरपारं : The hither and further side (अवार + पार)
- ओरससूनता : Own-sonship (औरस + सुनु + ता)
- ओरसो : Legitimate, own (औरस)
- ओरसो : (adj) On this side (अवार + शस्)
- ओरिमो : (adj) On this side (अवारतस्)
- ओरिमो : (adj) Hither, on this side (अवार + इम)
- ओरो : (adj) Below, less: posterior, later: hither, on this side (अवर, आवार)
- आरोधो : Harem, Seraglio, apartments of the royal ladies (अवरोध)
- ओरोहणं : Descent (अवरोहण)
- आरोहति, ओरुहति : To descend; to disembark (अवरुह)
- ओरोपनं : Taking down, removal (अवरोपण)
- ओरोपेति : To cause to descend, take down, put down (अव + रोपयति)
- ओसोदेति : To cause to sink, to depress (अवसादयति)
- ओसधं : a herb: a herb used in medicine; medicine or drug (ओषध)
- ओसधि : a herb, plant, annual (ओषधि, ओषधी)
- ओसधिसो : a moon (ओषधीश)
- ओसकृति : To draw back, refuse; to give way; retreat
- ओसानं, अवसानं : End, conclusion (अवसान)
- ओसापेति : To finish, complete (caus. अवसो)
- ओसारणा, णं : Restoration of a priest who has been temporarily secluded from brother priests as a penance for an offence
- ओसरति, अवसरति : To go to, resort, repair, approach (अव + सु)
- ओसीदनं : Sinking
- ओसीदापनं : Causing to sink
- ओसीदति : To settle down, to sink, to decline (अवसद्)
- ओसिञ्चति : To sprinkle (अवसिच्)
- ओसो : Beam, ray (ओष)
- ओस्सज्जति, : To give up, relinquish, renounce (अवसृज्)
- ओस्सजति

- ओसुमिको (adj) : Relating to heat (उष्मन् + इक)
- ओतरणं, अवतरण : Descent, entrance into, going down into (अवतरण)
- ओतारणं : Causing to descend (अवतारण)
- ओतरति, अवतरति : To descent, to disembark; to depart, to betake oneself to, go to, enter (अवतृ)
- ओतारो, अवतारो : Descent; entrance; a landing-place; a defect; a fault (अवतार)
- ओततो : Covered, overspread overgrown (अवतन)
- ओतिण्णको (adj) : One who descends
- ओतिण्णो, : Gone down, descended; disembarked; having entered (अवतीर्ण)
- अवतिण्णो
- ओत्तापी (adj) : Fearful of sinning, conscientious (उत्ताप + इन्)
- ओत्तप्यं : Fear of sinning, shrinking from sin, having a tender conscience, conscientiousness
- ओट्टुजो (adj) : Labial (ओष्ठ + ज)
- ओत्थरति, : To spread, to cover; to scatter; to overspread, pervade (अवस्तृ)
- अवत्थरति
- ओट्टो : The lip (ओष्ठ)
- ओट्टो : A camel (उष्ट्र)
- ओवादको (adj) : Admonishing (अववाद + क)
- ओवदति : To admonish, exhort, edify, advise, instruct (अववद्)
- ओवादो : Admonition, exhortation (अववाद)
- ओवरको : An inner room, store room (अव + वृ + अक)
- ओवट्टो : Rained down (अव + वृष्ट)
- ओविच्छति : To pierce, annoy (अव + व्यध्)

P

प :	A preposition used in composition with verbs and their derivatives (प्र)
पा :	प्राक्
पबलत्त :	Power (प्रबल + त्व)
पबलो (adj) :	Strong, mighty (प्रबल)
पबन्धो :	A continuous series: a narrative: literary composition, fiction (प्रबन्ध)
पब्वजनं :	Embracing asceticism; becoming a Buddhist monk (प्रव्रज् + अन)
पब्व्राजनं :	Banishment; causing to become a Buddhist monk, ordination (प्रव्राजन)
पब्व्रजति :	To go forth; to exile oneself: to give up the world: to embrace ascetic life to become a Buddhist Monk; to take the robe, to take orders (प्रव्रज्)
पब्व्रजितता :	State of being an ascetic or Buddhist monk, or nun (प्रव्रज्या)
पब्व्रज्जता :	State of being a Buddhist monk (प्रव्रज्य + ता)
पब्व्रजो (adj) :	Made of bulrushes (पर्वन् + ज)
पब्व्रं :	A knot or joint in a branch or creeper; or in a crane or reed or in grass; certain days of lunar month, the full and change of moon etc. (पर्वन्)
पब्व्रतायति :	To act like a mountain
पब्व्रतेय्यो (adj) :	Belonging to mountains (पर्वतेय)
पब्व्रतो :	A mountain (पर्वत)
पब्व्रारो :	A cave in a mountain (प्रगभार)
पभा :	Light, radiance (प्रभा)
पभङ्गुणं :	Breaking up, disolution destruction, decay, corruption (प्रभञ्जन)
पभङ्गुरो (adj) :	Light-giving i.e. the sun (प्रभा + कर)
पभासति :	To talk, to prate (प्रभाष्)
पभासेति :	To illumine (प्रभासयति)
पभासो :	Shining, illumination (प्रभास)
पभास्सरो (adj) :	Shining, bright (प्रभास्वर)
पाभतं :	Money, price; a present (प्राभृत)

पभाति :	To begin to dawn (प्रभा)
पभातो :	Become clear, or light (प्रभात)
पभवति :	To spring up, arise, originate, to be able (प्रभू)
पभवो :	Production, birth; origin, source, cause, place where an object is to be perceived, birth-place (प्रभव)
पभावो :	Powers, might, majesty, dignity (प्रभाव)
पभेदनं :	The juice that flows from an elephant's temples when in rut (प्रभेदन)
पभेदो :	Difference, distinction; sort, kind (प्रभेद)
पभिज्जति :	To be split, to be broken up, to perish (प्रभिद्यते)
पभू (adj) :	Able, powerful (प्रभु)
पभृति :	Commencement (प्रभृति)
पभृति (adv) :	Since, after, subsequently to (प्रभृति)
पभुत्त :	Lordship (प्रभूत्व)
पबोधनं :	Walking, arising; instruction (प्रबोधन)
पबोधेति :	To arouse, to set going, to give rise to (प्रबोधयति)
पबोधो :	Awakening, enlightenment, instruction (प्रबोध)
पबुद्ध्यति :	To wake up, rouse oneself; to be awake, to watch, to be vigilant (प्रबुद्ध्यते)
पचा :	Ripeness (पच् + आ)
पाचा :	Cooking, digesting (पाचा)
पाचको :	A cook (पाचक)
पचालको (adj) :	Shaking, swinging (प्रचालक)
पचलायिका :	Nodding, dozing (प्रचलाय् + इका)
पचलो (adj) :	Shaking, trembling (प्रचल)
पचनं :	Cooking (पचन)
पाचनं :	A goad (प्राजन)
पचण्डति :	To be furious (प्र + चण्ड्)
पाचनो (adj) :	Causing to ripen, or came to perfection (पाचन)
पचापेति :	To cause to be cooked
पाचरियो :	A pupil, Teacher's Teacher (प्राचार्य)
पचति :	To cook, to dress food; to digest; to be tormented in hell (पच्)
पच्चाभासति :	See पटिभासति

246 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पच्चाचिक्खति :	To reject, repudiate, disallow (प्रत्याचक्ष्)
पच्चादेसो :	Rejection, refusal (प्रत्यादेश)
पच्चागच्छति :	To return (प्रत्यागम्)
पच्चागमनं :	Return (प्रत्यागम्)
पच्चाग्धो (adj) :	New (प्रत्यग्र)
पच्चाहरति :	To bring back, take back (प्रत्याह्)
पच्चाहारो :	Drawing back, refusal, objection; restrain of the Dragons, abstraction (प्रत्याहार)
पच्चाजायति :	To be born, to be reborn in a new existence (प्रति + आ + जान)
पच्चक्खानं :	Rejection, denial, refusal (प्रत्याख्यान)
पच्चक्खाति :	To reject, refuse, deny, disallow, repudiate abandon (प्रत्याख्या)
पच्चक्खो (adj) :	Perceptible to the senses, visible, evident, present (प्रत्यक्ष)
पच्चक्कोसनं :	Recrimination
पच्चक्कोसति :	To revile in return, to recriminate (प्रत्याक्रुश)
पच्चामित्तो :	An enemy, adversary (प्रत्यमित्र)
पच्चनं :	Being tormented
पच्चङ्ग :	Minor limb, minor requisites (प्रति + अङ्ग)
पच्चनीको (adj) :	Opposite, adverse, hostile (प्रत्यनीक)
पच्चञ्जनं :	Anointing (प्रत्यञ्जन)
पच्चञ्जसि :	See पटिजानाति
पच्चन्तं (adv) :	Finally (प्रति + अन्त)
पच्चन्तिमो :	Bordering on, adjacent, skirting (प्रत्यन्त + इम)
पच्चन्तो (adj) :	Bordering on, adjacent, skirting (प्रत्यन्त)
पच्चनुभोति :	To enjoy one by one (प्रत्यनुभ्)
पच्चपादि :	See पटिपज्जति
पच्चरी :	A raft
पच्चारोचेति :	To say in return (प्रति + आ + रोचयति)
पच्चासा :	Expectation, desire, hope (प्रत्याशा)
पच्चासिसति :	To desire, long for, look for, expect (प्रति + आ + शंसी)
पच्चस्सोसि :	See पटिसुणाति
पच्चति :	See पचति
पच्चत्तं (adv) :	Singly, severally, individually (प्रत्यात्प्रम्)
पच्चत्थरणं :	A cushion or carpet to sit on: the cushion or bedding of a couch (प्रत्यास्तार)

- पच्चत्थिको (adj) : Hostile, adverse (प्रत्यर्थिक)
- पच्चवेखनं : Looking at, consideration, contemplation (प्रत्यवेक्षण)
- पच्चवेखति : To look at, regard, consider, contemplate (प्रत्यवेक्ष)
- पच्चयाकारो : A compound of the adverb (प्रत्यक + कार)
- पच्चायिको (adj) : Trustworthy (प्रात्ययिक)
- पच्चयो : Belief, conviction, trust, faith, ground, motive; cause; a requisite or necessary; in grammar an affix (प्रत्यय)
- पच्चेको (adj) : Each one, single; several (प्रत्येक)
- पच्चेति : To return, to come back upon (प्रती)
- पच्चा (adv) : Behind, back, afterwards; westwards (पश्चा, पश्चात्)
- पच्छाबन्धो : A nautical term designating a large oar used by way of rudder.
- पच्छाभागो : Hind or after part (पश्चात् + भाग)
- पच्छाभक्तं : After a meal, after the noon day meal, in the afternoon (पश्चात् + भक्त)
- पच्छाभक्तिको (adj) : One who eats afterwards (पश्चत् + भक्त + इक)
- पच्छाभावो : Posterity (पश्चात् + भाव)
- पच्छाजातो (adj) : Born afterwards, junior (पश्चात् + जात)
- पच्छामुखो (adj) : Looking Westwards (पश्चात् + मुख)
- पच्छानिपाति (adj) : One who retires to rest after another (पश्चात् + निपातिन्)
- पच्छानुतापनं : Remorse (पश्चात् + अनुतापन)
- पच्छासमणो : A junior priest who accompanies a senior priest when he leaves the monastery to beg alms or to make a journey and walks behind at a short distance (पश्चाच्छक्रमण)
- पच्छातापो (adv) : Remorse, repentance (पश्चाताप)
- पच्छतो (adv) : After, behind, back (पश्च + तस्)
- पच्छेदनं : Cutting off removal (प्रच्छेदन)
- पच्छि : A basket
- पच्छिज्जति : To be cut off, to be destroyed; to be cut short, to cease (प्रच्छिद्)
- पच्छिमो (adj) : Hindarmost; last; western (पश्चिम)
- पच्छिन्नो : See पच्छिज्जति
- पच्चोरुहति : To come down again (प्रत्यवरुह)
- पच्चोसक्कति : To retreat
- पच्चुदावत्तति : To retreat (प्रति + उद् + आ + वृत्)

248 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पच्युद्धरो :	Some formally ceremony gone through when a priest was presented with a robe
पच्युग्गच्छति :	To go out, to set out, to go to meet (प्रत्युद्गमं)
पच्युग्गमनं :	Going forth to meet a guest as a sign of respect (प्रत्युद्गमन)
पच्युहो :	An obstacle (प्रत्यूह)
पच्युपकारो :	Service in return, requital (प्रत्युपकार)
पच्युपट्टापेति :	To obtain, provide (Cans. प्रति + उप + स्था)
पच्युपट्टितो :	Approaching eminent, present (प्रति + उप + स्थित्)
पच्युप्पन्नो :	Existing, ready, present (प्रत्युत्पन्न)
पच्यूसो :	Morning, dawn (प्रत्यूष)
पच्युत्तरं :	Reply (प्रत्युत्तर)
पच्युत्तरति :	To be take oneself to (प्रत्युत्त)
पच्युट्ठानं :	Rising from one's seat as a mark of respect to a visitor (प्रत्युत्थान)
पच्युट्ठाति :	To rise from one's seat as a token of respect: to rise in the morning; to rise in another place reappear (प्रत्युत्था)
पचेस्सति :	See पचिनति
पाचेति :	See पचति
पाचेति :	To drive (प्र + अन्)
पाची :	The east (प्राची)
पाचीनो (adj) :	Eastern (प्राचीन)
पचिता :	A cook (पच् + तृ)
पचितो :	See पचति
पाचित्तियो (adj) :	Requiring expiation, expiatory (प्राय + चित्ति + य)
पचुरो (adj) :	Much, many, frequent (प्रचुर)
पदा :	See पादसि
पदभाजनं :	A sort of commentary, separating words of a sentence, analysing and explaining them, a scholium (पद + भाजन)
पदभाणको :	One who recites or preaches the scripture पदभाणक
पदभाणं :	Reciting or preaching the scripture (पद् + भाण)
पदचेतियं :	A holy foot-print, a miraculous foot print left on the ground by a holy-man, as a Buddha or arahat and ever afterwards treated with veneration (पद + चैत्य)
पादगण्ठि :	The ankle (पाद + ग्रन्थि)
पादग्रं :	The point of the foot (पादाग्र)
पदगो :	a foot soldier (पदग)

पदहति :	To strive, to exert (प्र + दह)
पादकटको :	An anklet or foot bangle (पादकटक)
पदक्खिणो, णा, णं :	A mode of reverential salutation by walking round a person, keeping the right side turn to him (प्रदक्षिण)
पदको :	One acquainted with words, an etymologist (पदक)
पादको (adj) :	Having feet (पादक)
पदालेति :	To cleave, break, burst open; to destroy (प्रदाल)
पदं :	Stride, step: foot-print, trac, track, vestige, mark; a foot: footing: station, site place: office, rank, appointment: abode, home, lot: Nirvana: business matter, thing; subject, occasion, cause: a part, portion, a quarter or line of a stanza; a word; a sentence (पद)
पादमूलं :	The sole of the foot, the foot (पादमुल)
पदानं :	Giving, imparting (प्रदान)
पादङ्गुटो :	The great-toe (पादाङ्गुष्ठ)
पदानुगो (adj) :	Following in the foot steps of, attendant on (पदानुग)
पादपरिचारिका :	A wife (पादपरिचारिका)
पादफोटो :	A tumour on the foot (पाद + स्फोट)
पादपीठं :	A foot stool (पादपीठ)
पादपो :	A tree (पादप)
पदरो :	Splitting, rending, a crevice or chasm in the earth: (प्रदर)
पदसा :	See पदो
पादासि, पादा :	He gave (aorist from प्रदा)
पदसो (adv) :	Sentence by sentence; word by word; step by step; by degrees (पद + शस्)
पादसो (adv) :	For the worth of Pada (पाद + शस्)
पदस्सेति :	To show (प्रदर्शयति)
पदाग्रतब्बो :	To be given or presented (प्रदातव्य)
पादतलं :	The sole of the foot (पादतल)
पदाति :	A pedestrian, peon, foot soldier (पदाति)
पादतो (adv) :	At or by the feet (पादतस्)
पदट्टानं :	A proximate cause (पदस्थान)
पदत्थो :	Meaning of a word (पद + अर्थ)
पदवी :	A road (पदवी)
पद्धति :	A road, a line (पद्धति)

250 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पदेसनं :	A present, gift (प्रदेशनं)
पदेशो :	A place, spot, region, district, country (प्रदेश)
पधानं :	A king's chief companion or minister; exertion, energetic effort, striving (प्रधान)
पधानियङ्ग :	Quality to be striven after (प्रधानीस + अङ्ग)
पधानो (adj) :	Principal, chief, pre-eminent, excellent (प्रधान)
पधारितो :	Considered, understood (प्रधारयति)
पदिको :	A pedestrian, a foot soldier (पदिक)
पदीपको (adj) :	Illuminating, illustrating, explaining (प्रदीपक)
पदीपेति :	To kindle (प्रदीपयति)
पदीपेय्यं :	That which is connected with lighting, lamps and their accessories (प्रदीप् + एय)
पदीपो :	A lamp: an enlightener (प्रदीप)
पदिस्सति :	To be seen
पदो :	Giving, bestowing (प्रद्)
पदो :	The foot, a sentence (पद्)
पादो :	A foot, a hill at the foot of a mountain; a ray of light; a quarter (पाद)
पदोदकं :	Water for washing the feet (पादोदक)
पदोसो :	Fault, corruption, sin; twilight, evening (प्रदोष)
पादू :	A shoe (पादू)
पादूदरो :	A snake (पादोदर)
पादुका :	A shoe, a slipper (पादुका)
पदुमकं :	A lotus ornament in architectural decoration (पद्मक)
पदुमिनी :	A lotus plant, a lotus pond (पद्मिनी)
पदुमो + मं :	A lotus, lotus-flower: name of a hell; one of the high numerals; 1 followed by 119 ciphers (पद्म)
पदुमुत्तरो :	Name of one of the twenty-four Buddhas (पद्मोत्तर)
पदुस्सनं :	Deterioration, corruption, difement (प्रदूषण)
पदुस्सति :	To be corrupt, to sin; to sin against, to offend
पदुद्धो :	Corrupt, wicked (प्रदुष्ट)
पगब्भो (adj) :	Bold, daring; audacious, impudent, forward (प्रगल्भ)
पगो :	In the morning, at dawn, early (प्रगो)
पगेवा, पग +	
एवा (adj) :	Much more, a fortiori (प्रागेव)

- पग्गहेससि : See पग्गण्हाति
 पग्गहो : Energy, striving (प्र + ग्राह)
 पग्गण्हाति : To hold out, stretch forth; to favour, befriend, to strain, exert; to persevere, continue; to take hold of, grasp (प्रग्रह)
 पघानो : A covered terrace before a house (प्रघण, प्रघाण)
 पग्घरणं : Oozing, trickling, fluidity
 पग्घरति : To ooze, trickle flow (प्र + घृ)
 पग्गुम्बो : Forest, jungle, thicket (प्र + गुल्भ)
 पग्गुणना : Knowing by heart, familiarity with (प्रगुण + ता)
 पग्गुञ्जं : Familiarity with, experience (प्रगुण + य)
 पग्गुणो (adj) : Straight, plain; familiar, well-known, known by heart (प्रगुण)
 पहंसति : To strike
 पहानं : Leaving, abandonment, getting rid of, rejection (प्रहाण)
 पहाराडो : Name of an asura
 पहरणं : Striking a weapon (प्रहरण)
 पहरति : To strike, to hurt, to assail (प्रह)
 पहारो : Striking, hitting; a stroke, blow, shot; a yama or watch of four hours (प्रहार)
 पहारासो : Loud laughter (प्रहास)
 पहस्सति, पहातब्बो : See पज्जहति
 पहारो : Struck, smitten, wounded, hurt (प्रहत)
 पहट्ठो : Glad, delighted (प्रहट्ट)
 पहाय : See पज्जहति
 पहायि (adj) : Forsaking, abandoning (प्र + हायिन्)
 पहेणकं + पहिणकं : An offering, a present, especially food (प्रहेणक)
 पहिणति + पाहेति : To send (प्रहि)
 पहीनो + पहीयति : See पज्जहति
 पहितो : See पहिणति
 पहो (adj) : Dismissing (from प्रहा)
 पहोनको (adj) : Competent, adequate, sufficient
 पहोति : To be able, competent, useful : to be effectual, to suffice (प्रभू)
 पाहुणेय्यो (adj) : Worthy of being guests, worthy of hospitality (पाहुण + एय)
 पाहुणो : A guest (पाहुण)
 पहुतो : Much, abundant, large, sufficient, considerable (प्रभूत)

252 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पजा :	Progeny, descendants, race, family; creature, living being; people, mankind (प्रजा)
पजहति :	To foresake, abandon, give up, renounce, get rid off, escape from (प्रहा)
पजानं :	Knowledge (from प्रज्ञा)
पजाननं :	Knowing, understanding, discernment
पजानाति :	To know, understand, discern, distinguish, find-out (प्रज्ञा)
पजापति :	A name of the Hindu-Brahman; a name of Mara; the Hindu God Prajapati (प्रजापति)
पजण्यो :	Muttering, murmuring, complaint (प्रजल्प)
पाजेति + पाचेति :	To drive (प्र + अञ्)
पाजिता :	A driver, charioteer (प्राजितृ)
पज्जलति :	To burn, blaze (प्रज्वल्)
पज्जं :	A verse (पद्य)
पज्जरको (adj) :	Febrile (प्र + ज्वर + क)
पज्जो :	A path, road (पद्य)
पज्जो (adj) :	What belongs to or is suitable to the feet (पाद्य)
पज्जोतको :	Illuminating (प्र + द्यूत + अक)
पज्जोतति :	To shine brightly (प्रद्युत्)
पज्जोतो :	Light, lustre, splendour, brilliancy; a lamp (प्रद्योत्)
प्रज्जुन्नो :	A cloud (पर्जन्य)
पकप्येति :	To plan design, appoint (प्रकल्पयति)
पकरणं :	Dissertation, exposition, literary composition, work book (प्रकरण)
पकारो :	Sort, kind, way, manner (प्रकार)
पाकारो :	An encircling wall, inclosure, fence (प्राकार)
पकरोति :	To make, perform (प्रकृ)
पकासको (adj) :	Explaining, illustrating, making known (प्रकाशक)
पकासनं :	Illumination; illustrating, explaining; making known, exposition, publication (प्रकाशन)
पकासनीयो (adj) :	To be explained (प्रकाशनीय)
पाकसासनो :	A name of Sakka or Indra (पाकशासन)
पकासति :	To be visible, to become known (प्रकाश)
पकासो (adj) :	Manifest, known, public (प्रकाश)

पकति :	Original or natural form, origin: natural state: pudendum muliebre: the seven rajjangas or constituent elements of state; the crude or uninflected form of a word (प्रकृति)
पकतिजो (adj) :	Springing from nature (प्रकृतिज)
पाकटीकतो (adj) :	Manifested (प्रकटीकृत)
पकतिको (adj) :	Natural, original, ordinary: in its original state, sound, healthy (प्राकृतिक)
पकतो :	Made (प्रकृत)
पाकटो (adj) :	Clear, evident, manifest, public, well-known, renowned (प्रकट)
पाकट्टानं :	A kitchen (पाकस्थान)
पाकट्टो :	Pre-eminent, excellent, prominent, high (प्रकृष्ट)
पखुमं + पम्हं :	An eye-lash (पक्ष्मन्)
पकिण्णको (adj) :	Miscellaneous (प्रकीर्णक)
पकिरियो :	The plant Guilandina Bondue (प्रकीर्य)
पकित्तेति :	To proclaim (प्रकृत्)
पक्कमति :	To set out, start: to depart, go away (प्रक्रम्)
पक्कमो :	Departure, flight; beginning (प्रक्रम्)
पक्खबिळालो :	A flying fox (पक्ष + विडाल)
पक्खलति :	To stumble, trip, stagger (प्रखल)
पक्खालेति :	To wash, to cleanse (प्रक्षालयति)
पक्खन्दन :	Leaping, springing (प्रस्कन्दन)
पक्खन्दति :	To spring-forwards (प्रस्कन्द्)
पक्खन्दी (adj) :	Bold, braggart (प्रस्कदिन्)
पक्खन्दिका :	Diarrhea, dysentery (प्रस्कन्दिका)
पक्खन्तरो (adj) :	Belonging to the opposite party, changing one's mind (पक्ष + अन्तर)
पक्खपासो :	The planks of a ceiling
पक्खपात्तिचं :	Partisanship (पक्षपातित्य)
पक्खतो (adv) :	On the side of (पक्ष + तस्)
पक्खत्तं :	Partisanship (पक्षत्व)
पक्खेपनं :	Putting or throwing (प्रक्षेपण)
पक्खेपो :	Throwing-in, insertion, interpolation (प्रक्षेप)
पक्खी :	A bird (पक्षिन्)
पक्खिको (adj) :	Belonging to a party or faction (पाक्षिक)

254 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पाक्खिको :	A fowler (पक्षिन् + क)
पाक्खिपति :	To throw or put-in: to insert; add; interpolate (प्रक्षिप्)
पाक्खियो (adj) :	Siding with, belonging to a party (पक्ष्य)
पाक्खो :	A wing; feathers of an arrow: a side, party, faction: a partisan, adherent: multitude, host: half a lunar-month, a fortnight (पक्ष)
पाक्खो :	A cripple
पाक्को :	Cooked: heated: ripe: decaying, ripe for destruction (पक्व)
पाक्कोसना :	Summons
पाक्कोसति :	To call, summons, send for (प्रकुश)
पाक्को :	See (खिरपको)
पाको :	Cooking, ripeness, maturity, accomplishment, fulfilment, result (पाक)
पाकोपो :	Effervescence, abullition, anger, fury (प्रकोप)
पाकोति :	One of the high numerals = a hundred billions (प्रकोटि)
पाकोट्टो :	The fore-arm (प्रकोष्ठ)
पाकुञ्जति :	To be angry (प्र + क्रुध्)
पाकुप्पति :	To be angry (प्रकुप्)
पाळच्चरं :	Old clothes, rags (पटच्चर)
पालगण्डो :	A mason (पलगण्ड)
पालको :	A keeper, guardian (पालक)
पालालो + पालालं :	Straw (पालाल)
पालं :	See फलं
पालभेति :	To cheat, trick, deceive (प्रलभ्)
पालनं :	Guarding, keeping, maintaining (पालन)
पालण्डु :	An onion (पालण्डू)
पालापेति :	To cause to go away, escape; to drive away, put to flight
पालपितं :	Idle-talk (प्रलपित)
पालापो :	Chaff of corn (प्रलाप)
पालापो :	Prattle, nonsense (प्रलाप)
पालासादो :	A rhinoceros (पालाश + अद्)
पालासं, सो :	A leaf (पालाश)
पालासो :	The tree Butea frondosa, the colour-green (पालाश)
पालातो :	See पलायति

पलायनं :	Flight (पलायन)
पलायति :	To run away, flee, retreat (पलायति)
पलयो :	Destruction, dissolution; death, destruction of a universe at the end of a kappa (प्रलय)
पलेति :	See पलायति
पालेति :	To guard, keep, preserve, maintain, observe (पालयति)
पालि :	A line, row, range; a ridge, bank, cause-way; a sacred text: a passage in a text (पालि)
पालिभदो :	The kimcuka tree: Butea frondosa (पालिभद)
पालिबोधो :	Obstacle, hindrance, drawback, impediment (पालिबोध)
पालिबुद्धनं :	Hindering
पालिबुद्धति :	To hinder
पालिच्चं :	Hoariness, greyness of hair (पालित्य)
पालिधो :	An iron-beam or bar for fastening up a door; an obstacle, hindrance (परिघ)
पळिगुण्ठतो :	Entangled (परि + गुण्ठ)
पालिका :	See पालको
पालिका :	Having lines or ridges (पालि + क)
पालिपन्नो :	Said in Payoga Siddhi, to be another form of paripanno
पालिपथं :	A miry road, slough, guamire (परि + पथ + अ)
पालितो :	See फलितो
पालितो (adv) :	According to the text or words of scriptures (पालि + तस्)
पालितो :	Preserved, guarded, maintained (पालित)
पालिवेठनं :	Surrounding, encumbrance (परिवेष्टन)
पालिवेठेति :	To wrap up, clothe, cover, surround, encircle, encumber, fetter (परिवेष्ट)
पल्ललं :	A small tank, pool (पल्लल)
पल्लङ्को :	Couch, bed, sofa, divan, thrown; a litter, pallanquin (पर्यङ्क)
पल्लत्थिका :	Sitting on the hams, squatting, lolling (पर्यस्तिका)
पल्लवो + पल्लवं :	A sprout, shoot, spray (पल्लव)
पालो :	A guardian, keeper (पाल)
पलोभनं :	Allurement, temptation (प्रलोभन)
पलोभेति :	To allure, tempt, seduce (प्रलोभयति)
पलुञ्जति :	To fall down, crumble (प्ररुञ्ज)
पमा :	True knowledge (प्रमा)
पमदा :	A handsome woman, or a woman in general (प्रमदा)
पमादवा (adj) :	Remiss, indifferent (प्रमादवत्)

256 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पमद्दनो (adj) :	Crushing, destroying (प्रमर्दन)
पमादी (adj) :	Negligent, slothful (प्रभादिन)
पमदो :	Pleasure (प्रमद)
पमादो :	Carelessness, remissness, indifference, sloth, indolence, delay (प्रमाद)
पमज्जनं :	Indifference, heedlessness
पमज्जति :	To delay, waste one's time: to be negligent, heedless, indifferent, slothful, remiss: to be tempted (प्रमद्)
पामं :	Scab, herpes (पामन्)
प्रमाणको (adj) :	At the end of a compound (प्रमाणक)
प्रमाणं :	Measure, rate, scale, standard, dimensions size, weight; rule sanction, authority warrant; a decider; cause; motive (प्रमाण)
प्रमाणिको (adj) :	Forming a measure or standard (प्रमाणिक)
प्रमाता :	Knowing well, competent to judge, an authority (प्रमातृ)
प्रमत्तो :	Slothful, indolent, careless, reckless, indifferent; tempted (प्रगत्त)
प्रमया :	Having measured
प्रम्हं :	See पक्खुमं
प्रमिति :	Correct knowledge, certainty (प्रमिति)
प्रमोचनं :	Deliverance (प्रमोचनं)
प्रमोचेति :	See पमुञ्चति
प्रमोदना :	Joy (प्रमोदन)
प्रमोदति :	To rejoice (प्रमुद्)
प्रमोदो :	Joy, happiness (प्रमोद)
प्रमोहनं :	Delusion, infatuation (प्रमोहन)
प्रमोज्जं + प्रामुज्जं :	Joy, delight, bliss, happiness (प्रमोद + य)
प्रमोक्खति :	See पमुञ्चति
प्रमोक्खो :	Release, deliverance (प्रमोक्ष)
प्रमोक्खो (adj) :	Principal, chief, eminent (प्रमख + य)
प्रम्पको + प्रम्पटको :	A loris
पंसु :	Dust, dirt, earth, soil (पांसु)
पंसुकूलिको (adj) :	One who wears clothes made of rags taken from a dust hill (पांसुकूलिक)
प्रमुच्चति :	See पमुञ्चति

पमुदितो :	Please, glad (प्रमुदित)
पमुदो :	Joy (प्रमुद्)
पामुज्जं :	See पामोज्जं
पामुखो (adj) :	In front of, facing; first, chief, principal (प्रमुख)
पमुक्को :	See next
पमुञ्चति :	To emit, utter, to loose, release; to cast off (प्रभुच्)
पमुस्सति :	To leave behind, forget, lose (प्रमुष्)
पमुट्ठो :	See last
पमुत्तो :	See पमुञ्चति
पमुहयति :	To be bewildered, to swoon (प्रमुह)
पुन (adv) :	Now, further; but, on the other hand, on the contrary, however (पुनर्)
पाणभूतो :	A living being, creature (प्राणभूत)
पानागारं :	A tavern (पानागार)
पाणघातो :	Destroying life, killing (प्राण + घात)
पणको :	Name of a water-plant
पाणको :	A small creature, worm or insect (प्राणक)
पानकूपो :	A drinking-well (पान + कूप)
पानाली + पणाली :	Water course, gutter, drain (प्रनाली, प्रणाली)
पानं :	Drinking; draught; drink, beverage; enjoyment (पान)
पाणं :	See पाणो
पणमति :	To bend, be bent or inclined (प्रणम्)
पणामो :	Bending, salutation (प्रणाम)
पाणसमो (adj) :	Dear as one's life; greatly beloved (प्राणसम्)
पनसो :	Jack or bread fruit tree, artocarpus integrifolia (पनस)
पाणात्तिपातो :	Taking the life of a living creature, destroying life, killing (प्राणात्तिपात)
पणतो :	See पणमति
पाणविको :	One who plays the Pramava
पाणवो :	A small drum or tabor (प्रणव)
पनायं :	पन + अयं Pana-ayam
पणयो :	Affection, confidence; solicitation (प्रणय)
पञ्च :	Five (पञ्चन्)
पञ्चबलं :	The five forces

258 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

- पञ्चचक्षुः : The five sorts of vision (पञ्चन् + चक्षुस्)
- पञ्चदसः : Fifteen (पञ्चदशन्)
- पञ्चदशी : Day of full or new moon (fifteenth day of half month) (पञ्चदशी)
- पञ्चधा (adv) : In five ways, five-fold (पञ्चधा)
- पञ्चधम्मं : Five things or conditions (पञ्चन् + धर्म)
- पञ्चगुणं : Five qualities as rewards of virtue (पञ्चन् + गुण)
- पञ्चाहं : Five days (पञ्चाह)
- पञ्चाहिको (adj) : Lasting five days
- पञ्चज्झानिको (adj) : One who practices the five Jhanas (पञ्चन् + क + ध्यान + इक)
- पञ्चकामं : Five modes of desire or pleasure
- पञ्चकिलेसं : Five kilesas or evil passion
- पञ्चकखन्धं : The five skandhas
- पञ्चकखत्तुं (adv) : Five times (पञ्चकृत्वस्)
- पञ्चको (adj) : Consisting of five, five in a number (पञ्चक)
- पञ्चाला : Name of a warrior tribe in the north of India (पञ्चाल)
- पञ्चालिका : A doll, a puppet (पञ्चालिका)
- पञ्चमको (adj) : Fifth (पञ्चमक)
- पञ्चम (adj) : Fifth (पञ्चम)
- पञ्चानन्तरियकम्मं : Five sins which bring with them immediate retribution (पञ्चन् + आनन्तर्य + कर्मन्)
- पञ्चानेतो (adj) : Having five sorts of vision (पञ्चन् + नेत्र)
- पञ्चाङ्गः : Five qualities (पञ्चाङ्ग)
- पञ्चाङ्गिको (adj) : Having five members or divisions, five-fold
- पञ्चपञ्चसो (adj) : In sets of five each (पञ्चन् + पञ्चन् + शस्)
- पञ्चपत्तिट्टितं : Setting down or fixing of five things (पञ्चन् + प्रति + स्थित्)
- पञ्चसतं : Five hundred (पञ्चशत)
- पञ्चसतिको (adj) : Consisting of five hundred
- पञ्चसिखो : A proper-name, one of the Gandhabbas (पञ्चशिख)
- पञ्चसीलं : The five precepts of or five branches of moral practice (पञ्चन् + शील)
- पञ्चसीलवा (adj) : One who keeps the five precepts
- पञ्चसो (adv) : By fives (पञ्चशस्)
- पञ्चवग्गियो (adj) : Belonging to a group of five (पञ्चवर्ग + य)

पञ्चविधो (adj) :	Five fold (पञ्चविध)
पञ्चविसति :	Twenty five (पञ्चविशति)
पञ्चायुधं :	Five sorts of weapons (पञ्चन् + आयुध)
पञ्चिन्द्रियं :	See इन्द्रियं
पण्डको :	A eunuch (पण्डक)
पण्डरो :	White, pale, yellowish (पाण्डर)
पण्डवो :	A son or descendant of Pandu: name of a mountain (पाण्डव)
पाण्डिच्चं :	Scholarship, learning, erudition (पाण्डित्य)
पण्डितको :	A pendant (पण्डितक)
पण्डितता :	Learning, skill, wisdom (पण्डितता)
पण्डितो (adj) :	Learned, skill, clever, wise
पण्डु (adj) :	Light, yellow (पाण्डु)
पणोति :	To bring, perform, execute (प्रणी)
पङ्गु + पङ्गुलो (adj) :	Lame, crippled (पङ्गु + पङ्गुल)
पण्ह, पाष्णि :	The heel (पाणि)
पण्ह (adj) :	Variiegated (पृश्नि)
पण्हो :	A question (प्रश्न)
पाणि :	The hand, a wooden hand or trowel (पाणि)
पाणी :	A living being, a sentiment being, a creature animal, man (प्राणिन्)
पणिदहति, पणिधेति :	To long for, wish for, pray for, resolve, aspire to: to direct, stretch (प्रणिधान)
पणिधानं :	earnest resolve, aspiration, prayer (प्रणिधान)
पणिधि :	Wish, resolve, aspiration, prayer (प्रणिधि)
पाणिगहो :	Marriage (पाणिग्रह)
पाणिघो :	One who strikes with the hand; one who plays the tabor or any similar instrument (पाणिघ)
पणिहितो :	Resolved, determined, intent (प्रणिहित)
पाणिहितो (adj) :	Kind to living beings, benevolent (प्राणिहित)
पाणिमत्तो (adj) :	As much as can be held in the hand (पाणिमात्)
पाणिमुत्तं :	A missile weapon (पाणिमुक्त)
पाणिपतति :	To prostrate oneself (प्रणिपत्)
पणिपातो :	Prostration (प्रणिपात)
पाणिस्सरं :	A sort of music (पाणि + स्वर)

260 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पाणितलं :	The palm of the hand (पाणितल)
पाणितो :	Accomplished; excellent; eminent, exalted; sweet nice (प्रणीत)
पाणिवादो :	One whose uses an instrument played with the hand as a drum or tambourine (पाणिवाद)
पाणियो (adj) :	Saleable (पण्य)
पाणियो (adj) :	Same meaning as panigho (पाणि + य)
पाणियो (adj) :	Drinkable (पानीय)
पञ्जलिको (adj) :	Holding up the clasp hands in token of respectful salutation (प्राञ्जलिक)
पञ्जरं + रो :	A cage or frame (पञ्जर)
पङ्केरुहं :	A lotus (पङ्केसह)
पङ्को, पङ्क :	Mud, moral impurity, sin (पङ्क)
पञ्जा :	Wisdom, intellect, reason (प्रज्ञा)
पन्नगो :	A snake (पन्नग)
पण्णाकारो :	A present
पण्णं :	A leaf; a written leaf, an epistle (पर्ण)
पञ्जाणं :	Knowledge, wisdom, intelligence; mark, sign (प्रज्ञान)
पञ्जापको (adj) :	Appointing, declaring (प्रज्ञा + अक)
पञ्जापनं :	Appointment, declaration
पञ्जापेति :	To make known, declare, proclaim, appoint (प्रज्ञापयति)
पन्नरस् + पण्णरस :	Fifteen (पञ्चदशन्)
पन्नरसमो, :	Fifteenth (पञ्चदशम, पञ्चदश)
पन्नरसी :	The fifteenth day of the half month, the day of the full or new moon (पञ्चदशी)
पन्नरसिको :	Belonging to the 15th day of the half month
पञ्जास, पञ्जासं, :	Fifty (पञ्चाशत्)
पन्नास :	
पन्नासकं	A collection of fifty (पञ्चाशक)
पन्नसाला :	The hut of an ascetic made of branches and leaves a hermitage (पर्णशाला)
पञ्जातो :	Known, famous (प्रज्ञात)
पञ्जत्ति, पन्नत्ति :	Making known, manifestation, declaring, enactment, ordinance, precept, regulation (प्रज्ञप्ति)
पञ्जात्तो :	See पञ्जापेति

पञ्जवा (adj) :	Wise (प्रज्ञावत्)
पञ्जायनं :	Manifestation, appearing (प्रज्ञायन)
पञ्जायति :	To be known, to be perceived, to appear, to exist; to be well-known, to be renowned (प्रज्ञायते)
पन्नो :	Fallen, gone (पन्न)
पञ्जो (adj) :	Wise, intelligent (प्रज्ञ)
पन्नुविसति :	Twenty-five
पणो :	A bet, stake; wages, hire: a sum of money: wealth, property: trade, shop
पाणो :	Breath; life; vitality; a living being, a creature; energy; vigour; strength (प्राण)
पन्थिको :	A traveller
पन्थो :	A road (पन्थिन्)
पन्ति :	A row, range, line, series (पन्क्ति)
पन्तो :	Border; verge, end (पन्त)
पनुदनं :	Removal
पनुदनो (adj) :	dispelling
पनुदति :	To remove, drive away, reject (प्रणुद)
पनुन्नो :	Put away, removed, dispelled (प्रणुन्न)
पाणुपेतो (adj) :	Possessed of breath; living (प्राण + उपेत)
पण्यं :	A ware, commodity; traffic (पण्य)
पपा :	A shed on the road side where travellers are supplied with water (प्रपा)
पापभिरूता :	Fear of sinning (पाप + भीरू + ता)
पपदो :	The lip of the foot, toes (प्रपद)
पापको (adj) :	Evil, bad, wicked, sinful (पापक)
पापमित्तता :	Friendship or association with sinners, evil communications (पाप + मित्र + ता)
पापनं :	Attainment (प्रापण)
पपञ्चेति :	To linger, tarry, delay (प्रपञ्चयति)
पपञ्चो :	Diffuseness, prolixity, delay (प्रपञ्च)
पापतमो (adj) :	Most sinful (पाप + तम)
पपतनं :	Falling down (प्रपतन)
पापतरो (adj) :	Most sinful, worse (पापतर)
पपतति :	To fall down, to fall from (प्रपत्)

262 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पपातो :	A precipice, declivity (प्रपात)
पापेति :	See पपुणाति
पापी :	Sinful (पापिन्)
पपिच्छता :	State of having sinful desires (पाप + इच्छा)
पापिच्छो (adj) :	Having sinful desires (पाप + इच्छा)
पापिमा (adj) :	Sinful (पाप्मन्)
पापिस्मिको (adj) :	More sinful, very sinful (पापीयस् + इक)
पपितामहो :	The paternal great grand father (प्रपितामह)
पापितो :	See पापुणाति
पापियो (adj) :	Worse, wicked (पापीयस्)
पापिय्यसिका :	See तस्सापापिय्यसिका
पापो (adj) :	Evil, bad, wicked; sinful (पाप)
पप्फासं :	The lungs (पुप्फुस)
पप्पोठेति :	To shake, strike, knock
पप्पोति :	See पापुणाति
पापुणनं :	Attainment
पापुणाति, :	To attain, reach, arrive, obtain, find (प्राप्नोति = प्राप्)
पापुणोति पप्पोति	
पपुन्नागो :	The tree cassia Tora (प्रपुन्नाट)
पपुप्फकं :	An arrow tipped with a flower (प्र + पुष्पक)
पपुरणं + पापुरति :	See पारुपनं + पापुरति
पपुत्तो :	A grand-son, descendent (प्रपुत्त)
परा :	Preposition with the meaning "away", "aside", "back" much used in composition with verbs and their derivatives (परा)
परभागो :	Superiority, pre-eminence (परभाग)
परभतो :	Indian cuckoo (परभृत)
पराभवो :	Decay, loss, ruin: discomfiture, humiliation, contempt (पराभव)
परचित्तं :	The mind of another (पर + चित्त)
परदारिको :	An adulterer (पारदारिक)
परदारो :	Another man's wife, neighbour's wife (परदार)
पराधिनो (adj) :	Dependent on another; subject (पराधीन)
पारदो :	Quick silver (पारद)
परागो :	The pollen of a flower (पराग)

- पारगु + गो (adj) : One who has crossed to the other side, who has passed beyond escaped from : one who is accomplished or versed in (पारग)
- परहिंसा : Injuring another, cruelty (पर + हिंसा)
- परहितं : The good or welfare of others (परहित)
- पराजयो : Defeat: losing at play or in a lawsuit (पराजय)
- पराजेति, पराजयति : To conquer, overcome, defeat: to be conquered, succumb (पराजि)
- पाराजियो (adj) : Meriting expulsion
- पराजितो : See पराजेति
- परकतो (adj) : Done or made by another (पर + कृत)
- परकियो (adj) : Belonging to another (परकीय)
- परक्कमति : To put forth one's strength, exert oneself, strive (पराक्रम)
- परक्कमो : Energy, exertion, striving (पराक्रम)
- परकुलं : The family of another, a neighbour's family or house (पर + कुल)
- पारलोकिकं : The next-world, another world (पारलौकिक)
- परलोको : Another worlds or next world (परलोक)
- परं : See परो
- पारं : The further or opposite shore of a sea or bank of a river; Nirvana, as being the goal reached by the pilgrim, crossing the ocean of existence (पार)
- परमाणु : A particle or atom (परमाणु)
- परामसनं : Touching, handling
- परामसति : To touch, rub, stroke, seize, handle (परामृश्)
- परामासो : Touch, contact, being affected with (परामर्श)
- परमत्ता : The pali form of the non-Buddhist term (परमात्मन्)
- परमत्थो : Best or highest sense, the truth, reality, completeness, perfection (परमार्थ)
- परामत्थो : Touched, handled, taken hold of: affected, touched, actuated, influenced (परामृष्ट)
- परमायु : The longest period of life (परमायुस)
- पारमी, पारमिता : Completeness, perfection, highest state
- पारंमुखो : Having the face averted, averse from, a voiding regardless of (परान्मुखं)

264 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

परमो (adj) :	Highest, first, best, greatest, chief, principal, extreme, exceeding (परम)
परम्परा :	Series, row, succession, lineage (परम्परा)
पारम्परियं :	Traditional instruction, tradition (पारम्पर्य)
परम्परो (adj) :	Successive, repeated (परंपर)
पारङ्गतो (adj) :	Versed or accomplished in (पारं + गत)
परनिम्मितो (adj) :	Created or brought into being by others (पर + निर्मित)
परन्तपो (adj) :	Tormenting others (परन्तप)
पारापारं :	The hither and further, shore, the far bank and near bank (पारापार)
पारापातो :	A dove, piegeon (पारापत)
परपुट्टो :	The kokila or Indian cuckoo (परपुष्ट)
परस्सपदं :	A grammatical term, the active or transitive verb (परस्सैपद)
परसुवे (adv) :	The day after to-morrow (परश्वस्)
परतीरं :	The opposite shore (पर + तीर)
परतो (adv) :	Further, afterwards, beyond (परतस्)
परत्था (adv) :	Elsewhere, in another world, hereafter (परत्र)
परत्थो :	The advantage of another, the public good (परार्थ)
परवादो :	The gossip; public rumour (परवाद)
परायनं :	Final end or aim, chief object, destiny, rest, support
परायनो (adj) :	Attached to, dependent on, supported by (परायण)
परायत्तो (adj) :	Dependent on another, subservient (परायत)
परे :	See पारो
परेतो :	Dead, destroyed, ruined (परेत)
पारेवतो :	A dove or piegeon
परि :	Around or about (परि)
परिबद्धो :	Bound to-gether (परिबद्ध)
परिबाहिरो (adj) :	External (परि + बाह्य)
परिब्बाजको :	A wandering religious mendicant, priest (Buddhist), pilgrim (परिव्राजक)
परिब्बाजति :	To wander about, to lead the life of a religious mendicant, to renounce the world and become Buddhist monk (परिव्रज्)
परिब्बाजिका :	Female ascetic or pilgrim; a Buddhist nun (परिव्राजिका)
परिब्बाजो :	Same as परिब्बाजको (परिव्राज)
परिभ्रमनं :	Revolving, circumference (परिभ्रमण)

परिभ्रमति :	To walk round; to describe a circle round (परिभ्रम्)
परिबूळ्हो :	Surrounded, accompanied attended;attended by in strength or in great numbers, strengthened by strong, furnished with, proprietor of (परिवृढ)
परिभण्डं :	A girdle, zone, belt, ring (परि + भाण्ड)
परिभासा, परिभासनं :	Censure, abuse (परिभाषा, परिभाषण)
परिभासनं :	Light, lustre (परिभास + अन्)
परिभासति :	To censure, revile, defame (परिभाष्)
परिभतो :	Nourished (परिभृत)
परिभवो :	Disrespect, contempt, humiliation, contumely (परिभव)
परिभिन्दति :	To split, to create division (परिभिद्)
परिभोगिको (adj) :	Belonging to use or enjoyment (परिभोग + इक)
परिभोगो :	Enjoyment, use, possession; partaking of, eating (परिभोग)
परिभुञ्जनं :	Enjoying
परिभुञ्जति :	To enjoy, use, possess, partake of; to eat; to wear (परिभुज्)
परिभूतो :	Despised disregarded (परिभूतो)
परिभूतो :	See परिभुञ्जति
परिचारको :	An attendant, servant (परिचारक)
परिचरणं :	Serving (परिचरण)
परिचरति :	To attend, minister to, serve, honour (परिचर्)
परिचरिया :	Service ministraton, honour (परिचर्या)
परिचारी :	Attendance, service, honour (परिचार)
परिचयो :	Acquaintance (परिचय)
परिच्चा :	During encircled, grasped, perceived, understood, known (परित्य)
परिच्चागी (adj) :	Forsaking (परित्यागिन्)
परिच्चागो :	Abandonment, renunciation, sacrifice, expenditure, liberality (परित्याग)
परिच्चजति :	To surrender, sacrifice, expend, bestow in charity (परित्यज्)
परिच्छदो :	A cover, covering (परिच्छद्)
परिच्छत्तको :	The coral tree; Erythmia Indica, a tree in Indra's heavens (परि + च्छत्र + क)
परिच्छेदो :	Division, separation, discrimination; exact determination, definition; exact discernment, decision, judgment; limit, boundary, termination, extent; division, section, region; chapter of a book (परिच्छेद)

266 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

परिच्छिन्दति :	To limit, define, mark out, discriminate, determine, fix, accurately (परिच्छिद्)
परिचितो :	Heaped up, accumulated (परिचित)
परिचुम्बति :	To cover with kisses (परिचुम्ब)
परिदहनं :	Putting on
परिदहति, परिदहेति, परिधेति, परिदधाति	: To put on (परिधा)
परिदाहो :	Burning; pain, suffering (परिदाह)
परिडह्यति :	To be scorehed (परिदह्यते)
परिद्वो :	Lamentation (परि + द्रव)
परिदेवना :	Lamentation (परिदेवना)
परिदेवति, वेति :	To wail, lament (परिदिव)
परिदेव :	Lamentation, wailing (परिदेव)
परिधावति :	To run about (परिधाव)
परिधि :	Circumference, circle, halo (परिधि)
परिदीपको (adj) :	Illustrating, explaining (परि + दीप् + अक)
परिदीपनं :	Illustration, explanation (परि + दीप् + अन)
परिदीपेति :	To illustrate, explain, describe (परि + दीप्)
परिगलति :	To sink down, to slip off (परिगल्)
परिगणेति :	To calculate (परिगण)
परिगणहनं :	Comprehension
परिगणहाति :	To take hold of, grasp, carry along with one, embrace, include, surround, take possession of, possess occupy; to treat kindly (परिग्रह)
परिग्गाहको (adj) :	Including, occupying (परिग्राह + क)
परिगहेत्वा, परिग्गहीतो	See परिगणहाति
परिग्गहो :	Occupation, possession, dependents, belongings, household, a wife; taking in, embracing, including; grace; favour, kindness, reverence (परिग्रह)
परिगूहति :	To conceal (परि + गुह)
परिहानं :	Deterioration, falling off (परिहाण)
परिहानी :	Decrease, decay, diminution, loss, falling off (परिहानी)
परिहानियो (adj) :	Connected with or causing decay, or loss
परिहापेति :	To abandon, set aside; to diminish (परिहापयति)

परिहारकं :	An armle (परिहारक)
परिहरणं :	Keep up, keeping in existence (परिहरण)
परिहरति :	To move, advance, move round; to keep up; keep going; to keep, practice use; to attend, tend; take care of, preserve, honour; to embrace, surround (परिह)
परिहारिको (adj) :	Keeping, preserving, cherishing
परिहारो :	Attention, care honour, pomp, state, ceremony, rite; keeping, preserving, guarding; forsaking; avoidance (परिहार)
परिहासो :	Jest, pleasantry (परिहास)
परिहायति :	To decay, waste, diminish, fall away, deteriorate; to be deprived of, to suffer loss
परिहीनो :	Fallen away from, wasted, decayed, perished, deficient, waiving (परिहीण)
परिजाननं :	Knowledge, ascertainment
परिजानाति :	To perceive, learn, know exactly (परिज्ञा)
परिजनो :	Attendants, suite (परिजन)
परिजपति :	To whisper mutter, practice, divination (परिजप्)
पारिजातको :	The coral tree or Erythrina Indica (पारिजातक)
परिजिण्णो :	Worn with age, decrepit, decayed (परिजीर्ण)
परिजुञ्जं :	Decay, loss (परि + जूर्ण + य)
परिकम्मं :	Preparation, preparatory, proceedings or ceremony; getting ready by clearing, cleaning etc.; dressing cleansing or perfuming the body (परिकर्मन्)
परिकप्पो :	Inclination, determination (परिक्लप् + अ)
परिकरो :	A girdle (परिकर)
परिकथा :	Story, exposition (परिकथा)
परिखा :	A trench, ditch (परिखा)
परिकीरणं :	Strewing about (परिकृ + अन)
परिकित्तेति :	To declare, publish (परिकृत्)
परिक्रमनं :	A path or approach to or round a house (परिक्रमण)
परिक्खको (adj) :	Investigating, examining (परीक्षक)
परिक्खारो :	Surrounding, retinue; decoration; furnishing; requisite; utensil; apparatus, furniture, household stuff (परिष्कार)
परिक्खति :	To inspect; investigate (परिक्ष्)
परिक्खतो :	Prepared, adomed (परिष्कृत)
परिक्खयो :	Loss, ruin, decay, destruction (परिक्षय)

268 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

परिक्खेपो :	Surrounding, enclosure fence, covering, circumference, boundary (परिक्षेप)
परिक्खीणो :	Decayed, wasted, exhausted, extinct, destroyed (परिक्षीण)
परिक्खिपति :	To throw over or around, to surround, to go round, encircle; to put into (परिक्षिप्)
परिळाहो :	Burning, fever; grief, pain, distress (परिदाह)
परिमहनं + परिमहो :	Crushing, Kneading; rubbing the body, shampooing (परिमर्दन, परिमर्द)
परिमहति :	To go beyond, excel (परिमृद्)
परिमज्जति :	To touch, stroke, handle; to cleanse, polish (परिमृज्)
परिमलो :	Fragrance (परिमल)
परिमाणं :	Measure, extent, duration (परिमाण)
परिमण्डलो (adj) :	Circular, round, spreading around, covering, entirely (परिमण्डल)
परिमारेति :	To cause to die
परिमसति :	To touch, stroke (परिमृश्)
परिमेय्यो :	Measurable (परिमेय)
परिमितो :	Measured, limited, moderate (परिमित)
पारिमो (adj) :	Further, opposite (पार + इम)
परिमोचनं :	Release
परिमुच्चति :	To be released, escape (परिमुच्चते)
परिमुखं (adv) :	In front, before (परिमुखम्)
परिमुत्ति :	Release (from परिमुच्)
परिणाहो :	Breadth, extent, compass (परिणाह)
परिणमति :	To stoop (पणिम्)
परिणामो :	Change, alteration, issue, extent, termination: digestion (परिणाम)
परिणतो :	Ripe, mature (परिणत)
परिनायको :	Governor, chief, prince (परिणायक)
परिनयो :	Marriage (परिणय)
परिनेति :	To lead, guide, rule (परिणी)
परिनिब्बानं :	Attainment of Nirvana, extinction: annihilation (परिनिर्वाण)
परिनिब्बानिको (adj) :	Tending or conducive to Nirvana
परिनिब्बापेति :	To cause to attain Nirvana

- परिनिब्बाति, : To be extinguished; to attain Nirvana or the extinction of being; to attain arhatship (परि + निर्वा)
- परिनिब्बायी (adj) : One who attains Nirvana or the extinction of being (परि + निर्वा + इन्)
- परिनिब्बुतो : Extinguished, extinct: having attained Nirvana or annihilation of being, dead (परि + निर्वृत)
- परिनिद्धितो : Accomplished (परिनिष्ठित)
- परिञ्जा : Exact knowledge, ascertainment (परिज्ञा)
- परिञ्जातो : Well understood, exactly known (परिज्ञात)
- परिञ्जेय्यो : See परिजानाति
- परिपाचनियो (adj) : Bringing to maturity, completing, achieving (परिपाचन)
- परिपाचेति : To bring to maturity, to perfect, complete
- परिपक्वो : Fully ripe (परिपक्व)
- परिपाको : Maturity, perfection (परिपाक)
- परिपालेति : To protect, guard (परिपालयति)
- परिपण्हाति : To weigh, compare, consider
- परिपन्थो : An obstacle in the way, hindrance, annoyance, danger, misfortune (परि + पथिन्)
- परिपतति : To fall down (परिपत्)
- परिफन्दति : To tremble quiver, throb, totter (परिस्पन्द्)
- परिप्लवो (adj) : Unsteady, wavering (परिप्लव)
- परिप्फरति : To fill, cause to be pervaded by (परि + स्फर्)
- परिप्फोसको (adj) : Besprinkled, moistened, all round
- परिप्फुटो : Filled in every part, permeated, pervaded (परिस्फुट)
- परिपुच्छा : Questioning, interrogation (परिपृच्छा)
- परिपुच्छति : To question, inquire about (परिपृच्छ)
- परिपुच्छिता : One who questions, or inquires (परिप्रच्छ + तृ)
- परिपूणो : Perfect: complete: fulfilled (परिपूर्ण)
- परिपूरको (adj) : Fulfilling (परिपूरक)
- परिपूरति : To be completely full: to be full-filled, to become perfect (परिपृ)
- पारिपूरी : Accomplishment, fulfilment, perfection
- परिरक्खति : To preserve, retain, maintain, keep-up (परिरक्ष्)
- परिरुन्धति : To be set, plot against (परि + रुध्)
- परिसा : Assembly, suite, congregation, company (परिषद्)

270 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

परिसज्जो (adj) :	Belonging to an assembly (परिषद्य)
परिसक्कनं :	Going about
परिसक्कति :	To go about
परिसमत्तो :	Finished (परिसमाप्त)
परिसंबाहति :	To stroke, rub (परि + सवाह)
परिसंवृतो :	Restrained or guarded in all sides (परि + संवृत)
परिसन्देति :	To drench (परि + स्यन्दयति)
परिसङ्का :	Suspicion, misgiving (परिशङ्का + आ)
परिसङ्कति :	To suspect (परिशङ्क)
परिसन्नो :	Drenched (परि + स्यन्न)
परिसप्पति :	To run to and fro, to creep about (परिसृप्)
परिसरो (adj) :	Neighbourhood, border (परिसर)
परिस्रति :	See परिसर
परिसिञ्चति :	To sprinkle all over, bathe (परिषिच्)
परिसोधेति :	To purify (परिशोधयति)
परिस्सजति :	To embrace (परिष्यज्ज्)
परिस्समो :	Fatigue, exertion (परिश्रम, परिश्राम्)
परिस्सङ्गो :	Embrace (परिष्वङ्ग)
परिस्सावनं :	A water strainer (परिस्त्रावण)
परिस्सावेति :	To strain or filter
परिस्सयं :	A danger, risk
परिसुद्धि :	Purity, perfection, freedom from blame, innocence (परिशुद्धी)
परिसुद्धो :	Pure, clear, innocent, holy; perfect, intact (परिशुद्ध)
परिसुस्सति :	To dry-up, waste away (परिशुष)
परितापनं :	Tormenting, afflicting
परितापो :	Heat, fever, inflammation: anguish, grief, suffering (परिताप)
परितस्सना :	Fear, hesitation
परितस्सति :	To tremble, be afraid (परि + त्रस्)
परितस्सी (adj) :	Trembling (परित्रासिन्)
परितो (adv) :	Around, on every side, everywhere (परितस्)
परितोसनं :	Satisfying (परितोषण)
परितोसेति :	To satisfy, please, gratify (परितोषयति)
परितोसिको (adj) :	Gratifying, rewarding (परितोष + इक)
परित्ता + परित्तं :	Protection, defence

परित्ताभो (adj) :	Of minor brilliancy (परित्ताभ)
परित्तको (adj) :	Lesser, small, limited, brief (परित्त + क)
परित्तानं :	Protection, defence, warding off (परित्त्राण)
परित्तासो :	Fear, dread, anxiety (परित्त्रास)
परित्तसुभो (adj) :	Of lesser beauty (परीत्त + शुभ)
पस्तिंतं :	Smallness
परित्तो :	Small, brief, limited (परीत्त)
परिवच्छं :	Preparation
परिवादिनी :	A lute of seven strings (परिवादिनी)
परिवादो :	Censure, reproach, accusation, detraction (परिवाद)
परिवर्ज्जनं :	Forsaking, avoidance (परिवर्जन)
परिवर्ज्जेति :	To avoid, abstain from, reject, forsake, put away (परिवर्जयति)
परिवर्णोति :	To describe, to praise (परिवर्ण)
परिवारको (adj) :	Accompanying, forming, retinue
परिवारेति :	To surround, escort, accompany, attend-upon (परिवारयति)
परिवारो :	Covering: a scabbard: encourage, retinue, following, pomp (परिवार)
परिवसति :	To dwell (परि + वसति)
परिवासेति :	To put on a robe so as to cover the whole body (परि + वासयति)
परिवासितो :	Perfumed
परिवासो :	Living apart, being put under restraint, one of the ecclesiastical punishments (परिवास)
परिवातो :	Blown up (परि + वात)
परिवत्तकं :	An embrace (परिवृत्त)
परिवत्तनं :	Inverting, changing: exchange, barter (परिवर्तन)
परिवत्तति :	To turn, to turn round, to be changed; to place oneself; to be whirled about; revolve (परिवृत्त्)
परिवत्तेति :	To turn over, roll; to change; to repeat; to exchange (परिवर्तयति)
परिवट्टब्बो :	That must dwell apart (परि + वस्तव्य)
परिवत्तो :	Change, exchange, return (परिवर्त)
परिवट्टो :	Circle, succession, revolution (परिवर्त)
परिवेणं :	A hermits cell, the cell or hut, forming a monk's private chamber in a Buddhist monastery
परिवेसनं + ना :	Distribution of food: attendance: surrounding (परिवेषण)

272 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

परिवेसो :	A halo round sun or moon (परिवेष)
परिवेठेति :	To envelope (परिवेष्ट्)
परिविमंसति :	To examine, search
परिविसति :	To present, offer food, wait upon (परिविष्)
परिवितक्केति :	To reflect (परि + वि + तर्क)
परिवितक्को :	Thought, reflection (परि + वि + तर्क)
परिवृतो :	Surrounded, accompanied (परिवृत)
परिवृट्टो + त्थो :	Dwelt apart
परियादानं :	Taking up, using up, finishing (पर्यादा + न)
परियादाति :	To seize, lay hold of (पर्यादा)
परियङ्को :	Another form of Pallnko
परियन्तक (adj) :	Discriminating accurate (पर्यन्त + वत्)
परियन्तो :	Boundary, border, limit, term, end (पर्यन्त)
परियापन्नो :	Included, contained, belonging to (परि + आ + पन्न = पद्)
परियापुणानि :	To learn thoroughly, to learn by heart (पर्याप)
परियाति :	To attend on, serve (परिया)
परियत्तं (adj) :	Voluntarily (पर्याप्त)
परियत्ति :	Adequacy, sufficiency, fullness, plenitude, learning by heart: that which is learnt by heart—the text of Buddha's word, the Tiptaka (पर्याप्ति)
परियत्तो :	Able, sufficient; learnt by heart, mastered (पर्याप्त)
परियायो :	Succession, order; turn, a synonym; opportunity; way, manner; a cause: teaching: exposition: a surrounding wall (पर्याय)
परियेसको (adj) :	One who seeks (पर्येष + अक)
परियेसना :	Search (पर्येषणा)
परियेसति :	To search, seek for, seek out (पर्येष्)
परियेसि (adj) :	Seeking (पर्येष् + इन्)
परियेष्टि :	Search (परिर्येष्टि)
परियोदानं :	Cleansing (परि + अवदान)
परियोदपनं :	Cleansing, purification
परियोदपेति :	To cleanse, purify (परि + अव + दै)
परियोदातो :	Cleansed, pure (पर्यवदात)
परियोगाल्हो :	Dived into (परि + अव + गाढ)
परियोन्धति :	To cover envelope (परि + अव + न्ह)
परियोसानं :	Termination (पर्यवसान्)

परियोसितो :	Concluded (पर्यवसित)
परियुट्टितो :	Arisen; possessed (परि + उद् + स्थित्)
परो (adj) :	Distant, further: opposite; other, different, adverse; subsequent, highest, pre-eminent (पर)
परो (adv) :	Beyond, more than (परस्)
परोदति :	To burst into tears (प्ररुद्)
परोक्खो (adj) :	Invisible, imperceptible (परोक्ष्)
परुळ्हो :	Grown up, increased (प्ररुद्)
परुपघाती (adj) :	Injuring others, cruel (पर + उपघातिन्)
परुपघातो :	Injuring others, cruelty (पर + उपघात)
पारुपनं + पारुपणं :	Dressing, putting on a garment; a covering mantle, cloak, upper robe (प्रावरण)
पारुपति, पापुरति :	To dress or put on an outer garment (प्रावृ)
परुपवादो :	Reproaching others (पर + उपवाद)
पारुतो :	See पारुपति
पसादको (adj) :	Causing serenity or happiness: converting to Buddhist faith (प्रसादक)
पसादनं :	Gratification, favour (प्रसादन)
पसादनीयो (adj) :	Causing happiness (प्रसादनीय)
पसादापेति :	To cause to be gratified
पसादवा (adj) :	Delighted, pleased, having faith in (प्रसादवत्)
पसादेति :	See पसिदति
पसाधनं :	Decoration; ornament; parure; wearing ornaments (प्रसाधन)
पसाधेति :	To put on, wear ornaments (प्रसाध्)
पासादिको (adj) :	Pleasing, engaging amiable, gracious (प्रासादिक)
पसदो :	The spotted antelope (पृषत)
पसादो :	Brightness, clearness; favour, grace; refreshing joy; serenity of mind : faith (प्रसाद)
पासादो :	A building erected on high foundations and approached by means of steps, a terrace tower; palace, mansion (प्रासाद)
पसहति :	To use force, overcome, subdue, oppress (प्रसह)
पसखा :	A branch or twig (प्रशाखा)
पसाखो :	The abdomen and thighs (प्रशाख)
पासको :	A die (प्रासक)
पसमति :	To allay (प्रशम्)
पसंसा :	Praise (प्रशंसा)
पसंसनं :	Praising, commendation (प्रशंसन्)

274 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पसंसति :	To praise, to declare (प्रशंस्)
पसंसी (adj) :	Praising (प्रशंसिन्)
पासण्डिको (adj) :	Heretical (पाषण्डिक)
पासण्डो :	Hertical (पाषण्ड)
पसङ्गो :	Attached, being addicted to (प्रसङ्ग)
पासनि :	See पण्हि
पसन्नता :	Clearness, serenity (प्रसन्नता)
पसन्नो :	See पसीदति
पासाणो :	A stone, a rock (पाषाण)
पसरणं :	Spreading, being stretched out (प्रसरण)
पसारेति :	To stretch out, spread out, expand, exhibit, expose (प्रसारयति)
पसरो :	Spreading, extension (प्रसर)
पसतो :	A measure of capacity; palm stretched out and hollowed as if to hold liquid (प्रसृत)
पसत्थो :	Praised, esteemed, good, excellent (प्रशस्त)
पसवति :	To beget, generate; to give birth to (प्रसु)
पसवो :	See पसु
पसवो :	Bringing forth; generating, production; a flower, fruit (प्रसव)
पसह्यो :	Force, violence (प्रसह्य)
पसेनदि :	Name of a king of Kosala, a contemporary of Buddha (प्रसेनजित्)
पसिब्बकं + को :	A bag, sack (प्रसेवक)
पसीदति :	To be clear, serene, tranquil: to be content, satisfied, pleased, glad; to be favourable or gracious; to rejoice in, take pleasure in; to have faith in, to believe, be converted (प्रसद्)
पसिद्धि :	Fame (प्रसिद्धि)
पसिद्धो :	Notorious; celebrated (प्रसिद्ध)
पासिको :	Connected with snares, using snares, caught in snares (पाशिक)
पसिति :	A fetter (प्रसिति)
पासो :	A noose, string, snare, fetter (पाश)
पस्सद्धि :	Calming down, calmness, repose, tranquillity (प्रश्राब्धि)
पस्सम्भति :	To calm down, be quiet (प्र + श्रम्भ्)
पस्सनं :	Seeing
पस्ससति :	To expel the breath, exhale (प्र + आ + श्वस्)
पस्सासो :	Exhaled breath (प्र + आ + श्वस्)

पस्सति :	To see, look, behold, observe: to see with the mind, learn, know, understand: to discover, find, meet-with (पश्)
पस्सावी (adj) :	Seeing
पस्सावो :	Urine (पस्साव)
पस्सो + पस्सं :	Side, flank (पार्श्व)
पसु :	Cattle; an animal, beast: a goat (पशु)
पसूति :	Birth, bringing forth: childbirth, delivery (प्रसूति)
प्रसूत्तिका :	That has brought forth, that has had a child (प्रसूत्तिका)
पसुतो :	Intent upon, devoted to, seeking (प्रसित = सि)
पसूतो :	Engendered, born; delivered (प्रसूत)
पसुत्तो :	Sleeping (प्रसुत्त)
पातव्वो :	Drinkable (पातव्व)
पटग्गि :	Fire in return (प्रति + अग्नि)
पटहो :	A battle-drum Kettle drum (पटह)
पताका :	A banner or flag (पताका)
पटको :	Cotton cloth (पटक)
पातालं :	The lower regions: Naga-world, submarine fire (पाताल)
पटलं :	A covering; coating; membrane, film: catarract of the eye: roof thatch: a heap, multitude, quantity (पटल)
पाटली :	The trumpet flower, Bignomia Suaveolens (पाटली)
पटलिका :	A woollen coverlet thickly woven with flowers (पटल + इका)
पाटलिपुत्तं + त्तकं :	Name of a city in Magadha (पाटलिपुत्रक)
पाटलो (adj) :	Light, red, pink (पाटल)
पतनं :	Falling (पतन)
पतङ्गो :	A bird (पतङ्ग)
पटङ्गो :	A flying insect, moth, beetle, grass-hopper (फडिङ्ग)
पतानि (adj) :	Spreading, extending (प्रतानिन्)
पातञ्जलि (adj) :	Having the hands clasped (पातञ्जलि)
पतन्तो :	A bird (पनत्)
पटन्तो :	The skirt or seam of a garment (पट + अन्त)
पतापनो :	Name of one of the eight Hells (प्रतापन)
पताववा (adj) :	Burning, scorching (प्रतापवत्)
पतापो :	Heat; splendour, majesty, dignity (प्रताप)
पतापी (adj) :	Burning, scorching (प्रतापिन्)

276 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पतारणं :	Elevation; aggrandisement (प्रतारणा)
पातरासो :	Morning meal: breakfast (प्रातराश)
पतारेति :	To mislead, deceive (प्रतारयति)
पतति :	To fall, alight (पत्)
पतत्तं :	A wing (पत्र)
पाटवं :	Skill (पाटव)
पातव्यता :	Injuring, destroying
पतयो :	See पति
पाटेकं (adv) :	Singly, severally (प्रत्येक + य)
पातेति :	See पतति
पाठा :	The plant Clypea Hernandifolia (पाठा)
पठद्धि :	A throughfare, street
पाठको :	One who reads or recites; studies (पाठक)
पठमज्ज्ञानिको (adj) :	Connected with the first Jhanas (प्रथम + ध्यान + इक)
पठमकल्पिको (adj) :	Belonging to the commencement of a Kalpa (प्रथम + कल्प + इक)
पठमको (adj) :	First, previous (प्रथमक)
पठमो (adj) :	First, foremost; earliest, previous, principal, chief, best (प्रथम)
पठति :	To read, recite (पठ)
पठवी, पथवी, :	The earth (पृथिवी, पृथ्वी)
पुथुवी + पुथवी	
पथावी :	A traveller (पथ + आविन्)
पाठेति :	To cause to read, to teach (पाठयति)
पाथेय्यं :	Provisions for a journey (पाथेय)
पथिको :	A traveller (पथिक)
पाठीनो :	The fish Silurus Boalis (पाठीन)
पथो :	Path, road, way, course, reach (पथ)
पाठो :	Reading, recitation, text, passage of a text (पाठ)
पति :	Master, owner, chief, ruler; husband (पति)
पटि (Prep) :	Towards : back, in return: against (प्रति)
पटी :	Coarse-cloth, canvas (पटी)
पाति :	To protect (पा)
पाती :	A vessel, dish, bowl (पात्री)
पटिबद्धो :	Bound, obstructed, dependent (प्रतिबद्ध)

- पटिबाहनं + : Warding off; repulsion
पटिबहो
- पटिबाहति + : To put away, reject, avert, repel (प्रतिवाह)
पटिबाहेति
- पटिबलो (adj) : Able, adequate, competent (प्रतिबल)
पतिब्बता : Devoted or faithful wife (पतिव्रता)
पटिभागो : One who belongs to the opposite side, an enemy (प्रतिभाग)
पतिभानं : Understanding, intelligence; wisdom; readiness; confidence of speech; promptitude; wit (प्रतिभावान)
- पटिभानवा (adj) : Possessed intelligence or ready wit (प्रतिभानवत्)
पटिभासति : To address in return or reply (प्रतिभाष्)
पटिभाति : To appear, to be evident, to occur or present itself, to the mind (प्रतिभा)
- पटिभयो (adj) : Terrible, fearful (प्रतिभय)
पटिभायुत्तो (adj) : Bold, ready, confident (प्रतिभा + युक्त)
पटिभोगो : A surety, sponsor (प्रतिभोग)
पटिभू : A surety (प्रतिभू)
पटिबिम्बं : Reflection, counterpart, image (प्रतिबिम्ब)
पटिबिम्बितो : Reflected, image (प्रतिबिम्बित)
पटिबोधो : Awaking (प्रतिबोध)
पटिबुज्झति : To awake (प्रतिबुध्)
पटिच्च : Following from anything as a necessary result; by means of, on account of, by reason of, through, by
- पटिच्चसमुप्पादो : Origination as a necessary result from an antecedent cause, chain of causation
- पटिच्छादको (adj) : Covering, Concealing (प्रतिच्छद् + अक)
पटिच्छादनं : Concealment (प्रतिच्छद् + अन)
पटिच्छादनियं : The flavour of meat
पटिच्छादेति : To cover, conceal, keep secret, deny, to clothe oneself (प्रतिच्छद्)
पटिच्छादि (adj) : Covering, protecting (प्रतिच्छद् + इन)
पटिच्छदो : Covering, shelter (प्रतिच्छद् + अ)
पटिच्छन्नो : See पटिच्छादेति
पटिच्छापेति : To cause to receive, to deliver to, entrust to
पटिच्छति : To receive, take (प्रतीष्)

278 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पटीचि :	The west (प्रतीची)
पटिचिक्खति :	To resolve (प्रतिचक्षु)
पटिचोदेति :	To blame, reprove (प्रतिचुद्)
पटिददाति + :	To give in return, to restore (प्रतिदा)
पटिदेति	
पतिदानं :	Restitution, restoration (प्रतिदान)
पटिदण्डो :	Retribution (प्रतिदण्ड)
पटिदस्सेति :	To cause to see again (प्रतिदर्शयति)
पटिदेसेति :	To confess (प्रतिदेशयति)
पतिदेवता :	Devoted wife (पतिदेवता)
पतिदिस्सति :	To be seen with, visit
पतिदिवसं (adv) :	Daily (प्रति + दिवस)
पाटिएक्को + :	Individual separate (प्रत्येक + य)
पाटियेक्को (adj)	
पतिगणहाति :	To take, receive, accept; to welcome, recognise, assent (प्रतिग्रह)
पटिग्गाहको (adj) :	Receiving a recipient (प्रतिग्राहक)
पटिग्गहणं :	Acceptance, receiving (प्रतिग्रहण)
पटिग्गहेत्वा :	See पटिगणहाति
पटिग्गहीता :	One who receives (प्रतिगृहीतृ)
पटिग्गहीतो :	Received, assented to, admitted, approved (प्रतिगृहीत)
पटिग्गहो :	Acceptance, receipt (प्रतिग्रह)
पटिघातो :	Concussion; warding off, repulsion (प्रतिघात)
पटिघो + घं :	Anger, hatred (प्रतिघ)
पटिघोसो :	Echo (प्रति + घोष)
पतिजिणाति :	To agree, persuit, approve (प्रतिगृ)
पटिहन्ति :	To strike, wound: ward off (प्रतिहन्)
पटिहरणं :	Striking in return (प्रतिहरण)
पटिहरति :	To strike in return (प्रतिह)
पाटिहारियं, :	A miracle, portent (प्रातिहार्य)
पाटिहेरं + पाटिहीरं	
पटिहारो :	Carrying back: a door; a door keeper (प्रतिहार)
पटिहतो :	See पटिहन्ति

पटिजगगनं :	Watching over
पटिजगगति :	To watch over, guard, look after, tend, take care of (प्रतिजग्गु)
पटिजानाति :	To acknowledge, confess, recognise; to approve, consent, promise: to profess, assent, maintain: to discern, perceive (प्रतिज्ञा)
पटिका :	White woollen cloth (पटिका)
पाटिका :	A stone step at the entrance of the house
पटिकम्मं :	Treatment, cure; repair, redress, atonement (प्रतिकर्मन्)
पटिकङ्घति :	To expect, await, desire (प्रतिकाङ्घ)
पाटिकङ्घी (adj) :	Expecting, hoping for, desiring (प्रतिकाङ्घ + इन्)
पाटिकङ्घो :	To be expected
पटिकारको (adj) :	Requiting (प्रति + कारक)
पटिकारो :	Repair, amends; atonement, remedy (प्रतिकार)
पटिकरोति :	To repair, make amends for (प्रतिकृ)
पटिकस्सनं :	Drawing back (प्रति + कर्षण)
पटिखमापितो :	Forgiven in return
पटिकिड्डो :	Inferior, low, vile (प्रतिकृष्ट)
पटिक्रमनं :	Stepping backwards, retreat: a hall with seats of distinction (प्रतिक्रमण)
पटिक्रमति :	To step backwards, retreat, depart: to return (प्रतिक्रम)
पटिक्रमो :	Going back, reverse order (प्रतिक्रम)
पटिकखेपो :	Opposing, refusing (प्रतिकेप)
पटिकिखपति :	To oppose, to refuse, to reject (प्रतिकिषप्)
पटिक्रोसनं :	Reviling ; scorn
पटिक्रोसति :	To blame, revile, scorn (प्रति + क्रुश्)
पतिकूलो (adj) :	Contrary; disagreeable (प्रतिकूल)
पतिक्रिया :	Giving medicine: counteracting: remedying (प्रतिक्रिया)
पतिकुलं :	Husband's family (पति + कुल)
पतिकुड्डो :	Miserable, vile (प्रतिकुष्ट)
पटिलभति :	To obtain; receive; to regain (प्रतिलभ्)
पटिलाभो :	Obtaining, attainment, acquisition (प्रतिलाभ्)
पटिलद्धो :	See पटिलभति
पटिलेखनं :	A letter sent in reply (प्रति + लेखन)
पटिलोम :	Contrary, reverse, in reverse order (प्रतिलोम)

280 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पटिमा :	Image, picture, figure (प्रतिमा)
पटिमगो :	A confronting road (प्रति + मार्ग)
पतिमण्डितो :	Adorned, decorated (प्रतिमण्डित)
पतिमानेति :	To revere (प्रतिमानयति)
पतिमन्तेति :	To discuss in argument, to reply to, refute (प्रतिमन्ता)
पतिमासेति :	To explore, search (प्रति + मृश्)
पटिमोचेति :	See पटिमुञ्चति
पातिमोक्खं :	Name given to a collection of the various sikkhapadas contained in the Vinaya, beginning with the four Parajikas and ending with the 75 Sekhiyadhammas It's a sort of criminal code for the Bhikkhus
पटिमोक्खो :	A sort of remedy
पटिमुखो (adj) :	Opposite, at hand, present (प्रतिमुख)
पटिमुक्को :	Fastened, tied: clothed, accounted (प्रतिमुक्त)
पटिमुञ्चति :	To put on, fasten, bind (प्रतिमुच्)
पतिंवरा :	A woman who chooses her husband (पतिंवरा)
पटिनन्दति :	To express gratification, to welcome (प्रतिनन्द्)
पटिनिधि :	Image, likeness (प्रतिनिधि)
पटिनिस्सगो :	Forsaking, getting rid off (प्रति + निस् + सर्ग)
पटिनिस्सज्जेति :	To forsake, renounce (प्रति + निस् + सर्ग)
पटिनिस्सट्ठो :	Forsaken : having forsaken (प्रति + निस् + सृष्ट)
पटिनिवत्तति :	To turn back again, to return (प्रतिनिवृत्)
पटिनिवेदेति :	To bring back news, announce
पटिञ्जा :	Agreement, promise, vow (प्रतिज्ञा)
परिञ्जातो :	Asserted; admitted; acknowledged: promised (प्रतिज्ञात)
पटिपाभतं :	A present or gift in return (प्रति + प्राभृत)
पटिपदा :	Ingress, access, way, step, course, practice conduct: the first day of a lunar fortnight (प्रतिपद्, प्रतिपदा)
पटिपदं (adv) :	Step by step, in due order (प्रतिपदम्)
पटिपादनं :	Imparting, giving, informing, declaring (प्रतिपादन)
पटिपादेति :	See पटिपज्जति
पटिपादो :	That which supports the bedstead (प्रति + पाद)
पाटिपदो (adj) :	Belonging to the first— day of Lunar fortnight (प्रतिपद + अ)
पटिपज्जति :	To enter upon, walk upon; to follow, embrace, regulate once, life, live, act, practice: enter upon, obtain (प्रतिपद)

- पटिपाकतिको (adj) : Restored or set right again (प्रति + प्राकृतिक)
- पटिपक्खत्तं : Opposition (प्रति + पक्षत्व)
- पटिपक्खो : An opponent, enemy; hostility (प्रतिपक्ष)
- पटिपणामेति : To bend down again
- पटिपन्नो : See पटिपज्जति
- पटिपथो : Confronting road (प्रति + पथ)
- पटिपाटि : Order, succession (प्रति + पाटी)
- पटिपत्ति : Conduct, practice, performance, occupation: religious duties or practice, moral conduct: attainment: acquisition: knowledge: ascertainment (प्रतिपत्ति)
- पटिपीळनं : Pressing, pinching (प्रतिपीडन्)
- पटिप्पस्सम्भनं : Subsidence
- पटिप्पस्सम्भति : To be calmed, quieted, to subside, to come to an end (प्रति + प्र + श्रम्भ्)
- पटिपुच्छा : Question in return (प्रति + पृच्छा)
- पटिपुच्छनं : Questioning in return (प्रतिप्रच्छ + अन)
- पटिपुच्छति : To inquire, question: to put a question in turn (प्रतिप्रच्छ्)
- पटिपुच्छिता : One who inquires (प्रतिप्रच्छ + तृ)
- पटिपुग्गलो : A person equal to another, a rival (प्रति + पुद्गल)
- पटिपूजेति : To honour in return (प्रति + पूज्)
- पटिराजा : Hostile king, royal adversary (प्रतिराज)
- पतीरयं : A shore, bank (प्रतीर)
- पटिरवो : Echo (प्रतिरव)
- पतिरुपको (adj) : Resembling, counterfeiting (प्रतिरुपक)
- पतिरुपं : A counterfeit (प्रतिरुप)
- पतिरुपो : Suitable, fit, proper, right, good (प्रतिरुप)
- पतिसल्लणं : Solitude, retirement for the purpose of meditation, seclusion, privacy (प्रतिसंलयन)
- पतिसल्लीणो : Secluded, retired, abstracted, plunged in meditation (प्रति + सम् + लीन)
- पटिसामनं : Putting away
- पटिसम्भिदा : Discrimination, analysis
- पटिसामेति : To set in order, put away
- पटिसंहरति : To draw back; to fold; to change (प्रतिसह)
- पटिसम्मज्जति : To sweep over again (प्रति + समृज्)

282 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पटिसम्मोदनं :	Friendly greeting in return
पटिसमो (adj) :	Equal to (प्रतिसम)
पटिसंवेदेति + वेदियति :	To feel experience, enjoy, perceive
पटिसंवेदी (adj) :	Experiencing, feeling, enjoying (प्रतिसंवेदिन्)
पटिसंविदितो :	Having informed (प्रति + सम् + विदित)
पटिसंयुक्तो + सञ्जुक्तो :	Connected with (प्रति + सम् + युक्त)
पटिसञ्चिक्खति :	To agree with oneself, to consider, revolve a matter in mind (प्रति + सम् + चक्ष्)
पटिसन्दहति :	To be re-born, to transmigrate (प्रतिमघा)
पटिसन्धिको (adj) :	At the end of a compound as a substitute for last
पटिसङ्खनं :	Reflection, contemplation (प्रतिसङ्घा + न)
पटिसन्धि :	Entering the womb in a new existence, conception, re-birth, transmigration (प्रतिसंधि)
पटिसङ्हरणं :	Restoration, repairs
पटिसङ्हारणं :	Causing to be repaired
पटिसङ्हारो :	Restoration, repairs
पटिसङ्हरोति :	To restore, repair, mend (प्रतिसंस्कृ)
पटिसङ्घाति :	To reflect, meditate (प्रतिसङ्घा)
पटिसङ्घतो :	Restored, repaired (प्रति + सम + कृत)
पटिसञ्जुक्तो :	See परिसम्युतो
पटिसन्थरति :	To be favourably disposed to, to be interested in (प्रति + सम् + स्तृ)
पटिसन्थारो :	Friendly greeting, welcom, kindness, affection, friendliness (प्रति + संस्तार)
पटिसरणं :	Refuge, help, defence, protector (प्रति + शरण)
पटिसाराणीयो :	It seems to be p. f p. from the caus of (प्रतिस्म्)
पटिसारी (adj) :	Trusting in, leaning on (प्रतिसारिन्)
पटिसासनं :	A message in return or reply (प्रतिशासन)
पटिसत्तु :	An enemy (प्रतिशत्रु)
पटिसायनीयो :	To be tasted or partaken of or enjoyed (प्रति + स्वादनीय)
पटिसेधनं :	Preventing, stopping (प्रतिषेधन)
पटिसेधेति :	To keep or ward off: to Prevent, prohibit restrain (प्रतिषेधयति)

पटिसेधो :	Prohibition (प्रतिषेध)
पटिसेवनं :	Practising
पटिसेवति :	To receive, to practice (प्रति + सेव)
पटिसिब्वति :	To sew, embroider (प्रति + सिव्)
पटिसिद्धो :	Forbidden (प्रतिषिद्ध)
पटिस्रोतं (adj) :	Against the stream (प्रतिस्रोतस्)
पतिस्सा :	Amenability, assent, obedience
पतिस्सतो :	Recollecting, thoughtful (प्रति + स्मृत्)
पटिस्सावी (adj) :	Assenting, ready, willing (प्रति + श्राविन्)
पटिस्सवो :	Assent, promise (प्रतिश्रुव)
पतिस्सयो :	A house, dwelling, asylum (प्रतिश्रय)
पटिसुणाति :	To assent, promise (प्रतिश्रु)
पतिसुञ्जा :	A widow (पति + शून्य)
पटितित्थो :	A landing place on the opposite bank of the river (प्रति + तीर्थ)
पतितो :	Fallen; fallen in battle, slain: gone, got rid off (पतित)
पतीतो, पतितो, :	Known, established, true; famous, pleased delighted (प्रतीत)
पटितो	
पतितो :	See पातेति
पतिट्टा :	Fixity, strength, resting place, stay, help, home, asylum (प्रतिष्ठा)
पतिट्टहति :	See पतिट्टाति
पतिट्टानं :	Fixing, establishment (प्रतिष्ठान)
पतिट्टापको :	One who establishes
पतिट्टापनं :	Fixing, setting up (प्रतिष्ठापन्)
पतिट्टापिताता :	Fact of having been established (प्रतिष्ठापित + ता)
पतिट्टाति + :	To stand fast or firmly, to be established, to fix oneself, to be set
पतिट्टाहति	to be set up, to stay, (प्रतिष्ठा)
पतिट्टित्तं :	Fact of being established (प्रतिष्ठित + त्व)
पटिवचनं :	Answer, rejoinder (प्रतिवचन)
पटिवदति :	To answer, retort (प्रतिवद्)
पटिवादो :	Retort, recrimination (प्रतिवाद)
पटिवाक्यं :	Reply (प्रतिवाक्य)
पटिवाणं :	Opposition, resistance (प्रति + वाण)
पटिवाणी (adj) :	Resisting

284 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पटिवसति :	To live, dwell (प्रतिवस्)
पटिवातं (adv) :	Against the wind (प्रतिवातम्)
पटिवत्ता :	One who answers or contradicts (प्रति + वक्तृ)
पटिवत्तं :	See वत्तं
पटिवट्टेति :	To roll something against, knock, strike
पतिवत्तियो :	That can be subverted
पटिवेदेति :	To make known, announce, assist (प्रतिवेदयति)
पटिवेधो :	Penetration, comprehension, attainment (प्रति + वेध)
पटिविभक्तो :	Distributed with partiality or favour (प्रतिविभज्)
पटिविद्धो :	Penetrated, acquired (प्रति + विद्ध)
पटिविदितो :	Known, ascertained (प्रति + विदित)
पटिविद्भानं :	Penetration; comprehension
पटिविद्भति :	To cleave, split: to penetrate, comprehend, acquire, master, learn (प्रतिव्यध्)
पतिविलगितो :	Stuck, entangled
पटिविसो :	Portion, Share
पटिविनेति :	To repress, subdue (प्रति + वि + नी)
पटिविनोः :	Removal,
पटिविनोदेति :	To remove, dismiss, dispel (प्रति + वि + नुद्)
पटिविरति :	Abstinance from (प्रतिविरति)
पटिविरतो :	Abstaining from (प्रति + वि + रत)
पटिविरुद्धो :	Opposed, hostile (प्रति + वि + रुद्ध)
पटिविस्सको (adj) :	Neighbouring (प्रतिवेश or प्रतिवेशन् or प्रतिवेश्य + क)
पटियादेति :	To prepare, make ready, provide (प्रतियातयति)
पटियत्तो :	Prepared, made ready: dressed (प्रति + यत्त)
पाटियेक्को :	See पाटिएक्को
पाटो + पाटं :	Cloth; a cloth or garment (पट)
पातो :	Falling, fall; a cast, throw; discharge (पात)
पातो :	Before a vowel sometimes Patar (adv) at dawn, early, to-morrow morning (प्रातर)
पतोदकं :	Poking or tickling (प्रतोदक)
पतोदो :	A goad (प्रतोद)
पटोलो :	A species of cucumber
पत्तब्बो + :	Attainable (प्राप्तव्य)
पत्तब्बको	

पत्तचीवरं :	Bowl and robe (पात्र + चीवर)
पत्तधम्मो (adj) :	One who has mastered the truth (प्राप्त + धर्म)
पत्तगाहो (adj) :	Holding a bowl (पात्र + ग्राह)
पत्तकल्लं :	Timeless, seasonableness (प्राप्तकाल + य)
पत्तकालो :	Right moment, seasonable time (प्राप्तकाल)
पट्टको :	A cloth (पट्टक)
पत्तं :	A wing; a leaf; or petal (पत्त)
पट्टनं :	A port; seaport (पट्टन)
पत्तङ्गः :	Red sandal (पत्ताङ्ग)
पत्तानीकं :	Infantry (पत्ति + अनीक)
पत्तपिण्डिकङ्गं :	This is the sixth Dhutanga precept and enjoins eating from one vessel only (पात्र + पिण्ड + अङ्ग)
पत्तपूरो :	A bowlful (पात्र + पूर)
पत्तपूटं :	A small basket made of leaves (पत्र + पुट)
पत्तयानो :	A bird (पत्र + यान)
पत्तेय्यो (adj) :	Obtainable (प्राप्त + एय)
पत्थना :	Desire, request, prayer, aspiration, hope, resolve (प्रार्थना)
पट्टानं :	Setting out, departure, march of an army or assailant; origin, cause (प्रस्थान)
पट्टपेति :	To set going, set on foot, establish furnish provide (प्रस्थापयति)
पत्थरति :	To spread, strew: to overspread, pervade (प्र + स्तृ)
पत्थरो :	A flat surface (प्रस्तर)
पत्थतो :	Spread, stretched (प्रस्तृत)
पत्थावना :	Introduction; dramatic prologue (प्रस्तावना)
पट्टाय :	Setting out from, beginning from, since, after, from
पत्थेति :	To wish for, aspire to, pray for (प्रार्थ)
पत्थिवो :	A king (पार्थिव)
पत्थो :	A weight and measure of capacity; a table-land on the top of a mountain (प्रस्थ)
पत्थो (adj) :	Secluded, solitary (प्रास्त)
पत्ति :	A foot soldier; going, walking (पत्ति)
पत्ति :	Obtaining, acquisition, attainment, gain, advantage (प्राप्ति)
पत्ती :	An arrow (पत्तिन्)
पट्टिका :	A slip, a label; a bandage, ribbon (पट्टिका)

286 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पत्तिको (adj) :	Going on foot (पत्तिक)
पत्तिपत्तो (adj) :	Having obtained the highest-gain (प्राप्ति + प्राप्त)
पत्तो :	Obtained, reached; having reached (प्राप्त)
पात्रो :	A bowl—a Buddhist monk's begging-bowl or alms-bowl (पात्र)
पट्टो :	Ship, ribband, tablet, plate, slab; a cloth, bandage, turban (पट्ट)
पत्तोदकं :	Water to wash a bowl with (पात्र + उदक)
पत्तुं :	See पापुणाति
पत्तुणं :	Wove silk cloth (पत्तोण)
पटु (adj) :	Sharp; skilful; sensible; wise; healthy (पटु)
पातु :	Before a vowel Patur (adv) evidently, manifestly (प्रादुस्)
पातुभवति :	To become visible or manifest, to appear, to arise, to spring into existence (प्रादुर्भू)
पटुभावो :	Skill (पटु + भाव)
पातुभावो :	Appearance, manifestation, apparition, arising (प्रादुर्भाव)
पतुज्जा :	Having struck off
पातुकरणं :	Production, manifestation (प्रादुष्करण)
पातुकरोति :	To produce, manifest (प्रादुष्कृ)
पातुं :	See पिवति
पातुर :	See पातु
पत्वा :	See पापुणाति
पावा :	A city of Mallas, near Rajagaha (पावा)
पावचनं :	The word of Buddha or the holy scriptures (प्रवचन)
पावदति :	To speak out, express (प्रवद्)
पवद्धति :	To grow, increase (प्रवृद्ध्)
पवादी :	A disputant (प्रवादिन्)
पवादो :	Disputation, litigious language, defamation (प्रवाद)
पवहणं :	A ship's boat (प्रवहण)
पवाहेति :	To cause to be carried by stream
पवाहो :	Current, stream: course or stream of action, occupation (प्रवाह)
पवज्जति :	To be played, or sounded
पावकि :	An epithet of skanda or Kartikkeya (पावकी)
पावको :	Fire (पावक)

पवक्खति :	He will tell, declare, recite
पवालो + लं :	A sprout or germ (प्रवाल)
पवाळो + ञं :	Coral (प्रवाड)
पवनं :	Side of a mountain, declivity, height (प्रवण)
पवनं + पावनं :	Purification; winnowing (पवन, पावन)
पवनो :	Air, wind (पवन)
प्रवारणा :	Invitation; prohibition; name of a certain festival (प्रवारणा)
प्रवारेति :	To cause to choose, to give a person his choice, to invite, to offer: to join in the festival (प्रवारयति)
प्रवरो (adj) :	Chief, best, noble, excellent (प्रवर)
प्रवारो :	A woollen cloth (प्रवार)
पावारो :	A cloak or mantle (प्रवार)
प्रवासी (adj) :	Living abroad or away from home (प्रवासिन्)
प्रवासो :	Absence from home (प्रवास)
प्रवस्सति :	To rain (प्रवृष्)
प्रवाति :	To diffuse, a scent (प्रवा)
प्रवात्तं :	A draught of air, breeze (प्रवात्)
प्रवत्तां :	One who informs, points out (प्रवक्त्)
प्रवत्तनको (adj) :	Bringing about, producing, promoting (प्रवर्तन + क)
प्रवत्तनं :	Behaviour, conduct, procedure (प्रवर्तन)
प्रवत्तति :	To arise, begin, take place; to start, set out, to roll or flow onwards; to become, be exist, to go on, proceed, to be kept up (प्रवृत्)
प्रवट्टति :	To revolve, whirl round (प्रवृत्)
प्रवत्तेति :	To cause to arise or to flow onwards, or to proceed to set going, to set on foot, establish, produce, make, originate, begin (प्रवर्तयति)
प्रवट्टेति :	To throw back, turn-aside, to set rolling, to roll (प्रवर्तयति)
प्रवत्ति :	Flow onwards; going on, affairs, occurrence, incident proceeding; news tidings practice, conduct; beginning setting on foot, estab- lishment; being, existence (प्रवृत्ति)
प्रवत्तितो :	Setting going, established, made (प्रवर्तित)
प्रवत्तो :	Starting, proceeding, setting out, begun, set on foot, kept going; kept up; going on, being, existing, settled, fixed (प्रवृत्त)
प्रवायति :	To be wafted abroad (प्रवा)

288 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पवेच्चति :	To give
पवेदेति :	To make known, tell, utter (प्रवेदयति)
पवेधति :	To tremble (प्रव्यथ्)
पवेक्खति :	See पविसति
पवेणी :	A long braid of hair; a coloured woollen cloth used for a saddle or housings; series, succession line; tradition, custom, usage (प्रवेणि)
पवेसनं :	Entrance (प्रवेशन)
पवेसेति:	See पविसति
पवेसो:	Entrance (प्रवेश)
पावेय्यको (adj) :	Belonging to Pava (पावा + य + क)
पविधातुं :	To place, appoint (प्रविधा)
पविचयो :	Investigation (प्रविचय)
पविच्छाति :	To throw down (प्रव्यथ्)
पवीणो (adj) :	Clever, skilful (प्रवीण)
पवीरो :	Heroic; best (प्रवीर)
पवीसनं :	Entrance (प्रवेश)
पविसति :	To enter (प्रविश्)
पविस्सिलेसो :	Separation (प्रविश्लेष)
पविट्ठो:	See पविसति
पवित्तो (adj) :	Sacred, holy (पवित्र)
पविवेको :	Retirement, solitude, seclusion (from प्र + वि + विच्)
पविवित्तो :	Separated, detached, retired, secluded (प्रविविक्त)
पवो :	Purification, winnowing grain (पव)
पवुच्चति :	To be spoken of, to be called or termed
पवुद्धो :	See पवद्धति
पावुसो :	The rainy season; a sort of a fish (प्रावृष)
पावुस्सको (adj) :	Belonging to the rainy season (प्रावृष्य + क)
पवुत्तो :	Spoken to, told (प्र + उक्त)
पायको :	One who drinks (पायक)
पयामो :	Length (प्रयाम)
पायासो :	Rice boiled in milk, milk rice (पायस)
पयाति :	To go, proceed, advance (प्रया)

पयतो :	Pure (प्रयत)
पयातो :	Gone, departed (प्रयात)
पायेति :	See पिवति
पायी :	Drinking (पायिन्)
पयीरूदाह :	To utter (परि + उद् + आह = अह)
पयिरूपासति :	To sit beside, attend on, associated with, serve honour (पर्युपास्)
पयो, पयं :	Water: milk (पयस्)
पायो :	Drinking (पाय)
पायो :	Abundance (प्राय)
पायो (adv) :	Abundantly (प्रायस्)
पयोधरो :	A cloud; a women's breast (पयोधर)
पयोदो :	A cloud (पयोद)
पयोगो :	Practice, use, usage; means, instrumentality; motive, occasion, object (प्रयोग)
पयोजनं :	Appointment, command, direction, advantage, use, need; object, aim (प्रयोजन)
पयोजेति :	To perform, practice, conduct, carry on; to instigate cause, direct, command: to employ, suborn, hire (प्रयोजयति)
पायु :	The anus (पायु)
पायुञ्जति :	To yoke, harness; to employ, appoint; to practice, behave (प्रयुज्)
पयुक्तको (adj) :	Employed, hired, suborned (प्रयुक्त + क)
पय्यको :	Paternal great-grandfather (प्र + आर्यक)
पय्येसना :	Search (पर्येषणा)
पे :	See पेय्यालं
पेच्च :	Having departed, after-death, in the next world or existence, hereafter (प्रेत्य)
पेखा + पेक्खा :	Wish, desire, expectation (प्रेक्षा)
पेखी (adj) :	Desiring, looking for, awaiting (प्रेक्षिन्)
पेखुणं :	A wing
पेक्खा :	See पेखा
पेक्खति :	To look at, to hold, observe, watch with expectation, to look out for; expect (प्रेक्ष्)
पेळा :	A basket (पेडा)

290 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पेलको :	A hare
पेलवो (adj) :	Delicate,tender (पेलव)
पेमं :	Love; affection: kindness: joy, pleasure (प्रेमन्)
पेमनीयो (adj) :	Affectionate
पेसकारो :	A weaver (पेशस् + कार)
पेसलो (adj) :	Beautiful, delightful, amiable; skilful (पेशल)
पेसनं :	Sending, dispatching; message, dispatch (प्रेषण्)
पेसेति :	To send (प्रेषयति)
पेसी :	A piece of flesh or meat (पेशी)
पेसिका :	Rind or shell (पेशिका)
पेस्सं :	Servitude (प्रेष्य)
पेस्सिको :	A servant (प्रेष्य + इक)
पेस्सो :	A messenger, servant, slave, hireling, menial (प्रेष्य)
पेसुञ्जं + पेसुणेय्यं :	Back-biting, slander, evil speaking (पैशुन्य + पिशुन + एय)
पेटको :	A basket (पेटक)
पेतो :	Dead, departed (प्रेत)
पेत्तेय्यता :	Paternity
पेत्तेय्यो (adj) :	Paternal (पितृ + एय)
पेत्तिको :	Paternal, ancestral (पैतृक + पैत्र्य)
+ पेत्तियो (adj)	
पेत्तिविसयो :	The Preta realm or world
पेय्यालं :	This word answers to our Etcetera, or to the dotted line used, when words are intentionally omitted. It's etymology is exceedingly doubtful
पेय्यावज्जं :	Kindwordedness, kindness of language
पेय्यो :	See पिवति
पेय्यी (adj) :	Beloved, dear (प्रेयस्)
फग्गवो :	A sort of pot herb
फग्गुणो :	The month of Phalguna (फाल्गुण)
फलकं + को :	A board, slab; a shield (फलक)
फलं :	A certain measure or weight (पल)
फलं :	A fruit; grain; crop; produce: result; consequence: reward, profit, advantage: a testicle (फल)
फालनं :	Splitting, bursting
फालापेति :	To cause to be split or torn

फलाफलं + लानि :	Wild fruits, berries
फलारामो :	Fruit garden, orchard (फल + आराम)
फलति :	To split asunder, break open, burst; to bear fruit (फल्)
फलवा (adj) :	Bearing fruit (फलवत्)
फालेति :	To split, cut, severe, break open (फालयति)
फली :	Bearing fruit (फलिन्)
फलिको + का :	Crystal, quartz (स्फटिक)
फलिनो (adj) :	Bearing fruit (फलिन)
फलितो (adj) :	Bearing fruit or crop: fruitful; broken; grey grey-haired (फलिन + फलित)
फल्लति :	To bear fruit
फालो :	A ploughshare (फाल्)
फलु :	A knot or joint in a reed (परु)
फन्दनो (adj) :	Palpitating, trembling, agitated, unsteady (स्पन्दन्)
फन्दति :	To throb, palpitate, tremble, struggle (स्पन्द)
फणी :	A snake (फणिन्)
फणिञ्जको :	The plant Samirana (फणिञ्जक)
फणिन्दो :	A hooded snake, cobra (फणीन्द्र)
फाणितं :	The inspissated juice of the sugar-cane, raw sugar, molasses (फाणित)
फणो :	The hood of a cobra or snake
फरणं :	Pervading (स्फरण, स्फुरण)
फरसु :	A hatchet, axe (परशु)
फरति :	To flash, shine forth; to thrill or dart through, to pervade; to diffuse, send-forth, emit
फारुसकं :	Name of one of Indras groves (पारुषक comp पारुष्य)
फरुसो (adj) :	Harsh, unkind, fierce, savage; rough, rugged; severe, cruel (परुष)
फस्सनं :	Contact (स्पर्शन)
फस्सेति :	See फुसति
फस्सितो :	A derivative of स्पृश्
फस्सो :	Touch, contact (स्पर्श)
फासु (adj) :	Enviably, agreeable, pleasant, easy, comfortable (फासु)
फासुका :	A rib (पार्शुका or पर्शुका)

292 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

फासुको (adj) :	Pleasurable, agreeable, comfortable
फासुलिका :	A rib
फाति :	Increase, growth (स्फाति)
फेगु :	Empty, vain, poor (फल्गु)
फेनीलो :	The soap plant, sapindue Detergencs (फेनिल)
फेणो :	Foam, froth (फेन)
फीतो :	Prosperous (स्फीत)
फोटो :	A swelling, boil, tumour (स्फोट)
फोट्टुब्बं :	See फुसति
फुलिङ्गं :	A spark (स्फुलिङ्ग)
फुल्लितो :	Blossoming
फुल्लो :	Expanded, blown; split, broken (फुल्ल)
फुसना :	Touching, attaining (स्पृश + अन)
फुसति :	To touch; to reach (स्पृश्)
फुसितो :	पृषत
फुस्सितो (adj) :	Flowered, blossoming
फुस्सो :	Name of a Nakkhatta; name of a month; name of a Buddha (पुष्य)
फुटनं :	Tearing, bursting (स्फुटन)
फुटो (adj) :	Thrilled, pervaded
फुट्टो :	See फुसति
पि :	See अपि
पिबति :	See पिवति
पिच्चिला :	The silk cotton-tree, Bombax Heptophyllum (पिच्छिला)
पिचु :	Cotton (पिचु)
पिचुलो :	The tanarisk tree (पिचुल)
पिदहनं + पिधनं :	Covering, closing, fencing; sheath; a lid; cover (पिधान)
पिदहति :	To cover; to shut, close; to guard (पिधा)
पिधानं :	See पिदहनं
पिहा :	Desire, envy (स्पृहा)
पिहकं :	The spleen (प्लिहन् + क)
पिहेति :	To desire, to envy (स्पृह)
पिहितो :	See पिदहति
पिको :	The Indian Cuckoo (पिक)

पीळा :	Pain, suffering: wrong, injury (पीडा)
पिळका :	A boil, pimple, pustule (पिडका)
पिलक्खो :	The wave-leaved fig tree— ficus Infeetoria (प्लक्ष)
पीळनं :	Pressing or weighing on: oppresion (पीडन)
पिलन्धनं :	Wearing or putting on an ornament; ornament parure
पिलन्धति :	To put on or wear, to deck oneself (पिनह)
पिलवो :	A kind of duck (प्लव)
पीळेति :	To press, crush, weigh upon; to vex, to opress, ravage, harass, hurt (पीड)
पिल्लको :	A child or the young one of an animal
पिलोतिका :	A cloth, bandage (प्लोत + इका)
पीलु :	The tree careya arborea (पीलु)
पिलुवती :	To float (प्लु)
पिम्सापेति :	To cause to be ground, or bruised or crushed
पीणनं :	Satisfaction
पिनासो :	Cold in the head, catarrha (पीनस)
पिण्डचारिको (adj) :	Going about in search of alms (पिण्ड + चारिन् + क)
पिण्डको :	Incense, myrrh (पिण्डक)
पिण्डनं :	Rolling together, forming into a lump (पिण्डन)
पिण्डपातिको :	One who keeps the Pindapatikanga (पिण्डपातिक)
पिण्डपातो :	Food received in the alms bowl of a Buddhist monk (पिण्डपात)
पिण्डेति :	To roll into lump; to assemble (पिण्ड)
पिण्डिड :	A lump, mass (पिण्डिड)
पिण्डिका :	The nave of a wheel (पिण्डिका)
पिण्डियालोपो :	Morsels of food, broken, meat (पिण्डि + आलोप)
पिण्डो :	A lump, ball, mass; uniting, putting to gether; a lump of food, morsel; food given in alms: sustenance, livelihood the body (पिण्ड)
पीणेति :	To gratify, cheer, regale, please (प्रीणयति)
पिङ्गलो (adj) :	Reddish yellow, brown, tawny (पिङ्गल)
पिङ्गो (adj) :	Brown, tawny (पिङ्ग)
पिञ्जं :	A feather of a peacock's tail, a peacock's tail or train, a wing (पिच्छ)
पिञ्जरो (adj) :	Yellow, tawny (पिञ्जर)
पीनो :	Fat, bulky (पीन)
पिपासा :	Thirst (पिपासा)

294 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पिपासितो :	Thirsty (पिपासितं)
पिप्पलं :	Scissors, shears
पिप्पली :	The wave-leaved fig tree, long pepper (पिप्पली)
पिप्पलो :	The sacred fig tree, ficus Religiosa (पिप्पल)
पिसाचो :	A class of demons, a globia, sprite (पिशाच)
पिसङ्गो :	Brown, tawny (पिशङ्ग)
पिसितं :	Flesh (पिशित)
पिस्सा :	पि, अस्सा (from अयं)
पिसुनो (adj) :	Back-biting, calumnious, malicious (पिशुन)
पिता :	Father; a name of a Hindoo Brahma (पितृ)
पिटकत्तयं :	The three baskets or treasures, a name of Buddhist Scriptures (पिटक + त्रय)
पिटको :	See तिपिटकं
पितको (adj) :	Yellow (पीतक)
पितामहो :	A grandfather; a name of a Hindoo Brahma (पितामह)
पीतनको :	The heg-plum, Spondias Mangifera (पीतनक)
पीतनो :	Yellow orpiment (पीतन)
पितरा, पितरो :	See पिता
पीतसालो :	The tree terminalia Tomentosa (पीतशाला)
पीठकं :	A chair, stool (पीठक)
पीठं :	A chair, stool, bench; the counter of a shop (पीठ)
पिठरो :	A pot or pan (पिठर)
पिठससप्पी :	A cripple (पीठसर्पिन)
पीठिका :	A bench, stool; a platform, frame-work (पीठिका)
पिठीयति :	Is covered, is hindercd
पिति :	See पिटा
पीति :	Drinking (पीति)
प्रीति :	Joy, delight (प्रीति)
पीति (adj) :	Drinking (पीतिन्)
पितितो (adv) :	In the father's side (पितृतस्)
पीतो (adj) :	Yellow (पीत)
पीतो :	Drunk, swallowed (पीत)
पीतो :	Delighted (प्रीत)
पित्तं :	Bile, the bilious humour (पित्त)

- पिड्डको : A cake made of flour, a meal (पिष्टक)
- पिड्डं : See पिड्डो
- पिड्डं + पिड्डी : The back; the hinder part; the surface, top (पृष्ठ)
- पिड्डिका : Grits, porridge (पिष्टिका)
- पिड्डिको (adv) : From the back, from behind, behind
- पीड्डो : Ground, crushed (पिष्ट)
- पित्तिको : Bilious (पैत्तिक)
- पितु + पितुनं : See पिता
- पितुच्छा : Father's sister, aunt (पितृषसृ)
- पीत्वा : See पिवति
- पीवरो (adj) : Fat, bulky (पीवर)
- पिवासति : To be thirsty (पिपासति)
- पिवति + पिबति : To drink, imbibe, swallow, drink-in, enjoy, feast upon (पा)
- पियदस्सी : Name of one of the twenty four Buddhas (प्रियदर्शिन्)
- पियको : A kind of spotted deer; Nuclea cadamba; termivalia Tomantosa (प्रियक)
- पियालो : The Piyal tree, *Buchanania Latifolia* (प्रियाल)
- पियंवदो (adj) : Speaking kindly, affable (प्रियवादिन्)
- पियायति : To be fond of, to be devoted to, honour
- पियो : An oar
- पियो (adj) : Dear, beloved; agreeable, pleasant; kind, loving (प्रिय)
- पीयूसं : Ambrosia (पीयूष)
- प्लवङ्गमो + प्लवङ्ग : A monkey (प्लवङ्गम + प्लवङ्ग)
- प्लवति : To float; to soar; to spring; to vibrate, hover (प्लु)
- प्लव : A raft, float (प्लव)
- पो : Guarding, ruling (प)
- पोक्खरं : A lotus, *Nelumbium Speciosum*; the tip of an elephant's trunk: water: the body: the head of a drum (पुष्कर)
- पोक्खरणि : A lotus-pond, tank; reservoir (पुष्करिणी)
- पोक्खरसातको : Name of a bird (पुष्कर + साद + क)
- पोक्खरता : Beauty (पुष्कर + ता)
- पोक्खरो : The body of a lute (पुष्कर)
- पोङ्खानुपोङ्खं (adv) : Shot after shot
- पोणो : Sloping (प्रवण)
- पोनोभविको (adj) : Connected with re-birth in another existence (पौनर्भविक)

296 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पोराणो + :	Ancient, primeval, former (पौराण + क)
पोरणको (adj)	
पोरिसं :	Manliness, the height of a man with his arms extended over his head (पौरष)
पोरिसो + पोसो :	A human being, a man, a person (पौरुष)
पोरो (adj) :	Belonging to a town: urbane: polite (पौर)
पोरोहिच्चं :	The office of a Purohita (पौरोहित्य)
पोरोहितो :	A Purohita or priest (पौरोहित)
पोसको (adj) :	Nourishing (पोषक)
पोसनं :	Nourishing (पोषण)
पोसति :	To feed, nourish, support, cherish, bring up (पुष्)
पोसावनं :	Supporting, cherishing
पोसो :	See पोरिसो
पोटगलो :	The grass Sacctirum Spontaneum (पोटगल)
पोतको :	The young of any animal (पोतक)
पोथनं :	Beating
पोथेति :	To strike, beat (पोथयति)
पोथेति :	To speak many languages
पोठेति :	To crack: snap; to knock, to throw (स्फोटयति)
पोठिलो :	A proper name
पोथुज्जनिको + :	Belonging to an unconverted person
पुथुज्जनिको (adj)	
पोतिका :	See पोतको
पोतो :	The young of an animal: a boat, ship (पोत)
पोत्थकारो :	A modeller in clay (पुस्त + कार)
पोत्थको + कं :	A manuscript, a book; working in clay, modelling etc. (पुस्तक)
पोत्यालिका :	A doll or puppet
पोत्थं :	Plastering, working in clay, modelling (पुस्त)
पोट्टपादो :	Name of a month (प्रोष्टपाद)
पुब्बाचरियो :	Ancient teacher, scholar of previous times (पूर्व + आचार्य)
पुब्बद्धो :	Upper-part (पूर्वार्ध)
पुब्बजो :	Older, elder (पूर्वज)
पुब्बको :	Former, accompanied by (पूर्वक)
पुब्बङ्गमो (adj) :	Going before, preceding, prior: leading, chief (पूर्वङ्गम)

पुब्बण्हो :	Forenoon, morning (पूर्वाण्ह)
पुब्बण्णं :	A name given to the seven Dhannas, rice etc. (पूर्व + अन्न)
पुब्बन्तो :	Beginning, the east (पूर्वान्त)
पुब्बापरो (adj) :	First and last, preceding and following, successive mutual (पूर्वापर)
पुब्बवुत्तको (adj) :	Before mentioned (पूर्व + उक्त + क)
पुब्बो :	Pus, matter (पूय)
पुब्बो :	First, foremost, eastern; earlier, former, preceding; ancient, customary: at the end of a compound means preceded by, attended by, accompanied by (पूर्व)
पुब्बुत्तरो (adj) :	North-eastern (पूर्वोत्तर)
पुब्बुट्ठायी (adj) :	An epithet of a faithful servant - one who rises earlier than his master; getting up from his seat when he sees his master approach (पूर्व + उत्थायिन्)
पुच्छा :	Questioning, a question (पृच्छा)
पुच्छको (adj) :	Asking (पृच्छक्)
पुच्छनं :	Asking, inquiring (पृच्छन्)
पुच्छति :	To ask, to question, to ask about or for (प्रच्छ्)
पुच्छो + पुच्छं :	A tail (पुच्छ)
पुचिमन्दो :	The Nimba-tree (पिचुमन्द)
पुगलिको (adj) :	Connected with an individual
पुगलो :	An individual or person as opposed to a multitude or class; a creature, being, man (पुद्गल)
पूगो :	A multitude; the arcea nut-tree (पूग)
पूजा :	Attention, care; veneration; offering (पूजा)
पूजको (adj) :	Honouring (पूजक)
पूजना :	Veneration (पूजन)
पूजेति :	To honour, revere; to honour with, to present with: to offer; present (पूज्)
पुक्कसो :	A man of the Pukkusa caste (पुक्कस)
पुळवो :	A worm, maggot
पुलिनं :	Sand bank; island of alluvial formation in a river (पुलिन)
पुल्लिङ्गं :	Male sex: masculine-gender (पुल्लिङ्ग)
पुलोमो :	The asura Vepacitta (पुलोम)
पुमा :	A male, a man (पुंस्)

298 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पुन, पुनो :	Before a vowel Punar and Punad (adv)—again, anew, afresh; back: after that, next, further, moreover (पुनर्)
पुनब्बसु :	Name of a Nakkhatta (पुनर्वसू) —also name of one of Gautama Buddha's earliest converts
पुनभवो :	Renewed existence, re-birth, transmigration (पुनर्भव)
पुन्ननवा :	Hogweed, medicinal plant (पुनर्नव)
पुनप्पुनं + न (adv) :	Again and again, repeatedly (पुनर् + पुनर्)
पुनरुत्तो + :	Repeated (पुनरुक्त)
रुत्तको (adj)	
पुनाति :	To purify (पू)
पुञ्छनं :	Wiping, cleaning; a towel (प्रोञ्छन्)
पुञ्छति :	To wipe (प्रोञ्छ्)
पुण्डरिकं :	A white lotus flower; one of the Buddhist high numerals, one followed by 112 ciphers (पुण्डरिक)
पुण्डरिकिनी :	A pond of white lotuses (पुण्डरिक + इन्)
पुण्डरिको :	A fragrant kind of mango; a tiger (पुण्डरिक)
पुङ्गवो :	A bull; at the end of a compound, best, chief (पुङ्गव)
पुञ्जो :	Heap, mass, multitude (पुञ्ज)
पुङ्खो :	The feathered part of an arrow (पुङ्ख)
पङ्कोकिलो :	See पुमा
पुन्नागो :	The tree Rottleria Tinctoria (पुन्नाग)
पुन्नमा :	The day or night of a full moon (पूर्णमा)
पुन्नपंसुको :	See पुमा
पुञ्जता :	Meritoriousness, merit, good works (पुण्यता)
पुञ्जवा (adj) :	Meritorious, righteous; fortunate (पुण्यवत्)
पुण्णो :	Full, fulfilled, complete, entire (पूर्ण)
पुञ्जो (adj) :	Good, virtuous: just, righteous, meritorious, pure, holy (पुण्य)
पुनो :	See पुना
पूपियो :	A cake-seller, confectioner (पूप + य)
पूपो :	A cake, sweet-meat (पूप)
पुष्पं :	A flower; the menses (पुष्प)
पुष्पनं :	Flowering

पुष्फति :	To blossom (पुष्प)
पुष्फवति :	A menstruous woman (पुष्पवती)
पुष्फी (adj) :	Bearing flowers (पुष्पिन्)
पुरा (adv) :	Formerly, previously, in a former existence (पुरा)
पुरक्खरोति :	To put in front, to make a person one's leader, to follow, revere, honour (पुरस्कृ)
पूरको (adj) :	Filling, completing (पूरक)
पूरळासो :	A sort of offering made by Brahmins (पुरोडास)
पूरं :	A town, city, fortress; a house (पुर)
पूरणं :	Filling (पूरण)
पूरापेति :	To cause to be filled
पुरस्सरो (adj) :	Going in advance (पुरःसर)
पुरातनो (adj) :	Ancient, pristine (पुरातन)
पूरति :	To be filled, to get full; to be fulfilled (पूर्यते = पृ)
पुरतो (adv) :	Before, in front, in the presence of (पुरतस्)
पुरत्था (adv) :	In front; first and foremost: on the east: formerly (पुरस्तात्)
पुरत्थतो (adv) :	Eastward
पुरत्थिमो (adj) :	Eastern (पुरस्तात् + इम)
पुरट्ठित्तो (adj) :	Standing before (पुरस् + स्थित)
पुरे :	Loc from Puram
पुरे (adv) :	Formerly, previously, first, originally: in front, before (पूरस्)
पुरेभत्तं :	Before the morning meal (पूरस् + भक्त)
पुरेचारि (adj) :	Preceding, leading (पुरस् + चारिन्)
पुरेचारिको (adj) :	Leading
पुरेचरो (adj) :	Leading (परस + चर)
पुरेद्वारं :	Front-door (पुरस् + द्वार)
पुरेगामी (adj) :	Preceding, leading (पुरोगामिन्)
पुरेक्खारो :	Precedence, preference, deference (पुरस्कार)
पुरेत्तरं (adv) :	Forward, further, in front; before, sooner (पुरस्तर)
पूरति :	To fill, to complete, to fulfill, to attain (पूरयति)
पुरी :	A town (पुरी)
पुरिमको (adj) :	Previous
पुरिमो (adj) :	Former, preceding, foremost, first, eastern (पुरस + इम)

300 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

पुरिन्ददो :	A name of Sakka or Indra
पुरिसाजञ्जो :	This word means A man of noble birth, a superior, distinguished man
पुरिसत्तं :	Manhood, virility (पुरुष + त्व)
पुरिसो :	A man: a person; individual, an attendant (पुरुष)
पुरितो :	See पुरेति
पूरो (adj) :	Full (पूर)
पूरोहिच्चं :	See पुरोहिच्चं
पूरोहितो :	A Brahmin who is a king's domestic chaplain (पुरोहित)
पुरुत्तमं :	A noble or splendid city (पुर + उत्तम)
पुटभेदनं :	A town (पुटभेदन)
पुटकं :	A small basket made of a rolled leaf (पुटक)
पुथग :	See पुथु
पुथक्कातब्बो (adj) :	That ought to be separated (पुथक् + कर्तव्य)
पुथवी :	See पठवी
पुथु :	And before a vowel sometimes Puthag- (adv) separately, without, except (पुथक्)
पुथु (adj) :	Broad, extensive, great, big: abundant, numerous (पुथु)
पुथुभूतो (adj) :	Separated (पुथक् + भूत)
पुथुभूतो (adj) :	Become great: become numerous (पुथु + भूत)
पुथुगत्तता :	Discrimination (पुथगात्मता)
पुथुज्जनिको :	See पोथुज्जनिको
पुथुज्जनो :	A man of lower classes, or of low character; a common or ordinary man, one who is yet unconverted as opposed to one who has entered the paths, a worlding, natural or unsatisfied man (पुथग्जन)
पुथक्करणं :	Separation (पुथक्करण)
पुथुको :	A child; rice in the ear (पुथुक)
पुथुलो (adj) :	Broad, large (पुथुल)
पुथुलोमो :	A fish (पुथुरोमन)
पुथुवासनं :	A large seat or chair (पुथुवासन = पुथु + आसन)
पुथवी :	See पठवी
पुटी :	A vessel, cup (पुटी)
पूटि (adj) :	Stinking, foul, putrid (पूति)
पूटिको :	Stinking, foul (पूतिक)

पूटो + पूटं :	A cup, vessel, basket (पुट)
पूतो :	Clarified, clean, pure (पूत)
पुत्तदारो :	Son and wife, wife and child (पुत्रदार)
पुत्तको :	A little son: a beloved son (पुत्रक)
पुत्तत्तं :	Sonship (पुत्र + त्व)
पुट्टो :	Nourished
पुत्तिको (adj) :	Connected with sons (पुत्र + इक)
पुत्तिमो (adj) :	Having sons (पुत्र + इस)
पुत्तियति :	To treat as a son (पुत्रीयति)
पुत्तियो (adj) :	Relating to or connected with sons (पुत्रिय)
पुत्तो :	A son, a child (पुत्र)
पूवको :	A cake (पूप + क)
पूविको :	A cake seller, confectioner (पूप + इक)
पूवो :	A cake, sweatmeat (पूप)
पूयो :	Pus (पूय)

R

रचना :	A literary production, composition (रचना)
रचति :	To prepare, compose (रच्)
रचयिता :	Composer, author (रचयितृ)
रच्छा :	A street (रथ्या)
रदनो :	A tooth (रदन)
राधितो :	Accomplished, performed (राधयति)
रदो :	A tooth (रद)
रगा :	Name of one of Mara's daughter
रागो :	Dyeing, dye: colour; human passion, evil desire, greed, attachment, vest (राग)
रहदो :	A deep pool, a lake (हद्)
रहसि :	See र्हो
रहस्सो (adj) :	Secret, private (रहस्य)
रहितो :	Deprived of, without (रहित)
रहो :	Solitude, secrecy, privacy (रहस्)
राहु :	Name of an asura, who is supposed to cause eclipse by taking the sun and moon into his mouth; the ascending mode of the moon (राहु)
राहुल :	Name of Gautama Buddha's son (राहुल)
राजा :	A king, a prince, a ruler, a governor (राजन्)
राजाभिराजा :	King of kings (राजाधिराज्)
राजभोग्गो :	A king's servant or minister, courtier (राजन् + भोग्य)
राजधम्मो :	Duty of a king (राजधर्म)
राजधानी :	A capital or Royal city (राजधानी)
राजगहं :	Name of the capital of Magadha (राजगृह)
राजगहिको (adj) :	Belonging to Rajgriha
राजगेहो :	A palace (राजगेह)
राजघरं :	A palace (राजन् + गृह)
राजहंसो :	A sort of goose or swan (राजहंस)
राजककुधभण्डं :	Symbol of royalty (राजन् + ककुद + भाण्ड)
राजक्खो (adj) :	Having defilement or passion (राजस्क)
राजको :	A washerman (राजक)

राजको :	A king (राजक)
राजकुलं :	A royal family; royal palace or household: a court of justice (राजकुल)
राजाणा :	Royal authority or punishment, inflicted by the king (राजन् + आज्ञा)
रजनं :	Colouring dye (रजन)
राजङ्गणं :	The court or quadrangle in a royal palace, a palace yard (राजङ्गण)
रजनी :	Night (रजनी)
रजनीयो :	Lustful (रजनीय)
राजञ्जो :	A Kshatriya (राजन्य)
राजानुराजं (adv) :	From king to king, during succession of kings (राजन् + अनु + राजन्)
रजापथो :	A narrow dark place (रजस् + पथ)
रजापेति :	To cause to be dyed
राजपुत्रो :	A king's son, a prince (राजपुत्र)
राजरूक्खो :	The tree, Cassia fistula
रजस्साला :	A menstruous woman (रजस्वला)
रजतं :	Silver (रजत)
रजति :	To colour, dye (रज्ज्)
राजति :	To shine (राज्)
राजत्तं :	Royalty (राजन् + त्व)
राजायतनं :	Name of a tree, apparently an umbrageous one (राजन् + आयतन्)
राजि :	A streak, line, row (राजि)
राजिलो :	Stupid (राजिल)
राजिनी :	A queen (राज्ञी)
राजीत्थि :	A royal lady (राजन् + स्त्री)
रज्जं + राजियं :	Sovereignty, royalty, monarchy, government; kingdom empire, country (राज्य)
रज्जङ्गं :	Requisites of regal administration (राज्याङ्ग)
रज्जु :	A rope, sting (रज्जु)
रज्जुको :	A sting
रजो + रजं :	Dust, dirt; the poller of flowers; human passion, impurity moral defilement, the menstrual flow (रजस्)

304 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

रजोहरणं :	Water (रजस् + हरण)
राजोरोधो :	Royal harem; a lady of the royal harem (राजन् + अवरोध)
रजोवज्जलं :	Dust and dirt
राजुलो :	An amphisbana, a sort of lizard without legs (राजिल)
राजूनं + राजुसु :	See राजा
राजुव्यानं :	A royal garden (राजन् + उद्यान)
रक्खा :	Protection (रक्षा)
रक्खको (adj) :	Protecting, guarding (रक्षक)
रक्खनको :	One who guards (रक्षण + क)
रक्खनं :	Protection, defence (रक्षण)
रक्खसो :	A Rakshasa, demon, ogre (राक्षस्)
रक्खति :	To protect, guard; to ward off; to keep, preserve: to beware of, guard against (रक्ष्)
रामणेय्यको (adj) :	Delightful (रमण + एय + क)
रामणीयकं :	Delightfulness (रमणीयक)
रमणीयो (adj) :	Delightful, beautiful (रमणीय)
रमणो :	Pleasing, charming (रमण)
रमति :	To enjoy oneself, to delight in (रम्)
रम्भा :	A banana or plantain tree, name of an Apsara (रम्भा)
रम्मको :	A name of the month Citta (रम्यक)
रम्मो :	Agreeable, beautiful (रम्य)
रामो :	Joy, delight (राम)
रंसि :	See रस्मि
रंसिमा (adj) :	Radiant (रश्मिन्)
रन्धं :	A hole, cavity; a fault, defect (रन्ध्र)
रन्धेति :	To make subject to; to hurt; destroy (रन्धयति)
रणोजि (adj) :	Victorious in battle (रणे + जित्)
रङ्गो :	Colour, paint; theatre, play-house (रङ्ग)
रञ्जनं :	Dyeing, delighting; red sandal-wood (रञ्जन)
रञ्जेति :	To dye redder, to illuminate; to gratify, charm; to conciliate (रञ्जयति)
रङ्क :	A species of deer (रङ्क)
रञ्जा + रञ्जो :	See (राजा)
रणो :	Sin, turmoil; battle, war (रण)

रसग्गसा :	A nerve of sensation (रस + ग्रस)
रसको :	A cook (रसक)
रसालो :	Sugar-cane (रसाल)
रसना :	The tongue (रशना)
रसना :	A woman's zone (रशना)
रसनं :	Taste, flavour (रसन)
रसातलं :	The infernal region or lower world (रसातल)
रसवती :	A kitchen (रसवती)
रासि :	A heap, quantity; a sign of the zodiac (राशि)
रसिको (adj) :	Spirited, witty (रसिक)
रसितं :	Thunder (रसित)
रस्मि + रंसि :	A rope, a rein, a bridle; ray of light (रश्मि)
रसो :	Sap, juice, best part or extract of a thing, essence, sweetness; liquid, fluid: juices of the body; quicksilver; flavour, taste (रस)
रस्सो (adj) :	Short (ह्रस्व)
रतनं :	A jewel; a precious or desirable thing (रत्न)
रतनिको (adj) :	A ratana in length
रथाचारि :	A charioteer (रथ + आचारिन्)
रथानीकं :	A array of chariots (रथानीक)
रधरेणु :	A very minute measure of weight, a mite (त्रसरेणु)
रथारोहो :	One who fights from a chariot (रथारोह)
रथेसभो :	A king
रथिका :	A carriage road or street (रथिक)
रथो :	A car, two-wheeled carriage, chariot (रथ)
रति :	Pleasure, love, attachment; sexual intercourse (रति)
रतिमा :	Having pleasure in (रतिमत्)
रतो :	See रमति
रत्तक्खी + :	With blood shot eyes, grim, fearful (रत्ताक्षिन, रत्ताक्ष)
रत्तक्खो (adj)	
रत्त :	Night (रात्र)
रत्तञ्जु (adj) :	Experienced (रात्र + ज्ञ)
रत्तपा :	A leech (रत्तप)
रट्ठं :	Kingdom, realm, country, land, district (राष्ट्र)

306 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

रत्ति :	Night (रात्रि)
रट्टिको + रट्टियो:	An inhabitant (राष्ट्रिक, राष्ट्रिय)
रत्तिदिवो :	A day and a night (रात्रिदिन)
रत्तो (adv) :	By night (रात्री)
रत्तो :	Coloured, dyed: red, agitated or inflamed by passion; fond of, attached to (रक्त)
रवा :	Noise (from रु)
रवति :	To cry, make a noise (रु)
रवि :	The sun (रवि)
रवो + रावो :	Noise, cry, shout (रव, राव)
रे (Interj) :	Heigh! hallow! (रे)
रेखा :	A line, streak (रेखा)
रेणु :	Dust, pollen (रेणु)
रेवती :	Name of a Nakkhatta (रेवती)
रिपु :	An enemy (रिपु)
रिरी :	Brass (रिरी)
रिते (adv) :	Except, without (ऋते)
रित्तको (adj) :	Empty (रित्तक)
रोचनो :	Shining (रोचन)
रोचति :	To appear good, please (रुच्)
रोदनं :	Weeping (रोदन)
रोदति + रुदति :	To weep, wail (रुद्)
रोधमं :	A bank or dam (रोधस्)
रोधनं :	Obstructing (रोधन्)
रोधो :	Stopping, obstruction (रोध)
रोगी (adj) :	Sick, ill (रोगिन्)
रोगो :	Disease (रोग)
रोहि :	The tree <i>Andersonia Rohitaka</i> (रोहि)
रोहिणी :	A red cow, name of a Nakkhatta (रोहिणी)
रोहितो :	A kind of deer (रोहिष)
रोहितको :	The tree <i>Andersonia Rohitaka</i> (रोहितक)
रोहितो (adj) :	Red (रोहित)
रोमं :	The hair on the body of men and animals (रोमन्)
रोमञ्चो :	Horripilation (रोमाञ्च)

रोष्णं :	See (रुष्णं)
रोपनं :	Planting (रोपण)
रोपेति :	To set up; to put in the ground, plant, sow (रोपयति)
रोरूवो :	Name of a Naraka (रौरव)
रोसको (adj) :	Wrathful (रोषक)
रोसनेय्यो (adj) :	Capable of being enraged; irritable
रोसनो (adj) :	Angry (रोषण)
रोसेति :	To annoy (रोसयति)
रोसो :	Anger (रोष)
रुच्चनको (adj) :	Pleasing, satisfying
रुच्चनं :	Choice, pleasure
रुच्चति :	See रोचति
रुचि :	Light, splendour, ray; desire; inclination, pleasure, preference (रुचि)
रुचिमा (adj) :	Brilliant (रुचि + तृ)
रुचिरो (adj) :	Brilliant, beautiful, agreeable (रुचिर)
रुदति :	See रोदति
रुद्धो :	Obstructed (रुद्र)
रुद्धो :	Furious (रुद्र)
रुधिरं :	Blood (रुधिर)
रुहति :	To grow up, flourish (रुह)
रुहो (adj) :	Growing (रुह)
रुजा :	Disease, pain (रुजा)
रुजति :	To cause: pain (रुज्)
रुक्खको :	A small tree (वृक्षक)
रुक्खमूलिको (adj) :	One who lives at the foot of a tree
रुक्खवा (adj) :	Having trees; wooded (वृक्ष + वत्)
रुक्खो :	A tree (वृक्ष)
रुक्खो :	Rough, cruel (रुक्)
रुन्धति + रुन्धीति :	To restrain, shut up (रुध्)
रुष्णं :	Weeping, lamentation
रुष्पकं :	A figure, image, representation (रुष्पक)
रुष्पं :	Form, figure, shape; image, representation; the body; in grammar a verbal or nominal form; beauty; natural state, characteristic (रुष्प)

308 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

रुपवा (adj) :	Having form, beautiful (रुपवत्)
रूपि :	Silver
रूपी :	Having beauty and form (रूपिन्)
रूपिका :	An image, statute
रूपियं :	Silver, bullion (रुप्य)
रूप्यनं :	Being formed
रुपुपजीविनी :	A harlot (रुपुपजीविनी)
रुरु :	A sort of deer (रुरु)
रुतं :	Cry, noise (रुत)
रुद्धो :	Enraged (रुष्ट)

S

- स : Own
- स : See (सो)
- स : A prefix much used in the first part of compound adjectives and adverbs and generally conveying the idea of possession or similarity (स)
- सा : A dog (श्वन्)
- सवल (adj) : Variegated, mottled (शवल)
- सबभूमो : A universal monarch (सर्व + भूमि + अ)
- सबबदा : Always (सर्वदा)
- सबबधि (adv) : Everywhere, on every side, in every respect
- सबबको (adj) : All, every (सर्वक)
- सबबङ्गपच्चङ्गि (adj) : Provided with greater or less requisites of or members, complete in all parts
- सबबज्जहो (adj) : Leaving everything
- सबबज्जू (adj) : Omniscient (सर्वज्ञ)
- सबबज्जुता + ज्जूता : Omniscience (सर्वज्ञता)
- सबबसो (adv) : Wholly, altogether, from beginning to end, throughout (सर्वशस्)
- सबबथा : In every way, throughly (सर्वथा)
- सबबथत्ता (adv) : In every way (सर्वथा + त्व)
- सबबतो (adv) : From every side (सर्वतस्)
- सबबत्ता : Identification of all beings with oneself i.e. universal goodwill (सर्व + आत्मन् + ता)
- सबबत्था + सबबत्र : Everywhere (सर्वत्र)
(adv)
- सबबत्थकं (adv) : Everywhere
- सबबावा (adj) : Entire
- सबभि : See सन्तो
- सबभूतो (adj) : Real, true (सद्भूत)
- सबबो (adj) : All, every; whole, entire (सर्व)
- सभा : An assembly; a hall, court, mansion; a court of justice (सभा)
- सभागो (adj) : Common, shared by all, identical (स + भाग)
- सभागो : Own share (स्व + भाग)

310 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सभाजनं :	Courtesy (सभाजन)
सभत्तो (adj) :	Accepting an invitation to a meal
सभावो :	Natural state, nature (स्वभाव)
सभायं :	A hall of assembly
सभिक्षुको (adj) :	Containing monks (स + भिक्षु + क)
सभोगो :	Wealthy (स + भोग)
सभ्यो (adj) :	Polite, well-bred, refined (सभ्य)
सब्रह्मचारी :	One who practices religious duties in association with others, fellow student, fellow priest (सब्रह्मचारिन्)
सब्रह्मको (adj) :	Including the Brahma world (स + ब्रम्हन् + क)
सच्चकारो :	Retification; pledge, earnest (सत्यकार)
सच्चकिरिया :	Truth, act, asseveration (सत्य + क्रिया)
सच्चापनं :	Ratification of a bargain (सत्यापन)
सच्छन्दो (adj) :	Self-willed (स्वछन्द)
सच्छिकरोति :	To bring before one's eyes, to see face to face, realize, experience, attain
सच्चो (adj) :	True (सत्य)
सचे (Indee) :	If (स + चेतु)
सचेतनो (adj) :	Conscious, animate, rational (सचेतन)
सचित्तं :	One's own mind or heart or thoughts (स्व + चित्त)
सचिवो :	A minister, statesman (सचिव)
सदा (adj) :	Always (सदा)
सदाचारो :	Good-manners, right or virtuous conduct (सदाचार)
सदनं :	A house (सदन)
सादानो (adj) :	Having attachment to the world, worldly, unconverted (स + आदान)
सदारो :	One's own wife (स्वदार)
सादरो (adj) :	Reverential; affectionate; enthusiastic (सादरो)
सदातनो (adj) :	Perpetual (सदातन)
सदत्थो :	One's own advantage or good (स्व + अर्थ)
सद्दहति :	To believe have faith (श्रुत् + धा)
सद्दलो (adj) :	Grassy (शाद्वल)
सद्दनं :	Making a noise (शब्दन्)

सद्धा :	Faith (श्रद्धा)
सद्धालू (adj) :	Believing (श्रद्धालु)
सद्धं :	Alms offered to Petas (श्रद्ध)
सद्धं :	Indeclinable with the sense of Anukulya
सद्धम्मो :	Good doctrine, true religion, the true faith, the religion of Buddha; good condition (सत् + धर्म)
सद्धायिको (adj) :	Trustworthy (श्रद्धा + इक)
सद्धिं (adv) :	With (सार्धम्)
सद्धिविहारी + :	A fellow or brother priest, one who lives at the same
विहारीको	monastery with another (सार्धम + विहारिन + विहारिक)
सद्धो (adj) :	Faithful, believing (श्रद्धा)
साद्धो, साद्धंयो :	Practicable (साध्य)
+ साधियो	
सद्धो :	Word, sound, noise, voice (शब्द)
सद्धूलो :	A leopard (शार्दूल)
सादेति :	See सिदति
सदेवको (adj) :	Together with the Devas or devaworld (स + देव + क)
सदेविको (adj) :	Accompanied by his queen (सदेविक)
साधको (adj) :	Accomplishing (साधक)
सधम्मी (adj) :	Practicing similar duties (सधर्मिन्)
साधनं :	Accomplishment, effecting; materials (साधन)
सधनो (adj) :	Rich (सधन)
साधारणो (adj) :	Common, joint, general (साधारण)
साधेति :	To accomplish, to effect, to prepare (साधयति)
साधिय्यो :	Better साधियस + साधिक
साधिद्धो :	Best
साधु :	Good; excellent, right, proper; reputable, well-born (साधु)
साधुकं (adv) :	Well, thoroughly (साधु + क)
साधुकारो :	Approval, congratulations (साधु + कार)
साधुतरो (adj) :	Better (साधु + तर)
सादिक्खो :	Similar (सदृश)
+ सारिक्खो (adj) :	
सदिसता :	Similarly (सदृशता + सदृशत्व)
+ सदिसत्तं	

312 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सदिसो :	Similar, like (सदृश)
सादिस्सं :	Resemblance (सादृश्य)
सादियति :	To be willing, like, acquiesce, accept, persuit
सादो :	Taste (स्वाद)
सादु (adj) :	Sweet, agreeable (स्वादु)
सदुमं :	A house (सद्वन्)
सगब्भो :	A uterine brother (सगर्भ)
सागला + सागलं :	Name of the capital of king Milinda (शाकल)
सगन्धको (adj) :	Fragrant (सगन्ध + क)
सगणो (adj) :	Having a retinue; attended by an army (सगण)
सगारवो (adj) :	Respectful (स + गौरव)
सागरो :	An ocean (सागर)
सगाथको (adj) :	Containing gathas (स + गाथा + क)
सग्गो :	Abandonment; natural state, nature; making, creating, chapter, section (सर्ग)
सग्गो :	Heaven, paradise (स्वर्ग)
सग्गुणो :	Good quality (सद्गुण)
सगोत्तो :	A kinsman (सगोत्र)
सह (adv) :	With, together with (सह)
सहभावो :	Endurance (सहभाव)
साहचरियं :	Association (साहचर्य)
सहधम्मिको (adj) :	Practising the same religious duties (सहधर्मिन् + क)
सहधेनुको :	Accompanied by a cow (सह + धेनु + क)
सहगामी :	Accompanying (सहगामिन्)
सहजाति :	Name of a town in India (सहजात)
सहजातो (adj) :	Born at the same time (सहजात)
सहजीवी (adj) :	Living with (सह + जीविन्)
सहजो :	Uterine brother (सहज)
सहकारो :	A sort of fragrant mango tree (सहकार)
सहं :	Power (सह, सहस्)
साहं :	See सो
सहम्पति :	An epithet of Mahabrahma
सहनं :	Endurance (सहन)
सहसा :	Hastily, arbitrarily (सहसा)

साहसं :	Violence; punishment, fine (साहस)
साहसिको (adj) :	Violent, cruel ferocious (साहसिक)
सहस्सथा (adv) :	In a thousand ways (सहस्रथा)
सहस्सं :	A thousand (सहस्र)
साहस्सिको (adj) :	Belonging to a thousand, casting a thousand (सहस्र + इक)
सहति :	To bear, endure, resist, overcome (सह)
सहत्थो :	One's own hand (स्वहस्त)
सहव्यता :	Companionship
सहायको :	A companion, ally, friend (सहायक)
सहायता + सहायत्तं :	Companionship (सहाय + त्व)
सहायो :	A companion, ally, friend (सहाय)
सहेतुको (adj) :	Having a cause (सहेतुक)
सहिरिको (adj) :	Modest (स + हीका)
सहितो (adj) :	Endowed with, accompanied by; united (सहित)
सहो (adj) :	Enduring (सह)
सहोदको (adj) :	Containing water (सह + उदक)
साहु (adj) :	Good
सजलो (adj) :	Water (सजल)
सजनो :	Kinsman (सजन)
सजति :	To cling (सज्ज्)
सजाति :	Of the same class or species
+ सजातिको	
+ सजतियो (adj)	
साजीवं :	Rule of life, precept governing the monastic life of the Buddhist priests (स + आजीव)
सजीवो (adj) :	Alive; living with (सजीव)
सज्जनं :	Decking, equipping (सज्जन)
सज्जनो :	Well-born, respectable, good, virtuous (सज्जन)
सज्जति :	See सजति
सज्जेति :	To prepare, equip, deck (cav सज्ज्)
सज्झं + सज्झु :	Silver
सज्झायति :	To repeat, release, read aloud (स्वाध्याय)
सज्झायो :	Repetition, rehearsal (स्वाध्याय)
सज्झु :	See सज्झहं

314 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सज्जो (adj) :	Diligent
सज्जो :	The sal tree, shorea Robusta (सर्ज)
सज्जो (adj) :	Prepared, ready, equipped, decorated (सज्ज्)
सज्जु, सज्जुकं (adv) :	Instantly, immediately, quickly, suddenly
सज्जुलसो :	Resin (सर्जरस्)
सकबलो (adj) :	Containing a mouthful, full (स + कवल)
साकच्छा :	Conversation
सकदागामी (adj) :	Returning once (सकृदागामिन्)
सकलो :	All (सकल)
सकलो + सकलं :	A potsherd; a portion (शकल)
साकल्यं :	Totality (साकल्य)
सकरणीयो (adj) :	Having duties to perform (स + करणीय)
साकारो :	With its characteristics (साकार)
साकासो (adj) :	Near (सकाश)
सकटं :	A cart, waggon; a measure of capacity, a cart load (शकट)
साकटानो :	A proper name (शाकटायन)
साकटिको (adj) :	Belonging to a cart (शाकटिक)
सकत्ता :	One's ownself (स्वक + आत्मन्)
सकस्थो :	One's own object or advantage (स्वक + अर्थ)
साकेतं :	Name of the city of Ayodhya (साकेत)
सखा :	Companion, friend (सखा)
साखा :	Branch (शाखा)
साखल्यं :	See सखिलो
सखी :	A female friend (सखी)
साखी :	A tree (शाखिन्)
सखिलो (adj) :	Friendly (सखि + ल)
सकिं (adv) :	Atonee; simultaneously (सकृत)
सकिञ्चनो (adj) :	Having something, wealthy (स + किञ्चन)
सकियो (adj) :	Own (स्वकीय)
साकियो, सक्यो, + :	Name of the princely family to which Gautama Buddha belonged (शाक्य)
सक्को	
सक्का :	See सक्को
सक्कच्चं (adv) :	Respectfully, attentively, carefully, zealously, thoroughly
सक्कारो :	Hospitable reception, hospitality, honour, festival (सत्कार)

सक्करोति :	To receive hospitality, to honour, revere (सत्कृ)
सक्कतञ्जु (adj) :	Acquainted with the Sanskrit language (संस्कृत + ज्ञ)
सक्कति :	To go
सक्कति :	See सक्कोति
सक्कतो :	Entertained, honoured (सत्कृत)
सक्कतो + सक्कटो :	Sanskrit (संस्कृत)
(adj)	
सक्कतं :	Shakraship (शक्र + त्व)
सक्कायो :	Own body or person (स्व + काय)
सक्खरा :	A potherd; gravel; clayed or brown sugar, juggery, sugar (शर्करा)
साक्खरप्पभेदो (adj) :	To-gether with the distinction of letters (स + अक्षर + प्रभेद)
सक्खि, :	See सक्कोति
सक्खिस्सति	
सक्खी :	A witness (साक्षिन्)
सक्को :	Shakra or Indra (शक्र)
सक्को :	Able; possible
सक्कोति + सक्कति :	To be able or competent
+ सक्कुणाति	
सको (adj) :	Own (स्वक)
साको + साकं :	A pot herb (शाक)
सकुब्बं :	See सा
सकुणग्धी :	A kind of hawk (शकुन + घ)
सकुणी + :	A bird (शकुनि + शकुनि + क)
सकुणीको	
साकुणीको :	A fowler (शाकुनिक)
सकुणो :	A bird (शकुन)
सकुन्त :	A bird, the Indian vulture (शकुन्त)
साक्यपुत्तिको :	Belonging to the Shakya prince (शाक्य + पुत्र + इक)
+ पुत्तियो	
साक्यो :	See साकियो
साला :	A house, hail, room (शाला)
सलभ :	A grasshopper or moth (शलभ)
सलाभो :	One's own advantage, self gain (स्व + लाभ)

316 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सलाका :	A peg, slip, bit of wood; a blade or sprout (शलाका)
सालाकियं :	A branch of surgery (शालाक्य)
सलक्खणं :	See सामञ्जो
सलं :	A porcupine quill (शल)
सालपण्णी :	The shrub <i>Hedysarum gangeticum</i> (शालपर्ण)
सलाटु (adj) :	Unripe (शलाटु)
सळायतनं :	The six organs of sense (षडायतन)
सालेय्यो (adj) :	Fit for rice (शालेय)
सालि :	Rice, especially, hill Paddy (शालि)
सालिका :	The Mayna bird, <i>Gracula Religiosa</i> (शारिका)
सलिलं :	Water (सलिल)
सल्लहुको (adj) :	Light (सं + लधु + क)
सल्लकत्तियं + कं :	The art of the surgeon or physician
सल्लकत्तो :	A surgeon or physician (शल्य + कर्तृ)
सल्लकी :	The tree <i>Boswellia Thurifera</i> (शल्लकी)
सल्लक्खं :	Distinguishing, testing (संलक्षण)
सल्लखेति :	To observe, perceive, distinguish, consider, intend (संलक्ष्)
सल्लको :	A porcupine (शल्यक)
सल्लं :	A javelin; an arrow; a stake, a splinter (शल्य)
सल्लपत्ति :	To talk with (संलप्)
सल्लापो :	Conversation (संलाप्)
सल्लवेज्जो :	A surgeon or physician (शल्य + वैद्य)
सल्लेखियं + सल्लेखो :	Scartching out, erasing
सल्लीनो :	Bent together, cowering, depressed (संलीन)
सल्लो :	A javelin, arrow, stake; a porcupine (शल्य)
सालो :	The tree shorea, Robusta; a tree in general (शाल)
सालो :	A brother-in-law (श्याल)
सालोहितो :	A blood or near kinsman, sapinda
सालूकं :	Root of the water-lily (शालूक)
साळुरो :	A dog
सम् :	With, together (सम्)
सं (Indee) :	Happily (शम्)
सं :	See सो
समा :	A year (समा)

सामा :	See सामो
समभिसिञ्चति :	To sprinkle or inaugurate as a king (सम् + अभि + सिच्)
समभिवाङ्केति :	To encourage (समभिवर्धयति)
समभिवाही (adj) :	Leading up together (सम् + अभि + वाहिन्)
समाचरणं :	Good manners (समाचरण)
समाचरति :	To follow, practice; to act, behave (समाचर्)
समचारी (adj) :	Living tranquilly (शम + चारिन्)
समचरिया :	Living tranquilly (शम + चरिया)
समाचारो :	Conduct, manners (समाचार)
सम्मच्छति :	To sit down (समास्)
समच्छिन्नो :	Cut off (समाच्छिद्)
सामच्चो (adj) :	Accompanied by ministers of state (सामात्य)
समाचिण्णो :	Practiced, performed (समाचीर्ण)
समाचितो :	Overspread (समाचित)
समाचित्तता :	Equanimity (समचित्तता)
समादहति :	To put to-gether (समाधा)
समादानं :	Undertaking; acquiring (समादान)
समादपेति :	See समदियति
+ समादाय	
समाधि :	Agreement, peace, reconciliation; tranquility, self-cocentration, calm (समाधि)
समधिगच्छति :	To attain (समधिगम्)
समाधिजो (adj) :	Originating in self-absorption (समाधि + ज)
समाधिको (adj) :	Connected with self-absorption (समाधी + क)
समाधिद्वहति :	To practice resolutely (समाधिष्ठा)
समाधियति :	See समादहति
समादिन्नत्तं :	Fact of having been undertaken
समादिसति :	To indicate, to command (समादिश्)
समादियति :	To take away; to take upon oneself: solemnly undertake (समादा)
समागच्छति :	To assemble; to associate with (समागम)
समागच्छो :	Assembly; intercourse, society (समागम)
सामग्गी :	Concord (सामग्गी)
समग्गो (adj) :	All, entire; friendly, harmonious, reconciled (समग्र)
समाहरति :	To collect to-gether (समाह)

318 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

समाहारो :	Collection (समाहार)
समाहितो :	Steadfast, firm, fixed; tranquil, attentive, established in (समाहित)
समजातिको (adj) :	Of equal birth, of the same caste (समजाति + क)
समाजिको :	A member of an assembly (समाजिक)
समज्जा :	An assembly (समज्या)
समाजो :	An assembly (समाज)
समाकड्ढति :	To pull along; to attract; entice (समाकृष्)
समाकिण्णो :	Covered, crowded (समाकीर्ण)
समको (adj) :	Equal, same, similar (सम + क)
समाकुलो (adj) :	Covered, filled (समाकुल)
समलङ्करोति :	To adorn splendidly; decorate (सम + अलं + कृ)
समालपति :	To speak (समालप्)
सामलता :	The creeper Ichnocarpus (श्यामलता)
सामलो (adj) :	Brown, dark (श्यामल)
समं :	See समो
सामं :	Conciliation; name of one of the three Vedas (सामन्)
समणको :	A bad or contemptible, ascetic (श्रमण + क)
सामणको (adj) :	Belonging to a monk or Buddhist priest, monachal, sacerdotal (श्रमण + क)
समनं :	Stopping, suppression (शमन)
समणमचलो :	Shramana Rock-an epithet of the Sotapanna
समनन्तरा + तरं (adv) :	Immediately after
समानत्तता :	Impartiality, feeling towards others as towards oneself (समान + आत्मन् + ता)
सामणरो :	A Buddhist monk in dicons orders, a novice, neophyte (श्रमण + ष्य)
समानेति :	To bring to-gether; put to-gether: to assemble, compare (समानी)
समङ्गी (adj) :	Possessing, endowed with (सम् + अङ्ग + इन्)
समणी :	See समणो
समज्जा :	Name, designation, term (समाज्ञा)
समन्नागतो :	Endowed with (समन्वा + गत)

सामञ्जं :	Shramanship, state of being an ascetic or a Buddhist priest (श्रमण + य)
सामञ्जता :	Shramanship
समन्नेसति :	To seek (समन्विष्)
सामञ्जेव :	Of one's own accord
सामञ्जो (adj) :	General, universal, common (सामान्य)
समणो :	An ascetic, a Buddhist ascetic or monk, a Buddhist priest (श्रमण)
समानो (adj) :	Similar, equal, same (समान)
समानो :	Being
समन्तो (adj) :	Entire, all (समन्त)
सामन्तो :	Neighbouring, bordering (सामन्त)
समनुबन्धति :	To start to-gether in pursuit (समनु + बन्ध)
समनुभासना :	Addressing
समनुभासति :	To join in addressing a person (समनु + भाष्)
समनुग्गाहियमानो :	Being taken up
समनुञ्जतो :	Approved, allowed (समनुज्ञात)
समनुपस्सना :	Consideration
समनुपस्सति :	To see, perceive (समनुद्दश)
समनुसासति :	To direct, rule, exhort (समनुशास्)
समनुयुञ्जियमानो :	Being inquired about
समन्वितो :	Possessed of (समन्वित)
समापज्जति :	To come into, enter upon, undergo, attain (समापद्)
समापनं :	Conclusion, completion (समापन)
समापत्ति :	Attainment (समापत्ति)
समापेति :	To complete, conclude (समापयति)
समप्येति :	To put, deposit, fix; to consign, commit, deliver; to give back (समर्पयति)
समारभति :	To begin, undertake (समारभ्)
समारको (adj) :	Including the Mara world (स + मार + क)
समारम्भो :	Undertaking; injury, instruction (समारम्भ)
समरो + रं :	Battle (समर)
समारुहति :	To ascend (समारुह)

320 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

समसमो (adj) :	Exactly the same (सम + सम)
समासन्नो :	Near (समासन्न)
समासेथ :	Associate with the good
समासेति :	To abbreviate, condense
समास :	An abridgement (समास)
समास्सासेति :	To console, encourage: to relieve; refresh (समाश्वासयति)
समस्यति :	To be compounded (in gram) समस्यते
समता :	Sameness, equality (समता)
समतलं :	A level surface (सम + तल)
समथो :	Tranquility, calm, quietude; cessation
समतिक्रमति :	To cross over (समतिक्रम्)
समतिक्रमो :	Rising above, getting beyond (समतिक्रम)
समतिंस :	See समो
समतित्थिको (adj) :	Said of the ganges when quite brimming
समतिविञ्जति :	To penetrate (समति + व्यध्)
समत्तं :	Equality (सम + त्व)
समत्थनं :	Allaying disputes (समर्थन)
सामत्थियं :	Strength; ability, competence (सामर्थ्य)
समत्थो (adj) :	Fit, able, adequate, competent, strong; significant (समर्थ)
समत्तो :	Concluded; complete, entire, all (समाप्त)
समवद्वितो :	Ready (समवस्थित)
समवायो :	Combination; union; multitude (समवाय)
समवेपाकिनी (adj) :	Promoting good digestion (From समवैपाकीन्)
समवेति :	To be united (समवे)
समव्हयो :	A name (समाह्वय)
सामयिको (adj) :	Temporarily (सामयिक)
समयो :	Agreement, combination; multitude; season; time; custom, rule, religious obligation; order precept; religious belief, doctrine (समय)
समायोगो :	Combination, multitude (समायोग)
सम्बद्धो :	See सम्बन्धति
सम्बाधेति :	To oppress, afflict (सम्बाध्)
सम्बाहनं :	Rubbing the body, shampooing (संवाहन)
सम्बाहति :	To rub, shampoo (संवाह्)

सम्बहुलो (adj) :	Many (सम + बहुल)
सम्बलं :	Provision for a journey (शम्बल)
सम्बन्धनं :	Binding (सम्बन्ध् + अन)
सम्बन्धति :	To bind (सबन्ध)
सम्बन्धो :	Connection, relationship, kinship (सम्बन्ध)
सम्बरी :	Jugglery (शाम्बरी)
सम्बरो :	Name of an Asura (शम्बर)
सम्भगो :	Broken (सम्भग्न)
सम्भज्जति :	To be broken (सम्भज्यते)
सम्भमो :	Confusion, excitement; fear (संभ्रम)
सम्भारो :	Preparation; materials; necessaries, constituent parts, element (सम्भार)
सम्भासा + :	Conversation (सम्भाषा, सम्भाषण)
सम्भासनं	
सम्भत्तो :	Devoted, faithfully attached (सम्भक्त)
सम्भावना + नं :	Honour, fame; imagination, idea, reflection (सम्भावनं)
सम्भवति :	To arise, be produced, spring from; to meet with (सम्भू)
सम्भवो :	Production, birth: origin, cause: union, semen (सम्भव)
सम्भेदो :	Confluence of two rivers; difference (सम्भेद्)
सम्भिन्नो :	Broken, interrupted (सम्भिन्नो)
सम्भीतो :	Terrified (सम्भीत)
सम्भोगो :	Sensual enjoyment; happiness; use (सम्भोग)
सम्भू :	Progeny (सम्भु)
सम्भूज्जति :	To eat with (सम्भुज्)
सम्भूतो :	See सम्भवति
सम्बोधि :	Perfect knowledge or enlightenment; perception of the truth, attainment of Buddhahood; Buddhahood (सम् + बोधि)
सम्बोज्झो :	See बोज्झो
सम्बुद्धो :	Thoroughly known or understood; one who is thoroughly enlightened, has discovered the truth, a Buddha (सम्बुद्ध)
सम्बुद्धानं :	Knowing thoroughly (from सम्बुद्ध)
सम्बुको :	A bivalve-shell (शम्बुक)
समेच्च :	Having acquired, learnt, known (समेत्य = समे)
समेक्खितो :	Considered, reflected upon (समीक्षित् or समा + ईक्षित)

322 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

समेन :	See समो
समेति :	To meet to-gether: to harmonise: to be equal to; correspond with (समि)
समेति :	See सम्मति
समेतो :	Brought into contact with, connected with, possessing (समेत)
संहननं :	Striking, destroying (संहनन)
संहरति :	To collect; to fold, up (संह)
संहारो :	A compilation, abridgement (संहार)
संहति :	Assemblage, mass (संहति)
संहतो :	Firm, well-knit, compact (संहत)
संहितो :	See सन्दहति
समी :	The tree acacia suma (शमी)
सामि :	Half: blambly (सामि)
सामी :	Lord, master, owner: husband (स्वामिन्)
सामीचि :	Correctness, propriety, proper or respectful act or duty
समिद्धि :	Success; prosperity (समृद्धि)
समिद्धो :	See समिज्जति
समिधा :	Fire-wood (समिध्)
समिज्जनं :	Success, accomplishment
समिज्जति :	To succeed, prosper, take-effect (समृध्)
समिक्खं :	Investigation (समीक्ष)
सामिको :	Lord, master, husband (स्वामिक)
समिंसु :	See समेति
सामिनी :	See सामी
समिज्जति :	To be moved, tremble, falter (समिद्ध)
सामीपगो (adj) :	Approaching (समीपग)
सामीपको :	At the end of a compound
समीपट्ठो (adj) :	Standing near (समीपस्थ)
सामीपिको (adj) :	Proximate
समीपो (adj) :	Near (समीप)
समीरणो :	Air, wind: name of a plant (समीरण)
समीरति :	To be moved (समीर्)
समीरो :	Air, wind (समीर)
सामिसो (adj) :	Having food (स + आमिष)

समितं :	See समेति
समितत्तं :	State of being quelled or removed (शमित + त्व)
समिति :	Union; an assembly (समिति)
समितो = शमित :	See सम्मति
सम्म :	A term of familiar address used by equals or by a superior to an inferior, my good sir!
सम्मा :	The pin of a yoke (शम्या)
सम्मा :	Fully, thoroughly, accurately, rightly, properly well, really, truly (सम्यक)
सम्मदति :	To trample (सम्मृद्)
सम्मदेति :	To intoxicate, exhilarate (सम्मृद्)
सम्मदो :	Exhilaration (सम्मृद्)
सम्मगतो (adj) :	Walking rightly, living a blameless life (सम्यक् + गत)
सम्मज्जनं :	Sweeping (सम्मार्जन)
सम्मज्जनी + :	A broom (सम्मार्जनी)
सम्मज्जनी	
सम्मज्जति :	To sweep (सम्मार्जति)
सम्मानं + सम्माननं :	Honour, veneration (सम्मान + सम्मानन)
सम्मन्नति :	To agree to, decide, resolve; to sanction, approve, select (सम्मन्यति)
सम्मन्तेति :	To consult to-gether (सम्मन्त्र)
सम्मापासो :	See यागो
सम्मप्यधानं :	Right exertion (सम्यक + प्रधान)
सम्मसति :	To seize, grasp (सम्मृश्)
सम्मासति :	See सति
सम्मति :	To be appeased or calmed; to cease (शम्)
सम्मतो :	See सम्मन्नति
सम्मत्तं :	Correctness, truth (सम्यक्त)
समट्ठो :	See सम्मज्जति
समत्तो :	Delighting in, intoxicated with (सम्मत्त)
समिञ्जेति :	To bend back or together: double-up
सम्मिस्सो (adj) :	Mixed (सम्मिश्र)
सम्मोदति :	To agree with, be in harmony with, be friendly with (सम् + मुद्)
सम्मोहो :	Bewilderment, infatuation, error (सम्मोह)

324 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सम्मोसो :	Confusion
सम्मुखता :	Presence, confrontation (सम्मुख + ता)
सम्मुखो (adj) :	Face to face with, in the presence of (सम्मुख)
सम्मळ्हो :	See सम्मुह्यति
सम्मज्जनी :	See सम्मज्जानी
सम्मुति :	Consent, authorization; permission; choice, selection; general consent or use (सम्मति)
सम्मुह्यति :	To be stupefied, bewildered, paralysed (सम्मुह)
समो :	Tranquility (शम)
समो :	Toil, fatigue (श्रम)
समो (adj) :	Even, level; like, similar, same; equal; upright, just, impartial; full, complete, entire (सम)
सामो (adj) :	Black, dark (श्याम)
समोधानं :	Combination (समवधान)
समोधानेति :	To join, connect
समोकिरति :	To sprinkle all over (समवकृ)
समोरुह्य :	Having descended
समोसरणं :	Union junction
समोसरति :	To come together (समव + सृ)
समोतरति :	To descend, disembark (समवत्)
सम्पदा :	Success, happiness, blessing; successful attainment; success in obtaining; attainment, possession (सम्पद्)
सम्पदालेति :	To cleave, rend
सम्पदानं :	Giving (सम्प्रदान)
सम्पादनं :	Effecting, accomplishment, preparing, obtaining (सम्पादन)
सम्पादनीयो :	To be prepared or effected (सम्पादनीय)
सम्पादेति :	See सम्पज्जति
सम्पधूपायति :	To send forth clouds of smoke (सम्प्र + धूप)
सम्पटुट्टो :	Impure, wicked (सम्प्रदुष्ट)
सम्पगहो :	Favour, patronage (सम्प्रग्रह + अ)
सम्पहंसा + :	Satisfaction, pleasure, approval
सम्पहंस्रनं	
सम्पहंसेति :	To gladden, delight; to express approbation of a person, to praise (सम्प्रहर्षयति)
सम्पहारो :	Wounding; strife, battle (सम्प्रहार)

सम्पज्जं :	Consciousness, intelligence (सम्प्रजन्य)
सम्पजानो :	Knowing, understanding, conscious
सम्पज्जलितो :	Kindled, burning (सम्प्रज्वलित)
सम्पज्जति :	To turn out, happen; to succeed, prosper; to be obtained, fall into any one's possession (सम्पद्)
सम्पकम्पति :	To tremble, be shaken violently (सम्प्रकम्प)
सम्पकासितो :	Displayed (सम्प्रकाशित)
सम्पकिण्णो :	Strewn; crowded (सम्प्रकीर्ण)
सम्पक्खदनं :	Leaping forward, aspiration (सम्प्र + स्कन्द्+ अन)
सम्पालेति :	To protect, keep (सम् + पालयति)
सम्पापको (adj) :	Causing to obtain, bringing, procuring
सम्पापुणाति :	To attain; to come to, find, meet with (सम्प्राप्)
सम्परायिको (adj) :	Relating to the future state (साम्परायिक)
सम्परायो :	Futurity, the future state, future life, the next world (सम्पराय)
सम्परिवारेति :	To surround (सम्परिवारयति)
सम्परिवत्तति :	To roll oneself, grovel; to turn over, revolve (सम्परिवृत्)
सम्पसादनं :	Making serene, tranquillization
सम्पसीदति :	To be tranquilized, re-assured (सम्प्रसद्)
सम्पस्सति :	To behold, discern, see clearly (सम्पश्यति)
सम्पति (adv) :	Now (सम्प्रति)
सम्पटिच्छनं :	Assent
सम्पटिच्छति :	To assent, agree; to accept, receive, take (सम्प्रतीष्)
सम्पटिग्गहो :	Favourable reception, welcome (सम्प्रतिग्रह)
सम्पातो :	Fall, descent (सम्पात)
सम्पत्ति :	Success, prosperity, glory, magnificence, beauty; successful, attainment, (सम्पत्ति)
सम्पत्तो :	See सम्पापुणाति
सम्पवङ्को :	A friend, companion
सम्पवारेति :	To cause to refuse (Caus सम्प्र + वृ)
सम्पवत्तनं :	Causing to proceed (सम्प्रवर्तन)
सम्पवत्तेति (Caus) :	To set going (सम्प्रवर्तयति)
सम्पवेधति :	To be shaken violently (सम्प्रव्यथ)
सम्पवेधि (adj) :	Shaky, loose
सम्पयातो :	Gone away (सम्प्रयात)

326 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सम्प्रयोगो :	Union (सम्प्रयोग)
सम्प्रयुक्तो :	Connected with, dependent on, resulting from (सम्प्रयुक्त)
सम्फुल्ललापो :	Fivolous talk
सम्फुल्लसो :	Contact (सम्पर्श)
सम्फुल्लितो (adj) :	In full blossom
सम्फुल्लसति :	To come in contact with, touch (सम्पर्श)
सम्पिण्डति :	To be added together (सम्पिण्ड)
सम्पियो (adj) :	Friendly (सम्प्रिय)
सम्पूजति :	To venerate (सम्पूज)
सम्पूर्णो + :	Filled, full (सम्पूर्ण, सम्पूरित)
सम्पूरितो	
सम्पुटो :	A box, casket (सम्पुट)
संरहितो :	Deprived or devoid of (सम् + रहित)
संरक्षणं :	Preservation (संरक्षण)
संरम्भो :	See सारंभो
संरावो :	Uproar (संराव)
संसदो :	Session, assembly (संसद + अ)
संसर्गो :	Connection, conjunction, association (संसर्ग)
संसहो (adj) :	Able (सम् + सह)
संसन्दति :	To run together, unite, associate (सम् + स्यन्द)
संसन्नो :	Distressed, weak (संसद्)
संसप्यति :	To creep along (संसृप्)
संसरणं :	Transmigration (संसरण)
संसरति :	To go through continually, to transmigrate (संसृ)
संसारो :	Passing through a succession of births, continued existence, transmigration (संसार)
संसति :	To proclaim (शंसृ)
संसद्दो :	Joined, associated; living in society (संसृष्ट)
संसत्तो :	Adhering (संसक्त)
संसयो :	Doubt (संशय)
संसेदो :	Sweat, moisture, vapour (सम् + स्वेद)
संसेवनं + संसेवो :	Attending on, associating
संसिब्बिनं :	Entwinning
संसिब्बति :	To entwine, entangle (सम् + सिब्)

संसितो :	See संसरति
संसूचको (adj) :	Indicating (संसूच् + अक)
संसुद्धो :	Pure (संशुद्ध)
समुब्बहति :	To pull out (समुहह)
समुब्भवो :	Springing up, production (समुद्भव)
समुच्चयो :	Collection, accumulation (समुच्चय)
समुच्छेदो :	Extirpation (समुच्छेद)
समुच्छिद् :	To extirpate: to break off, put an end to (समुच्छिद्)
समुच्चिनति :	To select, appoint (समुच्चि)
समुदाचरति :	To treat, behave towards; to lay claim to (समुदाचर्)
समुदाचारो :	Behaviour, practice (समुदाचार)
समुदागमो :	Beginning (समुदागम)
समुदाहटो :	Got ready; brought forward
समुदयो :	Rise, origin, commencement: origination, cause: multitude (समुदाय)
समुदायो :	Quantity, entirely (समुदाय)
समुद्धटो :	Entirely removed, extirpated (समुद्धृत)
समुद्दिद्धो :	Pointed out, illustrated (समुद्दिष्ट)
समुद्दो :	A sea (समुद्र)
सामुद्दो (adj) :	Marine (सामुद्र)
समुदेति :	To arise (समुदि)
समुग्गहीतो :	Accepted, understood
समुग्गतो :	Arisen (समुद्गत)
समुग्घातो :	Removal
समुग्गो :	A box, basket (समुद्ग)
समूहनं :	Removal (सम् + उद् + हन्)
समूहेति :	To bring to-gether, assemble
समूहो :	Multitude, assemblage, aggregation, mass (समूह)
समूज्जलितो + :	Blazing, resplendent
समूज्जलो (adj)	
समुज्झितो :	Abandoned (समुज्झित)
समुक्कंसति :	To elevate, exalt (समुक्कप्)
सामुक्कंसिको (adj) :	Originally discovered
समूलको (adj) :	Roots of all (समूल + क)

328 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

समुल्लपनं :	Speaking with
समुन्नदति :	To utter loud cries (समुन्नद्)
समूपब्बूळ्हो :	Conflict (समुपवृंह)
समुपगच्छति :	To come to (समुपागम)
समुपमो (adj) :	Resembling (सम् + उपम)
समुपसोभितो :	Splendidly adorned (समुप + शोभिन)
समुपट्टति :	To serve, supply (समुपस्था)
समुपेति :	To approach, meet (समुपेत)
समुप्पादो :	Arising, production, origination (समुत्पाद)
समुप्पन्नो :	Arisen, produced (समुत्पन्न)
समुस्सयो :	Accumulation, the body (समुच्छय)
समुस्सेति :	To raise, lift up (समुच्छृ)
समुत्तेजेति :	To stir, excite, fill with delight
समुट्ठहति :	To rise up, to come to life again (समुत्था)
समुट्ठानं :	Rising, origination (समुत्थान)
संवच्छरो + रं :	A year (संवत्सर)
संवच्छरो (adj) :	An astrologer (संवत्सर)
संवदन :	One of the magic arts forbidden to Buddhist priest (संवदन)
संवद्धनं :	Causing to grow (संवर्धन)
संवद्धितो :	Reared, fostered, brought up; enlarged; grown-up; flourishing (संवर्धित)
संवद्धो :	Brought up, grown-up, flourishing (संवृद्ध)
संवण्णना :	Explanation, commentary; description; praise
संवण्णेति :	To describe, explain, praise (संवर्ण)
संवरणं :	Covering (संवरण)
संवरी :	Night (शर्वरी, शत्वरी)
संवरो :	Closing, restraint (संवर)
संवसथो :	A village (संवसथ)
संवसति :	To live, pass one's time; to hire with (संवस्)
संवासो :	Living with (संवास)
संवत्तनिको (adj) :	Conducive to
संवत्तति :	To lead, conduce (संवृत्)
संवट्ठो :	The destruction of a kappa (संवर्त)
संवेदितो :	Admonished (संवेदित)

सवेगी :	Quick, vehement (सवेग + इन्)
सवेगो :	Agitation, emotion, grief (सवेग)
सवेजनं :	Agitating, alarming
सवेजेति :	To agitate, cause emotion, or alarm (सवेजयति)
सवेठेति :	To wrap (सवेष्टयति)
सविभागो :	Partition, distribution (सविभाग)
सविभजति :	To divide (सविभज्)
सविदहति :	To dispose, fix, arrange, direct, appoint, assign, accomplish (सविधा)
सविधानं + :	Appointment (सविधान)
सविदहनं	
सविग्गो :	Excited, agitated, alarm, vexed, grieved (सविग्ग)
सविहितो :	See सविदहति
सविज्जति :	To exist, to be found (सविद्यते)
सविज्जति :	To be moved, or agitated (सविज्)
सवीनो :	Surrounded, shut-in (सवीन)
सवोहारो :	Business, traffic (सव्यवहार)
सवुणाति + णोति :	To cover (सवृ)
साम्यं :	Equality, equipoise (साम्य)
संयमो + सज्जमो :	Restraint, self-control, abstinence, sobriety (संयम)
संयमो + सज्जमो :	Tied, fastened; restrained, self-controlled (संयत)
संयत्तिको :	A voyaging merchant; sea-trader (सांयत्रिक)
संयोगो + सज्जोगो :	Union, bond: connection: association: society (संयोग)
संयोजनं + :	Bond, attachment (संयोजन)
सज्जोजनं	
संयोजेति :	To put to-gether, prepare (संयोजयति)
संयुगं :	Strife (संयुग)
संयुत्तो + सज्जुत्तो :	Joined, connected (संयुक्त)
सनाधिको (adj) :	Having a nave (स + नाभि + क)
सनं (adj) :	Always (सनत्)
साणं :	Hempen-cloth, coarse-cloth (शाण)
सनामको (adj) :	Having a name (सनामक)
सनन्तनो (adj) :	Perpetual, ancient, primeval
सञ्चरणं :	Wandering about, uniting (सञ्चरण)

330 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सञ्चरति :	To go about, wander; to meet, unite (सञ्चर्)
सञ्चरिका :	A female passenger (सञ्चारिका)
सञ्चरित्तं :	Going backwards and forwards, acting as, go between
सञ्चरो :	Defile, passage (सञ्चर, सञ्चार)
सञ्चयो :	Accumulation, quantity (सञ्चय)
सञ्चेतना :	Thought, intention
सञ्चेतनिको (adj) :	Intentional
सञ्चेतेति :	To be aware, intend (सञ्चेतयति)
सञ्छादेति :	To cover, hide (सञ्छद्)
सञ्छिन्न :	Cut (सञ्छिन्न)
सञ्चिच्च :	Intentionally, consciously, purposely (सञ्चिन्त्य, सञ्चित्य)
सञ्चिनति :	To accumulate (सञ्चि)
सञ्चूणो :	Crushed, shattered
सन्दहति + सन्धेति :	To connect; to get ready, arrange (सन्धा)
सन्दालेति :	To break
सन्दानं :	A cord (सन्दान)
सन्दानो :	A war chariot (स्यन्दन)
सण्डास :	A smith's tongs
सन्दस्सनं :	Showing, exhibition (सन्दर्शन)
सन्दस्सेति :	To show, teach
सन्दति :	To flow (स्यन्द)
सन्दट्टो :	Bitten, compressed (सन्दष्ट)
सन्देहो :	Doubt, accumulation (सन्देह)
सन्देसो :	News, message, communication (सन्देश)
सन्धानितो (adj) :	Bound (सन्धिनित)
सन्धारेति :	To hold back, repress; bear, carry (सन्धारयति)
सन्धाता :	One who joins or reconciles (सन्धातृ)
सन्धावति :	To run through, traverse (सन्धाव्)
सन्धाय + सन्धेति :	See सन्दहति
सन्धि :	Junction; union; agreement: a joint of the body (सन्धि)
सन्धुपायति :	To smoke (सम् + धुप्)
सन्दिद्धो :	Smear (सन्दिग्ध)
सान्दिट्टिको (adj) :	Visible, actual, belonging to this life (सान्दृष्टिक)
सन्दिट्टो :	Seen (सन्दृष्ट)

सन्दो (adj) :	Thick, coarse (साद्र)
सण्डो + सण्डं :	An assemblage of totuses (शण्ड)
सण्डो :	A multitude (षण्ड)
सन्दोहो :	An assemblage (सन्दोह)
सनेमिको (adj) :	Having a felly or tire (सनेमि + क)
सङ्गाहको (adj) :	Compiling (संग्राहक)
सङ्गाहेसि, सङ्गहितो :	See सङ्गणहाति
सङ्गाहिको (adj) :	Including, embracing (संग्राहिन + क)
सङ्गहो :	Taking, collection; conjunction, assemblage; a compilation, abridgement; favour, kindness (संग्रह)
सङ्गाहो :	Collecting, taking (संग्रह)
सङ्गामजी + जितो :	Victorious in battle (संग्रामजित्)
सङ्गम्म :	Having assembled or united with
सङ्गमो :	Meeting; intercourse, connection, association (संगम)
सङ्गामो :	Conflict, battle (संग्राम)
सङ्गणहाति :	To take, to sieze, collect: to compile: to abridge: to contain, embrace, include: to treat kindly, favour, conciliate, provide for the welfare of, help, protect (संग्रह)
सङ्गणी :	One of the books of the Abhidhamma is named Dhammasangani means something "enumeration of conditions"
सङ्गणिका :	Communication, association (सं + गण + इका)
सङ्गरो :	Calamity; war; promise (सङ्गर)
सङ्गति :	Union, intercourse (संगति)
सङ्गतो :	Meeting, associating or uniting with (संगत)
सङ्गायनं :	Rehearsing
सङ्गायति :	To chant; rehearse (संगै)
सङ्घभत्तं :	Food belonging to a community of monks as opposed to food belonging to an individual monk (संघ + भक्त)
सङ्घभदो :	Causing divisions or schisms among the priesthood; one of the Abhithanas (संघ + भेद)
सङ्घाभोगो :	Maintenance of priests (संघ + भोग)
सङ्घादिसेसो (adj) :	Requiring a Sanghkamma at every stage (संघ + आदि + शेष)
सङ्घकम्मं :	An act of ceremony performed by a chapter of priests assembled in solemn conclave (संघ + कर्मन)

332 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सङ्घारामो :	A Buddhist monastery (संघ + आराम)
सङ्घटनं :	Junction (संघट + अन)
सङ्घाटी :	One of the three robes of a Buddhist monk (संघाटी)
सङ्घटितो (adj) :	Struck, sounded (संघतित)
सङ्घातो :	Assemblage, multitude: killing, hurting: name of one of the eight principal hells (संघान)
सङ्घाटो :	One of the perpendicular timbers of the house: junction
सङ्घट्टति :	To knock against, or together (संघट्ट)
सङ्घी (adj) :	Having a crowd of disciples (संघ + इन्)
सङ्घिको (adj) :	Belonging to, or connected with the priesthood (संघ + इक्)
सङ्घो :	A multitude, assemblage; the assembly of Buddha's Priests, the priesthood, clergy, church: a fraternity of priests: a chapter of priests (संघ)
संघुट्टो :	Sounded, resounding (संघुष्ट)
सङ्गीति :	Chanting together (संगीति)
सङ्गीतो :	See सङ्गायति
सङ्गो :	Attachment, bond, tie (सङ्ग)
साङ्गो (adj) :	Together with its angas or divisions (साङ्ग)
सण्हो (adj) :	Smooth; soft, gentle, mild: delicate: minute, subtle, abtruse (श्लक्ष्ण)
सानि :	See सो
साणि :	A curtain, screen, tent (शाणी)
सणिकं (adj) :	Slowly, softly; gently, gradually
सणि (adj) :	Same as above (शनैस्)
सनितो :	Sounding (स्वनित)
सञ्जननं :	Producing (संजनन)
सञ्जाननं :	Perceiving
सञ्जानाति :	To think, suppose, recognise, perceive, comprehend, to call name (संज्ञा)
सञ्जनितो :	Arisen, produced (संजनित)
सञ्जाति :	Birth, origin
सञ्जायति :	To arise, be produced or born (संजन)
सञ्झा :	Evening (संध्या)
सञ्जीवो (adj) :	Alive (संजीव)
सङ्का :	Doubt, uncertainty (शङ्का)

सङ्कच्छति :	To collect (संकृष)
सङ्कलनं :	Addition (संकलन)
सङ्कमति :	To go, pass on (संक्रम)
सङ्कमो :	Difficult, progress (संक्रम)
सङ्कम्पति :	To tremble (संकम्प)
सङ्कनीयो :	See संकति
सङ्कप्पेति :	To will, determine, arrange (संकल्पयति)
सङ्कप्पो :	Resolve: determination (संकल्प)
सङ्करो :	Confusion (संकर)
सङ्कारो :	Dust, sweeping, rubbish (संकार)
सङ्कासो (adj) :	Resembling (संकाश)
सङ्कस्सं :	Name of a town in India (साङ्काश्य)
सङ्कस्सरो (adj) :	Anxious, hesitating
सङ्कठा :	Conversation (संकथा)
सङ्कति :	To hesitate, doubt, suspect (शङ्क)
सङ्कतीरं :	A dust heap (सम् + कटीर)
सङ्कटो :	Narrow (संकट)
सङ्केतो :	Engagement, appointment, rendezvous (संकेत)
सङ्का + संङ्कया :	Calculation, number, sum: numerals: understanding, reason, intelligence (संख्या)
सङ्कला, लं, लो :	A chain (शृङ्खला)
सङ्कलिका :	A chain
सङ्कारक्खन्धो :	See next
सङ्कारो :	Constructing preparing, perfecting, embellishing; aggregation; matter; karma: the skandhas (संस्कार)
सङ्कवति :	To calculate, reckon (संख्या)
सङ्कतो :	Put together, aggregated, organised, made, wrought, built, created, perfected, embellished: cooked, dressed, compounded (संस्कृत)
सङ्कवतो + सङ्कव्यातो :	Reckoned, numbered; considered, called, named, estimated; learnt (संख्यात)
सङ्कयो :	Loss, destruction; end (संक्षय)
सङ्क्यो :	Abridgement, abstract (संक्षेप)
सङ्क्यो :	Calculable (संख्येय)
सङ्कपति :	To shorten, abridge (संक्षिप्त)

334 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सङ्घो + संङ्घ :	A shell; conch-shell: a conch trumpet the frontal bone, the ankle bone (शङ्घ)
सङ्घोभो :	Commotion (संक्षोभ)
सङ्घोभति :	To be shaken or agitated (संक्षुभ)
सङ्घ्या, सङ्घ्यातो :	See सङ्घा + सङ्घत्तो
सङ्घ्यानं :	Calculation (संख्यान)
सङ्घी :	Anxious (शङ्किन्)
सङ्घिलेसो :	Impurity (संक्लेश)
सङ्घिलिस्सति :	To be impure, deprived, sinful
सङ्घिण्णो :	Confused, crowded; of mixed caste, impure (संकीर्ण)
सङ्घिरणं :	Collecting to-gether
सङ्घितो :	Anxious, alarmed (शङ्कित्त)
सङ्घु :	A stake or stumps: a javelin (शङ्कु)
सङ्घुचति :	To contract, draw together (संकुच्)
सङ्घुलो (adj) :	Crowded; confused, contradictory (संकुल)
सङ्घुप्पो :	That can be shaken
सञ्जा :	Sense, consciousness, perception; intellect, thought: sign gesture: name (संज्ञा)
सन्नद्धो :	See सन्नह्यति
सन्नाहो :	Armour, mail (सन्नाह)
सन्नकट्टु :	The tree Buchanania Latifolia (सन्नकट्टु)
सञ्जाक्खन्धो :	See सञ्जा
सन्नामेति :	To restrain
सञ्जमो :	See संयमो
सञ्जाणं :	Perception; sign, monument (संज्ञान)
सञ्जापनं :	Pacifying (सज्ञापन)
सञ्जापेति :	See सञ्जानाति
सञ्जतो :	See संयतो
सञ्जतो, सञ्जत्तो :	See सञ्जानाति
सञ्जाय, सञ्जायति	
सन्नह्यति :	To bind, fasten (सन्नह)
सन्नेति :	To mix, knead (सन्नी)
सञ्जी (adj) :	Conscious, perceiving, thinking, imagining (संज्ञिन्)
सन्निभो (adj) :	Resembling (सन्निभ)

सन्निचयो :	Piling up, accumulation, hoarding (सन्निचय)
सन्निधानं :	Proximity (सन्निधान)
सन्निधापेति :	To bring about, cause to come to pass (सन्निधापयति)
सन्निधी :	Proximity, presense, visibility (सन्निधि)
सन्निधीयति :	To be combined
सन्निहितो :	Stored up (सन्निहित)
सन्निकासो (adj) :	Resembling (सन्निकाश् + अ)
सन्निक्खेपो :	Placing
सन्निनो (adj) :	Bent, inclined (सम् + निम्न)
सन्निपतति :	To assemble, meet to-gether (सन्निपत्)
सन्निपातो :	Union, collection, assemblage; assemble, congregation (सन्निपात)
सन्निरुहति + :	To impede, restrain, block
सन्निरुम्भति	
सन्निसज्जा :	Sitting to-gether
सन्निसिदति :	To subside, to be quiet (सन्निषद्)
सन्निसिस्तो :	Connected with devoted to
सञ्जितो (adj) :	Called, named (सञ्जित)
सन्निट्ठानं :	Conclusion, consummation, ascertainment, resolve
सन्निवासो :	Living with, association
सन्निवेशो :	Construction, preparation; station, encampment (सन्निवेश)
सन्नियोजेति :	To appoint, enjoin, command (सन्नियोजति)
सन्नो :	See सीदति
सञ्जोगो, सञ्जोजनं :	See संमि
+ सयुत्तो	
सानो :	A dog (श्वान)
साणो :	A touchstone; a grindstone (शाण)
सन्तज्जेति :	To menace, abuse (संतर्ज)
सन्तानो :	Spreading; extension; lineage; name of a tree in heaven (सन्तान)
सन्तापनं :	Burning up (सन्तापन)
सन्तापेति :	To burn, scorch, inflame, torment (सन्तापयति)
सन्ताप :	Burning, fire; torment (सन्ताप)

336 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सन्तुष्यति :	To satisfy (संतुष्यति)
सन्तरवाहिरो (adj) :	Inside and out
सन्तरति :	To be in haste, to be agitated, to trouble (संत्वर)
सन्तासेति :	To terrify (संत्रासयति)
सन्तासी (adj) :	Trembling, fearful (संतास + इन)
सन्तता :	Goodness
सन्ततं (adv) :	Continually (संततम्)
सन्तति :	Extention, continuity, duration, lineage (संतति)
सन्ततो :	Scorched (संतप्त)
सन्तवा :	Tranquil (शान्त + वत्)
सन्थागारं :	A royal rest-house; a building at which kings transacted business when travelling in provinces (संस्था + आगार)
सण्ठहति, सण्ठाति :	To stand, to remain (संस्था)
सन्तिट्टति	
सन्थम्भति :	To restrain oneself (संस्तम्भ्)
सन्थानं :	Appeasing (शान्त्वन्)
सण्ठानं :	Form, figure, mark; position, station (संस्थान)
सण्ठापनं :	Arranging, fixing (संस्थापन)
सन्थरति :	To spread, strew (संस्तृ)
सन्थारो :	A layer, a stratum; a couch (संस्तर, संस्तार)
सन्थवो :	Acquaintance, intimacy, friendship (संस्तव)
सण्ठिठति :	Position, stratum (संस्थिति)
सण्ठितो :	See सण्ठहति
सन्थुतो :	Praised (संस्तुत)
सन्ति :	See अत्थि
सन्ति :	Calm, tranquility, peace; Nirvana; bliss; pacification: settlement (शान्ति)
सन्तिको (adj) :	Near (स + अन्तिक)
सन्तिट्टति :	See सण्ठहति
सन्तो :	See सम्मति
सन्तो :	Wearied (श्रान्त)
सन्तो :	Being; good; wise; (सत्)
सन्तोसो :	Contentment, happiness (संतोष)
सन्तुस्सको (adj) :	Contented (संतुष्य + क)

सन्तुस्सति :	To be satisfied, pleased, happy (संतुष)
सन्तुट्ठि :	Contentment, satisfaction, happiness (संतुष्टि)
सान्त्वं :	Conciliation (शान्त्व)
सानु :	Table-land (सानु)
सानुचरो (adj) :	To-gether with, followers or dependents (स + अनुचर)
सपचो :	A pariah, out-caste (श्वपच)
सपदानं :	Beggin regularly
सापदेशो (adj) :	Figurative (स + अपदेश)
सपदि (adv) :	Instantly (सपदि)
सापदो :	A beast of prey-tiger (श्वापद)
सपाको :	A pariah, Candala (श्वपाक)
सपनं :	An oath (शपन)
सपरत्थो :	One's own good and the good of others (स्व + पर + अर्थ)
सपरिवारो (adj) :	Accompanied by an escort or attendants (सपरिवार)
सपरियन्तो (adj) :	Limited (स + वर्यन्त)
सापतेय्यं :	Property, wealth (स्वापतेय)
सपथो :	An oath (शपथ)
सपति :	To swear, revile (शपू)
सपत्तो :	Hostile (सपत्त)
सापेक्खता :	Longing (सापेक्ष + ता)
सफलो (adj) :	Bearing fruit (सफल)
सफं :	A horse's hoof (शफ)
सफरी :	The fish cyprius sophore (शफरी)
सपिण्डो :	A near kinsman (सपिण्ड)
सापो :	Curse, abuse (शाप)
सप्पभो :	Brilliant (सप्रभ)
सप्पच्चयो (adj) :	Having a cause (सप्रत्यय)
सप्पाणको (adj) :	Containing insects or animals (स + प्राणक)
सपज्जो (adj) :	Wise (स + प्रज्ञा)
सप्पटिभागो (adj) :	Resembling (स + प्रतिभाग)
सप्पटिभयो (adj) :	Dangerous, beset with fear (स + प्रतिभय)
सप्पायो (adj) :	Desirable, advantageous, beneficial (स + प्राय)
सप्पि :	Clarified butter or ghee (सर्पिस्)
सप्पीतिको (adj) :	Joyful (स + प्रीति + क)

338 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सप्यो :	A snake (सर्प)
सप्पुरिसो :	A good or pious man (सत्पुरुष)
सपुरिसो (adj) :	Accompanied by attendants (स + पुरुष)
सपुत्तो (adj) :	To-gether with his son (सपुत्र)
सरभङ्गो :	Indistinctness of the voice or broken articulation (स्वरभङ्ग)
सरभञ्जं :	A particular mode of reciting or intoning sacred composition (स्वर + भण् + य)
सरभो :	A sort of deer (शरभ)
सरभु :	Name of a river (सरयु)
सराभ्यासो :	Archery (शराभ्यास)
सरभू :	A lizard
सारद्धो :	सु + आरद्धो
सारदिको (adj) :	Autumnal (शारदिक)
सरदो :	The year: autumn, the two months succeeding the rains
सारदो (adj) :	Autumnal (शारद्)
सारागो (adj) :	Affection, passion (सराग)
सरहस्सो (adj) :	Along with the Upanishadas (सरहस्य)
सराजको (adj) :	Including the king (सराजक)
सारज्जं :	Modesty, timidity, shyness
सरको + कं :	A drinking vessel (सरक)
सरलो :	The tree Pinus Longifolia (सरल)
सरं :	See सरो
सारम्भो :	Clamour, angry talk (सरम्भ)
सारम्भो (adj) :	Accompanied with danger or injury (स + आरम्भ)
सारमेच्यो :	A dog (सारमेय)
सरणं :	Remembrance (स्मरण)
सरणं :	Refuge, protection, salvation; Nirvana; a protector; a house, home; killing (शरण)
सारङ्गो :	The bird Cuculus Melanolenus: a deer (शारङ्ग)
साराणीयो :	Used when exchanging of compliments
सरासनं :	A bow (शरासन)
सरसि :	See सरो
सरसी :	A large pond (सरसी)
सारसो :	The Indian crane (सारस)

सरस्वती :	The name of a river (सरस्वती)
सारता :	Reality, strength (सारता)
सारथी :	A charioteer, coachman (सारथि)
सरति + सुमरति :	To remember (स्मृ)
सरटो :	A chameleon (सरट)
सारत्थो :	Essential or true meaning (सार + अर्थ)
सारत्तो :	Impassioned, inflamed with desire (सरंक्त)
सरवो :	Noisy (स + रव)
सरावो :	A shallow-cup, saucer (शराव)
सरव्यं :	A target (शरव्य)
सारेति :	See सरति
सारि :	A piece or man at chess, draughts (सारि)
सारी :	Going (सारिन्)
सारिबा :	Name of a plant (शारिबा)
सारिक्खो :	Resembling (सदृक्ष)
सारिफलको :	A chess-board (शारिफलक)
सारिपुत्तो :	A famous apostle and a contemporary of Gautama (शारिपुत्र)
सरीरं :	The body (शरीर)
सरीरी :	An animal, man (शरिरीन्)
सारीरिका (adj) :	Corporeal (शारीरिक)
सरिता :	One who remembers
सरिता :	A river (सरिता)
सरितो :	Flowing, running (सरित)
सरो (adj) :	Flowing, going (सर्)
सरो :	An arrow (शर)
सरो :	Sound, voice: a musical tone; a vowel (स्वर)
सरो + सरं :	A large sheet of water or lake (सरस्)
सारो :	Essence, substance, choicest part, pith, marrow: main point, real truth; strength, vigour: wealth (सार)
सरोरुहं :	A lotus (सरोरुह)
सरुपं :	Own form, natural state, nature (स्वरूप)
सरोपो :	Resembling (सरुप)
सारूप्यो (adj) :	Fit, proper, suitable in conformity with (सरुप + य)
सस्सकं (adv) :	Certainly

340 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

ससको :	A hare, a rabbit (शसक)
ससनं :	Slaughter (शसन)
सासनं :	Order, command: message: epistle; instruction: discipline: scriptures: Buddhist religion or dispensation (शासन)
ससङ्घारिको :	See सङ्घारो
ससङ्को :	The moon (शशाङ्क)
सासङ्को (adj) :	Dangerous (स + आशङ्का)
सासपो :	A mustard-seed (सर्षप)
सासति :	To command (शास्)
ससेनको (adj) :	Accompanied by an army (ससेन + क)
ससी :	The moon (शसिन्)
ससीसो (adj) :	Together the head (स + शीर्ष)
सस्नेहो (adj) :	Loving (सस्नेह)
ससो :	A hare (शस)
सासो :	Asthama (श्वास)
सस्सं :	Corn in the field, crop (शस्य)
सस्समणब्राह्मणो (adj) :	To-gether with monks and Brahmins (स + श्रमण + ब्राह्मण)
सस्सामिको (adj) :	Having a master (स + स्वामिक)
सस्सतिको (adj) :	Eternal (शाश्वतिक)
सस्सतो (adj) :	Perpetual, eternal (शाश्वत)
सस्सिरीको (adj) :	Auspicious, glorious, blessed (सश्रीक)
सस्सू :	Mother-in-law (श्वश्रू)
ससुरो :	Father-in-law (श्वशुर)
सतभिसजो :	Name of a Nakkhatta (शतभिषज्)
सातच्चं (adj) :	Constantly, perserveringly (सातत्य)
सतकं :	A hundred (शतक)
सतकत्तं :	A hundred times (शतकृत्वस्)
साटको + कं :	Cloth: a cloth, an inter-garment, tunic, cloak (शाटक)
सातकुम्भं :	Gold (शतकौम्भ)
सतं :	See सन्तो
सतं :	A hundred (शत)
सतमूली :	Asparagus Racemosus (शतमूली)
सतपदी :	A Cealipede (शतपदी)

सतपत्तो :	The Indian-crane (शतपत्र)
सतरंस्मी :	The sun (शत + रस्मि)
साततिको (adj) :	Preserving (सतत + इक)
सततो (adj) :	Continual (सतत)
सतवङ्को :	A sort of fish (शत + वक्र)
सतावरी :	Asparagus Racemosus (शतावरी)
सतेरता :	Lighting (शतहृदा)
साठेय्यं :	Craft, treachery
साठिलो (adj) :	Crafty, treacherous
सठो (adj) :	Crafty, treacherous, fraudulent, wicked (शठ)
सति :	Recollection; active state of mind, fixing the mind strongly upon any subject, attention, attentiveness, thought, reflect, consciousness (स्मृति)
सति, सती :	See सन्तो
साति :	Name of a Nakhatta (स्वाति)
साटी :	An upper robe, mantle, cloak (शाटिका)
सतिको (adj) :	Belonging to a hundred, consisting of a hundred, costing a hundred (शतिक)
सतिमा (adj) :	Of rententive memory, or active mind, thoughtful reflecting (स्मृतिमत्)
सतिपट्टानं :	Fixing the attention, earnest meditation
सातिरेको (adj) :	Excessive (स + अतिरेक)
सातिसयो (adj) :	Excessive (सतिशय)
सतिविनयो :	Name of one of the adhikarana samathas (स्मृति + विनय)
सतो :	Recollecting, mindful, attentive, thoughtful, conscious (स्मृत)
सातो :	Joyful (शात)
सत्तं :	A sacrifice; munificence, liberality (सत्त)
सत्ता :	Seven (सप्तन्)
सत्ता :	Existence
सत्तदसा :	See सत्तारस
सत्तधा (adv) :	In seven ways, in seven pieces (सप्तधा)
सत्तगुणो (adj) :	Seven-fold (सप्तन् + गुण)
सत्ताह :	A week (सप्ताह)
सत्ताहिको (adj) :	Belonging to a week, hebdomadal

342 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सत्तकं :	A collection of seven (सप्तक)
सत्तकखत्तुं (adj) :	Seven times (सप्तन् + कृत्वस्)
सत्तला :	A sort of jasmine (सप्तला)
सत्तलोको :	World of sentient being (सत्त्व + लोक)
सत्तं :	Substance, thing; form, body; sentient being; strength; breath, life (सत्त्व)
सत्तमो (adj) :	Best, excellent (सत्तम)
सत्तमो (adj) :	Seventh (सप्तम)
सत्तपण्णो :	The tree Echitcs Scholaris (सप्तपर्ण)
सत्तरस :	Seventeen (सप्तदशन)
सत्तत्ति :	Seventy (सप्पत्ति)
सत्तट्ट :	Seven or eight (सप्तन् + अष्टन्)
सत्तावासो :	Abode of beings (सत्त्व + आवास)
सत्था :	A teacher, master (शास्तृ)
सत्थकं :	A small weapon (शस्त्रक)
साट्टकथो (adj) :	To-gether with the commentary
सात्थको (adj) :	Useful, profitable (सार्थक)
सत्थं :	A weapon, word; iron, steel (शस्त्र)
सत्थं :	A treatise book; a science or art (शास्त्र)
सत्थि :	See सत्ति
सत्थि :	The thigh (सक्थि)
सट्टि :	Sixty (षष्टि)
सात्थिका :	See सात्थको
सत्थो :	A troop, a caravan (सार्थ)
सात्थो (adj) :	To-gether with the meaning (सार्थ)
सट्टो (adj) :	Sixtieth (षष्ट)
सत्थु :	See सत्था
सत्थु :	See सत्तु
सत्थुको (adj) :	Belonging to a teacher (शास्तृ + क)
सट्टयं :	Villany, fraud (शाठ्य)
सत्ति + सत्थि :	Ability, power; an iron spear, javelin (शक्ति)
सत्ति :	A knife (शस्त्री)
सत्तो :	Being, a creature, animal, sentient being, man (सत्त्व)
सत्तो :	Able, strong (शक्त)

सत्तो :	See सजति
सत्तु :	An enemy (शत्रु)
सत्तु :	Barley meal or flour generally, also a cake made of meal (शक्तु)
सत्तुको :	An enemy (शत्रु + क)
सावज्जो (adj) :	Censurable, faulty, wrong, sinful (सावद्य)
सावको :	A hearer, listener, pupil; a disciple (श्रावक)
सवल्लि (adj) :	Wrinkled (सवल्लि)
सवणं :	Hearing, the ear (श्रवण)
सवणं :	Flowing (स्त्रवण)
सवनीयो (adj) :	Pleasant to hear (श्रवणीय)
सवणको :	A sort of a fish (स + वक्र)
सवनो :	Name of a Nakkhatta (श्रवण)
सावनो :	Name of a month (श्रावण)
सावसेसो (adj) :	Imperfect, incomplete (सावशेष)
सवति :	To flow (स्त्रु)
सावस्थी :	Name of a town in India, the capital of Kosala (श्रावस्ती)
सावेता :	One who informs (श्रावय + तृ)
सावेति :	See सुणोति
सव्हयो (adj) :	Called, named (साहूय)
सविभक्ति :	Having inflections (स + विभक्ति)
साविका :	See सावको
सविञ्जाणको (adj) :	Possessed of intelligence or consciousness, animate (स + विधान + क)
सावित्थि :	The vedic verse Savitri
सवो :	Flowing, dripping (स्त्रव)
सावो (adj) :	Dark brown, bay (श्याव)
सवुपादिसेसो :	See उपदिसेसो
सव्यो (adj) :	Left, on the left hand (सव्य)
सायको :	An arrow, a sword (सायक)
सयं :	Oneself, by oneself; spontaneously (स्वयम्)
सायं :	See (सायो)
सायमासो :	Evening meal, supper (सायम् + आश)
सयम्भू (adj) :	Self-produced, self-sufficient, independent (स्वयंभु)

344 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सयम्प्रभो (adj) :	Self-resplendent (स्वयंप्रभ)
सयंवरा :	A maiden who chooses a husband (स्वयंवरा)
सयनं + सेनं :	Lying, sleeping; a bed, a couch (शयन)
सायणहो :	Evening (सायह)
सयनिगगहं + :	A sleeping room, bed-chamber (शयनगृह)
सयनिधरं	
सायनियो :	See सायति
सयज्जातो :	Spring up spontaneously (स्वयंजात)
सयङ्गतो (adj) :	Made by oneself (सयंकृत)
सयानो :	See सयति
सयथु :	Swelling (श्वयथु)
सयति + सेति :	To lie down (शी)
सयति :	To go, to take refuge (श्रि)
सायति :	To taste (स्वद्)
सहयति :	The part
सायी (adj) :	Lying (शायिन्)
सायिका :	Lying, sleeping (शायिका)
सयो (adj) :	Lying, sleeping (शय)
सायो :	Evening (साय)
सेचेति :	To cause to sprinkle (सेचयति)
सेदजो (adj) :	Sprung from moisture (स्वेदज्)
सेदितो :	Steamed, heated (स्वेदित)
सेदो :	Sweat, moisture, boiling steam (स्वेद)
सेहि :	See सो
सेखरिको :	The plant Achyranthes Aspera (शैखरिक)
सेखरो :	A crest, chaplet (शेखर)
सेखियो (adj) :	Connecting with training (शैक्ष्य)
सेखो :	One who is under training (शैक्ष)
सेको :	Sprinkling (सेक)
सलनं :	Noise, shouting
सेलेच्यं :	Benzoin (शैलेय)
सेलियो (adj) :	शैल्य
सेलो (adj) :	Rocky (शैल)
सेलु :	The tree Cordia Myxa (शेलु)

सेम्हं + सेम्हो :	Phlegm, the phlegmatic humour (श्लेष्मन्)
सेम्हिको (adj) :	Phlegmatic, produced by phlegm (श्लैष्मिक)
सेना :	An army (सेना)
सेनं :	See सयनं
सेनानी :	A general (सेनानी)
सेनापच्चं :	Post of general or commander in chief (सेनापत्य)
सेनापति :	A general or commander-in-chief (सैनापति)
सेनासनं :	See सयनं
सेनि + सेणी :	A line, row; a multitude, community; a guild of artisans (श्रेणि, श्रेणी)
सेनियो (adj) :	Belonging to an army (सैन्य)
सेनो :	A hawk (श्येन)
सेपण्णी-सेपणिका :	Name of two sorts of plants (श्रीपर्ण, श्रीपर्णिका)
सेफालिका :	Name of a plant (श्रीफालिका)
सेरेय्यको :	The plant, Barleria Cristata (सैरेयक)
सेरी (adj) :	Self willed (स्वैरिन्)
सेसको (adj) :	Remaining, omitted (शेष + क)
सेसेति :	To omit, leave (शेषयति)
सेसो (adj) :	Remaining (शेष)
सेतच्छदो :	A goose (श्वेतच्छद्)
सेतच्छत्तं :	A white parasol or umbrella, an emblem of royalty: kingship, royalty (श्वेतच्छद्)
सेतम्बो :	A sort of mango (श्रेत + आम्र)
सेतङ्गो (adj) :	White bodied (श्वेत + अङ्ग)
सेतट्टिका :	Bright or mildew (श्वेत + अस्थि + क)
सेथिल्लं :	Looseness (शैथिल्य)
सेनि :	See सयति
सेतीभो :	A white elephant (श्वेत + इभ)
सेतो (adj) :	White (श्वेत)
सेट्टता :	Superiority, eminence (श्रेष्ठता)
सेट्टि :	Ashes
सेट्टि :	Foreman of a guild: a cashier, treasurer: a wealthy merchant (श्रेष्टिन्)
सेट्टो (adj) :	Best, excellent, eminent, supreme (श्रेष्ट)

346 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सेतु :	Bridge, embankment dike, causeway: a cause (सेतु)
सेवा :	Service (सेवा)
सेवको (adj) :	Serving, following, devoted to (सेवक)
सेवालो :	The aquatic plant Vallisneria (शेवाल)
सेवना + नं :	Service, following, practicing, devotion to (सेवन)
सेवति :	To serve, follow, practice; to resort to, to use, enjoy (सेव्)
सेय्या :	Lying, sleeping: a bed, couch (शय्या)
सेय्यथा (adj) :	As, just as
सेय्यो :	Better, excellent (श्रेयस्)
सिब्बनं :	Sewing (सीवन)
सिब्बनी :	Desire (सीवनी)
सिब्बति :	To sew, stich (सिव्)
सीदनं :	Sinking
सीदति :	To sink, subside, settle; to be dejected, despond, yield, give way (सद्)
सिद्धन्तो :	Religious belief (सिद्धान्त)
सिद्धत्थो :	While mustard: Gautama Buddha's name when a prince (सिद्धार्थ)
सिद्धि :	Formation, accomplishment: success, prosperity (सिद्धि)
सिद्धो :	See सिञ्जति
सिगालो :	A jackal (श्रिगाल)
सिग्गु :	The tree Hyperanthera Moringa (शिगु)
सीधो (adj) :	Quick, swift (शीघ्र)
सीहलो (adj) :	Sinhalese (सिंहल)
सीहो :	A lion (सिंह)
सिञ्जति :	To be accomplished, take place, succeed; to be practiced or established or in use (सिध्)
सीकरो :	Drizzling rain (शीकर)
सिंकता :	Sand (सिकता)
सिखा :	Peak, point, summit; crest, top-knot; flame (शिखा)
सिखण्डको :	A tuft or lock of hair (शिखण्डक)
सिखण्डी :	A pea-cock (शिखण्डिन्)
सिखण्डो :	A tuft or lock of hair; peacock's tail (शिखण्ड)
सिखरं + रो :	A peak, top; the point of a sword (शिखर)

सिखरी :	A tree, a mountain (शिखरिन्)
सिखी :	Fire; a peacock; name of Buddha (शिखिन्)
सिक्का :	A string by which a weight is suspended; the strings of a balance; the strings of a kaya (शिक्का)
सिक्खा :	Learning, study, training (शिक्षा)
सिक्खनं :	Training, learning, study
सिक्खति :	To learn, train oneself (शिक्ख्)
सिला :	A stone, rock (शिला)
सीलब्बत्त :	Religious practice or rites (शील + व्रत)
सिलाभू :	A sort of snake (शिला + भू)
सिलाघ :	Praise (श्लाघा)
सिलाधति :	To praise (श्लाघ्)
सीलं :	Nature, character; moral practice, piety, morality; a moral precept (शील)
सिलामयो (adj) :	Made of stone (शिलामय)
सीलामयो (adj) :	Consisting of moral conduct, virtuous (शील + मय)
सिलासनं :	A stone seat or throne (शिलासन)
सिलत्थम्भो :	A stone-pillar (शिला + स्तम्भ)
सीलवा (adj) :	Observing the sila precepts, moral, virtuous (शीलवत्)
सिलेसिति :	To embrace
सिलेसो :	Embrace; union (श्लेष)
सिलेसुमो :	Phlegm (श्लेष्मन्)
सीली (adj) :	Having a habit or disposition (शील + इन्)
सिलिट्ठो :	Adhering, connected (श्लिष्ट)
सिलोको :	Fame; a verse, a stanza (श्लोक)
सिलुच्चयो :	A mountain (शिलोच्चय)
सिलुत्तो :	A rat, snake
सीमा :	A boundary, limit (सीमा)
सीमन्तिनी :	A woman (सीमन्तिनी)
सीमन्तो :	A boundary, a mood of parting the hair (सीमन्त)
सिम्बली + सिम्बालो :	The silk cotton tree Bombax, Heptaphyllum
सिसपा :	The tree Dalbergia Sisu (शिशपा)
सिनानं :	Bathing, washing (स्नान)
सिञ्चति :	To sprinkle (सिच्)

348 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सिन्धवो (adj) :	Belonging to Sindha (सैन्धव)
सिन्धु :	The sea, ocean; the Sindha country (सिन्धु)
सिन्धु :	A river (सिन्धु)
सिन्धुरो :	An elephant (सिन्धुर)
सिन्दी :	Name of a tree
सिन्दुरं :	Red lead (सिन्दूर)
सिन्दुवारो :	The tree Vitex Negundo (सिन्दुवार)
सिनेहको :	An intimate friend (स्नेह + क)
सिनेहितो (adj) :	Lustful, connected with desire or covetousness (स्नेहित)
सिनेहो + स्नेहो :	Friendship, affection, love: lust, desire (स्नेह)
सिनेरू :	A name of Mount Meru
सिङ्गकं :	A horn (शृङ्गक)
सिङ्गं :	A horn; peak, summit; height, dignity, pre-eminence (शृङ्ग)
सिङ्गारो :	Love, sexual passion (शृङ्गार)
सिङ्गाणीका :	Mucus of nose (सिंहाणक, सिंघाणक)
सिङ्गाटकं :	A place where four roads meet (शृङ्गाटक)
सिङ्गाटो :	Name of a plant (शृङ्गाट)
सिङ्गी (adj) :	Horned (शृङ्गिन)
सिङ्गी :	A kind of gold: name of a plant (शृङ्गी)
सिङ्गिन्वण्णो (adj) :	Gold-coloured
सिङ्गिवेरं :	Ginger
सिनिद्धो :	Oily, greasy; smooth, glossy; affectionate (स्निग्ध)
सीपदं :	Elephantiasis of the leg (श्लीपद्)
सिष्यं :	A mechanical art; a fine art; a piece of work; a job; skill, proficiency (शिल्प)
सिष्पी :	An artisan, artificer (शिल्पिन्)
सिष्पी :	A pearl oyster
सिष्यिको + यो :	An artisan, artificer (शिल्पिक + शिल्प + य)
सिरा :	A nerve, tendon; a vein, artery (शिरा)
सिरं, सिरसा :	See सिरा
सिरी :	Fortune, prosperity; a name of Lakshmi; majesty, royalty; a magnificence, glory (श्री)
सिरिसपो :	A snake; any creeping thing, as a centiped, chameleon (सरीसृप)

सिरीसो :	The tree Acacia, Sirisa (शिरिष)
सिरो + सिरं :	The head; top of a tree; acme, elevation (शिरस्)
सीरो :	A plough (सीर)
सीसको :	A substitute for Sisa at the end of a compound
सीसं :	Lead (सीस)
सीसं :	The head; front (शीर्ष)
सीसतो (adv) :	Head ways, towards the head; carried on the head
सिसिरो (adj) :	Cold (शिशिर)
सिस्सको :	A pupil (शिष्य + क)
सिस्सानुसिस्सकं :	From pupil to pupil; through a succession of pupils (शिष्य + अनु + शिष्य + क)
(adv)	
सिस्सो :	A pupil (शिष्य)
सीता :	A furrow (सीता)
सितम्भो :	Camphor (सिताभ्र)
सीतलो (adj) :	Cold, cool (शीतल)
सीतालु (adj) :	Chilled (शीतालु)
सितं :	A smile (स्मित)
सिथिलो (adj) :	Loose, flabby, bending, yielding (शिथिल)
सीतिभूतो (adj) :	Cold, calm, tranquil, impossible (शीतीभूत)
सितो :	White (सित)
सितो :	Bound
सितो :	Clinging, devoted to; resting upon (श्रित)
सीतो :	Cold, cool (शीत)
सिस्थं + सिस्थकं :	Bees wax; a lump of boiled rice (सिक्थ, सिक्थक)
सित्तो :	See सिञ्चति
सीतुन्हो :	Cold and heat (शीत + उष्ण)
सिवा :	A jackal (शिवा)
सीवत्थिका :	A carnel house; place where dead bodies are thrown to rot away instead of being burned
सिवी :	Name of a people (शिवि)
सिविका :	A litter, palanquin (शिविका)
सिवो :	Auspicious, happy, fortunate (शिव)
सिया :	See अत्थि
स्नेहो :	See सिनेहो

350 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सो (adj) :	Own (स्व)
सो :	He, this; that
सोब्धं :	A hole; an excavation containing water; pool; pond (श्वभ्र)
सोब्भानु :	The ascending mode (स्वर्भानु)
सोभो :	Splendour, radiance, light; beauty (शोभा)
सोभग्गं :	Auspiciousness, fortune, prosperity (सौभाग्य)
सोभज्जनो :	The tree Hyperanthera Moringa (सौभाज्जन)
सोभणो (adj) :	Shining, resplendent, beautiful, good (शोभन)
सोभति :	To shine, to be radiant or beautiful (शुभ्)
सोचनं :	Mourning, sorrow (शोचन)
सोचति :	To mourn (शुच्)
सोच्चेयं :	Purification (शौचेय)
सोच्चेयो :	A washerman (शौचेय)
सोचिको :	A tailor (सौचिक)
सोदको (adj) :	Containing water (सोदक)
सोदरियो :	A uterine brother (सोदर्य)
सोदरो :	A uterine brother (शोदर्य)
सोधको :	One who cleans (शोधक)
सोधनं :	Cleansing (शोधन)
सोधनी :	A broom (शोधनी)
सोधेति :	See (सुज्झति)
सोगन्धिकं :	The white lily; one of the high numerals or, followed by 91 ciphers (सौगन्धिक)
सोगतो (adj) :	Belonging to the Sugata, Buddhist (सौगात)
सोहदो :	A friend (सौहद)
सोहज्जं :	Friendship (सौहद्य)
सोहिच्चं :	Satiety (सौहित्य)
सोकरो (adj) :	Swinish (सौकर)
सोकवा (adj) :	Sorrowful (शोकवत्)
सोखियं :	Happiness (सौख्य)
सोकी (adj) :	Sorrowful (शोकिन्)
सोको :	Sorrow, grief, mourning (शोक)
सोळस :	Sixteen (षोडशन्)
सोळसकं :	A collection of sixteen

सोळसवखत्तुं :	Sixteen times (षोडशन् + कृत्वस्)
सोळसमो (adj) :	Sixteenth (षोडश)
सोमनस्सं :	Satisfaction, enjoyment, joy (सौमनस्य)
सोमवक्को :	The tree Acacia Catechu (सोमवल्क)
सोमवल्लिका :	Name of a plant (सोमवल्लिका)
साम्मो (adj) :	Beautiful, pleasing (सौम्य)
सोमो :	The noon, Soma Juice (सोम)
सोनको :	The tree Celosanthos Indica (सोणक)
सोण्डा :	A tavern; an elephants trunk (शुण्डा)
सोण्डी + सोण्डिका :	A natural tank, in a rock, a rocky pool
सोण्डिको :	A distiller and seller of Spirituous liquors (सौण्डिक)
सोण्डो :	An elephant's trunk (शुण्ड)
सोण्डो (adj) :	Addicted to drink; intoxicated (शौण्ड)
सोणी :	The buttock (श्रोणी)
सोणितं :	Blood (शोणित)
सोण्णं + स्वण्णं :	Gold (स्वर्ण)
सोणो, सूनो, सानो, : स्वानो, सुवानो	A dog (श्वान)
सोणो (adj) :	Red, crimson (शोण)
सोपचारं (adj) :	Accompanied with civility, deferential (सोपचार)
सोपकारो (adj) :	Useful, helpful (सोपकार)
सोपानं :	Stairs, staircase (सोपान)
सोफो :	Swelling (शोफ)
सोप्पं, सोप्पनं, :	Sleep (स्वाप)
सुपिनं :	Dream (स्वप्न)
सोरब्भो :	A name of Kuvera (सौरब्भ्य)
सोरच्चं :	Tenderness, sympathy (सौरत)
सोरस :	See सोळस
सोसानिको (adj) :	Visiting a cemetery
सोसेति :	See सुस्सति
सोसो :	Drying up: phthisis (शोष)
सोता :	A hearer (श्रोतृ)
सात्तं :	The ear or organ of hearing (श्रोतस्)

352 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

- सातं + सोतो : Stream, flood, current (स्रोतस्)
- सोतापन्नो : One who has entered the stream; one who has attended the first grade of Sanctification, a converted man (स्रोतस् + आपन्न)
- सोतापत्ती : The state of a Sotapanna, conversion, sanctification (स्रोतस् + आपत्ति)
- सोतवे : See सुणोति
- सोथो : Swelling (शोथ)
- सोतो : See सातं
- सोत्थानं : Blessing, prosperity
- सोत्थि, सुवत्थि : Health, welfare, blessing, happiness (स्वस्ति)
- सोत्थि : That woman
- सोत्थिको, : A Brahmin (श्रोत्रिय)
- सोत्थिको + सोत्थियो
- सोतुं : See सुणोति
- सोतुनं : See सोता
- सोवचस्सं + : Meekness
- सावचस्सता
- सोवग्गिको (adj) : Connected with the Devaloka, tending to heaven
- सोवण्णिको (adj) : Belonging to gold (सौवर्णिक)
- सोवण्णो (adj) : Golden (सौवर्ण)
- सोविदल्लो : An attendant on the harem (सौविदल)
- सोवीरम : Sour, gruel, vinegar (सौवीर)
- सु, सुदं, अस्सु : A particle used, generally in asking questions, but sometimes also in narration (स्विद्)
- सुबहु (adj) : Very much, a great many (सुबह)
- सुब्बचो + सुवचो : Compliant, meek (सुवचस्)
- (adj)
- सुब्बतो (adj) : Virtuous, pious devout (सुव्रत)
- सुब्बत्तं : Good practice, piety (सु + वृत्त)
- सुब्बुट्ठि : Abundance of rain (सु + वृष्टि)
- सुभद्दो : Name of Gautama's last convert: name of a renegade monk who tried to stir up schism among the priests immediately after Gautama's death
- सुभगो : Agreeable, beloved, amiable (सुभग)

- सुभकिण्हो + : Entirely lustrous (शुभ + कृत्स्न)
किण्हो + किण्होको
सुभरो (adj) : Easily supported by others, frugal (सुभर)
सुभासुभो (adj) : Good and bad (शुभाशुभ)
सुभिक्षो (adj) : Having abundance of food; fertile (सुभिक्ष)
सुभो (adj) : Radiant, lustrous; beautiful; good; auspicious, happy (शुभ)
सूचनं : Indicating, exhibiting (सूचन)
सुचरितो (adj) : Well done, right, good (सुचरित)
सुचन्नो (adj) : Well covered or roofed (सु + छन्न)
सूचेति : To indicate, show; to inform against, betray (सूच्)
सुचि (adj) : Bright, clear, pure, clean, white (शुचि)
सूचि : A needle (सूचि)
सूचिमा (adj) : Pure (शुचिष्मत्)
सुचिरं (adv) : For a very long time (सूचिरम)
सुचित्तो (adj) : Much variegated or ornamented (सुचित्र)
सुदं : See सु
सूदनं : Destruction (सूदन)
सुदन्तो (adj) : Thoroughly subdued or tamed (सुदान्त)
सुदस्सनो (adj) : Beautiful (सुदर्शन)
सुदस्सी (adj) : Seeing well (सु + दर्शिन)
सुदस्सो (adj) : Easily seen, obvious (सुदर्श)
सूदति : To distil, flow, exude (सूद)
सुदत्तो : A name of Anathapindika (सुदत्त)
सुद्धाजीवी (adj) : Living a pure life (शुद्ध + आजीव + इन्)
सुद्धन्तो : Woman's apartments, harem (शुद्धान्त)
सुद्धावंसता : Purity of lineage (शुद्ध + वंश + ता)
सुद्धावासो : Pure abode (शुद्ध + आवास)
सुद्धि : Purity, purification; Nirvana (शुद्धि)
सुद्धो : See सुज्झति
सुद्धोदनी : Son of Suddhodana, an epithet of Gautama Buddha
सुद्धोदनो : Name of a king of Kapilvatthu—the father of Gautama Buddha (शुद्धोदन)
सुद्धो : A shudra (शूद्र)
सुद्धा : Ambrosia or Nectar; white-wash, cement, chunam, stucco (सुद्धा)

354 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सुधम्मा :	Name of Sakka's hall of justice (सुधर्मा)
सुधासी :	A deva or angel (सुधा + आशित्)
सुद्धी (adj) :	Wise (सुधी)
सूदो :	A cook (सूद)
सुद्दसो (adj) :	Very difficult to see, invisible (सु + दुर्दृश)
सुदुज्जयो (adj) :	Very difficult to conquer or win (सुदुर्जय)
सुदुत्तरो (adj) :	Very difficult to cross, to escape from (सुदुस्तर)
सुगहणो (adj) :	Well held, light (सु + ग्रहण)
सुगहितो :	See सुगहितो
सुगन्धि, सुगन्धो (adj) :	Fragrant (सुगन्धि, सुगन्ध)
सुगति :	Happy condition, being reborn in heaven, heaven, svarga (सुगति)
सुगति (adj) :	Reightous (सुगति)
सुगतो (adj) :	Who walks well, happy, blest (सुगत)
सुगगहितो + :	Grasped tightly (सुगहित)
सुगहितो (adj) :	
सुगगति :	See सुगति
सुहदयो (adj) :	Friendly (सु + हृदय)
सुहदो :	Friendly, affectionate (सुहृद)
सुहृज्जो :	A friend (सुहृद् + य)
सुहितो (adj) :	Satiated (सुहित)
सुहृजो :	See सूजु
सुहुट्टितो (adj) :	Clearly arisen (सु + उत्थित)
सुजा :	A sacrificial ladle (सुच्)
सुजा :	Name of the wife of Sakka (शु + ज)
सुजम्पति :	Husband of Suja, a name of Sakka
सुजनो :	A good man (सुजन)
सुजाति :	Of high family (सुजात)
सुजीवो (adj) :	Easy to live (सुजीव)
सुज्झति :	To be pure (शुध्)
सूजु + सुहुजु (adj) :	Very upright, conscientions (सु + ऋजु)
सुकन्दको :	An onion (सुकन्दक)
सूकरिको :	A boar-hunter (सूकर + इक)

सूकरो (adj) :	Easy, feasible (सूकर)
सूकरो :	A hog, a boar (सूकर)
सुकती (adj) :	Fortunate (सुकृतिन्)
सुकतो + टो (adj) :	Good, virtuous (सुकृत)
सुखावाही :	A well-trained horse (सुख + आवाह + इन)
सुखावहो (adj) :	Bringing happiness (सुखावह)
सुखविहारी (adj) :	Having a feeling of ease or serenity (सुख + विहारिन)
सुखायति :	To be pleased, contented (सुखायते)
सुखेधितो (adj) :	Delicate
सुखेसी (adj) :	Seeking pleasure or ease (सखैषिन्)
सुखेति :	To make happy (सुखयति)
सुखी (adj) :	Happy, blest; healthy (सुखिन्)
सुखितो (adj) :	Happy, blest; pleased, contented; healthy (सुखित)
सुखो (adj) :	Blest, happy; delightful, pleasant; easy (सुख)
सुखुच्चारणं :	Facility of pronunciation, euphony (सुख + उच्चारण)
सुखुमालो + :	Youthful, tender, delicate, soft, graceful (सुकुमार)
सुकुमारो (adj)	
सुखुमो (adj) :	Small, minute; subtle; accurate; delicate, exquisite (सूक्ष्म)
सुखुपपत्ति :	Blissful birth (सुख + उपपत्ति)
सुक्कं :	Semen (शुक्र)
सुक्कं :	see सुक्को
सुक्कवारो :	Friday (शुक्रवार)
सुक्खति :	See सुस्सति
सुक्खो (adj) :	Dry, dried up (शुल्क)
सुक्को :	White, bright, pure, good (शुल्क)
सुको + सुवो :	A parrot (शुक्र)
सुकुमारो :	See सुखुमालो
सुलभो (adj) :	Easy to obtained or meet with (सुलभ)
सूलं + सुलो :	Any sharp pointed instrument, a pike, lance, stake; severe pain, colic, rheumatism (शूल)
सूळारो (adj) :	Magnificent (सु + उदार)
सूली :	A name of Siva (शूलिन्)
सुमना :	The great flowered jasmine (सुमना)
सुमनकूटो :	Adam's peak, a mountain a Ceylon

356 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सुमानसो (adj) :	Joyful (सु + मानस)
सुमनो (adj) :	Satisfied, happy (सुमनस्)
सुमनोहरो (adj) :	Very charming (सुमनोहर)
सुमनोरथो (adj) :	Having pious wishes (सु + मनोरथ)
सुमरति :	See सरति
सुमति (adj) :	Wise (सुमति)
सुमेधसो + सुमेधो :	Wise (सुमेधस्)
(adj)	
सुमेरू :	Mount Meru (सुमेरू)
सुमो :	The moon (सुम)
सुसुमारो :	A crocodile (शिशुमार)
सुमुत्तो (adj) :	Happily released (सु + मुक्त)
सूणा :	A slaughter-house (शूना)
सुनखो :	A dog (शुनक)
सुणाति :	See सुणोति
सुन्दरो (adj) :	Beautiful; good (सुन्दर)
सुणहा + :	A daughter-in-law (सुण्हा)
सुणीसा + हुसा	
सुनिसन्नकं :	The pot herb Marsilia Quadrifolia (सुनिषणक)
सुङ्ग + सुङ्गो :	Tax, tribute, revenue (शुल्क)
सुञ्जागारं :	An empty place where there are no houses or pupil (शून्यागार)
सुञ्जातो (adj) :	Empty, void
सुञ्जो (adj) :	Empty, void, deprived of (शून्य)
सुणो :	A dog (शुन)
सूनो :	See सोणो
सुणोति + सुणाति :	To hear (श्रु)
सूनु :	A child, a son (सूनु)
सुपक्को (adj) :	Thoroughly ripe (सुपक्क)
सुपण्णो :	A Garuda (सुपर्ण)
सुपन्थो :	A good road (सु + पथ)
सुपति :	To sleep (स्वप्)
सुपिनं :	See सोप्यं
सूपो :	Soup, broth, sauce, condiment, the gravy of curry and rice (सूप)

सुप्पबुद्धो (adj) :	Wide awake, vigilant (सुप्रबुद्ध)
सुप्पगल्भो (adj) :	Very bold (सु + प्रगल्भ)
सुप्पसन्नो (adj) :	Very joyful or full of faith (सुप्रसन्न)
सुप्पतिको (adj) :	Overjoyed (सुप्रतीत)
सुप्पतिष्ठितो (adj) :	Firmly established; well-placed (सुप्रतिष्ठित)
सुप्पटिविद्धो (adj) :	Thoroughly understood (सुप्रतिविद्ध)
सुप्पो + सुप्पं :	A winnowing basket (शूर्प)
सुरा :	Spirituous liquor (सुरा)
सुरभि (adj) :	Fragrant (सुरभि)
सुरम्मो :	Very delightful (सुरम्य)
सुरतं :	Sexual intercourse (सुरत)
सूरतो :	Compassionate, tender (सूरत)
सूरत्तं :	Heroism (शूरत्व)
सूरत्तो (adj) :	Very red (सुरक्त)
सूरी (adj) :	Wise (सूरिन्)
सुरियो :	The sun (सूर्य)
सुरो :	A deva, deity (सुर)
सूरो :	A hero, valiant man; the sun (शूर)
सुरुचिरो (adj) :	Resplendent (सु + रुचिर)
सुरुङ्गा :	A mine, pit (सुरुङ्गा)
सुरूपी (adj) :	Handsome (सुरूप + इन्)
सुरूपो (adj) :	Handsome (सुरूप)
सुरूसुरू :	A word imitative of the sound made when curry and rice is eaten hastily
सुसमा :	Exquisite beauty (सुषमा)
सुसानको :	A Candala employed in a susana
सुसानं :	A cemetery or charnel house, an inclosed ground in which bodies are buried (शवसान)
सुसवी :	The plant Momordica Charantia (सुशवी)
सुसेनो :	The karamadda tree (सुषेण)
सुसी :	A hole in the ground (शुषी)
सुसीलो (adj) :	Moral, virtuous (सुशील)
सुसिप्पिको :	A skillful workman (सु + शिल्पिक)
सुसिरो (adj) :	Full of holes, perforated (शुषिर)

358 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

सुस्सनं :	Desiccation
सुस्सरता :	Melodiousness of voice (सुस्वर + ता)
सुस्सति :	To be dried up, waste away (शुष्)
सुस्सवनं :	Good news (सु + श्रवण)
सुस्सुसा :	Desire to hear, obedience, attention, service (शुश्रूषा)
सुस्सूसति :	To listen, attend (शुश्रूयते)
सुस्सुते :	To be heard
सुस्सुतो (adj) :	Well-known (सुश्रुत)
सुसु :	A boy, lad (शिशु)
सूसू :	A noise made to frighten away a bird
सुसुको :	A child or youth; an alligator or crocodile; the Gangetic porpoise (शिशुक)
सुतवा (adj) :	Learned in religion; mighty in the scriptures (श्रुतवत्)
सुति :	Dozing (स्त्रुति)
सुति :	Hearing; the ear, sound; report, rumour; tradition; the Veda; in music one of the twenty-two quarter tones or intervals (श्रुति)
सूति :	Birth, chldbirth (सूति)
सुतो :	A son (सुत)
सुतो :	Flowing, dripping (सुत)
सुतो :	Heard; renowned (श्रुत)
सूतो :	A charioteer; a bard, poet-laureate (सूत)
सुत्तं :	A string, thread; a portion of the Buddhist scriptures; a rule, aphorism (सूत्र)
सुत्तन्तिको (adj) :	Versed in the Sutta Pitaka
सुतन्तो :	A sutta (सूत्र + अन्त)
सुत्तसो (adj) :	Sutta by sutta (सूत्र + शस्)
सुत्थिरो (adj) :	Firm (सुस्थिर)
सुद्धितो (adj) :	Well-established, firm (सुस्थित)
सुद्ध (adj) :	Well; exceedingly (सुष्टु)
सुत्ति :	A pearl oyster (शुक्ति)
सुत्तिको (adj) :	Belonging to a thread (सौत्रिक)
सुत्तो :	Sewn, stiched (स्यूत)
सुत्तो :	Asleep (सुप्त)
सुत्वा :	See सुणोति

सुवचो (adj) :	See सुव्वचो
सुवानयो :	Easily led (सु + आनय)
सुवण्णो (adj) :	Of good colour, bright, brilliant; of good mien or complexion, comely (सुवर्ण)
सुवानो :	See सोणो
सुवत्थि :	See सोत्थि
सुवे :	See स्वे
सुवीरो :	Name of Sakka's son (सुवीर)
सुवुपसन्तो (adj) :	Thoroughly calmed (सु + उपशान्त)
सुवुट्टिका :	Abundance of rain (सु + वृष्टि + क)
सूयत्ति :	See सुणोति
स्वागतं + सागतं :	Welcome, salutation (स्वागत)
स्वाहं :	See सो
स्वाक्खातो (adj) :	Well-told or shown or taught (सु + आख्यात)
स्वण्णं :	See सोण्णं
स्वानो :	See सोणो
स्वप्पो (adj) :	Very little or few (स्वल्प)
स्वस्सा :	सो + अस्सा
स्वातनो (adj) :	Belonging to tomorrow (श्वस्तन्)
स्वे + सुवे (adv) :	To-morrow (श्वस्)
स्वेवा :	सो + एव
स्याग्रदुं :	Siam

T

तब्बांसिको (adj) :	Belonging to that race (तद् + वंश + इक)
तब्बण्णना :	The commentary there on (तद् + वर्णना)
तब्भेदो :	A variety there of (तद् + भेद)
तब्बिपरीतो (adj) :	Contrary to it, the opposite of it (तद् + विपरीत)
तब्बिसेसो :	A variety there of (तद् + विशेष)
तचसारो :	A bamboo (त्वच् + सार)
तच्चको :	A carpenter (तक्षक)
तच्चं :	Truth, reality (तथ्य)
तच्चनी :	A hatehat chip-axe (तक्षनी)
तच्छति :	To pare, cut, slice, chop, hew (तक्ष्)
तचो :	Skin, bark, rind
तद :	See सो
तदा (adv) :	At that time, then (तदा)
तदहे + तदहु (adv) :	On that day (तद्हस्)
तदाकारो (adj) :	Of that appearance, similar (तद् + आकार)
तदामिना :	Know this also, hereby
तदानि (adv) :	Then (तदानीम्)
तदनरूपो (adj) :	Suitable there to (तद् + अनुरूप)
तदञ्जो (adj) :	Different from it (तदन्य)
तदन्तरे (adv) :	In the man time (तद् + अन्तर)
तदन्वयो (adj) :	Following it, connected there with (तद् + अन्वय)
तदात्तं :	That time (तदात्व)
तदत्थं :	On that account (तदर्थम्)
तदवसरि :	See सो
तदव्हयो (adj) :	Having that name (तद् + आहूय)
तादि (adj) :	Like that, such (तादृश्)
तदिदं :	See सो
तादिक्खो (adj) :	Such (तादृक्ष)
तादिसको (adj) :	Such
तादिसो (adj) :	Such (तादृश्)
तदुभयां :	Both of them (तद् + उभय)
तदूपियो (adj) :	Suitable, corresponding

तगरं :	The shrub Tabernaemontana coronaria and a fragrant powder obtained from that (तगर)
तग्ध (adv) :	Certainly, verify, truly
तहं, तहिं (adv) :	There
तज्जनी :	The fore-finger (तर्जनी)
तज्जनीयकम्मं :	Name of one of the Sanghakammas (तर्जनीय + कर्मन्)
तज्जरी :	A measure
तज्जाति :	Such and such a race (तद् + जाति)
तज्जेति :	To threaten, revile, blame, scold, frighten (तर्जयति)
तक्कालं :	At that time (तक्कालम्)
तक्कं :	Butter-milk (तक्क)
तक्कारी :	The tree sesbania Oegypliea (तक्कारी)
तक्करो (adj) :	Doing that (तक्कर)
तक्करो :	A thief (तक्कर)
तक्कसिला :	The city of Takshashila in the Punjab (तक्कशिला)
तक्कता :	One who does that (तद् + कर्तृ)
तक्किको :	One who reasons, a logician, a philosopher (तार्किक)
तक्कितो :	Thought, reasoned (तर्कित)
तक्को :	Thought, reflection, reasoning (तर्क)
तक्को :	Date-fruit
तक्कोलं :	Bdellium, a particular sort of perfume made from the berry of the kakkola plant (कक्कोल)
तालगं :	Top of a palmyra tree (ताल + अग्र)
ताळाक :	A pond, pool, lake (ताळाक)
तलं :	Surface, level, plane; lowerpart, base (तल)
ताळनं :	Striking (ताडन)
ताळेति :	To strike, beat; to strike a musical instrument (तड्)
ताली :	The tree coryph Taliera; musical measure; (ताली)
तालिसं + स :	Forty (चत्वारिंशत्)
तल्लञ्छनं :	Mark or imprint there of (तद् + लाञ्छन्)
तालो :	The fan plam, palmyra; a measure, the short span; a musical instrument of metal struck with the hand or a stick, gong, cymbal (ताल)
ताळो :	A key (ताल)

362 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

तालुजो (adj) :	Palatal letters (तालु + अ)
तलुणो (adj) :	Tender, delicate (तरुण)
तं :	See सो
तं :	See त्वं
तमालो :	The tree xanthochymus Pictorius (तमाल)
तम्बको :	Name of a plant (ताम्रक)
तम्बो (adj) :	Coppery, red (ताम्र)
तम्बुली + लं :	The betel vine, piper betel and its leaf which is chewed (ताम्बूली)
तमो + तमं :	Darkness, gloom; in the Sankhya philosophy one of the three Gunas (तमस्)
ताणं :	Defence, shelter, refuge; Nirvana (त्राण)
तनयो :	A son (तनय)
तन्दि :	Drowsiness, sloth (तन्द्री)
तण्डुलीयो + लेद्यो :	The plant amaranthus Polygonoides (तण्डुलीय)
तण्डुलो :	Rice husked and winnowed and ready for boiling (तण्डुल)
तण्हा + तसिणा :	Lust, desire, human-passion (तृष्णा)
तण्हक्खयो :	Extinction of desire; Arahataship or Nirvana (तुष्णाक्षय)
तण्हङ्करो :	Name of a Buddha (तृष्ण + कर)
तञ्ही :	See सो
तङ्घणं + तङ्घणे (adj) :	At that moment, instantly, at once (तत्क्षण)
तङ्घणिको (adj) :	Momentary
तङ्घो :	A stone-mason's chisel (टङ्क)
तन्नामको (adj) :	Having that name or the same name (तद् + नामक)
तञ्जेव :	See त्वं
तन्निनो (adj) :	Strong inclination towards a thing
तनोति :	To stretch (तन्)
तन्तं :	A thread; main point; a literary work, religious treatise (तन्त्र)
तन्ति :	A string, line, cord; the string of a lute; a sacred text (तन्ति)
तन्तु :	A thread (तन्तु)
तनु (adj) :	Thin, slender, delicate; small, slight (तनु)
तनुजो :	A son (तनुज)

तनुको (adj) :	Small, thin (तनुक)
तनुत्तं :	Smallness, thinness (तनुत्व)
तापनं :	Tormenting, self, mortification (तापन)
तपनीयं :	Gold (तपनीय)
तपनो :	The sun; name of a hell (तपन)
तापसो :	A hermit, ascetic (तापस)
तपस्सी :	A mendicant, pauper; a religious ascetic or hermit (तपस्विन्)
तपति :	To burn, blaze; to shine, be brilliant, to scorch, torment (तप्)
तापिञ्चो + :	The plant Xanthochymus Pictorius (तापिञ्छ तापिञ्ज्)
तापिञ्जो	
तपो, तपं :	Religions austerity; self mortification; religious duties, moral practice, piety, virtue, devotion (तपस्)
तप्यम्भारो :	See तन्निन्नो
तपच्चया (adv) :	On account of that (तद् + प्रत्ययात्)
तप्यनं :	Being satisfied, satiety, gratification (तर्पण)
तप्यनं :	Torment
तप्यरो (adj) :	Subsequent; deligent, devoted (तत्पर)
तप्यति + तप्येति :	See तपति
तप्येति :	To satisfy, refresh (तर्पयति)
तप्योणो :	See तन्निन्नो
तप्पुरिसो :	In gram, name of a particular sort of samasa (तत्पुरूष)
तारा :	The star, planet, the pupil of the eye (तारा)
तरच्छो :	A hyena (तरक्ष)
तरहि (adv) :	Then (तर्हि)
तारका :	A star, the pupil of the eye (तारका)
तरलं :	Rice gruel
तरलो (adj) :	Trembling, unsteady (तरल)
तरणं :	Carrying over (तरण)
तरङ्गो :	A wave (तरङ्ग)
तरणी :	A boat (तरणी)
तारापथो :	The sky (तारापथ)
तरति :	To cross, traverse, get beyond, escape from (तृ)
तरति :	To be hurried or flurred, tremble (त्वर)

364 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

तरवो :	See तरू
तरि :	A boat (तारि)
तरो :	A boat, a raft (तर, तरस्)
तारो (adj) :	Shrill, high (of a musical sound) (तार)
तरु :	A tree (तरू)
तरुणो (adj) :	Young, fresh, new (तरुण)
तसरो :	A shuttle (त्रसर)
तसति :	To tremble, to be afraid of (त्रस्)
तसिण्ह :	See तण्डा
तस्मा :	See सो
तसो (adj) :	Moving, movable (त्रस)
तस्सनं :	Thirst (तर्षण)
तस्सपपिय्यसिका :	Name of one of the adhikaranasamathas (तस्य + पापीयस् + इका)
तात :	See तातो
तटं :	See तटो
तटतटायति :	To rattle, rustle (from तटतट)
तथा (adv) :	So thus; also (तथा)
तथभावो :	Thuth
तथागतो :	A sentient being; a Buddha (तथागत)
तथरिच :	See तथा
तथारूपो (adj) :	Of such a description, such; suitable, appropriate, adequate (तथारूप)
तथतो (adj) :	As it is, rightly, correctly, truly
तथत्तं :	Being so, such a state of things (तथात्त्व)
तथेव :	See तथा
तथूपमो :	See उपमा
तटी :	See तटो
ततियो (adj) :	Third (तृतीय)
ततो :	See तनोति
ततो (adv) :	From that place, thence, therefrom; from that time; thereafter; subsequently; further, moreover (ततस्)
तटो, तटी, तटं :	A shore or bank (तट, तटी)
तातो :	See तायति

तातो :	Respected, dear (तात)
तत्र + तत्थ (adv) :	There; thither; in that case, now, here; in that; therein (तत्र)
तत्तको (adj) :	Burning (तप्त + क)
तत्तको (adj) :	As many, as great
तत्थ :	See तत्र
तत्तो :	See तपति
तत्कं :	Essence, reality (तत्त्व)
तव, तवं :	See त्वं
ताव (adv) :	At once; now, just; really, indeed, still (ताव)
तावता (adv) :	So far, to that extent, on that account (तावता)
तावतको (adj) :	So many, so much, so great, so long (तावत् + चक्र)
तावतिहं :	See यावतिहम
तावत्तिसो (adj) :	Belonging to thirty three
तया :	See त्वं
ताय, तायं :	See सो
तायति :	To protect, preserve, save (त्रा)
तयी :	The three Vedas (त्रयी)
तयो :	three (त्रयो)
तयोदस :	Thirteen (त्रयोदशन्)
ते :	See सो + त्वं
तेभातिको (adj) :	Consisting of three brothers (त्रि + भ्रातृ + क)
तेभूमको (adj) :	Belonging to three stages of being (त्रिभूस + क)
तेचिवरिको (adj) :	Wearing three robes (त्रेचीवरिक)
तेधा (adv) :	In three ways (त्रेधा)
तेजनं :	An arrow, shaft (तेजनं)
तेजस्सी (adj) :	Bright, glorious (तेजस्विन्)
तेजेति :	To sharpen (तेजयति)
तेजो, तेजं :	Flame, heat, fire; light; brilliancy, splendour; majesty, dignity, prestige, glory, fame; influence, efficacy, power (तेजस्)
तेकालिको (adj) :	Relating to the three times, past, present, future (त्रेकालिक)
तेकिच्छो (adj) :	Curable
तेलकं :	A little oil (तैलक)

366 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

तेलं :	Oil from Tila-seeds (तैल)
तेलस, तेरस :	Thirteen (त्रयोदशन्)
तेलिको :	An oil manufacturer (तैलिक)
तेमनं :	Wetting (तेमन)
तेमासं :	Three months, a quarter (त्रिमास + अ)
तेमेति :	To wet, moisten
तेना :	See सो
तेपिटको (adj) :	Belonging to the Tipitaka (त्रिपिटक + अ)
तेत्तिस, तेत्तिसति :	Thirty three (त्रयस्तिंशत्)
तेविज्जो (adj) :	Possessed of three Vijjas (त्रैविध)
तेवीस, तेवीसति :	Twenty three (त्रयोविंशति)
थबको :	A cluster of blossoms, bunch of flowers (स्तवक)
थद्धो :	Firm, hard, solid, dense; obstinate, stolid, stubborn (स्तब्ध)
थकनं :	Covering, a lid (स्थगन)
थकेति :	To cover, conceal, stop up (स्थगयति)
थलजो :	Land born (स्थलज)
थालकं = थालं :	
थलं + थली :	Land; ground (स्थल, स्थली)
थालं :	A metal bowl or bason; a plate, dish (स्थाल)
थलट्टो (adj) :	Standing on dry grounds (स्थलस्य)
थली :	See थलं
थाली :	A cooking pot, boiler, kettle (स्थाली)
थामवा :	Resolute (स्थामन् + वन्)
थम्भकरि :	Rice (स्तम्बकरि)
थम्भो :	A clump of grass, a bush, thicket; a post, pillar: column: the post to which an elephant is tied: stupor, insensibility (स्तम्ब + स्तम्भ)
थामो :	Strength
ठानं :	Standing, stopping, halting: place, spot, situation: station, state, condition: place, post, office, appointment rank: dignity: point, matter; subject, topic, proposition, thesis, thing: basis, source, origin, cause, reason स्थान
थानन्तरं :	A particular post, a certain office, an office, appointment (स्थान + अन्तर)
थनपो, थनपायी :	A suckling, infant (स्तनप + पायिन्)
ठानसो (adv) :	Casually, necessarily (स्थान + शस्)

ठानाठानं :	Right and wrong place or site (स्थान + अस्थान्)
थण्डिलसायिका :	Sleeping on the bare-ground (स्थण्डिलशायिन् + इका)
ठानिको (adj) :	Holding the place of (स्थानिक)
थनितो (adj) :	Holding, thundering (स्तनित)
ठानियो (adj) :	Based upon (स्थानीय)
थञ्जं :	Mother's milk (स्तन्य)
थानो :	Female breast (स्तन)
ठापनं :	Placing (स्थापन)
ठपनीयो :	That should be set aside
थपति :	A carpenter (स्थपति)
ठापेति, ठपियति :	See तिट्ठति
थरू :	The hilt of a sword (त्सरू)
ठस्सति, ठातुं, ठत्वा :	See (तिट्ठति)
थावरियं :	Security (स्थावर + य)
थावरो (adj) :	Stationary, fixed: stable, firm, strong (स्थावर)
थविका :	A purse
ठायी (adj) :	Lasting, living (स्थायिन्)
थेनेति :	To steal (स्तेन्)
थेनो :	A thief (स्तेन)
थेरियो (adj) :	Belonging to theras (स्थाविर + व)
थेरो :	An oldman; a Buddhist monk of a certain standing, a senior priest, an elder (स्थाविर)
थेतो (adj) :	Firm, trustworthy
थेवो :	A drop of water (स्तेप् + अ)
थेय्यं :	Theft (स्तेय)
थी :	A woman (स्त्री)
थीनं :	Idleness, sloth, dullness (स्थान)
थिरो (adj) :	Firm, hard, solid, strong, immovable, permanent, lasting (स्थिर)
ठित्तको (adj) :	Standing up (स्थितक)
ठित्तं :	Remaining firm: continuance (स्थित + त्व)
ठिति :	Durability, stability, continuation, existence, life (स्थिती)
ठित्तिको (adj) :	Lasting, continuing, living on, existing
ठित्तो, ठीयती :	See तिट्ठति

368 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

ठो (adj) :	Standing, staying (स्थ)
थोकको (adj) :	Small, brief, slight
थोको (adj) :	Small, short, slight (स्तोक)
थोमनं :	Praise (स्तोमन)
थोमेति :	To praise (स्तोमयति)
थोमो :	Praise (स्तोम)
थूलो, थूलो (adj) :	Big, large, thick, coarse, clumsy, stupid (स्थूल)
थूणा :	A pillar, column, post (स्थूणा)
थूपो :	A conical heap, a pile, a mound; a conical or bell-shaped shrine containing a retic, a dagaba, cetiya, tope (स्तूप)
थूसो :	Husk of grain (तुष)
थुति :	Praise, thanks (स्तुति)
थुतो :	Praised (स्तुत)
ति :	See इति
ति :	See तयो
तिब्बो (adj) :	Sharp, keen; acute, intense, excessive, severe (तीव्र)
तिभागो (adj) :	Consisting of three portions (त्रि + भाग)
तिभवं :	Three forms of existence (त्रि + भव)
तिभूमको (adj) :	Three storied (त्रि + भूम + क)
तिचीवरं :	The three robes (त्रि + चीवर)
तिदण्डं :	The three staves of a Brahmin ascetic (त्रिदण्ड)
तिदसो :	A deva (त्रिदश)
तिधा (adj) :	In three ways of parts (त्रिधा)
तिदिवो :	The deva world or heaven (त्रिदिव)
तिगावुतं :	Three leagues (त्रि + गव्यूति)
तीहं :	Three days (त्र्यह)
तीहि :	See तयो
टीका :	A Pali commentary on an atthakatha, a scholium, gloss (टीका)
तिकं :	A triad, three (त्रिक)
तिखिणो, तिक्खो :	Sharp; pungent, fiery, acrid; acute, clever (तीक्ष्ण)
तिण्हो (adj)	
तिकिच्छा :	The practice of medicine, curing, healing (चिकित्सा)

तिकिच्छको :	A physician (चिकित्सक)
तिकिच्छति :	To treat medically, to cure (चिकित्सति)
तिक्खत्तुं :	Thrice (त्रि + कृत्वस्)
तिलक्खणं :	Three characteristics (त्रि + लक्षण)
तिलको :	Name of a tree: a moade or freckle: a seetarial mark on the forehead
तिलिच्चो :	A sort of snake (तिलित्स, तिलिच्छ)
तिलो :	The sesamum plant; the seed of sesamum Indicum (तिल)
तिलोकं :	The three worlds (त्रिलोक)
तिमण्डलं :	Three circles (त्रि + मण्डल)
तिम्बरू , :	The Tinduka tree
तिम्बरूसको	
तिमि, तिमिन्दो, :	Names of certain fish of enormous size, that haunt the oceans,
तिमङ्गलो	between kutackalas (तिमि; तिमि, इन्द्र, तिमिगिल)
तिमिरं :	Darkness (तिमिर)
तिमिरायित्तं :	Gloominess (तिमिरायते + त्व)
तिमिसं :	Darkness (तमिस्त्र or तमस्)
तिमिसिका :	A very dark night (तमिस्त्र with इक)
तिंस, तिंसति :	Thirty (त्रिशत्)
तिंसो (adj) :	Thirtieth (त्रिंश)
तिनं :	Grass, herb, wead (तृण)
तिणवत्थारको :	Name of one of the adhikaranasamathas (तृण + अवस्तार + क)
तिणवो :	A sort of drum
तिनयनं :	Three eyes (त्रिनयन)
तिन्दुको :	The tree Diospyros Embryopteris (तिन्दुक)
तिण्हो :	See तिखिणो
तीणी :	See तयो
तितिसो :	The tree Dalbergia Onqeinensis (तिनिश)
तिण्णो :	See तरति
तिन्तिणी :	The tamarind tree
तिन्तो :	Wet
तिणुक्का :	A torch made of a wisp of hay or dry grass (तृणोल्का)
तिपदक्खिणं :	The padakkhina thrice repeated (त्रि + प्रदक्षिणा)
तिफलं :	Three fruits (त्रिफल)

370 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

तिपिटकं :	Three Baskets or Treasuries, a name of the Buddhist Scriptures (त्रिपिटक)
तिपु :	Tin, lead (त्रपु)
तिपुता :	White Teori, convalvulus Turpenthum (त्रिपुटा)
तिरच्छानो :	An animal, beast
तीरं :	A shore, bank (तीर)
तीरणं :	Deciding
तिरत्तं :	Three nights or three days (त्रिरात्र)
तीरेति :	To accomplish, finish, decide (तीरयति)
तिरीटको :	The tree Symplocos Racemosa (तिरीट + क)
तिरियं (adv) :	Across (तिर्यक)
तिरो (adv) :	Across, beyond, over, on the other side (तिरस्)
तिरोधानं :	A curtain, cover, lid, veil (तिरोधान)
तिरोकरणी :	A curtain or screen (तिरस्करिणी)
तिरोकरिष्यति :	To be veiled (Pass तिरस्कृ)
तिरोक्कारो :	Disrespect, blame, abuse (तिरस्कार)
तिसरणं :	The three refuges (त्रिशरण)
तिसतो (adj) :	Numbering three hundred (त्रिशत)
तिसिङ्गः :	Three horns or peaks (त्रिशृङ्ग)
तिस्सो :	See तयो
तिथिः :	A lunar day (तिथि)
तित्तिक्खतिः :	To bear, endure, belong-suffering (तित्तिक्षते)
तित्तको (adj) :	Bitter (तिक्तक)
तित्थकरो :	A sect founder; religious teachers (तीर्थकर)
तित्थं :	A landing place, or bathing place in a river or tank, a ghat: a landing place on the sea-coast, a harbour: a Guru or precaptor: the usual way, right way: a piece of water: religious belief (तीर्थ)
तिट्ठति-ठाति :	To stand, stand aside: be expected or omitted, remain behind; to stay, stop, remain: to dwell, continue, abide, last, endure, remain constant, live, exist, be (स्था)
तित्थियो :	An adherent of a heretical sect or system of philosophy, a sectarian, heretic, unorthodox believer (तीर्थ्य)
तित्तिः :	Saliety, fulness (तृप्ति)
तित्तिको (adj) :	Brimful (सम + तृप्ति + क)

तित्तिरो :	The francoline partridge (तित्तिर)
तित्तो :	Satisfied, full (तृप्त)
तिवग्गो :	Three objects of life viz. Dhamma, kamo and artho, Religion, pleasure and wealth (त्रिवर्ग)
तिवङ्गिको (adj) :	Having three angas (त्रि + अङ्ग + इक)
तिविधो (adj) :	Threefold (त्रिविध)
तिविज्जा :	Three branches of knowledge (त्रिविद्या)
तिवृता :	White teori, convolvulus Turpethum (त्रिवृत्)
तियामा :	Night (त्रियामा)
तियासीति :	Eighty three (त्र्यशीति)
तोमरिको :	A spearman
तोमर, रं :	A lance, spike (तोमर)
तोरणं :	An arch, gateway, pandal or triumphal arch used on state occasions (तोरण)
तोसो :	Satisfaction, joy (तोष)
तोयगो (adj) :	Floating on water (तोय + ग)
तोयं :	Water (तोय)
तु :	A particle, never used at the beginning of a sentence, which may be rendered by "now" "but" "indeed" (तु)
तुच्छो (adj) :	Empty, vain (तुच्छ)
तुदम्पति :	Husband and wife
तुदित्थ :	He gnawed, pierced
तुहिनं :	Dew frost (तुहिन)
तुज्जति :	To be struck, pierced, poked
तुला :	A balance, pair of scales: resemblance, equality a beam or rafter: a measure of weight (तुला)
तुलेति :	To weigh, measure; to consider, weigh with the mind (तूल, तुल)
तुलिका :	A painter's brush or pencil (तुलि + का)
तुलिका :	A mattress (तुलिका)
तुलियो :	A flyig fox
तूलो + तूलं :	Cotton (तूल)
तुल्यो (adj) :	Similar, equal (तुल्य)
तुम्बी :	The gourd laqenaria vulgaris (तुम्बी)
तुम्बो :	A sort of water-vessel with a spout; a measure of grain (तुम्ब)

372 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

तुम्हादिसो (adj) :	Like you
तुम्हे :	See त्वं
तुण्डं :	A beak, snout etc. (तुण्ड)
तुण्डिलो (adj) :	तुण्डिल
तुङ्गो :	High, prominent (तुङ्ग)
तुण्ही (adv) :	Silently, without speaking (तूष्णीम)
तूणी, तूणो, :	A quiver (तूणी, तूण, तूणीर)
तूणीरो, रं	
तुन्नं :	A suture, a patch (तुन्न)
तुन्नवायो :	A tailor (तुन्नुवाय)
तुण्णो :	Quick (तूर्ण)
तुरगो, तुरङ्गो :	A horse, courser (तरग, तुरङ्ग)
तुरितो :	Hastening, hurried, eager, swift (त्वरित)
तुरियं :	A musical instrument (तूर्य)
तुरक्खो :	Indian incense (तुरूष्क)
तुसिता :	Name of the angels inhabiting the fourth Devaloka (तुषित)
तुसो :	Substance, wealth
तुस्सति :	To be satisfied, pleased, joyful (तुष्)
तुत्तं :	A pike used to guide the elephant, a goad (तोत्र)
तुट्ठि :	Satisfaction, joy, happiness (तुष्टि)
तुट्ठो :	See तुस्सति
तुट्ठुभं :	The trishtubh metre
तुव :	See त्वं
तुवटं (adj) :	Quickly
तुवट्ठति :	To lie down
त्वं, तुवं :	Thou (त्वम्)
त्वेव :	(इति एव)
त्यहं, त्याहं :	See इति, त्वं

U

उ, उद :	A preposition only used as the first of part of a compound, generally conveying the idea upward or "above" or "away" (उद्)
उब्बहति :	To raise up to remove, drive away (उद्बह्)
उब्बाहिको :	Rules for expulsion of, schismatic priests
उब्बट्टनं :	Shampooing the body (उद्दत्तनं)
उब्बत्तेति :	To tear up, tear out (उद्दत्तयति)
उब्बेधो :	Height (उद् + वेध)
उब्बेगो :	Agitation; excitement, anxiety (उद्देग)
उब्बेजनियो (adj) :	Causing alarm, agitating (उद्देजनीय)
उब्भं :	See उद्भं
उब्भारो :	See उद्धारो
उब्भतो :	Thrown up, thrown out (उद्भूत)
उब्भावेति :	To produce, use (उद्भावयति)
उब्भवो :	Birth, origination (उद्भू)
उब्भिदं :	Kitchen salt (उद्भिद)
उब्भिज्जति :	To burst upwards, to spring up out of the ground, to sprout, germinate (Pass उद्भिद्)
उब्भूतो :	Born, produced (उद्भूत)
उब्बी :	The earth (उर्वी)
उब्बिजति :	To be afraid of (Pass उद्भिज्)
उब्बिल्लपितो :	Unduly elated, puffed up
उब्बिनयो :	Wrong or false Vinaya (उद् + विनय)
उभतो (adv) :	On both sides, in two ways (उभ + तस्)
उभयतो (adv) :	On both sides (उभयतस्)
उभयत्था (adv) :	In both places (उभयत्र)
उभयो (adj) :	Both (उभय)
उभो :	Both
उच्च (Indecl.) :	Above, high (उच्च)
उच्चालेति :	To irritate
उच्चालिङ्गो :	A caterpillar
उच्चं (Indecl.) :	High (उच्चैस्)
उच्चारणं :	Utterance, pronunciation (उच्चारण)

374 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उच्चार्यति :	To raise aloft, lift up (उच्चारयति)
उच्चार :	Excrement (उच्चार)
उच्चता :	Elevation (उच्चता)
उच्चतरो (adj) :	Higher (उच्चतर)
उच्चति :	See वृत्ति
उच्चतो (adv) :	According to height, in height (उच्च + तस्)
उच्चातुं :	To raise, lift
उच्चावचो (adj) :	Various, irregular (उच्चावच)
उच्चायो :	Accumulation (उच्चय)
उच्छादनं :	Destruction; rubbing the body with perfume (उत्सादन)
उच्छङ्गो :	The hip, flank, haunch: the lap (उत्सङ्ग)
उच्छेदो :	Extirpation, annihilation (उच्छेद)
उच्छिन्दति :	To cut off, extirpate, destroy (उच्छिद्)
उच्छितो :	Lofty, exalted (उच्छृत)
उच्छिष्टो :	Left, rejected, impure (उच्छिष्ट)
उच्छु :	Sugar cane (इक्षु)
उच्चिनति :	To choose, select: to pick up (उच्चि)
उच्चो (adj) :	High, tall (उच्च)
उचितो :	Suitable, convenient (उचित)
उद (Indecl) :	Or, on the other hand (उत्)
उदब्बहति :	To draw out, derive (उद् + आ + वृह)
उदबिन्दु :	A drop of water (उद्बिन्दु)
उदच्छिदो :	See उच्छिन्दति
उदधि :	The sea (उदधि)
उदग्गो (adj) :	High, delighted (उदग्र)
उदहारको :	One who makes conduits for water (उदहार + क)
उदाहरणं :	An example, instance (उदाहरण)
उदाहरति :	To utter, recite: to command (उदाह)
उदाहारो :	Utterance (उदाहार)
उदाहु (Indecl.) :	Or (उताहु)
उदकं :	Water (उदक)
उदकुम्भो :	A water pot (उदकुम्भ)
उदानं :	Upward aspiration, enthusiastic or joyous utterance, expression of intense feeling in words (उदान)

उदानेति :	To breathe forth, make a joyous utterance (<i>caus.</i> उदन्)
उदपानो :	A well (उदपान)
उदरं :	The belly, stomach (उदर)
उदरावदेहकं :	To eat to satiety
उदरियं :	The stomach (उदर्य)
उदारो :	See उदारो
उदासीनो (adj) :	Indifferent, neutral (उदासीन)
उदायिभद्रो :	Name of the son of Ajatasattu
उदयो :	Rise, beginning, appearance: the eastern mountain behind which the sun rises (उदय)
उद्दालो :	The tree Cassia fistula (उद्दाल)
उद्दलोमी :	A woollen coverlet with a fringe at each end
उद्दानं :	Binding (उद्दान)
उद्दापो :	Foundation of a wall (उद्दाप)
उद्देसको (adj) :	Appointing, arranging (उद्देसक)
उद्देसिकधातु :	Illustrative or commemorative retic, name of one of the three classes of relics or memorials of Buddhas
उद्देसितो :	A lumbar room, store
उद्देसो :	Prescription, ordinance; enunciation, recitation: region, period, occasion (उद्देस)
उद्दच्चं :	Being puffed up, vanity, pride (औद्दत्य)
उद्दच्छिद्दको :	Skylight (उर्ध्व + छिद्र + क)
उद्ददेहिकं :	Funeral obsequies (और्ध्वदेहिक)
उद्दगागामी (adj) :	Going upwards (ऊर्ध्वगामिन्)
उद्दगति :	Going up, ascent (उर्ध्वगति)
उद्दगिको (adj) :	Having spiritual progress for its end or object (ऊर्ध्व + अग्र + इक)
उद्दगो (adj) :	Pointing upwards, standing on end (ऊर्ध्व + अग्र)
उद्दको :	A kind of drum (ऊर्ध्वक)
उद्दलोको :	The world above, heaven (ऊर्ध्वलोक)
उद्दं, उद्दहं (adv) :	Upwards: up: above: after (ऊर्ध्वम्)
उद्दम्भागियो (adj) :	Belonging to the upper part (ऊर्ध्वम् + भाग + य)
उद्दम्मो :	Wrong or false Dharma, perverted doctrine (उद् + धर्म)

376 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उद्धंसति :	To be thrown or scattered upwards (उद् + ध्वंस्)
उद्धंसोतो :	One who ascends the stream (of existence) (उर्ध्वम् + स्रोतस्)
उद्धमुखो (adj) :	Upturned (ऊर्ध्वमुख)
उद्धमूलो (adj) :	Having the roots upwards (ऊर्ध्व + मूल)
उद्धनं :	An oven
उद्धङ्गमो (adj) :	Going upwards, ascending (ऊर्ध्वम् + गम)
उद्धपदो (adj) :	Heels upwards (ऊर्ध्वपाद)
उद्धरणं :	Drawing out (उद्धरण)
उद्धरति :	To draw out, lift up: raise (उद्धृ)
उद्धारो :	Pulling out: debt (उद्धार)
उद्धतो :	Puffed up, haughty (उद्धत)
उद्धटो :	See उद्धरति
उद्धो, उद्धो (adj) :	Raised, erect, high (ऊर्ध्व)
उद्धमायति :	To be blown up, and hence to be swollen
उद्धुतो :	Shaken (P.P.P. उद्धू)
उद्धुयति :	To be driven away
उद्धिसति :	To point out, to declare; to determine, appoint; to recite (उद्धिश्)
उद्धो :	Name of an animal (उद्ध)
उद्धेति :	To rise (उद्धि)
उद्धीचि :	The North (उद्धीची)
उद्धिक्खति :	To look at, survey; to see, perceive (उद्धीक्ष्)
उद्धीरणं :	Uttering, saying (उद्धीरण)
उद्धीरेति :	To utter, speak, say (उद्धीरयति)
उद्धितो :	Risen, arisen: high (उद्धित)
उद्धेको :	Vomiting (उद्धेक)
उद्धीयनं :	Bursting or splitting open
उद्धुक्खलं :	A mortar (उद्धुक्खल)
उद्धुम्बरो :	The tree ficus Glomerata (उद्धुम्बर)
उद्धगच्छति :	To rise, ascend: to depart, come back (उद्धगम्)
उद्धगहणं :	Taking or lifting up; learning acquisition (उद्धग्रहणं)
उद्धगहेतब्बो :	See उद्धगहति
उद्धगहितो	

उग्गहो :	Learning, acquisition (उद्ग्रह)
उग्गमनं :	Rising, ascent: arising, origin, production (उद्गमन)
उग्गामी, उग्गम्म :	See उग्गच्छति
उग्गमो :	Rising up (उद्गम)
उग्गण्हाति :	To raise, lift, pick up: to learn, acquire by study (उद्ग्रह)
उग्गारो :	Spitting out, vomiting (उद्गार)
उग्गति :	Ascent, appearance (उद्गति)
उग्गतो :	See उग्गच्छति
उग्गत्यनं :	A sort of Ornament
उग्घरति :	To ooze (उद् + घृ)
उग्घाटनं :	The rope and bucket of a well (उद्घाटन)
उग्घाटेति :	To open, unfasten; to reveal, make known (उद्घाटयति)
उग्घटितञ्जु (adj) :	Understanding what is revealed (उद्घाटनज्ञ)
उग्घोसेति :	To shout out, proclaim (उद्घोषयति)
उग्घोसो :	Proclamation (उद्घोष)
उग्गिलति :	To vomit (उद्गृ)
उग्गिरणं :	Spewing, vomiting
उग्गो (adj) :	Violent, severe, cruel, sharp (उग्र)
ऊहा :	Life
उहदेति :	To be foul with excrement (उद् + हद्)
ऊहनं :	Arrangement, synthesis (ऊहन)
ऊहतो :	Destroyed (उद् + हत)
उहङ्कारो :	An owl
उज्जलनं :	Lighting or burning (of a lamp) (उज्जलन)
उज्जलति :	To flash up, shine (उज्जल्)
उज्जलो (adj) :	Blazing, flashing; bright, beautiful (उज्जल)
उज्जेनी :	The city of Onjein (उज्जयनी)
उज्झगिगका :	Loud laughter
उज्झानं :	Taking offence, captiousness
उज्झापनको (adj) :	One who stirs up another to discount, makes him murmur, or repine
उज्झति :	To abandon; to throw (उज्झ्)
उज्झायति :	To be irritated, annoyed, to be offended, to murmur
उज्जोतनं :	Illumination, glorification

378 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उज्जोतो :	Light, lustre (उद्योत)
उजु + उज्जु (adj) :	Straight, direct: straight-forward, honest, upright (ऋजु)
उजुको (adj) :	Straight, direct, right (ऋजुक)
ऊका, ऊको :	A louse; a weight of seven likkhas (यूक)
उखा :	A boiler, cooking vessel (उखा)
उक्का :	A torch, firebrand; a meteor (उल्का)
उक्कड्ढति :	To cast out, remove (उत्कृष)
उक्कलापो + उक्कलपो :	Sweepings, rubbish
उक्कमनं :	Stepping, aside, passing (उत्क्रमण)
उक्कमापेति (caus) :	To cause to step aside or get out of the way
उक्कंसेति :	To exalt (उत्कर्षयति)
उक्कंसो :	Excess; excellence: exaltation (उत्कर्ष)
उक्कण्ठति :	To regret, pine, be unhappy, distressed, discontented (उत्कण्ठ)
उक्कारो :	Dung, excrement
उक्कासति :	To hem, clear the throat (उद् + कास)
उक्कट्टा :	Name of a town
उक्कट्टो :	High, eminent; exceeding, excessive: excellent, superior (उत्कृष्ट)
उक्कखलि :	A pot to boil rice in
उक्कखेपको (adj) :	One who excommunicates (उत्क्षेपक)
उक्कखेपनं :	Excommunication (उत्क्षेपण)
उक्कखेपनीयो :	Excommunication-like
उक्कखेपो :	Lifting, raising (उत्क्षेप)
उक्कखिपति :	To throw upwards, raise, lift: to get rid of: eject (उत्क्षिप्)
उक्कखिपत्तका :	Tucking up the robe (उत्क्षिप्त + का)
उक्कोचो :	A bribe (उत्कोच)
उक्कोटनं :	Perverting justice
उक्कोटेति :	To disturb what is settled, to open up again a question that has been set at rest (उत्कोटयति)
उक्कुज्जनं :	Setting up again
उक्कुज्जेति :	To set up again, what has been overturned
उक्कुसो :	An osprey (उत्क्रोश)
उक्कुटिको (adj) :	Sitting on the mams, squatting, crouching, kneeling (उत्कटुक)

उक्कुट्टि :	Crying out, shouting (उक्कुश + ति)
उक्कलापो :	See उक्कलापो
उळारो :	Great: lofty: noble, excellent, eminent (उदारो)
उल्लङ्घति :	To leap up (उल्लङ्घ)
उल्लपति :	To lay claim to, assert oneself the owner of (उद् + लप्)
उल्लसितो :	Shinning (उल्लसित)
उल्लित्तो :	Smeared (उद् + लिप्त)
उल्लोचो + चं :	A canopy, awning (उल्लोच)
उल्लोकेति :	To look up, look at (उद् + लोक्)
उल्लोल :	A wave, surge (उल्लोल)
उळु :	A lunar mansion (उळु)
उलूको :	A owl (उलूक)
उळम्पो-पं :	A raft (उळूप)
उळङ्को :	A ladle (उळङ्क)
उलुपी :	A porpoise (उलुपिन)
ऊमि :	A wave (ऊमि)
उम्मा :	Flax (उम्मा)
उम्माहापेति :	To cause to be rubbed
उम्मादेति :	To madden (उम्मादयति)
उम्मादो :	Madness, distraction, mental aberration (उम्माद)
उम्मागो :	An underground watercourse, a main (उम्माग)
उम्पज्जनं :	Shampooing the body (उम्पार्जन)
उम्मारो :	A threshold
उम्मतो, उम्मतको (adj) :	Mad, out of one's mind, in a state of mental aberration (उम्मत; त्तक)
उम्मीलेति :	To open
उम्मुज्जा :	Emerging
उम्मुज्जति :	To emerge, rise out of (उम्मुज्ज्)
उम्मुकं :	A fire-brand (उल्मुक)
उम्मुक्खो (adj) :	Expecting, awaiting (उम्मुख)
उम्मूलेति :	To root up (उम्मूलयति)
ऊनको (adj) :	Deficient (ऊनक)
उन्दुरो :	A rat (उन्दुर)
उण्हीसो + सं :	A crest, diadem : crown : a turban : part of a staircase (उष्णीव)
उण्हो (adj) :	Hot (उष्ण)

380 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उण्णा + उण्णं :	Wool, hair between the eye-brows (ऊर्ण)
उञ्जा :	Contempt (अक्जा)
उन्नदति :	To shout or roar (उन्नद्)
उन्नलो :	Evil disposed
उन्नमति :	To ascend, rise up (उन्नम्)
उन्नमो :	Elevation, height (उन्नम् + अ)
उण्णनाभि :	A spider (उर्णनाभि - ऊर्णनाभ)
उण्णतं :	A sort of ornament
उन्नति :	Haughtiness (उन्नति)
उन्नतो :	Raised, high (उन्नत)
उन्नो :	Wet (उन्न)
ऊनो (adj) :	Deficient, less (ऊन)
उपा :	Below, less (उप)
उपभोगो :	To be enjoyed (उपभोग्य)
उपभोगो :	Enjoyment (उपभोग)
उपचरितो :	Served (उपचरित)
उपाचरियो :	A teacher's successor
उपचारो :	Approach, entrance, neighbourhood: a present, offering; attention, civility; practice, conduct (उपचार)
उपचयो :	Accumulation, increase (उपचय)
उपच्चका :	Land at the foot of mountain (उपत्यका)
उपच्छेदो :	Cutting off, stopping
उपच्छिन्दति :	To cut off, interrupt, bring to an end (उप + छिद्)
उपचिका :	White ant
उपचिनति :	To heap up, accumulate (उपचि)
उपदा :	A present (उपदा)
उपादानं :	Firewood, fuel; clinging to existence, attachment (उपादान)
उपादानीयो (adj) :	Connected with attachment, sensual
उपदट्टा :	A supervisor (उपदृष्ट)
उपादाय :	See उपादियति
उपद्वो :	Accident, misfortune, distress, oppression (उपद्रव)
उपद्धो (adj) :	Half; partial (उप + अर्ध)

उपदुतो :	Distressed, annoyed, oppressed (उपदुत)
उपदेशो :	Instruction, direction (उपदेश)
उपधानं :	Putting under; supplying, imposing; a pillow, cushion (उपधान)
उपधारेति :	To consider, reflect, investigate, search with the mind, look out for, ascertain (उपाधारयति)
उपधावति :	To run after, run-up to (उपधाव्)
उपधि :	A wheel; the body; a substratum of being (उपधि)
उपदिसति :	To command, advise (उपदिश्)
उपादिसेसो (adj) :	Having the skandhas remaining
उपदिस्सति :	To be seen, discovered (उपदृश्यते)
उपदिट्ठो :	See उपदिसति
उपादियति :	To take hold of; to cling to the world; to have attachment (उपादा)
उपदुस्सति :	To be angry, revengeful (उप + दुष्)
उपगा :	See उपेति
उपगच्छति :	To come to, approach, visit, reach; to undergo, suffer; to undertake, begin; to enter upon (उपगम्)
उपागच्छति :	To come to; arrive at, reach (उपागम्)
उपगमनं :	Approaching (उपगमन)
उपगमो :	Approaching, entering upon etc. (उपगम)
उपगायति :	To sing (उपगै)
उपघातनं :	Hurting
उपघातो :	Hurting, injuring (उपघात)
उपघट्टितो :	Knocked against (उप + घट्ट)
उपगो (adj) :	Going to, entering; entering on, undergoing (उपग)
उपगूहनं :	Embracing, an embrace (उपगूहन)
उपगूळ्हो :	Embraced (उपगूळ्ह)
उपहच्च :	See उपहन्ति
उपाहना :	A shoe, sandal (उपानह)
उपहननं :	Hurting, injury
उपहन्ति :	To injure, vex, impair (उपहन्)
उपहारो :	A complimentary present to a superior; an oblation to a deva (उपहार)
उपाहारो :	Bringing forward, adding (उपाहार)

382 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उपहतो :	See उपहन्ति
उपजनेति :	To produce (उपजनयति)
उपजापो :	Suggesting treason; sowing disunion (उपजाप)
उपजीवनं :	Maintainance (उपजीवन)
उपजीवति :	To subsist by (उपजीव्)
उपजीवी (adj) :	Subsisting by (उपजीविन्)
उपज्झायो + उपज्झो :	A spiritual preacher or preceptor (उपाध्याय)
उपकङ्कति :	To drag down (उपकृष)
उपकर्णं :	Into the car (उपकर्णम्)
उपकल्पनं :	Preparation, fabrication (उकल्पन)
उपकल्पति :	To serve or profit (उपक्लृप्)
उपकारको (adj) :	Benefiting, helping (उपकारक)
उपकरणं :	Help, benefit, service, instrument; implement; furniture, apparatus (उपकरण)
उपकारी (adj) :	Benefiting (उपकारिन्)
उपकारिका :	A benefactress; the foundation of a wall (उपकारिका)
उपकारो :	Help; advantage, benefit, use, service: helper; benefactor (उपकार)
उपकट्टो :	Near, approaching (उप + कृष्ट)
उपक्कमाललि :	To devise plans, manoeuvre
उपक्कमति :	To approach, come: to begin (उपक्रम्)
उपक्कमो :	Beginning (उपक्रम)
उपक्खरो :	A part of a carriage (उपस्कर)
उपक्खतो + टो :	Got ready, prepared (उपस्कृत)
उपक्किलेसो :	Depravity, sin: molestation, distress
उपक्किलिड्डो :	Stained, depraved (उप + क्लिष्ट)
उपक्कोसो :	Blame (उपक्रोश)
उपक्कुट्टो :	Blamed, reproached (उप् + कुश)
उपलब्धि :	Acquisition, knowledge (उपलब्धि)
उपलक्खणं :	Synechdoche (उपलक्षण)
उपलक्खेति :	To look at, regard, note (उपलक्ष्)
उपलिम्पति :	To smear, defile (उपलिप्)
उपलो :	A stone, rock (उपल)
उपमा :	Similarity; equality; comparison: a similitude, simile, illustration, figure, allegory, parable (उपमा)

उपमानं :	Resemblance (उपमान)
उपमाता :	A wet-nurse (उपमातृ)
उपनाहो :	Enemity (उपनाह)
उपनामेति :	To offer; present: to place close to: hold out to (उपनामयति)
उपनह्यति :	To tie or wrap up (उपनह्)
उपनायिको (adj) :	Referring or belonging to (उपनायिक)
उपनेति :	To present, bestow; to bring to, to conduce (उपनी)
उपाङ्गं :	A minor limb or section (उपाङ्ग)
उपनिबन्धनं :	Fastening, attachment
उपनिबन्धति :	To attach (उप + नि + बन्ध्)
उपनिधि :	A deposit, pledge (उपनिधि)
उपनिघंसति :	To rub up against (उप + नि + पृष्)
उपनिज्झानं :	Meditation
उपनिक्खपति :	To deposit, lay up (उपनिक्षिप्)
उपनिसा :	Cause ; means ; likeness
उपनिसीदति :	To sit beside or in the presence of (उप + नि + सद्)
उपनिस्साय :	Near, close to
उपनिस्सयो :	Basis, ground work
उपनीतो + :	See उपनेति
उपनिध्यति	
उपनीतो :	Led away (उपनीत)
उपञ्जासो :	An exordium (उपन्यास)
उपञ्जातो :	Found out learnt; known (उपज्ञा)
उपन्ति (adv) :	Before, in the presence of (उप + अन्ति)
उपन्तिको (adj) :	Close to, adjoining (उपन्तिक)
उपन्तो (adj) :	Adjoining (उपान्त)
उपपदो :	Conformity, accordance
उपपज्जति :	To come to, attain, be produced, be reborn (उपपद्)
उपपारमी :	Minor perfection
उपपरिक्खा :	Investigation (उपपरीक्षा)
उपपरिक्खति :	To investigate, ascertain (उप + परि + ईक्ष्)
उपपति :	A paramour (उपपति)
उपपत्ति :	Birth, rebirth (उपपत्ति)
उपपीळको (adj) :	Oppressive (उपपीड् + अक)

384 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उपराजा :	A viceroy (उपराज)
उपरज्जं :	Post of viceroy, viceroyalty (उप + राज्य)
उपरमनं :	Cessation (उपरमण)
उपरमति :	To cease (उपरम्)
उपारम्भो :	Being angry with a person (उप + आ + रभ्)
उपरति :	Cessation (उपरति)
उपरतो :	Having ceased or desisted; diseased, dead (उपरत)
उपरवो :	Noise and bustle (उपरव)
उपरि (adv) :	Above, upon, over upwards, beyond, further (उपरि)
उपरिमो (adj) :	Uppermost, over-head (उपरि + म)
उपरितनो (adj) :	Upper (उपरितन)
उपरित्तं :	Superposition (उपरि + त्व)
उपरोधो :	Obstacle; detriment (उपरोध)
उपरुञ्जति :	To be stopped, to cease, be annihilated (Pass उपरुध्)
उपरूपरि (adv) :	Higher and higher, one above another (उपरि + उपरि)
उपसर्गो :	Trouble, misfortune, danger; preposition (उपसर्ग)
उपसाखा :	A minor branch (उपशाखा)
उपासको :	A pious Buddhist not in orders, a devout or faithful layman, lay devotee (उपासक)
उपसमनं :	Appeasing (उपशमन)
उपसंभ्यानं :	The outer garment, the cloak (उपसंव्यान)
उपसंहरति :	To bring to-gether (उपसंह)
उपसंहितो :	Accompanied or furnished with (उपसंहित)
उपसम्मति :	To grow calm; to cease; to be settled (उपशम्)
उपसम्पदा :	Taking, obtaining, acquiring; priest orders (उपसंपद् + आ)
उपसम्पज्जति :	To attain, enter on, take upon oneself; to reach, approach (उपसंपद्)
उपसंवसति :	To take up one's abode in (उप + सं + वस्)
उपासनं :	Attendance, service, homage (उपासन)
उपासनं :	Archery (उपासन)
उपसङ्क्रमनं :	Approaching
उपसङ्क्रमति :	To go to, approach (उपसंक्रम्)
उपसन्तो :	See उपसम्मति
उपसप्यति :	To approach (उपसृप्)

उपासति :	To attend, honour, serve, revere (उपास)
उपसेवा :	Service, honouring (उपसेवा)
उपसेवति :	To serve, to honour: to practice, frequent (उपसेव्)
उपसेवी (adj) :	Serving, frequenting (उपसेविन्)
उपासिका :	See उपासको
उपसोभेति :	To adorn (उपशोभयति)
उपस्सग्गो :	See उपसग्गो
उपस्सट्ठो :	Oppressed, beset, ruined (उपसृष्ट)
उपस्सथो :	Asylum, dwelling (उपाश्रय)
उपस्सुति :	Listening to (उपश्रुति)
उपसुस्सति :	To dry up (उपशुष्)
उपतापेति :	To vex, torment (उपतापयति)
उपतिस्सो :	A name of Sariputta (उपतिष्प)
उपतिवत्तो :	Escaped from
उपट्टहनं + :	See उपट्टानं + उपट्टाति
उपट्टहति	
उपट्टाको :	A servitor, personal attendant (उपस्थायक)
उपत्थम्भनं :	Supporting (उपस्तम्भन)
उपत्थम्भति :	To support, prop (उपस्तम्भ)
उपत्थम्भो :	Stay, support, prop, help, encouragement (उपस्तम्भ)
उपट्टानं + उपट्टहनं :	Waiting on, attendance, service, keeping near, readiness (उपस्थान)
उपट्टापको (adj) :	A teacher (उपस्थापक)
उपट्टापनं :	Providing etc. (उपस्थापन)
उपट्टाति, उपट्टहति :	To serve, wait on, attend, minister to, support; to be ready; to be present (उपस्था)
उपट्टायिका :	A female disciple (उपस्थायिका)
उपवादको (adj) :	Blaming
उपवादना :	Blame (उपवद्)
उपवदति :	To blame (उपवद्)
उपवादो :	Blame (उपवाद)
उपवहति :	To bring about (उपवह)
उपवनं :	A park (उपवन)
उपवण्णेति :	To describe fully (उपवर्ण)
उपवसति :	See उपोसथो
उपवासो :	Temporary abstinence for a time from all worldly enjoyment, fasting, self-mortification, penance (उपवास)

386 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उपवसं (adj) :	At the approach of the rainy season (उप + वर्ष)
उपावत्तो :	Refraining (उपावृत्त)
उपवेसनं :	Sitting down (उपवेशन)
उपवीणेति :	To play the lute to a person (उपवीणयति)
उपवीणो :	The neck of a lute (उप + वीणा)
उपविसति :	To sit down (उपविश्)
उपवुत्थो :	See उपोसथो
उपयमो :	Marriage (उपयम)
उपयानं :	Approaching (उपयान)
उपायनं :	A present (उपायन)
उपायासो :	Desperation, despair (उप + आयास)
उपयाति :	To go to, to approach (उपया)
उपायो :	Means of success, expedient, stragtegem (उपाय)
उपयोगो :	Employment, use (उपयोग)
उपेच्च :	See उपेति
उपेक्खा, उपेक्ख :	Indifference to pain and pleasure, equanimity resignation, stoicism (उपेक्षा)
उपेक्खको (adj) :	Resigned, patient (उपेक्षक)
उपेक्खति :	To be indifferent, stoical (उपेक्ष)
उपेति :	To go to approach, enter, undergo, incur (उपे)
उपोग्घातो :	An example (उपोद्घात)
उपोसथिको (adj) :	Fasting, keeping the Uposatha vows; belonging to the Uposatha
उपोसथो :	The Buddhist Sabbath or fast-day: fasting abstinence from sensual pleasure: monastic ceremony of reading the Patimokkha (उपवसथ)
उपोसथो (adj) :	Belonging to the Uposatha (उपवसथ + अ)
उप्पब्बजति :	To leave the priesthood, throw off the robes (उद् + प्रब्रज)
उप्पादनं :	Production, causing (उत्पादन)
उप्पादेति :	See उप्पज्जति
उप्पादो :	Springing up, appearance, birth: an omen (उत्पाद)
उप्पज्जनको (adj) :	Arising, being born
उप्पज्जनं :	Arising
उप्पज्जति :	To arise, originate, be produced, be born, appear (उत्पद्)

उप्पक्कमो :	An expedient
उप्पलं :	The blue lotus; a water lily: one of the high numerals or 1 followed by 98 ciphers (उत्पल)
उप्पलिनी :	An assemblage of blue lotuses (उत्पलिनी)
उप्पण्डेति :	To ridicule (उद् + षण्ड्)
उप्पन्नो :	See उप्पज्जति
उप्परिक्खति :	To investigate (उद् + परि + ईक्ष्)
उप्पाटनको (adj) :	Rooting out (उत्पाटन + क)
उप्पतनं :	Springing up, arising: jumping up (उत्पतन)
उप्पतति :	To fly or rise up into the air: to spring upwards, to jump (उत्पत्)
उप्पाटेति :	To root out, tear out, tear off (उत्पाटयति)
उप्पथो :	Wrong road, error, sin (उत्पथ)
उप्पत्ति :	Arising, birth, production (उत्पत्ति)
उप्पीळेति :	To press together (उत्पीड)
उरब्भो :	A ram (उरभ्र)
उरचक्कं :	An iron wheel which forms an instrument of a torture in one of the hells (उरस + चक्र)
उरच्छदो :	Mail armour (उरश्चद्)
उरगो :	A snake; a Naga (उरग)
उरणो :	A ram (उरण)
उरसिलोमो (adj) :	Hairy - breasted
उरो, उरं :	The breast, chest (उरस्)
उरत्थलं :	The breast (उरःस्थल)
उरु (adj) :	Large: excellent, eminent (उरु)
उरु :	Sand
ऊरु :	Thigh (ऊरु)
उरुवेला :	Name of a town in the Magadha country (उरुविल्वा)
उसभं :	A measure of twenty yatthis
उसभो :	A bull: name of one of the notes of the Hindu gamut: best, eminent (at the end of a compound) name of a drug (ऋषभ)
ऊसरो (adj) :	Saline (ऊषर)
ऊसवा (adj) :	Saline (ऊष + वत्)
उसीरो + रं :	The fragrant root of andropogon Muricantum (उशीर)
उस्मा :	Heat (उष्मन्)

388 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

ऊसो :	Salt-ground (ऊष)
उत्सदो :	Protuberance (उत्सद्)
उत्सहति :	To be able; to endeavour (उत्सह)
उत्साहो :	Strength, effort, endeavour (उत्साह)
उत्सङ्गि (adj) :	Distrustful, anxious (उद् + शङ्गिन्)
उत्सनो :	Increased, extensive, prevalent, rife, intense (उत्सन्न)
उत्सङ्गितो (adj) :	Distrustful; anxious (उद् + शङ्गित्)
उत्सापेति :	To lift up, raise, exalt (caus उच्छ्रि)
उत्सारणं :	Driving away (उत्सारण)
उत्सवो :	Festival, merry-making, holiday (उत्सव)
उत्सावो :	Hoar-frost dew (अवश्याय)
उत्सिञ्चति :	To bale out, exhaust (उत्सिञ्च)
उत्सीसकं :	A pillow, the head of a bed (उच्छीर्षक)
उत्सोळिह :	Exertion
उत्सुकं :	Zeal, energy, hardwork: eagerness, longing (ओत्सुक्य)
उत्सुको (adj) :	Zealous, eager, active, energetic (उत्सुक)
उत्सूरसेय्या :	Sleeping after the sun-rise (उत्सूर + शय्या)
उत्सुस्सति :	To become dried up (उच्छुष)
उसु :	An arrow (इषु)
उसुमा :	Heat (उष्मन्)
उसूया, उसूय्या :	Envy, jealousy, detraction (असूया)
उसूयति, उसूय्यति :	To be envious, jealous, disconted (असूयति)
उत्रसो :	Alarmed (उत्रस्त)
उत्तमो (adj) :	Best, highest, chief, excellent, eminent, supreme, first-rate (उत्तम)
उत्तंसो :	A chaplet; an earring (उत्तंस)
उत्तानो :	Lying on its back, supine: shallow; open, evident, clear, easy (उत्तान)
उत्तापेति :	To heat (उत्तापयति)
उत्तरति :	To cross over, escape from (उत्तृ)
उत्तरी (adj) :	Superior, highest, best (उत्तरिन्)
उत्तरिं (adj) :	Beyond, above: furthur, besides, more, longer
उत्तरितरो (adj) :	Superior, better, higher, more eminent (उत्तरतर)
उत्तरीयं :	An outer garment, cloak, scarf (उत्तरीय)
उत्तरो (adj) :	Higher, high, superior, upper: northern, subsequent (उत्तर)

उत्तसति :	To be alarmed (उत्स)
उत्तासो :	Terror (उत्तास)
उत्तत्तं :	Dried flesh (उत्तप्त)
उट्टहनं :	See उट्टनं
उट्टहति, उट्टाति :	To rise, stand-up, get up: to arise, be produced, to rouse or exert oneself, to be active (उत्था)
उट्टानं, उट्टाहनं :	Rising, standing up: rise, origin: exertion manly vigour
उट्टानव (adj) :	Strenuous, active (उत्थानवत्)
उट्टापनं :	Rising exhorting (उत्थापन)
उट्टापेति, उट्टाय :	See उट्टहति
उट्टायी :	See पुब्बुट्टायी
उट्टितो :	See उट्टहति
उट्टभति :	To spit out (उद् + ष्टिव)
उत्ति	Speech, utterance (उक्ति)
उत्तिण्णो :	See उत्तरति
उत्तिट्ठे :	See उट्टहति
उत्तो :	See वुत्तो
उत्तु :	Season time; season of the year: the menses (ऋतु)
उत्तुजो (adj) :	Produced by the season (ऋतु + ज)
उत्तुनी :	A menstruating woman
उत्थामो :	Exertion (उत्थाम)
उत्थानं :	Going forth; a royal garden or pleasure grounds (उत्थान)
उत्थति :	To go out or forth (उत्था)
उत्थोधिकं :	A sham fight
उत्थोगो :	Setting out, departure; near approach of death, decay (उत्थोग)
उत्थोजनं :	Inciting, instigation
उत्थुज्जति :	To exert oneself (उत्थुज्ज)
उत्थुतो :	Striving, busy (उद् + युत)
उत्थुत्तो :	See उत्थुज्जति

V

व :	See इव
वा (conj) :	Or (वा)
वचा :	Orris root (वचा)
वाचा :	Word saying; speech (वाचा)
वाचको (adj) :	Speaking, expressing (वाचक)
वाचालो (adj) :	Talkative (वाचाल)
वचम्यमो :	A muni or Sage (वचस् + यम्)
वचना, नं :	Recitation, reading, teaching, declaring (वाचन)
वचनं :	Speaking, saying, declaring; enjoying, injunction; advice; word, speech, utterance, expression; sentence, passage, text (वचन)
वचनीयो, वाचापेति :	See वक्ति
वचसा :	See वचो
वाचसिको (adj) :	Connected with speech, verbal (वचस् + इक)
वचसो (adj) :	At the end of a compound a substitue for वचस् (वचस)
वच्चं :	See वच्चो
वच्छको :	A calf (वत्सकं)
वच्छलो (adj) :	Affectionate (वत्सल)
वच्छतरो :	A bullock, steer (वत्सतर)
वच्छति :	See वसति
वच्छायनो, वच्चानो :	A proper name (वात्स्यायन्)
वच्छो :	a calf (वत्स)
वच्चो, वच्चं :	Lustre; form: excrement (वर्चस्)
वाच्चो, वाचेति :	See वक्ति
वची :	Speech, words (वच् + ई)
वाचिकं :	News (वाचिक)
वाचितो :	See वक्ति
वचो :	Speech, words, saying; advise, injunction, order (वचस्)
वादको (adj) :	Playing (music) (वादक)
वदनं :	The mouth, the face; speech, utterance (वदन)
वादनं :	Playing on a musical instrument, music (वादन)
वदानीयो (adj) :	Bountiful
वदञ्जु (adj) :	Bountiful: affable (वदन्य)

वदति, वदेति :	To speak, say: to declare, proclaim (वद्)
वहलिका :	Rainy weather (वार्दल + इका)
वड्ढकि :	An artisan, carpenter, mason (वर्धकि)
वड्ढको (adj) :	Augmenting, enlarging (वर्धक)
वड्ढमानको (adj) :	Growing (वर्धमानक)
वद्धमयो (adj) :	Leathern (वध्र + मय)
वड्ढनं :	Increase, enlargement (वर्धन)
वड्ढनो (adj) :	Augmenting (वर्धन)
वद्धतरो :	See next
वड्ढति :	To grow, increase, multiply; to prosper (वृध्)
वड्ढि :	See वुद्धि
वड्ढितो, वद्धो :	See वड्ढति
वदेति, वादेति :	See वदति
वधको (adj) :	Murderous (वधक)
वधति :	To strike, to kill (वध)
वधो :	Killing, slaughter, murder, assassination: striking (वध)
वधु :	Bride, a young wife; a girl: a daughter-in-law
वधुका :	A daughter-in-law (वधुका)
वादी (adj) :	Saying, speaking, asserting, holding doctrine; disputing, arguing (वादिन्)
वादिको (adj) :	At the end of a compound a substitute for vadi
वादितं :	See वदति
वादित्तं :	A musical instrument; instrumental music (वादित्र)
वादित्तं :	वादित्व
वादो (adj) :	Speaking sensibly (वद)
वादो :	Speaking, speech, talk: assertion: controversy, discourse, doctrine, creed: belief, heresy
वग्गति :	To jump (वल्ग)
वग्गियो (adj) :	Belonging to a class (वग्ग्य)
वग्गो :	A class, troop, multitude, company, tribe, party (वर्ग)
वग्गु (adj) :	Beautiful, pleasant (वल्गु)
वागुरिको :	A sportsman using nets (वागुरिक)

392 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वहा :	A river (वहा)
वाहनं :	Carrying; a vehicle; an animal used in riding (वाहन)
वाहसो :	A boa constrictor or python (वाहस)
वहति :	To carry, transport, draw; to bear along; carry off; to experience, possess (वह)
वाही (adj) :	Carrying (वाहिन्)
वहो (adj) :	Carrying (वह)
वाहो :	A bearer, leader; a horse, a vehicle; a cart; a measure of capacity (वाह)
वजति :	To go, to walk (व्रज्)
वजिरो + रं :	The thunderbolt of Indra; diamond, admant, a stone which bores gems (वज्र)
वज्जं :	A musical instrument (वाद्य)
वज्जं :	That which should be avoided, fault, sin (वर्ज्य)
वज्जनं :	Avoiding, forsaking, escaping (वर्जन)
वज्जनियो :	That should be shunned, improper (वर्जनीय)
वज्जति :	See वदति
वज्जेति :	To avoid, abstain from, renounce, escape, leave out, pass over, expect; to remove dispel (वर्जयति)
वज्झा :	Execution (वध्या)
वज्झो :	To be killed or destroyed, meriting death (वध्य)
वज्जी :	Name of a people, the Licchavi princess (वृजि)
वजो :	A cow-pen (व्रज)
वाजो :	The feather of an arrow (वाज)
वाकं :	Bark of a tree (वल्क)
वाकरा :	A net of snare (वागुरा)
वक्कलं, लो :	Bark garment worn by ascetics (वल्कल)
वक्कं :	The kidney (वृक्क)
वक्कङ्गो :	The ruddy goose (वक्राङ्ग)
वाक्करणं :	Talk, assertion (वाच् + करण)
वक्खति :	See वत्ति
वक्को :	Crooked (वक्र)
वको :	A wolf (वृक)

वकुल :	The tree Mimusops Elengi (वकुल)
वाक्यं :	A speech, a sentence (वाक्य)
वळबानलो :	A submarine-fire at the south pole (वडवा + अनल)
वळभामुखं :	A hollow or pool
वळभि :	A roof (वडभि)
वालधि :	A horse's or cow's tail (बालधि)
वाळगाही :	A snake charmer (व्यालग्राहिन्)
वालगं :	The tip of a hair (बालाग्र)
वलाहको :	A cloud (वलाहक)
वालहत्थो :	A horse's tail (बालहस्त)
वलजो :	A sort of fish
वालं :	Water (वार्)
वाळमिगो :	A tiger, leopard or other beasts of prey (व्यालमृग)
वलञ्जको (adj) :	Using, frequenting
वलञ्जनं :	Use, resorting to
वलञ्जेति :	To use, to resort to, to spend
वलञ्जो :	Use expenditure; a mark: resorting to: frequenting (अब + लञ्ज)
वळवा :	A mare (वडवा)
वालवेधि :	An archer who can hit a hair (बाल + वेधिन्)
वालवीजनी :	A fan made of a yak's tail, a chowrie (बाल + बीजनी)
वलयितो (adj) :	Encircled (वलयित)
वलयं, वलयो :	A bracket, ring, circle (वलय)
वली :	A fold of the skin, wrinkle; a line, streak (वलि)
वालिका :	Sand (बालिका)
वलीमुखो :	A monkey; wrinkled face (वलीमुख)
वलरो (adj) :	Squint-eyed (वलरि)
वलितो (adj) :	Wrinkled (वलित)
वलित्तचो (adj) :	Wrinkled skin (वलि + त्वच्)
वल्लभो (adj) :	Beloved (वल्लभ)
वल्लकी :	An Indian Lute (वल्लकी)
वल्लरी :	A compound pedicle a bunch, a cluster (वल्लरी)
वल्ल्री :	A creeper, creeping plant (वल्ल्री)
वल्लिभो :	The plant Kumbhanda

394 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वल्लूरो, रा, रं :	Dried flesh (वल्लूर)
वालो :	Hair of the head; hair of animals; the hairy tail of an animal (बाल)
वाळो :	A snake; a beast of prey (व्याल)
वालुका :	Sand (वालुका)
वामदेवो, वामको :	See इसि
वमनं :	Vomitting; an emetic (वमन)
वामनो :	Dwarfish (वामन)
वमथु :	Vomitting (वमथु)
वमति :	To vomit; to eject, discharge (वम्)
वामतो :	On the left side, to the left (वाम + तस्)
वम्मं :	Armour (वर्मन्)
वम्मिको, कं :	An ant-hill (वल्मिक)
वम्मितो :	Wearing armour (वर्मित)
वमो :	Vomitting (वम)
वामो (adj) :	Left; reverse; opposite; beautiful (वाम)
वंसागतो (adj) :	Come down from father to son, hereditary (वंशागत)
वंसजो (adj) :	Belonging to a race (वंशज)
वंसक्कमो :	Lineage, pedigree (वंशक्रम)
वंसवण्णं :	The veluriya gem (वंश + वर्ण)
वंसिको :	A flute-player, piper (वांशिक)
वंसो :	A bamboo; a file; race family, lineage; dynasty; hereditary custom, tradition (वंश)
वनचरको :	A forester (वनचर + क)
वनचरो :	Wandering in the forest (वनचर्)
वनं :	A wood, forest, water (वन)
वणो, वणं :	A sore, wound, boil (व्रण)
वानं :	Sewing (वानं)
वानं :	Desire, lust (वानं)
वनन्तो :	The edge or skirt of a forest (वनान्त)
वानपत्थो :	A Brahmin of the third order, an anchorite (वानप्रस्थ)
वनप्पत्ति, वनस्पती :	A tree bearing fruit but without apparent blossoms; any tree (वनस्पति)
वनराज्जी :	A tract of forest; an open glade or ride in a forest (वनराजि)
वानरो :	A monkey (वानर)

वनसण्डो :	A forest, wood (वन + षण्ड)
वनस्पति :	See वनस्पति
वनथो :	The undergrowth in a forest, brushwood, shrubs, saplings: desire, lust (वनथ)
वनवासो :	Name of a country, according to Vijesiha it is Thibet (वनवास)
वञ्चको (adj) :	Deceitful (वञ्चक)
वञ्चनं :	Deception, illusion (वञ्चन)
वञ्चेति (caus) :	To deceive, clude, delude (वञ्चयति)
वन्दाका :	A parasitical plant (वन्दाका)
वन्दना, -नं :	Salutation, paying, reverence; veneration, homage (वन्दना, वन्दन)
वन्दनीयो (adj) :	Deserving homage (वन्दनीय)
वन्दापनं :	Causing to-do homage
वन्दति :	To salute, make obeisance, pay homage to, revere venerate (वन्द)
वन्दि :	A prisoner (वन्दि)
वन्दि :	A bard, panegyrist (वन्दिन्)
वानेय्यं :	The fragrant grass Cyperus Rotundus (वानेय)
वङ्गो :	Bengal (वङ्ग)
वङ्गो :	Discolouration of the face: a entaneous complaint (व्यङ्ग)
वाणी :	Voice, speech (वाणी)
वनिब्बको :	A beggar, mendicant, pauper (वनीपक)
वाणिजको :	A trader (वाणिज)
वणिज्जा :	Trade (वणिज्जा)
वणिप्पथो :	A trading town, mart; trade (वणिकपथ)
वनिता :	A woman (वनिता)
वणितो (adj) :	Wounded, bruised (व्रणित)
वञ्जो (adj) :	Barren, sterile (बन्ध्य)
वञ्जुलो :	The ratan, calamus rotang (वञ्जुल)
वङ्गो (adj) :	Crooked, bent: cunning, dishonest
वण्णदासी :	A prostitute (वर्ण + दासी)
वण्णकं :	Paint, rouge (वर्णक)
वण्णना :	Description, narration: explanation, a comment, commentary (वर्णना)

396 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वण्णवा (adj) :	Having colour, having beauty (वर्णवत्)
वण्णवदी (adj) :	Eulogizing, a panegyrist (वर्णवादिन्)
वण्णेति :	To depict, describe; to praise, applaud, approve; to explain, comment upon (वर्ण)
वण्णी (adj) :	Having colour, having the appearance of (वर्णिन्)
वण्णो :	Appearance, form, figure: colour: sort: kind: tribe, caste: complexion: beauty: praise, fame, a letter, vowel, syllable: quality, property (वर्ण)
वज्जो (adj) :	Sylvan (वन्य)
वण्णु :	Sand
वणो :	See वर्ण
वण्टं :	A stalk (वृन्त)
वन्तासिको :	Name of a sort of Peta-eating what has been vomitted (वान्ताशिन् + क)
वन्तासो :	One who has renounced all desires, an Arahata (वान्त + आशा)
वन्तो :	See वमति
वपा :	The serous secretion or fat that spreads among the muscles (वपा)
वपनं :	Sowing (वपन)
वपति :	To sow: to shave (वप्)
वापि :	See वा
वापी :	A reservoir, lake, tank (वापी, वापि)
वापितो :	Sown (वापित)
वापो :	Sowing (वाप)
वप्पो :	Sowing; the bank of a river (वप्र)
वपु :	The body (वपुस्)
वारवाणं, णो :	A woman's jacket or bodice (वारवाण)
वरदीपो :	The glorious isle viz. Ceylon (वर + द्वीप)
वरदो :	An epithet of Buddha, as having shown the way to Nirvana—lit, giver of the boon (वरद)
वराहरो :	Bringing the boon (वर + आहर)
वराहो :	A boar, wild hog: an elephant (वराह)
वरको :	The bean Phaseolus Trilobus (वरक)
वराको (adj) :	Wretched, miserable (वराक)
वराको :	A pot, jar

वरं :	See वरो
वारणं :	Resistance (वारण)
वरङ्गं :	The head, the female pudenda (वरङ्ग)
वराङ्गना :	A noble or beautiful woman (वराङ्गना)
वरञ्जु :	One who has discovered Nirvana, an epithet of Buddha (वर + ज्ञ)
वरणो :	A surrounding wall, rampart; the tree Cartaeva Roxiburghii (वरण)
वारणो :	An elephant; the Hatthilinga bird (वारण)
वरपञ्जो (adj) :	A noble-wisdom, epithet of Buddha (वर + प्रज्ञा)
वरारोहा :	A noble lady
वरासन :	An excellent seat, chair of state (वरासन)
वरतरो (adj) :	Better, more, excellent (वरतर)
वरत्ता :	A strap, thong (वरत्रा)
वारत्तिको (adj) :	Bound with a thong (वरत्रा)
वरवर्णिनी :	An excellent woman (वरवर्णिनी)
वारेति :	See वुणाति
वारि :	Water (वारि)
वारिदो :	A cloud (वारिद)
वारिजं :	A lotus (वारिज)
वारिजो :	A fish (वारिज)
वारिमग्गो :	An issue from a sluice, watercourse (वारि + मार्ग)
वारितो :	See वुणाति
वारित्तं :	Avoidance
वारिवाहो :	A cloud (वारिवाह)
वारिचति :	See वुणाति
वरो :	Choosing, appointing; a boon, blessing, favour (वर)
वरो (adj) :	Excellent, best, precious, noble (वर)
वारो :	Time, occasion: turn, day of the week (वार)
वारुणी :	Spirituos liquor (वारुणी)
वरुथो :	A wooden ledge or fender round a chariot (वरुथ)
वसा :	A barren cow: an obedient wife (वशा)
वसा :	Serum, marrow of the flesh, fat (वसा)
वसभो :	A bull (वृषभ)
वासचुण्णं, ण्णकं :	Toilet perfume (वास + चूर्ण)

398 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वासागारं :	A bed-room (वास + अगार)
वसगो (adj) :	Subject, obedient (वशग)
वसलो :	An outcaste, pariah; a low person, reprobate (वृषल)
वसं :	See वसो
वासना :	Impression of mind from past good or evil actions and producing pain or pleasure (वासना)
वसनं :	Dwelling (वसन)
वसनं :	Cloth, clothes, clothing (वसन)
वासनं :	Perfuming and decorating the person (वासन)
वासन्ती :	The creeper Gaertura Racemosa (वासन्ती)
वसन्तो :	One of the seasons, spring (वसन्त)
वसति :	To dwell, stay, live, abide, spend time (वस्)
वसति :	Dwelling, residence: a dwelling place, abode (वसति)
वसवत्ती (adj) :	Bringing into subjection (वशवर्तिन्)
वासव :	A sakka or Indra (वासव)
वासयोगो :	Toilet powder (वास + योग)
वसेन :	See वसो
वासेति :	See वसति
वासेट्टो :	Name of a Rishi: a proper-name (वासिष्ठ)
वासी (adj) :	Having the sense under control (वाशिन्)
वासि :	A razor (वासि)
वासी :	An axe, adze, hatchet (वाशी)
वासी :	Dwelling (वासिन्)
वसीभावो :	Subjection: self-control, subjugation of the senses (वशी भाव)
वसीभूतो (adj) :	Subjected, self controlled (वशीभूत)
वसीकरोति :	To bring into subjection (वशीकृ)
वसिकता :	Subjection
वसिको (adj) :	Subject to (वशिक)
वासिको :	Dwelling, inhabiting (वासिन् + क)
वासितको (adj) :	Perfumed (वासित + क)
वसितो, वासितो :	See वसति
वासितो :	Scented (वासित)
वासिट्टो :	A proper-name (वासिष्ठ)
वसो, वसं :	Wish, desire: will, authority, power, influence, control, master-ship, ownership (वश)

वासो :	Pefrume (वास)
वासो :	Clothing, cloth (वास)
वासो :	Dwelling, staying, stopping, living; an abode, habitation, lodging, house (वास)
वस्सकम्मं :	One of the low arts giving virility (वर्ष + कर्मन्)
वस्सं :	See वस्सो
वस्सनं :	Rain (वर्षण)
वस्सानो :	The rainy season
वस्ससतं :	A century (वर्षशत)
वस्सति :	To utter a cry (of an animal)
वस्सति :	To fall, pour down, rain (वृष)
वस्सवरो :	A eunuch (वर्षवर)
वस्सवासिको (adj) :	Connected with spending the rainy season
वस्सिकी :	Great flowered jasmine
वस्सिको (adj) :	Belonging to the rainy season: belonging to a year (वर्षिक, वार्षिक)
वस्सो :	A he-goat (बस्त)
वस्सो, वस्सं :	Rain, a year (वर्ष)
वस्सुपनायिका :	Entrance upon lent or commencement of vassa residence (वर्ष + उपनायिका)
वस्सोकसारा :	A name of Sakka's city
वसु :	A class of Hindu gods (वसु)
वसु :	Wealth; a gem (वसु)
वासुदेवो :	The Hindu god Krishna (वासुदेव)
वसुधा :	The earth (वसुधा)
वासुकि :	The king of snakes (वासुकि)
वसुमति :	The earth (वसुमति)
वसुन्धरा :	The earth (वसुन्धरा)
वत्त (indecl.) :	O! ah! alas! indeed, verily (वत्त)
वातावाधो :	Rheumatism (वात + आबाध)
वातधातको :	The tree Cassia fistula (वात + घातक)
वटाकारो :	A cord
वाटको :	Enclosure, circle (वाट + क)
वत्तं :	See वत्तो

400 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वातमिगो :	A swift antelope (वातमृग)
वातण्डं :	Elephantiasis of the scrotum (वाताण्ड)
वातपानं :	A window (वात + पान)
वतवा (adj) :	Devout, observant of religious duties (व्रत + वत)
वातायनं :	A window (वातायन)
वठरो :	Bulky, gross (वठर)
वति :	A fence (वृत्ति)
वाति :	See वायति
वातिको (adj) :	Rheumatic (वातिक)
वातिङ्गणो :	The egg-plant Solanum Melongena (वातिङ्गण)
वतो, वतं :	Observance, practice, habit: religious duty or act, rite (व्रत)
वटो :	The banyan or Indian fig tree (वट)
वत्रभू :	A name of Indra
वत्ता :	One who says or tells: one who speaks sensibly (वक्तृ)
वात्ता :	Rumour, news (वात्ता)
वत्तब्धो :	See वत्ति
वट्टका :	A quail (वर्तका)
वात्ताकी :	The egg plant (वात्ताकी)
वत्तं :	The mouth, face (वक्तृ)
वत्तं, वट्टं :	See वत्तति
वत्तनं :	Livelihood, subsistence: going on, continuing to exist (वर्तन)
वत्तनी :	Abiding, living: a road (वर्तनी)
वत्तापको (adj) :	Causing to take place
वत्तापेति :	See वत्तति
वत्तारो :	See वत्ता
वत्तति :	To begin: to proceed: to go on, to be carried on, to take place: to stay: remain: to exist: to occupy oneself with, practice: to conduce, tend: to prevail, be customary
वट्टति :	To behave, to be right
वत्थगुह्यं :	Pudendum (वस्त्र + गुह्य)
वत्थकं :	A cloth, garment (वस्त्र + क)
वत्थं :	Cloth: clothes: raiment (वस्त्र)
वत्थि :	The abdomen, the bladder (वस्ति)

वत्थिको (adj) :	Belonging to cloth (वस्त्र + इक)
वत्थीयति :	To wish for clothes
वत्थु, वत्थुं :	Substance; object, thing, matter: occasion, cause; plot or subject, story, narrative (वस्तु)
वत्थु :	A site, building ground, floor (वास्तु)
वत्थुलं, वत्थुलेय्यकं :	A plant—Chenopodium album
वत्थुं :	See वसति, वत्थु
वत्थुत्तयं :	The three objects viz. Buddha, law and church (वस्तु + त्रय)
वत्थुविज्जा :	A magic art by which the proper site for a building etc. is ascertained the Science of building-Sites (वास्तु + विद्या)
वत्ति :	To speak, to say: to speak to, address (वच्)
वट्टि, वट्टी :	A fringe; a rim, brim: a wick: a lump, ball (वर्ति, वर्ती)
वट्टिका :	A thong; a wick: a rim: a lump: ball: pill (वर्तिका)
वत्तो :	Shaven (उप्त)
वत्तो, वट्टो :	Round see वत्तति
वट्टो :	Expenditure (वर्त)
वट्टो :	Rained—see वस्सति
वट्टुलो :	Circular (वर्तुल)
वत्तुं :	See वत्ति
वट्टुमं :	A road (वर्त्मन्)
वत्त्वा :	See वत्ति
ववकट्टो :	Withdrawn, secluded (व्यवकृष्ट)
ववत्थानं :	Fixing (व्यवस्थापन)
ववत्थापेति :	To place, fix, settle; establish (व्यवस्थापयति)
ववत्थितो :	Fixed, arranged, appointed (व्यवस्थित)
वायमति :	To struggle, strive, endeavour (व्यायाम्)
वायामो :	Toil, fatigue, exertion, effort, contention (व्यायाम)
वायनं :	Weaving (from वे)
वायापेति (caus) :	To cause to be woven (caus वे)
वयप्पत्तो, वयसा :	See वयो
वायसारि :	An owl (वायसारि)
वायसो :	A crow (वायस)
वयस्सो :	A friend (वयस्य)
वायति, वात्ति :	To blow; to breathe forth; emit; to be emitted (वा)

402 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वयट्टो (adj) :	In the prime of life, young (वय = स्थ)
वयो :	See व्ययो
वयो, वयं :	Youth, prime of life: any period of life, age (वयस्)
वायु, वायो :	Air, wind (वायु)
वे (particle) :	Indeed, truly, verily (वै)
वेभारो :	Name of a mountain
वेभस्सं :	Bullying or threatening language
वेभूतियं :	Slander
वेदगु (adj) :	Knowing the vedas (वेद + ग)
वेदल्लं :	Name of one of the nine angas or divisions of the Buddhist scriptures according to matter
वेदना :	Feeling, sensation, perception; pain, suffering (वेदना)
वेदनाक्खन्धो :	The second khandha, sensation (वेदना + स्कन्ध)
वेदनं :	Sensation (वेदना)
वेदनत्तनं :	Sensation
वेदनट्टो (adj) :	Agonised (वेदना + स्थ)
वेदङ्गं :	A vedanga (वेदाङ्ग)
वेदनीयो, वेदयितं, :	See विदति
वेदेति	
वेदेहो (adj) :	Belonging to the Videhas (वैदेह)
वेधति :	To tremble, quake (व्यथ्)
वेधवेरो :	The son of a widow (वैधवेय)
वेधि (adj) :	Trembling (व्यधि)
वेधी (adj) :	Piercing, shooting, hitting (वेधिन्)
वेधो :	Piercing (वेध)
वेदि, वेदी :	An altar; a bench; a ledge, cornice, caves (वेदि, वेदी)
वेदी (adj) :	Knowing (वेदिन्)
वेदिका :	A bench; a cornice, caves (वेदि + का)
वेदिसो (adj) :	Belonging to the town of Vidisa (वैदिश्)
वेदित्तब्बो :	See विदति
वेदो :	Knowledge: pleasure, emotion, excitement: a Hindu Veda (वेद)
वेगी :	A courier (वेगिन्)
वेगो :	Impetus, impulse, shock, attack: speed, velocity; stream: impulse of the mind, emotion; passion (वेग)

वेहगमनं :	Coming through the air (विह + आगमन)
वेहप्फलो :	Name of the inhabitants of the tenth Brahmloka (वृहत्फल)
वेहासट्ठो (adj) :	In the air
वेहासयो :	The air, sky
वेहासो :	The air, sky, heaven
वेजयन्तिका :	Name of a tree (वैजयन्तिका)
वेजयन्तो :	Name of the palace of sakkas (वैजयन्त)
वेज्झं :	A target (वेध्य)
वेज्जो :	A physician (वैद्य)
वेकल्लं :	Deficiency (वैकल्प)
वेला :	Time, shore, boundary; multitude (वेला)
वेल्लित्तो :	Shaken, trembling; crooked (वेल्लित्त)
वेळु, वेणु :	A bamboo, reed; a flute (वेणु)
वेळुमयो (adj) :	Made of bamboo (वेणु + मय)
वेळुरियं :	A precious stone, perhaps lapis lazuli (वैदूर्य)
वेळुवनं :	A bamboo-grove; a name of monastery presented by king Bimbisara to Gautam Buddha (वेणु + वन)
वेमज्झं :	The middle, centre (वि + मध्य)
वेमतिको (adj) :	Inconsistent, variable (विमति + क)
वेमातिको (adj) :	Born of a different mother
वेमत्तं :	Difference (विमात्र)
वेमो :	A loom (वेम)
वेनतेय्यो :	A Garuda (वैनतेय)
वेणविको :	A flute-player (वैणविक)
वेणयिको (adj) :	Versed in the Vinaya (वैणयिक)
वैनेय्यो :	Tractable, that can be converted
वेणि :	A woman's hair, simply platted without ornament (वेणि)
वेणिको :	A lute-player (वैणिक)
वेणो :	A worker in Bamboo or wicker work (वैण)
वेणु :	See वेळु
वेणुधमो :	A flute-player (वेणधम)
वेणुकारो :	A bamboo or wicker worker (वेणु + कार)
वेपचित्ति :	Name of an asura (विप्रचित्ति)
वेपाकी :	See समवेपाकी

404 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वेपनं, वेपथु, वेपो :	Trembling, tremor (वेपन, वेपथु, वेपस्)
वेपुल्लं :	Development abundance (वैपुल्य)
वेरज्जको (adj) :	Belonging to various provinces or kingdoms (वि + राज्य + क)
वेरं :	Wrath; anger; hatred; sin (वैर)
वेरमणी :	Abstinence
वेरवसिको (adj) :	Hatred or revenge (वैर + वश + इक)
वेरी (adj) :	Hating, hostile, revengeful (वैरिन्)
वेरिवा :	An enemy (वैरिन् + वन्)
वेरोचनो :	The sun (वैरोचन)
वेसाखो :	Name of a month, April, May (वैशाख)
वेसाली :	Name of a town in the Licchavi country (वैशाली)
वेसालिको, यो(adj) :	Belonging to Vesali
वेसनं :	Inequality (विषम + अ)
वेसारज्जं :	Confidence (वैशारद्य)
वेसायी :	A name of yama
वेसयिको (adj) :	Belonging to a sphere of action (वैषयिक)
वेसी, वेसिया :	A harlot (वेश्या)
वेसियानो :	A Vaisya
वेस्मं :	A house (वेश्मन्)
वेसो :	Dress, apparel, equipment; disguise (वेश)
वेस्सभू :	Name of a Buddha (विश्वभू)
वेस्सामित्तो :	Name of a Rishi (वैश्वामित्त)
वेस्सानरो :	Fire (वैश्वानर)
वेस्सन्तरो :	Name of a king who was the Bodhisattva in the last birth but one (विश्वान्तर)
वेस्सवणो :	A name of Kuvera (वैश्रवण)
वेस्सो :	A Vaisya (वैश्य)
वेताळं :	A magic art
वेतालिको :	A bard whose duty it is to awaken a king at dawn with music and song (वैतालिक)
वेतनं :	Hire, wages (वेतन)
वेतनिको :	A hired servant; labourer (वैतनिक)
वेतरणी :	The river of hell (वैतरणी)
वेतसो :	The ratan reed, Calamus Rotang (वेतस)

वेठको (adj) :	Surrounding, enveloping (वेष्टक)
वेठनं :	Surrounding enveloping; a turban, diadem: an envelope, wrap (वेष्टन्)
वेठेति :	To surround, encompass, envelope, wrap, clothe (वेष्टयति)
वेठो :	Surrounding etc. (वेष्ट)
वेत्तं :	A stick, staff (वेत्त)
वेवचनं :	A synonym
वेवण्णियं :	Change, diversity (वैवर्ण्य)
वेवण्णो (adj) :	Various, different (वि + वर्ण)
वेव्याबाधिको :	An adj. formed from vyabadho
वेव्यग्घो (adj) :	Belonging to a tiger (वैयाघ्र)
वेय्याकरणं :	Answer; exposition, explanation, exegesis (वैयाकरण)
वेय्याकरणो-णीको :	A grammarian (वैयाकरण)
वेय्यावच्चं :	Service or duty performed by an inferior for a superior (व्यावृत + य)
वेय्यावटिकं :	Same meaning as last (व्यावृत + इक)
वि :	A preposition used in composition with verbs and their derivatives, frequently with the sense of separation, difference, opposition (वि)
विब्भमनं :	Roaming
विब्भमति :	To roam, wander (विभ्रम्)
विब्भमो :	Whirling; agitation, hurry, flurry, amorous dalliance (विभ्रम)
विभा :	Light, lustre (विभा)
विभागो :	Division (विभाग)
विभजनं :	Division, sharing with others
विभजति :	To divide, apportion; to distinguish, go into details, be minutely accurate (विभज्)
विभङ्गो :	Division; distinction, determination, explanation (विभङ्ग)
विभासा :	An alternative (विभाषा)
विभाति :	To glitter (विभा)
विभत्ति :	In gram, inflection of nouns and verbs; declension; conjugation (विभक्ति)
विभत्तो :	See विभजति
विभावनं :	Making clear; ascertainment (विभावन)

406 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

विभावरी :	Night (विभावरी)
विभावेति :	To understand clearly (विभावयति)
विभावी (adj) :	Wise (विभाविन्)
विभवो (adj) :	Power, prosperity, majesty, splendour, property, wealth (विभव)
विभवो :	Absence or cessation of existence, non-existence, Nirvana (वि + भव)
विभावो :	Condition or sentiment of the body or mind (विभाव)
विभेदनं :	Division (विभेदन)
विभेदिका :	The Palmyra tree
विभिन्नो :	Scattered, divided, at variance (विभिन्न)
विभीतको, की, कं :	Beleric myrobolan (विभीतक)
विभु :	A lord, ruler (विभु)
विभूसनं :	Adornment (विभूषण)
विभूसितो :	Adorned (विभूषित)
विभूति :	Splendour, dignity (विभूति)
विबोधनं :	Awakening (विबोधन)
विबुद्धि :	Enlightenment
विबुधो :	A learned or wise man: a deva (विबुध)
विचक्खनो (adj) :	Knowing, wise, discerning, sensible, skilful (विचक्षण)
विचारको :	One who investigate, a judge (विचारक)
विचरणा, णं :	Investigation, doubt (विचारण)
विचरति :	To walk or go about (विचर)
विचारो :	Investigation, examination (विचार)
विचयो :	Research, investigation (विचय)
विच्छा :	Succession (वीप्सा)
विच्छुड्ढेति :	To throw away (वि + च्छृद्)
विच्छिद्दकं :	One of the Asubha Kammatthanas, obtained by the contempla- tion of a corpse fissured from decay (वि + च्छिद् + क)
विच्छिको :	A scorpion (वृश्चिक)
विच्छिन्दति :	To break off, interrupt (विच्छिद्)
विच्च्युतो :	Fallen down (विच्च्युत)
विचेय्यो :	Accompanied with discrimination (विचेय)
वीचि :	A wave; leisure (वीचि)

विचिकिच्छा :	Doubt, uncertainty (विचिकित्सा)
विचिकिच्छति :	To doubt, hesitate (विचिकित्सति)
विचिनति :	To seek, search, investigate, examine; together, collect (विचि)
विचिन्तको (adj) :	Devising, finding out
विचिन्तेति :	To think, consider, imagine (विचिन्त्)
विचिति :	Examination (विचिति)
विचितो :	Separated
विचित्रो, विचित्तो :	Variegated, painted, ornamented, embroidered (विचित्र)
(adj)	
विचुण्णो :	Crushed
विदङ्गता :	Gallantry, wit (विदग्धता)
विदहति :	To allot, assign, appoint, fix, order, prescribe; to provide, practice (विधा)
विदालनो (adj) :	Breaking up
विदालेति (eaus) :	To break open, split, rip up
विदारणं :	Rending (विदारण)
विदारितो :	Rent, split (विदारित)
विदारो :	Tearing (विदार)
विदति :	To know, ascertain (विद्)
विदत्थि :	A span of twelve angulas (वितस्ति)
विद्वसु (adj) :	Skilled, wise
विद्वेसि :	An enemy (विद्वेषिन्)
विद्वेसो :	Anemity, hatred (विद्वेष्)
विद्धंसनं :	Crushing, destruction
विद्धंसेति, सापेति :	To crush, destroy, overthrow, scatter; disperse (विध्वंसयति)
विद्धंसो :	Demolition (विध्वंस)
विद्धस्तो :	Broken, fallen to pieces (विध्वस्त)
विद्धो :	See विज्झति
विद्दुमो :	Coral (विद्दुम)
विदेहा :	Name of a people (विदेह)
विधा :	Pride (विधा)
विधमनं :	To scatter, dispel (विध्मा)

408 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

विधानं :	Arrangement, disposal, assignment; act: performance; precept, rule, ceremony, rite (विधान)
विधवा :	A widow (विधवा)
विधावति :	To run about (विधाव्)
विधाय, विधेय्यो :	See विदहति
विधि :	Rule, precept; ceremony; destiny, luck (विधि)
विधीयति :	See विदहति
विधो :	Form, measure, hind, sort; part, fold (विध)
विधु :	The moon (विधु)
विधूनति :	To shake (विधू)
विधूपनं :	A fan
विधूपितो :	Scattered, destroyed
विधुरं :	Absence, seclusion (विधुर)
विदिसा :	An intermediate point of the compass (विदिश्)
विदितो, विदित्वा :	See विदति
विडजो :	A name of Indra (विडोज)
विदू (adj) :	Knowing, skilled: wise (विदु, विद, विद्)
विदुरो (adj) :	Wise (विदुर)
विदूसितो :	Corrupted (विदूषयति)
विद्वा (adj) :	Wise (विद्वस्)
विगच्छति :	To depart (विगम्)
विगाहति, विगाहेति :	To plunge or wade into, to enter (विगाह)
विगमो :	Departure, dispelling (विगम)
विगरहति :	To reproach, rebuke, censure (विगर्ह)
विगतो :	See विगच्छति
विगह्य :	See विगाहति
विग्गहको (adj) :	Quarrelsome
विग्गहवा (adj) :	Having the form of: handsome (विग्रहवत्)
विग्गहो :	The body; the strife: in gram resolution of a word into its elements, analysis (विग्रह)
विग्घो :	An abstacle (विघ्न)
विघासादो :	One who eats the remains of food
विघासो :	Remains of food, broken meat, scraps, orts (from विघस्)
विघाटनं :	Overthrow, removal

विघाटेति :	To overthrow, remove, batter down
विघाटो :	Destruction, annoyance, vexation, opposition (विधान्)
विगुण्ठितो :	Arrested, foiled (वि + गुण्ठ्)
विहगो :	A bird (विहग)
विहाहिसि :	See विहरति
विहङ्गमो (adj) :	Going through the air, flying (विहङ्गम)
विहङ्गो :	A bird (विहङ्ग)
विहञ्जति :	To be vexed, grieved, afflicted (विहन्यते)
विहरति :	To dwell, sojourn, live (विह)
विहारी (adj) :	Dwelling, living (विहारिन्)
विहारियो (adj) :	Living (विहार + य)
विहारो :	Rambling, roaming, recreation: a Buddhist monastery or convent: state of life, condition: stopping, staying, sojourn, living, abiding, dwelling (विहार)
विहतो :	See विहञ्जति
विहन्थो (adj) :	Perplexed (विहस्त)
विहाय :	See विजहति
विहायसा (adj) :	Through the air (विहायसा)
विहायसो :	The air, sky (विहायस)
विहायितं :	A gift (विहायित)
विहेसा :	Annoyance, vexation, weariness, fatigue
विहेसको (adj) :	Annoying, troubling, wearying
विहेठको (adj) :	Harassing (विहेठक)
विहेठनं :	Harassing, hurting (विहेठन्)
विहेठेति :	To annoy, harass, hurt
विही :	Rice, paddy (व्रीहि)
विहिंसा :	Hurting, injury, cruelty
विहिंसति :	To hurt, injure (विहिंस्)
विहीनो :	See विजहति
विहितो :	See विदहति
विजहति :	To leave, forsake, relinquish, reject (विहा)
विजम्भति :	To rouse oneself, display activity (विजम्भ्)
विजाननं :	Knowing
विजानं :	Understanding

410 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

विजानाति :	To discern, distinguish, be wise, perceive, learn, understand, know exactly, find out ascertain (विज्ञा)
विजनी :	A fan
विजनो :	Lonely, deserted (विजन)
विजाता :	See विजायति
विजाटनं :	Disentangling
विजटेति, विजटापेति :	To comb out, disentangle; metaphorically, to unravel, explain
वीजति :	To fan a person (वीज्)
विजयनं :	Bringing forth, delivery
विजायति :	To bring forth young (विजन्)
विजयो :	Victory, triumph; name of the first aryan coloniser and sovereign of Ceylon (विजय)
विजेति, विजिनति :	To conquer, master, triumph over (विजि)
विजिगुच्छति :	To loathe (वि + जुगुप्स्)
विजिननं :	Conquering
विजितावी (adj) :	Victorious (विजित + विन्)
विजितो :	See विजेति
विजीवितो (adj) :	Dead (विजीवित)
विज्जा :	Knowledge, learning, scholarship, science; wisdom (विद्या)
विज्ज :	See विदति
विज्झनं :	Piercing
विज्झति :	To pierce, perforate: to strike, hit, break through; to hurt, wound; to shoot with an arrow (व्यध्)
विज्झायति :	To burn out; go out, be extinguished
विज्जोतति :	To shine (विद्युत्)
विज्जु, विज्जुता :	Lightening (विद्युत्)
विज्जुलता :	Forked, lightening (विद्युलता)
विज्जुता :	See विज्जु
विकचो :	Blossing (विकच)
विकालो :	Afternoon, evening; wrong time (विकाल)
विकङ्कतो :	Name of a plant (विकङ्कत)
विकप्पना :	Apportioning, assignment
विकप्पनं :	Option, alternative; decision (विकल्पन)
विकप्पेति :	To apportion, assign (विकल्पयति)

विकल्पो :	Option, uncertainty: thinking over, considering (विकल्प)
विकारो :	Change, alteration; perturbation; wrong state of mind (विकार)
विकरोति :	To alter (विकृ)
विकसा :	Bengal madder (विकसा)
विकसति :	To expand, blossom (विकस्)
विकासी (adj) :	Illumining, delighting (विकाशिन्)
विकती :	Change; emotion, anger, : sort, kind: altered form, product (विकृति)
विकतिका :	A woollen coverlet embroidered with figures of lions tigers
विकतो :	Changed (विकृत)
विकटो (adj) :	Changed, altered (विकट)
विकिरणं :	Dispersing; investment of money (विकिरण)
विकिरणो (adj) :	Dispersing, spending, squandering (विकिरण)
विकिरति :	To scatter, sprinkle, spread-abroad to overwhelm (विकृ)
विक्रमो :	Advancing, walking; strength, heroism, prowess (विक्रम)
विक्रन्तो :	Stepping, walking; heroic (विक्रान्त)
विक्रयी, विक्रयिको :	A vendor (विक्रयित्, विक्रयिक)
विक्रयो :	Sale (विक्रय)
विक्रेता :	A vendor (विक्रेतृ)
विक्रेय्यो :	Saleable, for sale (विक्रेय)
विक्रखालनं :	Washing
विक्रखालेति :	To wash (विक्रखालयति)
विक्रखम्भनं :	Obstructing, stopping (विक्रखम्भण)
विक्रखाम्भितो :	Obstructed, stopped (विक्रखम्भित)
विक्रखम्भो :	Diameter (विक्रखम्भ)
विक्रखायितकं :	One of the asubha kammatthanas
विक्रखेपो :	Scattering, confusion; perplexity, puzzle, disorder of mind (विक्रखेप)
विक्रिखपति :	To scatter (विक्रिखप्)
विक्रिखोभेति :	To agitate (विक्रिखोभयति)
विक्रिणाति :	To sell (विक्री)
विक्रोपनं :	Injuring
विक्रोपेति :	To cause or suffer to be injured

412 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

विकुब्धतं :	Assuming a different form by supernatural power, magical or miraculous transformation
विकूजति :	To chirp, warble (विकूज)
विलग्नो :	Fastened (विलग्न)
विळम्बनं :	Disguise, masquerade (विडम्बन)
विलम्बति :	To loitler, tarry (विलम्ब्)
विलङ्गं :	The plant Erycibe Paniculata (विडङ्ग)
विलपति :	To lament, wail; to talk, idly, to lie (विलप्)
विलापो :	Lamentation (विलाप)
विलासो :	Sport, pastime; dalliance; charm, beauty (विलास)
विलयो :	Destruction (विलय)
विलेखितो :	Smooth
विलेखो :	Perplexity (विलेख)
विलेपनं :	Toilet perfume (विलेपन)
विलिम्पति :	To smear, to anoint (विलिप्)
विलीनो :	Clinging, adhering (विलीन)
विलीवकारो :	A basket maker
विलोचनं :	The eye (विलोचन)
विलोकनं :	Looking, a look (वितोकन)
विलोकेति :	To look at, look-over, examine (विलोक्)
विलोळेति :	To stir, move about (विलोडयति)
विलोमयति :	To disarrange, invert
विलोमो :	Against the grain, reversed different, wrong (विलोम)
विलोपको (adj) :	Pillaging, larcenous
विलोपो :	Plunder, pillage (विलोप)
विलुम्पति :	To plunder (विलुप्)
विलूनो :	To cut off (विलून)
विमट्टूथो :	Scent arising from the trituration of perfumes (विमट्टोत्य)
विमलो (adj) :	Pure, clear, spotless (विमल)
वीमंसा :	Investigation, examination, trial (मीमांसा)
वीमंसनं :	Trying, testing (मीमांसन)
वीमंसति :	To think over, consider, reflect upon; to examine, investigate, try, test
विमानं, नो :	A pagoda or palace of seven stories; the abode of Deva, a celestial mansion: a residence, abode (विमान)

विमनो (adj) :	Perplexed, distressed (<i>विमनस्</i>)
विमति :	Perplexity, doubt (<i>विमति</i>)
विमट्टो :	Soft (<i>विमृष्ट</i>)
विम्हापेति :	To astonish (<i>विस्मापयति</i>)
विम्हयो :	Astonishment (<i>विस्मय</i>)
विम्हितो :	Astonished, amazed (<i>विस्मित</i>)
विमोचनं :	Release (<i>विमोचन</i>)
विमोहको (adj) :	Bewitching, deluding
विमोखो :	Deliverance, release, escape, salvation; release from human passion, Arhatship; release from existence, Nirvana or annihilation (<i>विमोक्ष</i>)
विमुखो (adj) :	Averted, neglectful (<i>विमुख</i>)
विमुञ्चति :	To release, to given up, to spend (<i>विमुच्</i>)
विमुत्तायतनं :	Point of emancipation (<i>विमुक्ति + आयतन</i>)
विमुक्ति :	Release, emancipation, Arhatship, Nirvana or annihilation (<i>विमुक्ति</i>)
विमुक्तो :	Released, emancipated (<i>विमुक्त</i>)
विमुह्यति :	To be confused or bewildered (<i>विमुह</i>)
विना (adj) :	Without, except (<i>विना</i>)
वीणा :	The Indian lute (<i>वीणा</i>)
विनामेति :	To bend about, twist (<i>विनामयति</i>)
विनन्धति :	To encircle, cover (<i>वि. न्ह</i>)
विनासेति :	See <i>विनस्सति</i>
विनासी (adj) :	Destructive (<i>विनाशिन्</i>)
विनासो :	Loss, destruction, ruin (<i>विनाश</i>)
विनस्सति :	To be lost; to perish, be destroyed (<i>विनश्</i>)
विनता :	The mother of Carulas (<i>विनता</i>)
विनतको :	Name of one of kulacalas (<i>विनत + को</i>)
विनायको :	A spiritual teacher a Buddha (<i>विनायक</i>)
विनयनं :	Instruction, conversion (<i>विनयन</i>)
विनयो :	Putting away; avoidance; subduing, conversion, training, discipline; name of a portion of the Buddhist Scriptures (<i>विनय</i>)
विन्दनो :	Fighting, getting
विन्दति :	See <i>विदति</i>

414 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

विनेति :	To remove, put away; subdue, conquer, restrain; to instruct, educate, train (विनी)
विनिबन्धो :	Bondage
विनिच्छयो :	Investigation, trial; ascertainment, decision (विनिश्चय)
विनिच्छिनति :	To investigate, try; to judge, decide, determine (विनिश्चि)
विनिधाय :	Having deposited (विनिधाय)
विनिर्गमो :	Departure (विनिर्गम)
विनिर्गतो :	Departing; free from (विनिर्गत)
विनीलको (adj) :	Purple, black and blue (विनील + क)
विनिर्मुक्तो, :	Released; discharged (विनिर्मुक्त)
विनिमुक्तो	
विनिपातिको (adj) :	This term is applied to beings belonging to the four apayas (विनिपात + इक)
विनिपातेति :	To do away with, destroy (विनिपातयति)
विनिपातितो :	Fallen down (विनिपातित)
विनिपातो :	State of punishment or suffering (विनिपात)
विनीतो :	See विनेति
विनीवरणो (adj) :	Unbiased
विनिवृत्ति :	To roll back (विनिवृत्)
विनिवेठनं :	Unwrapping, explaining, refuting (विनिवेष्ट + अन)
विनिविञ्जति :	To pierce, through and through (विनि व्यध्)
विञ्जो :	The Vindhya mountain range (विन्ध्य)
विज्ञाणं :	Intelligence, knowledge; consciousness; thought, mind (विज्ञान)
विज्ञाणञ्चायतनं :	Realm of infinity of intelligence, name of the second Arupabrahmaloka, it is so called because the beings who inhabit it are filled with the idea that Vinnana is infinite (विज्ञान + आनन्त्य + आयतन)
विज्ञाणट्टिति :	Station or abode of intelligence (विज्ञान + स्थिती)
विज्ञापनो (adj) :	Informing, instructing (विज्ञापन)
विज्ञापेति :	One who informs
विज्ञापेति :	See विजानाति
विञ्जति :	Information, intimation: intimation of a want, asking (विज्ञप्ति)
विज्ञाय, :	See विजानाति
विञ्जेय्यो	

विञ्जुता :	Intelligence
विनोदको (adj) :	Dispelling
विदोनं :	Dispelling, removal (विनोदन)
विनोदेति :	To dispel, put away, get rid of (विनोदयति)
विपच्चनीको (adj) :	Hostile (वि + प्रत्यनीक)
विपच्चति (pass) :	To be cooked, scorch etc. (विपच्चते)
विपाचेति :	To work oneself upto indignation, to be indignant, angry, annoyed (विपाचयति)
विपज्जति :	To fail, to perish (विपद्)
विपाकी (adj) :	Having a result (विपाकिन्)
विपक्खिक (adj) :	Opposite
विपक्खो (adj) :	Opposite; hostile (विपक्ष)
विपाको :	Result, product, consequence; good result, fruit, profit, reward; evil result, retribution (विपाक)
विपल्लासो, :	Reversal, change (विपर्यास)
विपरियासो	
विपन्नो :	See विपज्जति
विपरामोसो :	High-way robbery
विपरावत्तो :	Reversed, changed (विपरा-वृत्त)
विपरिणामेति (caus) :	To transform oneself
विपरिणामो :	Change, reverse
विपरिणतो :	Changed (वि-परि-नत्)
विपरीतो :	Reversed, opposite, contrary, different, changed; wrong false (विपरीत)
विपरियासो :	See विपल्लासो
विपरिययो :	Reversal, change (विपर्यय)
विपस्सको (adj) :	Contemplating; endowed with
विपस्सना :	Seeing clearly, spiritual insight
विपस्सति :	To see clearly, to obtain spiritual insight (विदृश्)
विपस्सी (adj) :	Seeing clearly, wise (वि + पश्च + इन्)
विपातेति (caus) :	To crush (विपातयति)
विपातिका :	An abscess on the foot (विपादिका)
विपत्ति :	Misfortune; failure (विपत्ति)
विपेक्खति :	To stare about (विप्रेक्ष्)
विपिनं :	A groove, wood (विपिन)

416 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

विपिट्टिकरोति :	To throw behind one (वि + पृष्ठ + कृ)
विपोथेति :	To bruise (वि + पोथयति)
विप्पजहति :	To abandon, give up (वि + प्र + हा)
विप्पकारो :	Change of state, impropriety (विप्रकार)
विप्पकतो :	Imperfectly executed, left unfinished (विप्रकृत)
विप्पकट्टको (adj) :	Distant (विप्रकृष्टक)
विप्पकिरति :	To scatter (विप्रकृ)
विप्पक्खितो :	Scattered about (वि + प्रक्षिप्त)
विप्पलब्धो :	Disappointed, deceived (विप्रलब्ध)
विप्पलम्भेति :	To mock, delude (विप्रलम्भयति)
विप्पलपति :	To chatter, talk, nonsense; to lament (विप्रलप्)
विप्पलापो :	Wrangling (विप्रलाप)
विप्पमुञ्चति :	To cast off, free oneself from (विप्रमुच्)
विप्पनट्टो :	Ruined, sunk, lost (विप्रणष्ट)
विप्पसीदति :	To become calm or serene (विप्रसद्)
विप्पटिसारी (adj) :	Remorseful
विप्पटिसारो :	Remorse, regret, repentance (विप्रतिसार)
विप्पवसति :	To go abroad, leave home, be away from home, be absent (विप्रवस्)
विप्पवासो :	Absence (विप्रवास)
विप्पविद्धो :	Pierced, through and through (विप्रविद्ध)
विप्पबुत्थो :	See विप्पवसति
विप्पयोगो :	Separation (विप्रयोग)
विष्फन्दति :	To struggle, writhe (विष्पन्द्)
विष्फन्दत्तं :	State of writhing (विष्पन्द् + त्व)
विष्फरणं :	Thrilling, pervading (विस्फर; विस्फुर)
विष्फारिको (adj) :	Pervading, spreading, diffusing
विष्फुलिङ्गः :	A spark of fire (विस्फुलिङ्ग)
विष्फुरणं :	Another form of above
विष्फुरति :	To vibrate, wave, flash (विस्फुर)
विष्पो :	A Brahmin (विप्र)
विपुब्बकं :	One of the asubhakammattanas, obtained by the contemplation of a festering corpse (वि + पूय + क)

विपुलो (adj) :	Large, great, broad, extensive (विपुल)
विरचितो :	Made, composed (विरचित्)
विराधेति :	See विरञ्जति
विरागो :	Absence of desire or human passion; Arhatship; Nirvana (विराग)
विरहितो :	Bereft of, exempt from (विरहित)
विराजति :	To shine, be conspicuous, or eminent (विराज्)
विराजेति :	See next
विरञ्जति :	To be displeased, disgusted, to loathe (विरञ्जति)
विरञ्जति :	To fail, go wrong, miss; lose (विराध्यति)
विरजो (adj) :	Free from corruption or human passion (विरजस्)
विरलञ्जनो (adj) :	Thinly peopled (विरल + जन)
विरलो (adj) :	Delicate, fine (विरल)
विरमणं :	Abstaining
विरमति :	To abstain, refrain, desist (विरम्)
विरति :	Abstinence (विरति)
विरतो :	See विरमति
विरतो :	See विरञ्जति
विरवति :	To cry aloud, shout, cry out; to rattle; jingle (विरु)
विरवो, विरावो :	Crying, shouting, clamour (विरव, विराव)
विरेचनं :	Purging, a purgative (विरेचन)
विरेक :	Purging, diarrhoea (विरेक)
विरियं :	Strength, vigour, energy, fortitude, effort, exertion, dignity, influence (वीर्य)
विरियवा (adj) :	Energetic (वीर्यवत्)
वीरो (adj) :	Strong, mighty, heroic (वीर)
विरोचन (adj) :	Shining (विरोचन)
विरोचति :	To shine, be brilliant or splendid, to be eminent, conspicuous (विरुच्)
विरोधनं :	Opposition, contradiction (विरोधन)
विरोधी (adj) :	Opposing, obstructing, adverse (विरोधिन्)
विरोधितो :	Rendered hostile (विरोधित)
विरोधो :	Opposition; contradiction, inconsistency, enmity (विरोध)
विरोधोक्ति :	Contradiction, quarrel (विरोधोक्ति)

418 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वीरु :	A spreading creeper (वीरुध्)
विरुद्धो :	See विरुद्धति
विरुधनको (adj) :	Growing
विरुज्जति :	To fall to pieces, to decay
विरुज्जनं :	Being obstructed
विरुज्जति :	To be obstructed, annoyed, disturbed, troubled (विरुध्यते)
विरुळिह :	Growth, increase (from विरुह)
विरुळहो :	Grown, blossoming (विरुढ)
विरूपक्खो :	Name of the Regent of the west, and chief of the Nagas (विरुपाक्ष)
विरूपो (adj) :	Deformed, monstrous, ugly (विरूप)
वीसा :	See विसं
विसभागो (adj) :	Not common to all, different, dissimilar
विसदत्तं :	Purity (विशद + त्व)
विसधरो :	A snake (विषधर)
विसदो (adj) :	Pure, white; clear, manifest (विशद्)
विसादो :	Dejection (विषाद)
विसहति :	To be able, to dare, to venture (विषह)
विसज्ज, विसज्जेति :	See विस्सज्जति
विसकण्ठकं :	A sort of sugar
विसाखा :	Name of a Nakkatta: name of a celebrated female saint, a contemporary and disciple of Buddha (विशाखा)
विसल्लो (adj) :	Free from pain or grief (विशल्य)
विसालो (adj) :	Wide, extensive, great (विशाल)
विसं :	Poison, venom (विष)
वीसं :	Twenty (विशत्)
विसमो (adj) :	Uneven, unequal; unjust, lawless, wicked (विषम)
विसंवादको (adj) :	Deceiving, lying
विसंगदेति (caus) :	To break one's word to a person, deceive, disappoint (विसंवादयति)
विसंवादो :	Deceiving, disappointing (विसंवाद)
विसंयोगो, :	Separation, disjunction (विसंयोग)
विसञ्जोगो	
विसंयुत्तो, :	Separated, detached (विसंयुक्त)
विसञ्जुतो	

विसाणं :	A horn, elephant's tusk (विषाण)
विसङ्घारो :	Destruction, annihilation (वि + संस्कार)
विसङ्घितो :	Destroyed, annihilated (विसंस्कृत)
विसञ्जीभूतो (adj) :	Unconscious, swooned away (वि + सञ्जा + भूत)
विसञ्जिता :	Unconsciousness, syncope (विजञ्जिन् + ता)
विसञ्जो (adj) :	Unconscious (वि + सञ्जा)
विसञ्जोगो, :	See (विसंयि)
विसञ्जुत्तो	
विसफलता :	Unprofitableness (वि + सफल + ता)
विसप्पनं :	Spreading (विसर्पण)
विसारदो (adj) :	Bold, confident, ready, self-possessed: wise skilled (विशारद्)
विसारी (adj) :	Spreading (विसारिन्)
विसरो :	A multitude (विसर)
वीसति :	Twenty (विंशति)
वीसतिमो (adj) :	Twentieth (विंशतिम)
विसटो, विसतो :	Spread, diffused (विसृत)
विसट्टि :	Emission (विसृष्टि)
विसत्तिका :	Desire, lust (विषक्त + इका)
विसयि :	An organ of sense (विषयि)
विसयो :	District, region, country; realm, domain, range, sphere, scope: an object of sense (विषय)
विसेसको :	A sectarian mark on the forehead (विशेषक)
विसेसनं :	Distinguishing (विशेषण)
विसेसञ्जु (adj) :	Knowing distinctions, discerning, critical (विशेषज्ञ)
विसेसेति (caus) :	To distinguish, define, specify (विशेषयति)
विसेसो :	Distinction, discrimination, speciality, specification; sort, kind; peculiar merit, advantage, excellence, superiority (विशेष)
विसेस्सो :	Principal, chief (विशेष्य)
विसिब्बति :	To unsew, unpick (वि + सिन्)
विसीदति :	To be afflicted (विषद्)
विसिखा :	A street, road, an arrow (विशिखा)
विसीलो (adj) :	Immoral (विशील)
विसिट्ठो :	Superior, excellent (विशिष्ट)

420 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

विसीवनं :	Warming oneself
विसीवेति :	To warm oneself
विसोधनं :	Cleansing; emending (विशोधन)
विसोधेति :	See विसुज्जति
विसोको (adj) :	Free from sorrow (विशोक)
विसोसेति :	See विस्सुस्सति
विस्सग्गो :	In the phrase bhattavissaggam karoli which seems to make a meal ; donation ; distribution
विस्सज्जना :	An answer, reply
विस्सज्जनं :	A gift (विसर्जन)
विस्सज्जति :	To send forth, emit, throw, shoot : to let go, dismiss: to answer: to leave: forsake: to spend
विस्सक्कमो :	Name of the celestial architect, a deva of the catummaharajika heaven, who acts as an architect and artist to the devas (विश्वकर्मन्)
विस्सं :	Smell like raw-meat (विस्स)
विस्समनं :	Resting
विस्समति :	To cease from toil, rest, repose (विश्रम्)
विस्सम्भो :	Trust, confidency, intimacy (विश्रम्भ)
विस्साणनं :	Gift, donation (विश्राणन)
विस्सन्दति :	To flow, well up, overflow (विस्सन्द)
विस्सरति :	To forget (विस्मृ)
विस्सरो :	Out cry (विस्वर)
विस्ससति :	To confide in, trust to (विश्वस्)
विस्सासिको (adj) :	Intimate, confidential, trusty (क्विवासिक)
विस्सासियो (adj) :	Confidential, trustworthy (क्विवास्य)
विस्सासो :	Intimacy, confidence, trust (क्विवास)
विस्सत्थो :	See विस्ससति
विस्सट्ठो :	See विस्सज्जति
विस्सवति :	To ooze (विष्णु)
विस्सो (adj) :	Whole, entire (विश्व)
विस्सुस्सति :	To be dried up (विशुष)
विस्सुतो :	Renowned (विश्रुत)
विसूचिका :	Cholera (विसूचिका)
विसुद्धयति :	To become bright or clear

विसुद्धि :	Purity, holiness, rectitude, correctness; Nirvana (विशुद्धि)
विसुद्धति :	To be cleansed, to be pure (विशुद्ध)
विसूकं :	A show, spectacle, worldly amusement
विसुं (adv) :	Separately, individually
विटभी :	The fork of a tree
विटच्छिका :	Scabies (विचर्चिका)
विटच्छितो :	Planned, smoothed
वीतहरो (adj) :	Fearless
वितक्कनं :	Reasoning (वितर्कण)
वितक्केति :	To reason argue, consider, reflect (वितर्क)
वितक्को :	Reflection, thought, argument, reasoning (वितर्क)
वीतमलो (adj) :	Pure, clear, spotless (वीतमल)
वितण्डा :	Frivolous or captions discussion (वितण्डा)
विटङ्को, कं :	A dove-cot, aviary (विटङ्क)
वितञ्जति :	To be spread, diffused
वितानो, नं :	Spreading, expansion; multitude; a canopy, awning (वितान)
विटपी :	A tree (विटपिन्)
विटपो :	The fork of a tree: a clump, thicket (विटप)
वीतरागो (adj) :	Free from human passion, Arhata (वीतराग)
वितरणं :	Donation, gift; abandoning, escaping from (वितरण)
वितरति :	To continue, to go through; to perform (वि + तरति)
वितथो (adj) :	False, unreal (वितथ)
विततो :	Extended, diffused, overspread (विततो)
वीथि :	A row, line; a road; a bazaar, street (वीथि)
वीथिको (adj) :	Substitute for Vithi at the end of a compound
वीतिहारो :	A long footstep, stride (व्यतिहार)
वीतिक्रमति :	To exceed, transgress (व्यतिक्रम)
वीतिक्रमो :	Going beyond bonds, transgression, sin (व्यतिक्रम)
वीतिनामनको (adj) :	Spending one's time, living
वीतिनामेति :	To spend or pass the time, to live: to wait
वितिण्णो :	See वितरति
वीतिपतति :	To fall away, transgress (वि - अतिपत्)
वीतिसारेति :	To remind mutually (विअति - स्मारयति)

422 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वीतिवत्तो :	Having passed, exceeded, past
वीतो :	See वियति
वीतो :	Devoid of, free from (वीत)
वित्तं :	See विदति
वित्थम्भनं :	Instability (from विष्टम्भ्)
वित्थारेति :	To expand, detail (विस्तारयति)
वित्थारिको (adj) :	Extended, diffused (विस्तार + इक)
वित्थारो :	Width, breadth; extention; amplification, detail (विस्तार)
वित्थासि :	This is an aor from (वित्रस्)
वित्थतो :	Extended, wide (विस्तृत)
वित्थिण्णो :	Extensive, large (विस्तीर्ण)
वित्ति :	Joy; feeling, sensation (वित्ति)
वित्तूदति :	To strike, sting (वित्तुद्)
विवदनं :	Causing separation
विवदति :	To dispute quarrel (विवद्)
विवादतो :	व्यवदात
विवादो :	Dispute, contention; litigation (विवाद)
विवाहनं :	Getting a husband for a girl
विवाहो :	Marriage (विवाह)
विवज्जेति :	To forsake, to avoid (विवृज्)
विवर्णकं :	Dispraise, reviling, contempt (विवर्ण + क)
विवर्णो (adj) :	Discoloured, wan (विवर्ण)
विवरं :	A hole, hollow, fissure, eleft: gap, interstice, an empty space, vaccum; recess, core; a flaw, defect (विवर)
विवरणं :	Explanation, comment (विवरण)
विवरति :	To open (विवृ)
विवसो (adj) :	Unrestrained, independent (विवश)
विवटो :	See विवरति
विवत्तच्छद्दो, च्छद्दो :	One by whom the veil is rolled away (विवृत्त + छद्दन् + छद्)
(adj)	
विवत्तं :	Part of the dress of a Buddhist priest; turning round the other way, rolling back (विवृत्त)
विवत्तं :	Absence of Vatta or transmigration, Nirvana (वि-वृत्त)
विवत्ति :	To roll on or round, revolve (विवृत्)

विवट्टो :	Beginning again, renovation (विवर्त)
विवेचनं :	Investigation (विवेचन)
विवेचेति :	To separate, seclude (विवेचयति)
विवेकजो (adj) :	Caused by seclusion or detachment (विवेकज)
विवेको :	Separation, seclusion; discrimination (विवेक)
विवेच्या :	Separating oneself from (विविच्य)
विविच्चति :	To separate oneself, retire
विविच्छा :	Said to mean doubt
विविधो (adj) :	Various; manifold (विविध)
विवित्तो :	See विविच्चति
विय :	See इव
वियगो, वियञ्जनं, :	See व्यागो, व्यञ्जनं, व्याकरोति
वियाकासी	
वीयति, विय्यति :	To be woven
वियोगो :	Separation, disunion; absence, deprivation; loss, death (वियोग)
वियोजेति :	To separate (वियोजयति)
वियूहति :	To remove, take out, disengage (व्यूह)
वियुक्तो :	Separated (वियुक्त)
वियति :	See वीयति
वो :	See त्वं
वोच :	See वक्ति
वोच्छिञ्जति :	To be cut off (व्यवच्छिद्यते)
वोदानं :	Purification, purity
वोदापनं :	Purification
वोदपेति :	To purify
वोहरति :	To give currency to, use: express (व्यवह)
वोहारिको :	A royal officer, skilled in the law, a magistrate (व्यावहारिक)
वोहारो :	Practice, custom, law: lawsuit: business, trade: common use, currency: current speech, vernacular, current appellation, name (व्यवहार)
वोकारो :	Worthlessness: the khandhas: difference
वोकिण्णो :	Separated from (व्यवकृ)
वोमिस्सको (adj) :	Miscellaneous (वि-अव-मिश्रक)
वोरोपेति :	To deprive of (व्यवरोपयति)

424 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

वोसानं :	End, consummation
वोसासति :	To give orders: act authoritatively (वि. - अव + शास्)
वोसितो :	Ended, accomplished
वोस्सगो :	Relinquishment, relaxation; gift, donation
वोस्सजनं, :	Relinquishment
वोस्सज्जनं	
वोस्सज्जति :	To relinquish (अवसृज् or व्यवसृज्)
वोस्सकम्मं :	Making a man a eunuch
वुच्चति :	See वत्ति
वुद्धि, बुद्धि :	Increase, growth; prosperity, advantage (वृद्धि)
वुद्धिमा (adj) :	Prosperous (वृद्धिमत्)
वुद्धो, बुद्धो :	See वद्धति
वुळ्हति :	See वहति
वुणाति :	To restrain, prevent (वृ)
वूपकट्ठो (adj) :	Distant, removed
वूपसमनं :	Suppressing, cessation, extinction
वूपसमापनं :	Suppression
वूपसम्मति :	To be assuaged or quieted, or suppressed, to cease, be extinguished (वि-उपशम्)
वूपसमो :	Pacification, suppression, cessation
वुसितवा :	Dwelling, residing (उषित + वत् + विन्)
वुसितावी (adj) :	
वुसितो :	See वसित
वुसो :	A bull (वृष)
वुस्सति :	See वसति
वुत्तपदनं :	Point of conduct
वुत्ति :	Enclosure, fence (वृत्ति)
वुत्तको (adj) :	A substitute for Vutto at the end of a compound
वुत्तं :	See वत्तति
वुत्तन्तो :	Tidings (वृत्तान्त)
वुत्तरि :	See उत्तरि
वुत्तसिरो :	See वुत्तो
वुत्तो :	See वत्ति
वुत्तहति, वुत्तानं :	See उट्टि
वुत्ति :	Rain वृष्टि
वुत्तितो :	See उट्टहति
वुत्थो :	See वसति

वृत्ति :	Conduct, behaviour, manner; business; profession, livelihood; in poetry, measure, rhythm, metre; explanation, gloss (वृत्ति)
वृत्तो :	Shaven (उप्त)
वृत्तो :	See वत्तति, वत्ति
वृह्यति :	To be carried (उह्यते)
व्यावाधेति :	To oppress, injure
व्याभङ्गी :	A kaja or pole for carrying burdens
व्याधि :	Sickness, malady, diseases: the plant Costus Speciosus (व्याधि)
व्याधितो (adj) :	Sick ill (व्याधित)
व्यधो :	Piercing (व्यध्)
व्याधो :	A huntsman, deer-hunter (व्याध)
व्यग्धीनसो :	A hawk
व्यग्घो :	A tiger (व्याघ्र)
व्याग्गो, वियग्गो :	Bewildered (व्यग्र)
(adj) :	
व्याहरति :	To utter (व्याह)
व्याकरणं :	Explanation, exposition; declaration, answer; utterance, response, oracle, prediction, grammar (व्याकरण)
व्याकरोति :	To expound, explain: declare, call, name: to answer: to give a response, predict, prophesy (व्याक्)
व्याख्या :	A comment, gloss (व्याख्या)
व्याकुलो (adj) :	Bewildered, agitated (व्याकुल)
व्यम्हं :	A celestial mansion
व्यामिस्सो (adj) :	Mingled (व्यामिस्त्र)
व्यामो, व्यामो :	A fathom of about 6 feet, being the distance between the tips of the fingers of the two hands when the arms are extended (व्याम)
व्यञ्जनं, व्यञ्जनं :	A consonant; a letter, syllable, word; the words or letters as opposed to the sense: sign, mark, characteristic: sauce, condiment, curry (व्यञ्जन)
व्यञ्जीयति :	To be expressed, indicated
व्यन्तिकरोति, :	To abolish, remove, get rid of, destroy (वि - अन्तिकृ)
व्यन्तिकरोति	
व्यापदो, व्यापदो :	Wish to injure, malevolence, hatred, fury (व्यापाद)

426 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

व्यपगच्छति :	To depart, be dispelled (व्यपगम्)
व्यापज्जति, :	To be malevolent (व्यापद्)
व्यपज्जति	
व्यापको, :	Pervading (व्यापक)
व्यापको (adj)	
व्यापनं, व्यापनं :	Pervading, penetration (व्यापन)
व्यापन्नो :	See व्यापज्जति
व्यापारेति :	To employ, suborn, incite (व्यापारयति)
व्यापारो, व्यापारो :	Occupation, business, profession, exertion, action, work (व्यापार)
व्यापेति :	To pervade, permeate, fill (व्यापयति)
व्यापी (adj) :	Pervading, extending (व्यापिन्)
व्यारोसना, :	Anger, hatred
व्यारोसना	
व्यसनं, व्यसनं :	Misfortune; unhappiness, destruction, loss: bad habit, sin (व्यसन)
व्यसनी (adj) :	Meeting with ruin, unfortunate (व्यसनिन्)
व्यसत्तो, व्यसत्तो :	Attached to pleasure, covetous etc. (व्यासक्त)
व्यासो :	Diffusion (व्यास)
व्यत्तयो :	Contrariety, opposition, reversal (व्यत्यय)
व्यत्तो, व्यत्तो :	Evident, manifest: perspicuous: wise, learned (व्यक्त)
व्यवधानं :	Covering, screen (व्यवधान)
व्यवनुज्ज :	Having dispeller
व्यावटो :	Covered, obstructed (व्यावृत)
व्यवायो :	Coition (व्यवाय)
व्ययो, वायो :	Loss, perishing, decay; expenditure (व्यय)
व्यूहो, व्यूहो :	An array of troops; a host, multitude; a street closed at one end (व्यूह)

Y

- याचको, याचनको : A beggar (याचक, याचनक)
- याचना : Asking, begging (याचना)
- याचति: To ask, beg, entreat (याच्)
- यद् : See यो
- यदा (adv) : When, whenever (यदा)
- यदासन्नो (adj) : Is One of the eleven descriptions of karma
- यदि (indeel) : If (यदि)
- यादी (adj) : Of which sort (यादृश्)
- यदिच्छा : Self-will, independence (यदृच्छा)
- यदिच्छकं : Whatever one wishes (यद् + इच्छक)
- यदिच्छितो (adj) : Whatever is desired
- यदिदं (adj) : Namely, that is to say (यद् + इदम्)
- यादिक्खो (adj) : Of what sort, like what or which (यादृक्ष)
- यादिसो (adj) : Same as last (यादृश्)
- यदिवा : See यदि
- यग्घे (indecl) : An exclamation used in addressing a person
- यागो : A sacrifice (याग)
- यागु : Rice gruel (यवागु)
- यहिं (adv) : Where, wherever
- याजको : A sacrificing priest (याजक)
- यजति : To sacrifice, make an offering, to give alms (यज्)
- यजनं : Sacrifice (यजन)
- याजि : An institutor of sacrifice (याजि)
- यज्जेवं : See यदि
- यज्जु : The Yajurveda (यजुस्)
- यजुब्बेदो : The Yajurveda (यजुर्वेद)
- यकनं : The liver (यकृत्)
- यक्खिनी : A female yakkha (यक्खिनी)
- यक्खो : Name of a certain superhuman beings (यक्ख)
- यं : See यो
- यामकालिको (adj) : Last for a watch (याम + काल + इक)
- यमकं : A pair, a couple (यमक)
- यमको : Double, twin (यमक)
- यमलं : A pair (यमल)

428 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

यमं :	A pair (यम)
यमतर्गि :	Name of a Rishi (जमदग्नि)
यम्हा :	See यो
यमो :	Restraint, temperance, moral duty; a pair or couple; name of the sovereign of the internal region
यामो :	Restraint, a watch of three hours; name of the inhabitants of the deva worlds (याम)
यमुना :	The river Jamuna (यमुना)
यानकं :	A cart, carriage, car (यानक)
यानं :	Going, proceeding; a conveyance, vehicle, carriage, car (यान)
यञ्चे :	See यो
यानिकतो (adj) :	Used as a vehicle
यङ्कारणा (adv) :	Because (यत्कारणात्)
यञ्जदेव :	See यो
यञ्जङ्गो :	The Glomerous fig-tree (यज्ञाङ्ग)
यञ्जो :	A Brahmanical sacrifice (यज्ञ)
यन्नून :	See यो
यन्तं :	Implements, appliance, machine, engine (यन्त्र)
यापनं :	Living, maintainance (यापन)
यापेति :	See याति
याय्ययानं :	A palanquin (याप्ययान)
यसस्सी (adj) :	Famous (यशस्विन्)
यसस्सिवा (adj) :	Surrounded by eminent men (यशस्विन् + वत्)
यसवा (adj) :	Famous (यशस् + वत्)
यस्मा :	See यो
यसो :	Fame, renown, reputation, honour (यशस्)
यसोधरा :	Name of wife of Siddhattha, before he became Buddha (यशोधरा)
यातना :	Torment (यातना)
ययत्तो :	See यतो
यथा (adv) :	As, like, how, when (यथा)
यथाबलं (adv) :	According to one's power or means, to the best of one's ability (यथाबलम्)
यथाभिरन्तं (adv) :	As long as one likes

- यथाभुच्चो (adj) : Real (यथाभूत + य)
- यथाभूतं (adv) : According to the reality, rightly, truly, correctly (यथाभूतम्)
- यथाबुद्धं (adv) : According to seniority (यथावृद्धम्)
- यथाघम्म (adv) : Equitably, legally, righteously (यथाधर्म)
- यथाधम्मो : Just award, righteous punishment (यथा + धर्म)
- यथाधोतो (adj) : Washed, clean (यथा + धौत)
- यथागतो (adj) : As contained in a book, as written (यथागत)
- यथाह : As he has said (यथा + आह)
- यथाहि : See यथा
- यथाकालं (adv) : As long as possible (यथाकालम्)
- यथाकम्मं (adv) : According to one's Karma or actions (यथा + कर्मन्)
- यथाकरो (adj) : Acting in which way (यथा + कर)
- यथाक्रमं (adv) : In due order, successively (यथाक्रमम्)
- यथालङ्कृतो (adj) : All decorated as he was, without changing his state (यथा + अलङ्कृत)
- यथामतो (adj) : As if dead, like a dead man (यथा + मृत)
- यथानाम : See यथा
- यथाजायं (adv) : Rightly fitly (यथान्यायम्)
- यथानुरूपो (adj) : Suitable, commensurate (यथा + अनुरूप)
- यथानुसिट्टं (adv) : According to instructions, in accordance with what has been taught (यथा + अनुशिष्ट)
- यथापेमं (adv) : Out of love or affection (यथा + प्रेमन्)
- यथाफासुको (adj) : According to comfort, pleasant
- यथापि : See यथा
- यथारहं (adv) : According to worth or station: properly, satisfactorily, correctly, appropriately, duely (यथार्हम्)
- यथारिव : See यथा
- यथारुचिं (adv) : According one's taste or wish, as one likes, at will
- यथारुचितो (adj) : As liked, pleasant (यथा + रुचित)
- यथारुचिया (adv) : As one likes; at pleasure
- यथारूपो (adj) : Of that kind, which, such (यथारूप)
- यथासद्धं (adv) : According to faith, in faith (यथाश्रद्धम्)
- यथासको (adj) : Each his own, respective (यथास्व + क)
- यथासङ्खं (adv) : According to number or order, respectively (यथासंख्यम्)

430 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

- यथासन्धतिङ्गं : This is the 12th Dhutanga precept (यथा + संस्तुत + इक + अङ्ग)
- यथासन्ति, : According to one's ability (यथा + शक्ति, यथाशक्त्या)
- यथासन्निया (adv)
- यथासुखं (adv) : As one likes, at pleasure, comfortably, at one's ease (यथासुखम्)
- यथातथो (adj) : Real, true (यथातथ)
- यथत्त + यथत्ता : Rightly, exactly (यथा + त्व)
- (adv)
- यथाट्टानं + ठानं : Former or original place (यथास्थान)
- यथावज्जं : Mimicry of a person's defects (यथा + वर्ज्य)
- यथावेजं : As quickly as possible (यथा + वेग)
- यथाविधि (adv) : Duly, fitly (यथाविधि)
- यथाविहितो (adj) : As appointed, regular (यथा + विहित)
- यथावुत्तो (adj) : As above mentioned (यथा + उक्त)
- यथविदं, यथेदं : As: so that (यथा + इदम्)
- (adv)
- यथेव : See यथा
- यथिच्छितं (adv) : To one's liking, to one's heart content (यथेप्सितम्)
- यति : A pious ascetic, a Buddhist monk (यति)
- यति : Caesura (यति)
- याति : To go; to go away; to undergo (या)
- यतो (adv) : From what, from whom: in as much as since, because: from the time when (यतस्)
- यतो : Restraint, temperate (यत)
- यातो : See यति
- यत्र : Since, as much as
- यत्थं (adv) : Where, in which place, wherein, whereon, whither (यत्र)
- यात्रा : A march or expedition; livelihood (यात्रा)
- यत्तको (adj) : However much, of whatever size
- यत्थ : See यत्र
- यट्टि : A staff, stick, pole; a stem, stalk; a measure of length (यट्टि)
- याव, यावं (adv) : Until, while, as long as, in order that (यावत्)
- यावदर्थं (adv) : As much as required (यावदर्थम्)
- यावदे : See याव

- यावदिच्छकं (adv) : As much as desired (यावत् + इच्छा + क)
- यावजरा (adv) : Until old age (यावत् + जरा)
- यावजीवं (adv) : As long as life lasts, all one's life
- यावजीविको (adj) : Life-long
- यावको : Lac (यावक)
- यावमहन्तो (adv) : However big (यावत् + महत्)
- यवनपुष्पं : Name of a perfume (यवन + पुष्प)
- यावञ्चिदं : See याव
- यावन्तो : As many as
- यवसो : Pasture, fodder (यवस्)
- यावता (adv) : As far as, in as much as, because (यावता)
- यावतको (adj) : As long, as far, as much, as many
- यावततियं (adv) : Up to the third time (यावत् + तृतीय)
- यावतायुक्कं (adv) : As long as life should last (वाचता + आयुस् + क)
- यावतिहं (adv) : As many days as
- यवो : Barley (यव)
- यायी (adj) : Going (यायिन्)
- येभुय्यसिका : Name of one of the Adhi-karanasamathas
- येभुय्यता : Abundance, preponderance
- येभुय्यो (adj) : Abundant, numerous
- येन : See यो
- येनकामं (adv) : Wherever, one likes, at will (येन + काम)
- येनकम्मं (adv) : Where one's karma leads (येन + कर्मन)
- येनिच्छकं (adv) : Wherever one likes (येन + इच्छा + क)
- येव : See इव
- यो : Who, what, which; he who; whoever (यद्)
- योब्बनं योब्बञ्जं : Youth (यौवन)
- योधि : A warrior (योधिन्)
- योधो : A warrior, soldier (योध)
- योगक्खेमो : Security: Nirvana (योगक्षेम)
- योग्गा : Training, practice (योग्य)
- योग्गं : A conveyance, carriage (योग्य)
- योग्गो (adj) : Worthy, proper fit, adapted (योग्य)
- योगी : An ascetic (योगिन्)

432 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

योगो :	Junction, union; method, means, plan, device; application, endeavour, diligence, devotion, mental concentration; connection, attachment; relation, order, series, in gram, a rule, aphovism (योग)
योजनं :	Junction, union: a measure of length four gavuta (योजन)
योजनिको (adj) :	A yojana in extent (यौजनिक)
योजनियो (adj) :	A yojana in length or height (योजन + अ)
योजेति :	See युञ्जति
योनको :	See योनो
योनि :	The womb; the vagina; source, origin, material cause; a class of beings: form of birth on existence: knowledge or wisdom (योनि)
योनिजो :	Born from the womb, born of a mother (योनिज)
योनिस्वो (adv) :	Casually, really, wisely (योनि + शस्)
योनो, यवनो,	Foreign, barbarian; Ionian, Greek (यवन-यवनक)
यनको (adj) :	
योत्तं :	The tie of the yoke of a plough (योत्तु)
युद्धं :	See युञ्जति
युगलं :	A pair, couple (युगल)
युगं :	A pair, couple: a generation, an age of the world (युग)
युगन्धरो :	See कुलाचलो
युगन्तो :	The end of a Kappa (युगान्त)
युगपत्तो :	Mountain ebony (युगपत्र)
युगो + युगं :	The yoke of a carriage or plough (युग)
युञ्जति :	See युञ्जति
युञ्जति :	To fight, make war (युध्)
युञ्जति :	To turn one's attention to, be zealous, active, devote oneself (युज्)
यूनो (adj) :	Young
यूपो :	A pillar, column: a sacrificial post: a pasada (यूप)
यूसो, यूसं :	Juice (यूष, जूष)
यूथिका :	A sort of jasmine (यूथिका)
यूथो, यूथं :	A herd of animals (यूथ)
यूतो :	Furnished or fitted with; yoked, harnessed (युत)
युत्तको (adj) :	Worthy, proper, right (युक्त + क)

युक्ति :	Use; application; aptness, fitness, propriety; an emblem (युक्ति)
युक्तो :	Yoked, joined, connected, attached; right, fitting; possessing, used, adopted, performed, engaged in, devoted to, versed (युक्त)
युवा (adj) :	Young (युवत्)
युवानो (adj) :	Young
युवराजा :	A crown prince, associated with the king in the Government (युवराजन्)
युवति :	See युवा
व्याहं, व्यायं :	See यो

Addenda

अब्भाहतो :	Afflicted
अभिधारेति (caus) :	To raise up aloft, to hold up
अभिदोसिको (adj) :	Belonging to the evening
अभिजनेति (caus) :	To call into existence, to produce
अभिणहसो (adv) :	Frequently
अभिनिब्बुतो :	Calmed
अभिप्पकिण्णो :	Completely strewn or spread
अभिप्पसन्नो :	Greatly pleased
अभिरवति :	To sound loudly
अभिसम्भवो :	Meeting with, finding, getting
अभिसम्बुज्जनं :	Attaining Buddhahood
अभिसन्दति :	To trickle, flow
अभिस्सज्जना :	Being angry
अभित्थुनति :	To praise, laud
अभितुन्नो :	Struck down
अभिवस्सति :	To pour down
अभिविजिनति :	To conquer
आभूजनं, आभूजो :	Bending, turning
अभूमि :	Wrong place
अचिरट्ठायी (adj) :	Of short duration
अद्धवो (adj) :	Impermanent
आधारकं :	A seat, stool
अधिपातेति (caus) :	To knock off, remove
अधिवाहनो (adj) :	Carrying or conveying to
अधोकतो (adj) :	Knocked down, upset
अधोसिरो (adj) :	Head downwards
अदिस्समानो (adj) :	Invisible
आगमनीयो :	That should be attained
अगारी :	A householder
अहेतुको :	One who does not believe in the cause, an infidel
आहुति :	Offering, oblation
आहूय :	Having summoned

अजपालो :	A goathered
अजरामरो (adj) :	Free from decay and death
अञ्ज्नायको (adj) :	Engaged in study
अञ्ज्जोगहेति :	To plunge into, enter
अकामको (adj) :	Unwilling
अक्खित्तो (adj) :	Not blamed, not reviled, blameless
अक्कुट्ठो :	Reviled, cursed
आकोट्टेति :	To beat, knock
अलङ्कम्मनियो (adj) :	Suitable for coition
अममो (adj) :	Covetous, unselfish
आमन्तना :	Taking leave
आमोदितो :	Pleased, delightful
अमोघो (adj) :	Unfailing, unerring
अनभिञ्जितो (adj) :	Not coveted
अनभिस्सरो (adj) :	Not a master, powerless
अनगारी अनगारिया :	Homeless state
अञ्जातो (adj) :	Undistinguished, unrecognised
अनपेक्खो (adj) :	Indifferent
अनरहा :	One who is not an Arhata
अनावटो (adj) :	Unobstructed, unlimited
अनावत्ति :	Non-return
अनिट्ठो (adj) :	Unpleasant
अञ्जाता :	One who learns or understands
अञ्जत्थत्तं :	Variation, contraity
अनोवादको (adj) :	Not listening to admonition, untutored
अन्तकं :	Extremely, border

436
BLANK

BOOK II

PALI DICTIONARY

(into English Marathi, Gujarathi and Hindi)

BLANK

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अ :	Used only as an inseparable prefix	—	—	—
आ :	Until : as far as (prep.)	जोपर्यंत; पावेतो	ज्या सूधी, त्यां सूधी	जब तक, जब तक
अकटञ्जू :	Ungrateful	अकृतज्ञ	कृतघ्न	कृतघ्न
अकटञ्जू :	Knowing Nirvana, an epithet of an araha (adj)	अर्हतांचे गुण वाचक विशेषण	अर्हत माटे उपयोगमा लेवाय जेवा गुणनाम	अर्हतके लिये उपयोगमे लेने योग्य विशेषण
अकटञ्जुला :	Ingratitude (f)	कृतधनपणा	कृतधनता	अकृतज्ञता
अकटङ्कथी :	Free from doubt (adj)	निःसंशय, निश्चय	निस्संदेह निःशंक	निस्संदेह
अङ्कयो :	A sort of tambourine	—	खंजरी वाडकानु डफ	झांज लगा हुवा डफ, खँजडी
अकणो :	Free from kana viz rice freed from the red coating which underlies the husks (adj)	भातावरचे टरफळ काढल्यानंतर जो तांदूळ निघतो तो	फोतरा अथवा छीलका वगराना चोखा	छीलका या भूसा हटाय्या हुवा चावल
अकतो + :	Not done; left undone;	न केलेला, असाधित, विस्कळीत	पायमल थई गयेलु; कर्यासिवायनु कुदरित, स्वाभावित अकृत्रिम;	न करा हवा, नही बनाय हुवां स्वाभाविक, नैसर्गिक, सामान्य;
अकटो : (adj)	not made; natural, not artificial; not cultivated waste	अकृत्रिम, अंगचा, अनौरस, जोपासणे; खर्चणे, नांगरणे, उधळ, उडविणे	न खेडेलु; उजाड बतावु	खेत नही जोतना; निसार, भ्रष्ट

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अकनिट्टो + :	Greatest, Highest	थोरला, मोठा, उच्च. उन्नत,	मोट्ट, प्रौढ, जोरावर, उंचु,	विशाल, बडा. उच्च, उंचा
अकनिट्टको (adj)		श्रेष्ठ	महान, विस्तृण	प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ
अकप्ययो :	Unsuitable, improper,	अयोग्य, नालायक, अनुचित,	अनुचित, अयोग्य, अघटित	अयोग्य, अनुचित
(adj)	wrong	गैरवाजवी, अपराध, जुलूम, नुकसान	गलित, खोट्ट	अशुद्ध, अधर्म
अकम्मको :	Intransitive of Verbs	—	—	—
(adj)				
अकरणं :	Not doing, omission	टाळाटाळ, वगळणे	त्याग, गफलत, लोप, वर्जवु,	त्याग, भूल, लोप, अलग रहना
	abstuning from	वर्ज्य, वाचून राहणे	मुकी देवुं, थी दूर रहेवु	
अकरी :	See करोति	—	—	—
अकल्लो :	Impossible	अशक्य, असंभवनीय,	अशक्य, असंभवीत,	असाध्य, दुष्कर, असंभवनीय
(adj)		असाध्य	अघटमान	
अकल्लं :	Disease, illness	आजार, रोग, दुखणे	दरद, पीडा, बीमारी, मांधु	रोग, बीमारी, व्याधी
अकत्वा :	See करोति	—	—	—
अका :	See करोति	—	—	—
अकामो :	Unwilling	नाकबुल, नाखुष, नाराजी	नाखुष, नाराज, असंतोषी	विमुख अनीच्छुक
(adj)				
अकारणेन :	Without cause, unreasonably,	विनाकारण, असमंजसपणाने,	कारण विना; अमथुं गैरवाजवी	बगर कारण, बुद्धिविपरीत
(adv)	unjustly	गैरवाजवी, अयोग्य रितीने	रिते, अन्यायथी	अन्यायसे

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अकारियो :	That ought not to be done,	न करणे, ते केलेले बरे;	न थवु जोयिये,	नहिं करना चाहिये,
(adj)	That may not or can not be done	ते करणें अशक्य	न करवुं जायिये	नहिं होना चाहिये
अकारो :	The Vowel A	स्वर-अ	स्वर-अ	स्वर-अ
अकालिको :	Without delay	विलंब लावणे, टाळा देणे,	विलंब करवो, ढील करवी,	विलंब करना, समय बिताना,
(adj)	immediate	साक्षात संबंधाचा, तत्कालिक, जवळचा	पासेनु, नजीकनुं, तात्कालीक साक्षात्	अति समीपका
अकालो :	Unseasonableness, wrong time	अकालिक, असमयोचित	अयोग्य अवसरनु, अकालिक	कुसमयका. असामयिक, बेमौसमी
अकिच्चो :	That ought not to be done wrong	न केले पाहिजे असे, अन्याय, जुलूम, नुकसान	नहिं करवुं जेवुं, गलित, उधु खोटुं	वैसा न करना चाहिये था; अनुचित, अयोग्य, अधर्म
अकिञ्चनो :	Having nothing poor,	अकिंचन, गरिब, दळिद्री,	गरिब, कंगाल, तंगी	दरिद्र, हीन, अभाग, निराश्रय,
(adj)	destitute	कंगाल, निराश्रित	पाडवी	विहीन
अकिञ्चि :	Not a little much,	पुष्कळ, बराचं	घणु, वधारे, पुष्कळ	बहुत, अत्यंत, विशेषरूप से, अति
(adv)	considerably			
अकिरियो :	Unpractical, useless, foolish	निरर्थक, निरूपयोगी, अकारण, अकूलशून्य, अविचारी, मूर्ख	अमथु, नकामु, निरर्थक, मूर्ख	अकुशल, निरर्थक, निष्फल, व्यर्थ, निर्बुद्ध, बेवकूफ
(adj)				
अकिलासु :	Diligent	उद्योगी, मेहनती, दक्ष, तत्पर	उद्योगी, मेहनतु	उद्योगी, परिश्रमी
(adj)				

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अकुताभयो : (adj)	Quite safe निर्भय, बिनधोक, सुरक्षित	सहिसलामतपणे, निर्भयपणे	सुरक्षित, भयरहित
अकुप्यो : (adj)	fixed, immovable sure, certain	घट्ट, न हालणारा, स्थिर, अढळ, द्रढ, जडेलु, ठरवेलु, अचल, अचल, खचित, निश्चित	स्थापित, अचल, अटळ, दृढ, स्थिर, निश्चित, अवश्य
अकुसलकम्मं : कर्म, demerit	Evil action, bad works दुष्ट, खराब, कुकर्म, दुष्कृति,	दुष्ट कार्य, खराब काम, दुष्कर्म, दोष, व्यंग, पाप	अधर्मी, निंदित कर्म, बुरा कुकार्य, अवगुण, दोष, न्युनता
अकुसलकम्पपथो : Course or path of sinful action Sinful course	दुष्कर्माचा मार्ग, दुष्ट वागणूक पातकी गति	पापमार्गो जवु, दुष्कर्म	कुपथ, दुष्ट मार्ग
अकुसलधातु : (f) principle	Element of sin, Sinful पातकी तत्त्व, पातकी कर्म पापी सिद्धांत	पापी, कुकर्णी, पातकी हेतु	पापी सिद्धांत
अकुसलमूलं : Root of principle of sin, evil principle	वाईट दुष्ट अथवा अपायकारक तत्त्व	पापी, खराब, मूलतत्त्व अथवा सारा	अधर्म, निंदित, हेतु, तत्त्व या सार
अकुसलवितक्को : Sinful thought	दुष्ट विचार, वाईट कल्पना, पापीतर्क	दुष्ट विचार अथवा संकल्प	पापी बुद्धि
अकुसलसङ्कप्यो : Sinful resolve	पाप बुद्धी, पाप वशता, दुष्टपणा	पापपरायण रिते, कुकर्मपण	पापपूर्णता, दुष्टता
अकुसलसज्जा : (f) Sinful idea	पापी, कल्पना अथवा हेतू	कुकर्मी, पापी विचार, अथवा कल्पना	पापी या दुष्ट भावना या विचार

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अकुसलो :	Unskilled, unable, bad, evil,	अनाडी, अडाणी, असमर्थ,	अकुशल, अशक्य, पापी	बिनाचातुरीके, अनिपुणता,
(adj)	sinful, unhealthful	वाईट अथवा पापी, अपायकारक, बाधक	कुकर्म, रोग, बिमार, रोग वाळु	अयोग्य, पापी, घातकी, असमर्थ
अक्कमणं :	Stepping upon, walking upon	पाय ठेवणे, चालणे वर्तणे	कदम भरवुं, पगलो भरवुं, चालवुं, डगला भरवा	पेर रखने की जगा, चलना, टहलना
अक्कमति :	To step upon, mount upon, tread upon, walk upon	चढणें, तुडविणे, च्या मागून जाणे, अनुकरण करणे	सवार थवुं, ना उपर बेसवुं, कचरी नाखवुं, ना उपर थईने चालवुं	चढना, उपर को जाना, चलना, अनुकरण करना
अक्कन्तो :	Stepped upon, mounted upon	चढलेला, वर चढलेला	उपर चढेलु	उपर चढा हुवा
अक्को :	The sun; the plant swallow, wort or Aselepias Giqantea	सूर्य, रवि : एका झाडाचे नाव	रवि, सूर्य, झाडनुं नाम	रवि, सूर्य, पेड़ का नाम
अक्कोच्छि :	See अक्कोसति	—	—	—
अक्कोधनो :	Not angry, not passionate, (adj) mild	अक्रोध, अकोप, क्षुब्ध, शांत, सौम्य, न रागवणारा,	अक्रोध, भलु, सालस, नम्र	अतीव्र, अक्रोधी, अकोपी, सुकुमार, दयाळु
अक्कोधो :	Freedom from wrath, (adj) mildness, conciliation	अक्रोध, नम्रतापूर्वक, शांत; मन मळवणे, मन धरणी	क्रोधा विनानु, घुसावाळु नरमाश, भलमण, नम्रता, मन मेळवी लेवु ते, मिलाप	रोषविना, क्रोधरहित; कोमल, दयाळुता, सांत्वन, अनुरंजन

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अक्कोसति :	To abuse, to revile	शिव्या देणे, निंदाणे	बदवोई करवी, निंदा करवी	गालि देना, बुरा कहना, निंदा करना
अक्कोसनं :	Reviling, abusing; curse, imprecation	निंदिणे, कुटाळणे, शिवीगाळ, शाप, तळतळाट	निंदा करवी, भुंडुं बोलववुं, शाप देवो, बद दुवा	बुरा कहना, निंदा करना, गाली देना, शाप;
अक्कोसो :	Abuse, reviling	शीव्या देणे, कुटाळी करणे	निंदा करवी, गाळी अपवी	गालि गलोच करना, निंदा करना, निंदा, अपवाद
अखण्डो :	Unbroken, intact, entire (adj)	न मोडलेला, अखंड, अभंग	अखंड, आखुं, पुरु, तमाम	बिना तुटा हुवा, अखंड, संपूर्ण
अखातं :	A natural pond or tank	पुष्करिणी, तलाव, तळे, टाकी	तळावडुं, टाकी	तडाग, सरोवर, तालाब, वाबली
अखिलो :	All = entire (adj)	सर्व, अखंड	आखुं, संपूर्ण	सकल, पूरा, कूल : पुरा, समग्र
अक्खको :	The collar bone	गळयाजकळील हाड	हसडीनुं हडकु	हँसिया, हँसुलि
अक्खं :	An organ of sense, the eye	इंद्रिय, डोळा, चक्षू	इंद्रिय, डोळो, आंख	इंद्रिय, अँखुवा, चक्षू
अक्खणा (f) :	Lightening	वीज, विद्युत, बिजली	विद्युत, बिजली	बीजलि, विद्युत
अक्खणो :	Wrong moment or occasion, Unfavorable time	प्रतिकूल वेळ अथवा अवसर, प्रयोजन, अनिष्ट क्षण	प्रतिकूल अथवा अशुभ क्षण, पल, प्रसंग	प्रतिकूल क्षण, अवसर, प्रसंग
अक्खतम :	Fried grain	तळलेले दाणे	तळलेलु अन्नाज	भुना हुवा दाना, या लावा
अक्खन्ति :	Ill-will, grudge, envy (f)	दुष्टभाव, द्वेष, इर्षा, असूया, हेवा करणे	इर्षा करवी, स्पर्धा करवी	इर्षा, असंतोष, अनिच्छा दिखलाना, स्पर्धा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अक्खदस्सो :	A judge	न्यायाधीश, परिक्षक, निवाडा करणारा	न्यायाधीश, काजी, मुनसफ, गुणज्ञ	न्यायधीश, परिक्षक, गुणदोषज्ञ
अक्खदेवी :	A dicer,	जुगारी	जुगार, जूतं रमणार	पासा खेलनेवाला, जुवा
(m)	gambler	पैजेने खेळणारा,		खेलनेवाला जुआरी
अक्खधुत्तो :	A dicer, gambler	जुगारी	जुगारी	जुआरी
अक्खप्पभेदो :	Distinction of letters, etymological science	शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र	शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र	शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र
अक्खयो :	Undecaying, unfailling,	अक्षय, अविनाशी, अनश्वर	अविनाशी, अमर, बेहद,	नष्ट न होने वाले, निश्चित,
(adj)	endless	अपार, निरंतर	हमेशनुं	अपतनशील, अनंत, निरंतर
अक्खरसो :	Letter by letter	अक्षर न् अक्षर	अक्षर	अक्षर और अक्षरे
(adv)				
अक्खरं :	The imperishable or Eternal	अनाध्यंत, शाश्वत, अक्षय	अक्षय, अविनाशी, कायम, अनंत, नित्यनुं	अनश्वर, अविनाशी, नित्य
अक्खरं, :	A letter of the alphabet	अक्षर	अक्षर	अक्षर
अक्खरो				
अक्खाता :	One who tells, repeats or	जो निवेदन करतो अथवा सांगतो अथवा शिकवतो	जो मुढे कहेछे ते माणस अथवा जो कथन करेछे ते अथवा जो उपदेश, बोध करेछे ते, शिक्षक	जो फीर फीर कहेता है या प्रकट करता है या अध्यापन सिखलाना है
(m)	relates, one who proclams or preaches, a teacher	अथवा उपदेश करतो तो शिक्षक, उपदेशक	अध्यापक	वह अध्यापक, शिक्षक

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अक्खाति :	To tell, to relate, to announce, to proclaim, to teach, to preach	सांगणे, निवदणे, प्रसिद्ध करणे शिकवणे, धर्माचा उपदेश करणे, परिचय देणे	कहेवुं, जणावुं, वर्णन करवुं, जाहेर करवुं; प्रसिद्ध करवुं, बोध करवुं, उपदेश करवुं शिकववुं भणवु	कहना, बतलाना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, अध्यापन करना सिखलाना, परिचित कराना, धर्म उपदेश देना
अक्खातो :	Told related, announced proclamed, preached, reported, called, named, denominated	सांगितलेले, निवेदलेले, जाहीर केलेले, उपदेशिलेले, निवेदलेले, बोलाविलेला, नाव दिलेला, विशेष नाव असलेला	कहेलुं, जणावुं, जाहेर थयेलु खबर करेलुं, बोलावेलु, अभिधान अपेलु, संज्ञा अपेलु	कहा हुवा सो, प्रकट या प्रकाशित किया हुवा सो: जिसके बारेमे उपदेश किया हुवा है सो: विज्ञापन या इत्तिला दिया हुवा, बुलाया हुवा नाम दिया हुवा, वर्णन किया हुवा
अक्खानं :	Telling, recitation telling tales or legends	सांगणे, म्हणणे, पाठ अथवा कविता म्हणणे, गोष्टी अथवा कथा सांगणे	म्होढे बोली जवुं ते : वार्ता या कथा कहेवुं	कहेना, कथन, वर्णन, प्रगट करना, कहानी कहेना
अक्खायता : (f)	Imperishableness endlessness	अक्षयी, अनश्वेर्यता, अपार, निरंतरता, अनंतता, अमरपणा	अचलता, अविनाशी, अपारत्व, अमर्याद	अनंतता, अमरत्व, अविनाशत्व
अक्खायति :	To be proclamed, to be reported	जाहीर करवून घेणे, दवंडी पिटवून घेणे, निवेदन करविणे	जाहेर करवावुं, लोकोने जणाववुं, हकिकत निवेदवी	घोषणा करना, विज्ञापन करना, इत्तीला दिया
अक्खायिका : (f)	A tell, Story	अख्यायिका, अख्यान, वृत्तांत, कथा	आख्यान, कथा, कहानी	कथा, कहानी, जीवनी

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अक्खायी :	Telling, relating	सांगत असलेले, प्रसिध्द होत	कहेवुं, जणावुं, जाहेर	कहेना, बतलावा
(adj)	announcing	असलेले	करवुं	
अक्खि :	The eye	डोळा, चक्षू	आंख, नेत्र, डोळो	चक्षु, आँख, आखु, अँखुवां
(n)				
अक्खिको :	A dice player	जुगारी	जुगारी	पासा खेलने वाला
अक्खिगं :	The eyelashes	डोळयाच्या पापणीचे केस	पापण	वरोनी
अक्खो :	A die : The plant Terminalia Bellerica : a weight equal to two & half Masakas : the axle of a wheel	रंग, कलप, झाडाचे नाव, अडीच माशाएवढे वजन, चाकाचे आंस	रंग, वर्ण, झाडनु नाम, अढाई माशा जेटलो वजन, वे पैयडाने जोडणारी गज,	रंग, वर्ण, रंगनेका द्रव्य, पेडका नाम, अढई माशा जितना वजन, धुरा जीसपर पहिया घुमती है
अक्खोहिणी :	A complete army, one of the high numerals = 10,000,000 or 1 followed by forty two ciphers	फौजा, लष्कर	लष्कर, सैन्य, फौज	सेना
(f)				
अगच्छति :	To come, to approach, to arrive, to return	जवळ येणे, पोहोचणे, पावणे पुनरागमन करणे	आवुं, पासे आवी पहोचुं, पाछुं मोकलवुं अथवा देवुं	आना, समीप जाना, पहुँचना, वापस करना
अगति :	wrong course, evil course or state, misfortune	अन्यायाचा मार्ग, वाईट मार्ग दुर्गति, दुर्भाग्य, दुदैव	अशुध्द मार्ग, दुर्भाग्य, दुदैव	अनुचित मार्ग, निंदित रस्सा अभाग्य, दुर्गति
(f)				

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अगति : (f)	Wrong course, civil course, or state misfortune	अनितीचा मार्ग, अयोग्य : गैरशिस्त, वाईट गति, (अगति, दुर्गति) दुदैव, अरिष्ट	गलित मार्गः दुष्ट गति खराब हालत, दुर्भाग्य कमनशीब	अनुचित गति, (मार्ग); अयोग्य कुमार्ग : निंदित अवस्था, अभाग्य, दुर्गति
अगतो : (adj)	Not gone to; not attained	अगत, न गेलेला: असिद्धि	न मेळवी शकाय, जेवुं : प्राप्त न थयेलुं	अपुरा : अयोग्य
अगतो : (adj)	Not gone to; not attained	न गेलेला : न संपादलेला	नही गयेलो, मेळवेलुं नथी	नहीं गया हुवा, नहीं प्राप्त हुवा
अगदो : (adj)	Medicine, drug, medicament	औषध, दवा	औषध, दवा	औषधि, दवा
अगन्धको : (adj)	Devoid of perfume	दुर्गंध	गन्धु	बदबु, बिना सुगन्धका
अगन्धको : (adj)	Devoid of perfume	सुगन्ध विरहीत	सुगन्ध रहित	सुगन्ध रहित
अगरु : (adj)	Light, not heavy, unimportant, not disagreeable	हलका, तुच्छ, नापसंत	हलकु : नापसंद बिन जरुरी	हलका : तुच्छ, अप्रिय
अगरु : (adj)	Light, not heavy, unimportant, not disagreeable	हलका, बिन महत्त्वाचा, पसंत, प्रिय	हलका, बीन जरुरी, पसंत, अनुकूल	हलका, अप्रसिध्द, तुच्छ, रुचिकर, प्रिय
अगलु : (n)	Aloe wood or Aquilaria Aqallochum	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अगा :	See Eti			
अगाधो :	Bottomless, unfathomable	अगाध	अगाध, अथांग	अगाध
(adj)				
अगाधो :	Bottomless, unfathomable	अगाध, अपरंपार, गहन	अगाध	अगाध
(adj)				
अगामको :	Without villages,	वसतिहीन, उजाड	वसतिहीन	न बसा हुवां
(adj)	uninhabited			
अगामको :	Without villages,	गांवांशिवाय, उजाड	गामडा विनानुं,	गाँव विनाका; न बसा हुआ
(adj)	uninhabited		रहेवा जेवुं नथी	
अगाखो :	Want of respect, disregard	अनादर, अपमान	अनादर, अपमान, बेपर्वाई	तिरस्कार करना, अनादर
अगाखो :	Want of respect, disrespect, disregard	अपमान, अनादर, अक्हेर	—	अनादर, उपेक्षा (तिरस्कार)
अगाखो :	Disrespectful, disregarding	अपमानाचा, अमर्यादिचा,	असभ्य, अमर्याद	असभ्य, निरपेक्ष
(adj)		अनादरणीय	बेपर्वाई	
अगारिको :	A house holder	घरंदाज, गृहस्थ,	गृहस्थाश्रमी,	गृहस्वामी, सामान्य मनुष्य
	layman	कोटीतला मनुष्य, सामान्य मनुष्य	संसारी	
अगारिको :	One who lives in a house, a house holder, a layman	घरंदाज, मालक, भिक्षुक नव्हे तो म्हणजे गृहस्थ	गृहस्थाश्रमी, संसारी	गृहस्वामी, सामान्य मनुष्य या गृहस्थी

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अगारियो :	A house holder, a layman	गृहस्थ	कुटुंब काबिलावालो माणसं	गृहस्वामी, सामान्य आदमी
अगारियो :	A house holder, a layman	गृहस्थ	गृहस्थाश्रमी जो भिक्षु नहीं	गृहस्थ
अगुणो :	Bad quality, badness	वाईट, दुर्गुण	दुर्गुण	दुर्गुण
अगुणो :	Bad quality, badness	अवगुणो, अवलक्षण, ऑंगळ, वाईट, बाधक	अधर्म, खराब जातनुं बगडेलु	दुर्गुण, दुष्ट
अगो :	A mountain, a tree	पर्वत, झाड	पर्वत, डुंगर, पहाड	पर्वत, पहाड़, दरक, झाड़
अगो :	A mountain, a tree	पहाड, झाड	पहाड, झाड	पहाड, पेड़
अगोचरो :	That which ought not to frequented, wrong sphere, improper or sinful place	वारंवार न घडणे अथवा न जाणे लायक जागा, अयोग्य जागा अनुचित जागा	वारंवार न जवुं एवी जग्या, अयोग्य जग्या	वारंवार न जाना, अयोग्य जगा अनुचित जगा
अगोचरो :	That which ought not to be gone to, or frequented, wrong sphere, improper or sinful place or object	जेथे वारंवार जाऊ नये ते, अयोग्य, वावगा. भलता, अनुचित जागा अथवा नालायक, गोचर किंवा व्यक्ति	जे जग्याये वारंवार जवुं नही जोड़, अन्यायी, गेरव्याजबी, अनुचित जग्या अथवा वस्तु	जीस जगहपर बारबार नही जाना चाहिये, अनुचित (अयोग्य) जगा अथवा पदार्थ या व्यक्ति
अगगजो : (adj)	First born, eldest	सर्वात वडील	सर्वथी मोटु	जेठा, वय मे सबसे बडा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अगगजो :	First born, eldest	आग्र जन्म, सर्वांत पहिल्यांदा	प्रथम जन्मेलुं, सर्वथी मोटु	अगला पैदा हुवा, जेठा (सबसे बडा)
(adj)		जन्मलेला, जेष्ठ		
अगगज्जो :	Chief, leading Principal	अग्रेसर म्होरक्या, मुख्य	मुख्य अगेवानी करवी,	प्रधान पुरुष, नायक, मुखिया,
(adj)		मार्गदर्शक, प्रधान	आगेवान	मार्गदर्शक, अग्रसर होना, प्रमुख
अगगज्जो :	Chief, leading,	मुख्य अग्र, मार्ग दर्शविणारा,	मुख्य, मोटामां मोटुं,	मुख्य, अग्र, प्रधान
(adj)	Principal	प्रधान	आगेवान	
अगगता :	Superiority, height,	श्रेष्ठत्व, प्राधान्य, सिध्दता	श्रेष्ठता, सिध्दता	श्रेष्ठता, प्रधानता, सिध्दी
(f)	perfection			
अगगता :	Superiority, height,	प्राधान्य, प्राबल्य, उन्नति,	श्रेष्ठता ऊचपणुं संपूर्णता	विशिष्टता, श्रेष्ठता, उन्नति,
(f)	perfection	थोरवी, प्राविण्य, नैपुण्य		सिद्धि
अगगतो :	Before, in front	पुढे, समोर, देखता, समक्ष	आगळ, सामे, सन्मुख	आगे, सामने, सन्मुख
(adv & prep)	of, in the presence of			
अगगतो :	Before, in front of,	पुढे, समोर, देखता, समक्ष	आगळ, सन्मुख	आगे, सामने, सन्मुख (प्रत्यक्ष)
(adv & prep)	in the presence of		सामने, रूबरु मा, हाजरीना	
अगगप्यत्तो :	Having attained perfection,	सिध्द मिळवून पूर्णता, पूर्ण	पूर्णता, प्रवीणता	सिध्द, पूर्णता, शिखर पर
(adj)	reached the height	सिध्दी प्राप्त करून		पोहंचना
अगगप्यत्तो :	Having attained perfection	नैपुण्य मिळवून, उन्नति मिळवून	प्रवीणता मेळववी, उंची जग्याये	प्रवीणता मिला के, शिखरपर
(adj)	reached the height	उच्च पदाला पाहोचून	पहोचवुं	पहोचकर

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अग्गबीजो :	Propagated by ships or cutting	परंपरेनें चालविणें चा प्रसार करणें	प्रचार करवुं	परंपरा बढाना
अग्गबीजो :	Propagated by Ships or cuttings	कापलेल्या तुकड्याच्या मदतीने पसरविणें	फाटेला तुकडाथी प्रचार करवो	फटा हुवा तुकडेसे फैलाना
अग्गमहेसी :	The chief wife of a King or queen consort	मुख्य (पहिली) पत्नी अथवा राणी, लग्नाने झालेली पत्नी- पट्टराणी	मुख्य धर्मपत्नी, राजमहिषी	मुख्य (प्रधान) धर्मपत्नी, रानी
अग्गमहेसी :	The chief wife of King queen consort	पट्टराणी, महीषि	राजराणी, महीषि	महाराणी, दुलारी
अग्गमं :	House, apartment	घर, दिवानखाना, खोली	महान, कोटडी, दिवानखानु	मकान, घर, कमरा
अग्गसावको :	Chief disciple	मुख्य चेला, मुख्य अनुयायी	मुख्य चेलो	मुख्य चेला
अग्गसावको :	Chief Disciple	मुख्य, प्रधान शिष्य, अनुयायी	प्रधान चेलो, शिष्य	प्रधान चेला
अग्गहेति :	To Seize, to take	बळकावणे, घेणे	पंकडवुं, धरवुं लई लेवुं	छीन लेना, पकडना, लेना
अग्गहेति :	To Seize, to take	बळकावणें, जबरदस्तीने घेणें	झालवुं, बळात्कारे लई लेवुं	छीन लेना, ग्रहण करना
अग्गळो, अग्गळं :	A Wooden bolt or pin for fastening door	खीळ, अडसर, कडी (कोयंडा)	अडगरो	द्वार बांधिनी, सिटकीनी, कुंडा

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अग्गळो, अग्गळं : A Wooden bolt or pin for fastening a door	लाकडी खीळ, दरवाजा घट्ट बंद करण्याचा खुंटा (खुंटी)	मोटो खीलो : दरवाजो सज्जड रीते बंध राखवा माटेनुं टाकणी	अर्गला, दरवाजा जकडनेकी खुंटी
(f)			
अग्गि : Fire Sacrificial fire; The deity of fire	अग्गि : यज्ञाचा अग्नि	अग्नि, यज्ञ	अग्नि, यज्ञा
(m)			
अग्गि : Fire; Sacrificial fire; The deity of fire	अग्नि : यज्ञीय आग, अग्नि-देवता	अग्नि : यज्ञने लगतीनी अग्नी : अग्नि देवता	अग्नि, यज्ञ संबंधी आग : अग्नि देवता
(m)			
अग्गिक्खन्धो : Mass of fire: blazing or faming fire (figuratively of a person of brilliancy and distinction)	तेज, चकचकीत, प्रतिष्ठा, नावलौकिक, प्रख्यात	तेज, प्रताप, प्रख्यात	चमक दमक, श्रेष्ठ
अग्गिक्खन्धो : Mass of fire: blazing, (used figuratively of a person of brilliancy & distinction)	देदीप्यमान, जळजळीत फणफणीत	तेज, झगझगित	देदीप्यमान, प्रज्वलित
(m)			
अग्गिनि : Fire	अग्नि	अग्नि	आग
(m)			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अग्नि :	Fire	अग्नि	अग्नि	अग्नि
(m)				
अग्निमन्थो :	Name of a plant, the PremmaSpinrsa			
अग्ने :	Before, infront	पुढें : समक्ष : समीर	आगळ : सामने	आगे : सामने
(adv.)				
अग्नो :	First, foremost, Chief	मुख्य, प्रमुख, अग्रेसर, उत्कृष्ट	सौथी, आगळनुं उत्तम, परमश्रेष्ठ	सर्वोत्तम, प्रधान
(adj)				
अग्नो :	First, foremost, Chief	आद्य, आदि : अग्रेसर, सर्वांत	पहिलो, आद्य, मुख्य,	प्रथम सर्वोत्तम, प्रधान
(adj)	prominent	पुढचा, मुख्य विशेष	श्रेष्ठ, उत्तम	मुख्य :
अग्नं :	See aggo			
अग्नं :	House, hall, Apartment	घर, दिवाणखाना, खोली, दालन	घर, दीवानखानुं, कोटडी, ओरडो	घर, दीवानखाना, कमरा, दालान
अग्न्यागारं :	See aggi			
अघोसो :	(adj) In Grammer hard consonants. The letters in Pali are क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, & स			
अघं :	Evil Sinful, grief, Suffering	दुष्ट, पापी, दुःख, शोक	पापी, दुष्ट, दुःख, पीडा	दुष्ट, नीच, पापी, दुःख, पीडा क्लेश
अघं :	Evil, sin, grief Suffering	दुष्कर्म, पाप, दुःख, शोक	पापी, पाप, दुःख, वेदना, उदासी, व्यथा	पाप, घातक, शोक, दुःख क्लेश

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अर्घ :	The sky : The air	आकाश, वातावरण, हवा	आकाश, हवा, वायु	आकाश, ऋतु, वायुमंडल
अर्घ :	The sky, The air	आकाश, आभाळ, हवा	आकाश, हवा	आकाश, हवा
अर्घको :	Having the value of, worth	योग्यता, मान, किंमत लायकी	मूल्य गणवुं, योग्यता	मूल्य योग्यता, महत्त्व
(adj)				
अर्घको :	Having the value of, worth	योग्यता, लायकी, मोल,	मूल्य, योग्यता	मूल्य, योग्यता, उचित
(adj)		आदर		
अर्घति :	To be worth, to cost	मोल, किंमत	किंमत, भाव	मूल्य, दाम
अर्घति :	To be worth, to cost	किंमत असणें, ऐपत असणें	लायक, किंमत लागवी	उचित दाम ठहराना
अर्घनको :	Of the value of, costing	किंमत	किंमत, भाव	दाम, मूल्य, व्यथ
(adj)				
अर्घनको :	Of the value of : costing,	किंमतीचा, योग्यतेचा,	मूल्यवान, योग्यता, लायक	दाम का, असली किंमत,
(adj)	worth	ऐपतवाला	किंमती	आदर करनेलायक, विचारणीय

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अग्घापेति :	To get valued or appraised	किंमत ठरविणे	किंमत ठरावी	मूल्य ठहराना
अग्घियं :	A respectful oblation	धार्मिक दान आहुति, अर्पण	अर्पण, बलिदान	आहुति, नैवेद्य
अग्घियं :	A respectful oblation	आदरणीय, समर्पण	आदरशील, समर्पण	सन्मानपूर्वक आहुति देना
अग्घो, : अग्घं	Price, cost, value, a mode of worship or reverence consisting in an oblation of rice	मोल, किंमत धार्मिक विधि, तांदूळ अर्पण करून पूजा करणे	किंमत चोखा आहुतिमा आपीने पूजा करवी	मूल्य, दाम चावलसे आहुति दे कर पूजा करना
अग्घो : अग्घं :	Price, cost, value, a mode of worship or reverence consisting in an oblation of rice etc.	किंमत एक प्रकारचे पूजन अथवा वंदना, ज्यांत तान्दूळ अर्पण करतात	किंमत एक जातनुं पूजन अथवा नमन जेमा चोखानी आहुति अर्पण करे छे	मूल्य, दाम एक प्रकार के पूजन या नमस्कार जिसमें तण्डुलकी आहुति देते हैं
अङ्कितो : (P.P.P.)	Marked, adorned, furnished, supplied with	खूण, निशाणी केलेले, अलंकृत, साजरा, भूषविलेला, सुसज्ज केलेला.	अवलोकवु, चिन्ह करेलु, निशाण करेलु, याणगारवेलु, पुरु पाडवु, आपववुं	चिन्हित, लक्ष किया हुवा, सुशोभित, श्रृंगारना, सजा हुवा, जुहाना
अङ्कुरो :	A shoot a sprout	अंकुर, पल्लव, मोड, कोंब	अंकुर, पल्लव,	अंकुर

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अङ्कुसो :	A hook to guide an elephant with	अंकुश	अंकुश :	अंकुश
अङ्को :	A mark, the flank or side	अंक, चिन्ह, खुण, निशाण, कटी, पार्श्वभाग, बाजू	निशाणी, चिन्ह कृख. पेडु, बाजु, पासु,	अंक, पार्श्व, कुक्षी, किनारा, भुज, पुसलीका, भाग
अङ्गोलो :	The plant, algangium, Hexapelatum	- -	- -	- -
अङ्ग : (Interj.)	Oh! Indeed!	अरे, खरोखर	- -	- -
अङ्गजातं :	Membrum vivile	- -	- -	- -
अङ्गणं :	A court, a yard, lust impurity, sin	अंगण, परसू, वासना, तृष्णा, हाव, अशुद्धता, विटाळ, पाप, अपराध, गुन्हा,	आंगण, चौक, लोभ, तृष्णा, दुर्बुद्धि, अपवित्रता, पापं, अपराध, कुकर्म, दुराचारण, दुष्कर्म,	आँगन, लालसा, मलिनता, अपवित्रता, घातक, पाप (दोष, अपराध)
अङ्गति :	To go	जाणे, चालणे, सरसावणे	चालवु, जवुं, सिधाववुं	चलना, जाना, घुमना, बढाना
अङ्गदं :	A bracelet	कंकण, बांगडी, चुडा	कंगण, बंगडी, पोची,	पहुँची, कंगन, बाजुं,
अङ्गना : (f.)	A woman	स्त्री, अंगना	स्त्री, नारी, महिला, बैरी	स्त्री, नारी, दासी. (चेटी)

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अङ्गविक्षेपो :	Gesticulation	हावभाव, अंगविक्षेप, हातवारे	चाळा, हावभाव, अभिनय, अंगचेष्टा	चेष्टा, हावभाव
अङ्गविज्जा :	One of the low arts	ब्रम्हजाल, सुत्तांत,	आसक्ति बगरनुं.	आसक्ति या अनुराग बिनाका
(f.)	enumerated in Brahma	वर्णन केलेली एक हलक्या	- -	- -
	Jala Sutta, prognostication	दर्जाची विद्या, मनुष्य		
	of a person's future from	शरीराच्या बाह्यस्वरूपावरून		
	the appearance of his body	भविष्य कथन करणे.		
अङ्गहारो :	Gesticulation	हावभाव, अंगविक्षेप	चाळा, हावभाव, अंगचेष्टा, अभिनय	चेष्टा, हावभाव
अङ्गानुसरी :	Pervading the limbs	अव्यवांत भिनलेला	अवयवमा व्यापक	अवयवमे घुमनारा
(adj.)		(व्यापलेला)		(व्यापक)
अङ्गारो :	Charcoal, live coal, embess	कोळसा, निखारे	लाकडानो बनेलो कोयलो, अंगार	लकडी का कोयला अंगारा, चिनगारी
अङ्गी :	Having limbs :	अवयव अथवा,	अवयव, भाग, अंश,	अंग, अवयव या भाग होना,
(adj.)	having parts or divisions	भाग असणे	हिस्सो, वाळुं, विभागोलु -	हिस्सा, विभाग या खंड होना
अङ्गीरसो :	A name of the Buddha	बुद्धाचे एक नाव,	भगवान बुद्धनु एक नाम,	भगवान बुद्धके एक नामः
	name of a Rishi	एका ऋषिनु नाम	एक ऋषिनु नाम	एक मुनिका नाम
अङ्गुठो :	The thumb	आंगठा	अंगुठा	अंगुठा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अङ्गुत्तरनिकायो :	Name of the fourth division of the Suttapitakas	सुत्तपिटकाच्या चौथ्या भागाचे नाव	सुत्तपिटकना चौथा भागनु नाम	सुत्तपिटकके चौथे हिस्से का नाम
अङ्गुलिको : (adj.)	Belonging to a finger, an inch in length	बोटाचा भाग, एक इंच लांबीचा	आंगळी साथेनुं, आंगळीने जोडेलुं, एक इंच लंबाईमा	अंगुली का भाग, या अंगुली से मिलाया हुवा विस्तार, एक इंच लंबाई में
अङ्गुलिमुद्रा :	A signet ring	शिवका अथवा मुद्रा असलेली आंगठी	छाप अथवा मुद्रिका वाळी बीटी	अंगुठी जिस पर मोहर खुदी हो
अङ्गुली : (f.)	A finger	बोट	आंगळी	अंगुळी
अङ्गुलीयकं :	A finger-ring	बोटांची (तील) आंगठी	आंगळी, अंगुष्ठी, विंटी, मुद्रिका बाळी	अंगुली, अंगुठी (मुँदरी)
अङ्गुलं :	A fingers breath - an inch	एका बोटा एवढी रूंदी - एक इंच	आंगळी जेडलु एक इंच	अंगुली विस्तार या चौडाई - एक इंच
अङ्गुल्याभरणं :	A finger - ring	आंगठी, मुद्रा	विंटी	अंगुठी
अङ्गो :	The name of a country, Bengal	एक देशाचे (प्रांताचे) नांव बंगाल	एक प्रांतनुं नाम, बंगाल	मुलखका नाम, बंगाल
अङ्गं :	A limb, a member the body, a portion, division, a means, a cause, a requisite, a quality, attribute	अवयव, अंग, भाग, गात्र, शरीर, काया, भाग, भेद, वाटा, अंशु, खंड हिस्सा, हेतु, निमित्त, साधन, सामग्री, ऐपत, कारण जरूरीचा, गुण, धर्म, ताकद, विशेष गुणधर्म	- -	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अड्डतेय्यो, :	Two and half	अडीच	अढाई	अढाई
अड्डतिय्यो (adj.)				
अड्डयोगो :	Name of a sort of house	-	-	-
अड्डुड्डो :	Three and half	साडेतीन	साडा त्रण	साडेतीन
(adj)				
अड्डो :	Wealthy, rich	श्रीमंत, धनवंत, धनीक	श्रीमंत, धनवान, पैसादार	धनाढ्य
(adj.)				
अचलो :	Firm, steady, (adj.)	घण, निर्धारचा, अढळ, दढ, स्थिर, खंबीर, नेटाचा	मजबूत, कठण, द्रढ, सज्जड, स्थिर, कायमी, अचळ, स्थावर	ठोस, स्थायी, निश्चल, दढ, स्थिर, बराबर, अचल, स्थिर
अचिन्तेय्यो :	Beyond the reach of thought	असंभाव्य, गहन,	अभावनीय, गहन,	अकल्पनीय, अचिन्त्य,
अचिन्तियो :	or reason, inconceivable, (adj.)	अपरंपार, अनाघन्तः अगम्य	अचिन्त्य, गूढ, दुर्लभ, अपार, बेसुमार,	अगम्य, अपरिमित
अचिण्णो :	Practised, performed, (P.P.P.)	आचरलेला, सिद्धीस, नेलेला, संपादलेला, मंजूर केलेला, पसंत, कर्तव्य बजावून	टेब पाडी, मंजूर करेलो, काम बजाववी, ताकीद, हुकुम आपवो	पुरा अभ्यास करके, प्रयोग करके, मंजूर करा हुवाँ, आज्ञा करके, उपदेश करके
अचिरप्पभा :	Lightning (f.)	विद्युत, वीज	बिजळी, विद्युत	बिजली, विद्युत
अचिरवती :	Name of a river in India (f.)	-	-	-

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अचिरो :	Short, brief	तोकडा, अल्प, लहान	टुकुं : थोडुं :	अल्प, छोटा,
(adj.)		थोडा, उणा, संक्षिप्त	संक्षिप्त :	कम, संक्षिप्त
अचेतनो :	Unconscious,	बेशुद्ध, बेसावध,	अचेत : बेसावध :	अचेत, मूर्छा,
(adj.)	insensible, senseless	अचेतन, भानरहित	बेशुद्ध : बेहोष :	बेहोष
अचेलको :	Unclothed, naked	दिगंबर, उघडा, नंगा	वस्त्रहीन : उघाडुं :	नग्न, वस्त्रहीन
(adj.)			खुल्लु : नग्न :	
अच्चगमा :	See Htigaechati	- -	- -	- -
अच्चगा :	See Aceeti	- -	- -	- -
अच्चति :	To offer, to make religious offering : to honour, to revere	पूज्य भावनेने देणे, वाहणे, भक्तिभावानें अर्पण करणें, गौरव करणे, मान देणे, सत्कार करणे	सूचववुं, देवुं, मागणी करवुं, धार्मिक भावथी पूजा करवी, इज्जत वधारवी, मान आपवुं सत्कार करवो,	दाम लगाना, भक्ति से अर्पण करना, प्रतिष्ठा करना, उपाधि देना, पूजा करना, सत्कार करना,
अच्चन्तो :	Exceeding, excessive,	अधिक, जास्त, अतिशय,	बेशुमार, बेहद,	अधिक, अत्यन्त,
(adj.)	endless	अनंत, अपार	अनंत, हमेशानुं,	निरंतर, अनन्तः
अच्चन्तं :	Very exceedingly	अत्यंत पराकाष्ठेचा,	पुष्कळरीते अतिशय	अति : अत्यन्त :
(adv.)		अतिरिक्त, अतिशय		
अच्चना :	Offering,	अर्पण, पूजा, देऊं केलेले,	नैवेद्य, भेट, अर्पण,	अर्पण : बलि : पूजा :
(f.)	worship	आराधना, उपासना	आराधना, पूजा	आराधना : उपासना :

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्चनीयो :	That ought to be offered,	अर्पण करण्यालायक	- -	- -
अच्चनिय्यो :	worthy of being offered	- -	- -	- -
अच्चम्बिलो :	Very sour	अत्यंत आंबट पदार्थ,	घणुं, आंबट, खाटुं,	अत्यन्त चिडचिडा,
(adj.)		अतिशय तुसडा, खट्याळ	बहु रिसाळ, चिढियुं,	बहोत खट्टा अति रूक्ष
अच्चयो :	Passing away,	मृत्यु, नष्ट होणे, स्वलन,	मृत्यु, अंत, स्वलन, भुल,	मरना, मृत्यु, चूक, गिराव,
	lapse, death,	निसटणे, च्युति, नाश, मरण,	कसुर, मोत, उल्लंघन,	बीतना, मरण नाश,
	transgression,	उल्लंघन करणे, पातक,	भंग, दुराचरण, गुन्हो	उल्लंघन, अपराध, पाप
	offence, sin	अकर्म, अपराध करणे		
अच्चादहति :	To put upon or cover	धारण करणे, झांकणे घालणे,	- -	वस्त्र पहिरना,
		आरोप करणे, परिधान करणे,		कपडे से ढाकना
		आच्छादणे		इच्छा, आकांक्षाविना
अच्चायनं :	Putting upon	परिधान करून, वर घालून	वस्त्र पहेरीने,	वस्त्र पहिरकें
अच्चायिको :	Irregular, accidental,	बेशिस्त, अशास्त्र, आगंतुक,	अनियमित, आकस्मिक	अव्यस्थित, आकस्मिक,
अच्चेको :	unexpected, out of the usual	आकस्मित, अनपेक्षित,	ओचिंतु नहिं धारेलुं,	अचानक, हमेशासे
(adj.)	course or line pressing,	अकल्पित, नेहमीपेक्षा अपूर्व,	असाधारण,	विलक्षण, असामान्य,
	urgent	दुर्मिळ, निकडीचा, जरूरीचा	अगत्यथी	अति आवश्यक
अच्चरद्धो :	Very eager	अतिशय उत्सुक, उतावळा,	बहु चातुर, वधारे प्रबळ,	अत्यन्त उत्सुक, उत्कट,
(adj.)	very strenuous	अतिश्रमाने, पुष्कळ मेहनतीने	घणो आग्रही, बहु उद्योगी	अति उत्साही, उद्योगी

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्चासनत्त :	Too great proximity	अत्यंत लगतचा,	अत्यंत समीपता,	बहुत निकटता,
अच्चासने :	Too near	फार सलगीचा, थोरला संसर्ग	मोटी नीकटता,	अति समीपका सम्बन्ध
(adv.)		जवळचा, अतिशय समीप,	अति नजीकनुं, बहु समीपनुं	पास में, बहोत समीप.
		फार नजीकचा		
अच्चि :	A ray of light,	सूर्य किरण, उजेड, प्रकाशित	दीवानो किरण, अजवाळुं	दीपकके किरण, रोशनी,
(m.f.n.)	a sunbeam, : flame	भाग, ज्वाला, जाळ, कोप	रोशनी, सूर्यनुं किरण,	सूर्य किरण, ज्वाला,
			आग, भडको	दीप्ति
अच्चितो :	Reversed, honoured	आदरणीय, पूज्य मानलेला,	गौरवेलो, मान आपेलो	प्रतिष्ठित, पूजनीय,
(P.P.P.)		प्रतिष्ठित		आदरणीय
अच्चिमा :	Fire	अग्नि, आगटी, शेकोटी	अग्नि, आग, हुताशन	अग्नि, ज्वाला
(m.)				
अच्चुक्कडो :	Very high,	उदात्त, प्रगल्भ, प्रौढ, कुलीन,	प्रौढ, जोरावर	प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ,
(adj.)	Too high	धिप्पाड, चढा, पहाडी	बळवान, कुलीन	उच्चता
अच्चुगगतो :	Raised,	वाढविलेला, चढलेला, उन्नति	उंचे चढाववुं,	बढा हुवाँ, बना हुवाँ,
(adj.)	elevated,	भरभराट झालेला, प्रसिद्ध,	उन्नत, प्रौढ	उन्नत, उत्तम पद पर
	lofty	वैभवशाली		नियुक्त, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध
अच्चुतो :	Immovable,	अचल, अढळ,	अचल, स्थावर,	अचल, अटल,
(adj.)	everlasting	स्थायी, नित्य सिद्ध	मिल्कत,	स्थायी, नित्य,
	eternal	अनादि, शाश्वत	हमेशनुं, कायम	अनंत, अनादि

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्युण्हो :	Very hot	अति उष्ण, अतिशय तापट,	घणु धगधगतुं, तपीजाय तेवा	बहोत उष्ण (गरम)
(adj.)		दुःसह होईल असे करणे	मिजाजनुं, तामसी स्वभावनुं	अति क्रोधी
अच्युळारो :	Magnificent	उमदा, भव्य,	भव्य, शोभायमान,	दैदीप्यमान, शोभमान,
(adj.)		शोभिवंत, तेजस्वी	तेजस्वी	तेजस्वी
अच्चेति :	To pass beyond, to traverse, to sur-pass, overcome, to conquer, to pass away	पलिकडे जाणे, मनावर न घेणे, फिरणें, प्रवास करणें, चढ करणे, जय, पराभव करणे, हस्तगत करणे, मरणे	पेली बाजू निकळी जवुं, चढीआत थवुं, अधिक थवुं, जीतवुं, वश करवुं, हिराववुं, जीतवुं, नाश पामो	सीमा से बाहर जाना, बढकर होना, घुमना, आरपार जाना, बढना, अतिक्रमण, जीतना, विजय करना, मरना
अच्चोक्कड्डो :	Very low,	अत्यंत नीच, हलका, ठेंगणा,	पुष्कळ, नीचुं,	बहोत, अत्यंत नीच,
(adj.)	too low	मंद, उदासीन, अधम, दुष्ट, छिचोर, फार अशक्त	टिंगणु, हीणु, उदास	उदास, मन्द, धीमा, गहरा, नीचा
अच्चोदातो :	Very low, very white	अत्यंत पांढरा	- -	बहोत सफेद
(adj.)				
अच्छति :	To stay, to remain, to settle down	टिकाव धरणे, टिकणे, मुक्काम करणे, राहणें, स्थिर होणें, शांत - स्वस्थ होणे	रहेवुं, रोकावुं, पडाव, निवासुं स्थायि थवुं	रोकना, थाँमना, रहना, ठहरना, स्थिर होना, स्थापित करना
अच्छन्नो :	Covered	पांघरलेला, आच्छादलेला,	ढांकेलु, संताडेलुं,	ढंका हुवा,
(P.P.P.)	hidden	लपलेला, छपविलेला	छुपु	छिपा हुवा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्छम्भी :	Undaunted,	निर्भय, धीट, धैर्य,	निडर, निर्भय,	साहसी, निर्भीक,
(adj.)	undismayed	हिम्मत असलेला, बेडर	नही घबराय ते	अनुत्साही
अच्छरा :	A celestial	अप्पसरा	अप्पसरा, परी	अप्पसरा
(f.)	nymph			
अच्छरा :	A moment,	क्षण, पळ,	क्षण, पळ, घडी,	क्षण, पल,
(f.)	the snapping of a finger	बोट मोडणे	टचाका फोडवा	अंगुली चटकाना
अच्छरियो :	Wonderful,	आश्चर्यजनक,	आश्चर्यजनक, लोकोत्तर,	विलक्षण,
(adj.)	marvellous,	विलक्षण, अद्भूत,	अद्भूत, विस्मयकारक,	आश्चर्यजनक,
	extraordinary,	विशेष, थक्क,	आचंबो पमाडे तेवुं,	असाधारण, अद्भूत,
	astonished	चक्क	विस्मीत, थक्क	चकित, विस्मित,
अच्छादनं :	Covering, lid,	आच्छादन, आडपडदा:	ढांकी देवुं, आच्छादित करवुं,	ढकना, ओढना,
	curtain, cloth,	झांकण, ढांकण,	आच्छादन, ढांकण, पडदो,	आच्छादन, पर्दा,
	clothes	वस्त्रें, कपडालत्ता	लुगडुं, पोशाक, वस्त्र	पहिरने के वस्त्र
अच्छादेति :	To put on	परिधान करणे, घालणें	लुगडा पेहरवा	वस्त्र पहिरना
अच्छि :	The eye	डोळा, नेत्र, चक्षु	आंख, नजर	आँखे, चक्षु
(n.)				
अच्छिन्दति :	To take away,	नेणे, नागविणे, दूर करणे,	लई लेवुं, दूर करवुं, स्थळ	अलग करना, हटाना,
	to remove,	निवारणे, काढून टाकणे,	बदलवुं, जोरथी खसडवुं,	दूर करना, जोर से खीचना,
	to remove forcild,	जोराने खेचणें, लुबाडणे,	खसवुं, लुटवुं, छीनवी लेवुं,	लूटना, चुराना,
	to rob, to plunder	छिनावणे, लुटणे	बळात्कारपूर्वक लई लेवुं	डाका डालना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्छिद्धो :	Uninjured,	सुरक्षित, अक्षत, शाबूद,	सहीसलामत,	घाव या चोट न लगा हुआ,
(adj.)	intack,	जसाचा तसा, अव्यंग,	साबुद,	अखंड, निपुण,
	perfect,	प्रवीण, पारंगत,	पुरतुं, परिपूर्ण,	परिपूर्ण, निर्दोषी,
	faultless	निर्दोष, निरपराधी	निर्दोष	निरपराध
अच्छिन्नो :	Taken away,	काढून घेतलेला, निवारलेला,	लई लिधेलुं ते,	अलग करा हुआ,
(P.P.P.)	removed,	काढलेला, दूर नेलेला,	खसेडेलुं ते,	दूर करा हुआ,
	robbed and stolen	लुबाडलेला, हिराचून घेतलेला,	छानामाना लई,	बहिष्कार करा हुआ,
		चोरून नेलेला	लेधेलुं ते	चुरा हुआ, लुटा हुआ,
अच्छेको :	Unskilful,	अकुशल, अडाणी,	अशिक्षित, अणघड,	विना चातुरीके, अज्ञानी
(adj.)	ignorant,	अजाणता, अज्ञानी,	अज्ञानी,	निर्बुद्धि, भद्दा, बेढङ्गा
	clumsy	बेढब, ओबडधोबड	बुद्धं, कढंगुं	निष्कपट
अच्छेरो :	This is a contracted form	- -	- -	- -
(adj.)	of acchariya, it must have			
	passed through an			
	intermediate form			
	acchariya			
अच्छो :	Clear,	स्पष्ट, निरभ्र, शुद्ध,	स्वच्छ, शुद्ध, निर्मळ,	स्पष्ट, मेघहीन,
(adj.)	transparent	स्वच्छ, पारदर्शक	पारदर्शक, आरपार	निःसन्देह, पारदर्शक
अच्छो :	A bear	अस्वल, रीस	रीछ	रीछ
अजगरो :	A boa constrictor	अजगर, मोठा साप	अजगर	अजगर

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अज्जं :	A portent of nature	अनिष्ट सूचक घटना (धरणीकंप वगैरे)	अनिष्ट सूचक घटना	अशुभ लक्षणकी घटना
अजति :	To go	जाणे, चालणे	चालवुं, जवुं	चलना, जाना
अजपालकं :	The plant costus specisus	- -	- -	- -
अजळो : (adj.)	Not stupid, not an idiot	बुद्धिवान, हुशार, चलाख	हुशियार, चालाख	हुशार, बुद्धिवान, प्रवीण
अजा : (f.)	A She - goat	बकरी	बकरी	अजा, बकरी
अजातसत्तु : (m.)	Name of a king of Magadha, a contemporary and convert of Buddha	- -	- -	- -
अजिका : (f.)	A She - goat	बकरी	बकरी	अजा, बकरी
अजिनपत्ता : (f.)	A bat	वाघुळ	वाघोळ	चमगाड पक्षी
अजिनप्पबेणी : (f.)	A counterpane or rug made of skin sewn together	चामड्याचे तुकडे एकत्र शिवून तयार केलेली चादर	चामडाना टुकडा एकठा (भेगा करीनो) सिवडावीने तयार करेली चादर	चमडेके टुकडे एकसाथ सिलके बनाई हुई चदर
अजिनयोनि : (m.)	An antelope	मृग	मृग	मृग

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अजिरं :	A court, a yard	राजकचेरी, अंगण, पटांगण	राज्य मंदिर चोक, अंगण	राजगृह, राजसभा, आंगन
अजिनसाटी : (f.)	A garment of skin worn by an ascetic	- -	- -	- -
अजिनं :	The hide of an animal specially of the black antelope	काळ्या माळवीटाचे चामडे, कातडे	हरणनु, चामडु	पशुका चमडा, हरिण का चमडा
अजिम्हो : (adj.)	Straight, honest	सरळ, प्रामाणिक, इमानी	सिधु, प्रामाणिक, सरळ, इमानदार, सत्यता	बिना मोडका, सिधा, सरल, सच्चा, निष्कपट
अजी : (f.)	A she goat	बकरी	बकरी	बकरी, अजा
अजेय्यो : (adj.)	Invisible, impregnable	अजेय, अजिक्य, दुसाध्य	अजय, अजित, असाध्य	अजेय, न जीते जाना योग्य, दुर्जय
अजेळकं : अजेळका (pl. masc)	Goats and Sheep	बकन्या आणि मेंढ्या	बकरो आणि मेंढु	बकन्या और मेष
अजो :	He goat	बकरा	अज, बकरा	अज, बकरा
अज्ज : (adv.)	To - day, now	आज, आता, एव्हां	आज, हमणा, आ वखते	अभी, अब, आजके दिन

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अज्जतगगे : (adv.)	From this day, hence forth	येथून पुढे, इथःपर	हवे पछी, आज पछी, भविष्यमा	अबसे, इसके बाद
अज्जतनो : (adj.)	Of to-day, of the present time, contemporary, modern	याच काळांतील, समकालीन, आधुनिक, नूतन, आर्वाचिन	तात्कालीन, समकालीन, आधुनिक, नूतन	वर्तमान कालका, सामकालीक, समवयस्क, आधुनिक, प्रस्तुत
अज्जुको :	Name of a plant, the white parnsa	- -	- -	- -
अज्जुनो :	The tree Terminalia, arjuna	- -	- -	- -
अज्झक्खो :	A superintendent	देखरेख करणारा	देखरेख वाळो, अध्यक्ष, कारभारी	अध्यक्ष, निरिक्षक
अज्झगमा :	See अधिमच्छति	- -	- -	- -
अज्झगा :	See अधिते	- -	- -	- -
अज्झत्तं : (adv.)	Relating to the individual, within the individual, internally, subjectively	व्यक्तित्वाला लागून किंवा धरून, आतून, आतल्या बाजूस, कर्त्या संबंधी, अधिकरण संबंधी	- -	व्यक्ति संबंधी, अंतरिक, भितरी ओर, चेतना संबंधी
अज्झत्तिको : (adj.)	Relating or belonging to the individual or self, personal, internal, subjective	व्यक्तित्वाच्या लगतचा असणारा, व्यक्ति विषयक मनांतील	- -	- -
अज्झत्तं :	Individual thought, an object of sense, an object for the mind to dwell upon, sphere or province of intent thought	चित्तन, मनन, कल्पना, तर्क मनांतील योजना, मनोदय, भावना, एकाग्र चिंतनाचा विषय अध्यात्मिक	चित्तन अथवा एकाग्रता जेना लीधी थाय एवो विषयो, जेना उपर मननु वळण होय ते	आत्म चिंतन, ध्यान करनेका विषय, मनन करनेका उद्देश्य, एकाग्र चित्तता

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अङ्गभासि :	See अधिभासति	- -	- -
अङ्गागतो :	Having approached, come	जवळ जाणे,	समीप जाना,
(P.P.P.)	into the presence of	समक्ष, प्रत्यक्ष	सन्मुख, सामने
अङ्गाचरति :	To practice,	परिपाठ, व्यवहार साधणे,	अभ्यास करना, उधम करना,
	to perform,	पूर्ण करणे, बजावणे,	जीविका करना, विधान
	to enjoin	हुकूम करणे	करना, आज्ञा देना
अङ्गाचारो :	Transgression,	उल्लंघन, अमर्याद, अपराध,	अत्याचार, उल्लंघन,
	excess, offence	आज्ञा भंग	अपराध, दोष
अङ्गाचिण्णो :	Enjoined	अनुज्ञा	- -
अङ्गापनं :	Instruction	अध्यापन, उपदेश, सूचना	उपदेश, आज्ञा
अङ्गापनं :	To instruct,	पढविणें, शिकवणें,	पढाना, शिक्षा देना, सूचना
(caus)	to teach	उपदेशिणें, बोध करणें,	करना, समझाना, अध्यापन
			करना, उपदेश देना
अङ्गापन्नो :	Fallen into, having incurred,	पतित, नीतिभ्रष्ट, दोषी,	गिरा हुवा, अपराधी,
(P.P.P.)	or become guilty of	आपराधी, गुन्हेगार	दोषी
अङ्गायो :	Reading, a chapter,	अध्याय, प्रकरण,	अध्याय, स्कंध, भाग,
	section	स्कंध, विभाग	परिच्छेद, प्रकरण
अङ्गारामो :	A garden	उद्यान, उपवन	बाग, बगीचा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अङ्गारोपेति : (caus.)	To cause, to ascend, to raise, to transfer, to apply	आरोहन करणें, वर जाणें, उदय होणें, स्थलांतरी नेणें, उपाय योजनें, विनंती करणें, लक्ष लावणें	चढववु, उंचे जवुं, उचकी लवुं, उभु करवुं, बदलवुं, जग्या बदलवुं, चोपडवुं, लगाडवुं	आरूढ करना, बढाना, चढाना, उपर जाना, उठाना, उन्नति करना, अपना अधिकार दुसरेको देना
अङ्गारोहो :	Name of a fabulous sea - mouster	- -	- -	- -
अङ्गावसति :	To inhabit, to dwell in	वास्तव्य करणें, वस्ती करणें, राहणें	वास करवो, रहेवुं, वसवुं	निवास करना, बसना
अङ्गावसथो :	A house, dwelling	घर, गृह, राहण्याची जागा	घर, मकान	मकान, घर
अङ्गासयो :	Intention, meaning, thought, inclination, wish	इरादा, इंगित, अभिप्राय, उद्देश, योजिलेला, कल्पित, मनोदय, भावना, कल, झोक, मनाची ओढ, प्रवृत्ति, इच्छा	हेतु, विचार, अर्थ, खुलासो, संकल्प, झुकाव, प्रवृत्ति धारण, इच्छा, मननु वळण	अभिप्राय, आशय, अर्थ, विचार, ध्यान, झुकाव, प्रवृत्ति धारण, ख्याल, अभिलाषा
अङ्गासेति :	To lie or rest upon	च्या शिरावर पडणे, आराम, विश्रांति, विसावा	ना आधारे रहेवुं, आराम, चैन, शांति, निश्चलता, स्थिरता	लेटना, पडे रहना, स्थिर होना, शांति देना, विश्राम करना
अङ्ग्रेसति :	To request, to invite	विनंती करणे, आमंत्रणे, पाचारणे	अर्ज, विनंती, प्रार्थना, याचना, आमंत्रण आपवुं	प्रार्थना करना, बुलाना, निमंत्रण करना, निवेदन

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अङ्ग्रेसना :	Request,	अर्ज, विनंती,	प्रार्थना, इच्छा,
(f.)	Invitation, solicitation	आमंत्रण, याचना, विनवणी, प्रार्थना	विनती, निमंत्रण, बुलावा
अङ्गोकासो :	The open air, The open space	उघड्यावर, उघडी जागा, आकाश	घरके बाहरकी खुली वायु, खुला स्तान, अवकाश
अङ्गोगाळहो :	Plunged, sunk, (P.P.P.) immersed	बुडलेला, पडलेला, निमग्न, गर्क, गुंग	डुबा हुवा, गीरा हुवा, गोतेमें पडा हुआ
अङ्गोत्थरति :	To overwhelm, to overspread	दडपणें, दाबणें, आच्छादणें, वेढणें, ग्रासणें	कुचल डालना, व्याकूल करना, घबडाना, फैलाना, छीतराना
अङ्गोत्थातो :	Overwhelmed	दडपलेला, बुडविलेला, निमग्न	व्यग्र, व्याकुल, घबराया हुआ
अङ्गोसानं :	Being bent upon, (P.P.P.) application, cleaning to	कल, अर्ज, विनंती, चिकटणे	झुका हुआ, प्रार्थना पत्र, चपकना
अङ्गोसितो :	Bent upon, (P.P.P.) cleaning to	कल असलेला, प्रेमाने चिकटलेला	झुका हुवा, चपका हुवा
अङ्गोहटो :	Eaten, Swallowed	खाळेले, गिळंकृत केलेले, मटकावलेले	खा जाना, खाया हुआ, निगला हुआ
अङ्गोहरणं :	Eating	जेवणे, खाणे	खाना, भोजन करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अङ्गोहरति :	To eat, to swallow	चावणे, जेवणे, गिळणे, गडप करणे	खावुं, जगवुं, गट्ट करवुं, गळी जवुं	खाना, पी लेना, लीलना
अङ्गोहारो :	Swallowing, eating	गिळणे, भोजन करणे, खाणे	गळी जवुं, खावुं	लीलना, पी लेना
अञ्जतमो :	One of several, (adj.) a certain	अनेका पैकी एक, निर्विवाद, खचित, निश्चित, अमूक, किती एक	अनेक माथी एक मुकरर, चोकस, बेशक	कही एक, अवश्य, निश्चित
अञ्जतर :	Without, except, (adv.) besides	शिवाय, बाहेर, गाळून, वगळून, खेरीज, वांचून, आणखी, खेरीज	वगर, सिवाय, विना, उपरांत, वधारामा	बिना, वाहर, रहित, सिवाय, अतिरिक्त, औरभी
अञ्जतरो :	One, a certain, (adj.) some : some other, another	एक, कोणी एक, कांही, कांही एक, अन्य दुसरा, वेगळा, निराळा	एक, कोइ एक, मुकरर, चोकसं, थोडुं, केटलुंक, अन्य, बीजु	एक कोई, निश्चित, कुछ, अमुक, दुसरा, अन्य
अञ्जथ :	Elsewhere, in another case	अन्य ठिकाणी, अन्यत्र, दुसन्या स्थितीत	कोइपण बीजे स्थळे, अन्य स्थळमा	और कही
अञ्जथत्ता :	Differently (adv.)	वेगळ्या अथवां निराळ्या पद्धतीने	जुदी जुदी रिते	भिन्न प्रकारसे
अञ्जथा :	In another way, differently, (adv.) otherwise	अन्य मार्ग, वेगळा मार्ग, निराळा, भिन्न, अन्यथा, एरवी	जुदी जुदी रिते अन्यथा	भिन्न प्रकारसे दुसरे प्रकारसे, अन्यथा
अञ्जदत्थु :	Surely, certainly, (adv.) truly	निस्संशय, खचित, खात्रीने, खरोखर, खरे पाहिले असता	खरेखर, नक्कीपणे, खात्रीपूर्वक, चोक्कस रिते	निःसंदेह, आवश्यक, इमानसे, सचमुच

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अञ्जमञ्जनं :	Mutually, towards,	एकमेकांस,	अरस परस रिते, आपस	आपसमे, परस्पर, अन्योनके
(adv.)	each other	परस्परांच्या द्वारे	आपसमा, अन्ये तरफ	विषयमें, परस्पर संबंधमे
अञ्जमञ्जो :	Each other, one another	परस्पर, एकमेक	अन्य, बिजु कोई	अन्योन्य, परस्पर
अञ्जवादको :	Talking,	अनादरपूर्वक बोलणे, अपमान-	अप्रासंगिक वात करवी,	असंगत बकवास,
(adv.)	irrelerantly,	कारक भाषा, धरसोडपणानें	बेमोडे बोलवुं,	वाक्छल
	prevaricating	बोलणे, वचनशब्द बदलणे	बेवचनी थयुं	
अञ्जसत्थुउद्देशो :	Adopting another teacher	दुसरा गुरु स्वीकारणे,	बीजो गुरु स्वीकारवुं	दुसरा गुरु आंगि करना,
		दुसरा मार्ग, अनुसरणें		दुसरा मार्ग स्वीकारना
अञ्जा :	Knowledge, perfect	ज्ञान, विद्वता, पैनुण्य,	ज्ञान, माहिती,	ज्ञान, विद्या, परिचय,
(f.)	knowledge, arahattaphals	निष्णात ज्ञान, अर्हतफल	पूर्ण ज्ञान, अर्हफल	निपुण, अखंड, अर्हतफल
अञ्जाणं :	Ignorance	अज्ञान, अजाणपणा	अज्ञानता, आजाणपणुं	अज्ञान, अविधा
अञ्जातको :	Not related,	असंबंधी, आप्तलग,	संबंध न होय ते	असंबंध
(adj.)	not a kinsman	नातेवाईक नसलेला		
अञ्जातको :	Unknown,	अनोळखी, अपरिचित, अजाण,	अजणतुं	न जाना हुआ, अज्ञात,
(adj.)	unrecognizable	अगोचर, अप्रसिद्ध		न पहिचानने योग्य
अञ्जातब्बो :	That ought to be known	ते शिकलेच पाहिजे	भणवुज जोइये	पढाना चाहिये,
	or learnt			अभ्यास करने योग्य है
अञ्जातवेसवा :	In disguise	अज्ञातवासी, वेषांतर, गुप्त,	वेषांतर, छुपो वेश	वेश बदला हुआ
(adj.)		गुढ		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अञ्जाति :	Not a relative	असंबंधी, नात्याचा नसलेला	असंबंधी	संबंधी नही
(m.)				
अञ्जातुं :	See आजानाति	- -	- -	- -
अञ्जातो :	Unknown, unrecognised, in disguise	अनोळखी, अज्ञात, वेश पालटलेला	बिन माहितगार अजाणितुं, वेषांतर मा	न जाना हुआ, अज्ञात, बिना पहिचानका, छुपा हुआ
अञ्जातो :	Known, understood	अवगत, समजलेला, अध्याहत	जानवुं, ओळखितो, जाणलुं	जाना हुआ, प्रसिद्ध, बोध किया हुआ, सुचित किया हुआ
अञ्जातो :	Not related, (adj.) not a kinsman	आप्त नसलेला, असंबंधी, जाती बाहेरील, गोतवळी बाहेरचा	असंबंधी	असंबंधी
अञ्जादा :	At another time	कधी तरी	फरथी कोई, वखते	किसी समय, फिर कभी
(adv.)				
अञ्जादिसो :	Different	अन्य, वेगळा, इतर दुसरा	जुदु - जुदु नोखुं	अन्य, भिन्न, पृथक
(adj.)				
अञ्जाय :	See आजानाति, अञ्जो	- -	- -	- -
अञ्जायमानो :	Unrecognised	अनोळखी	अजाणीतो	अज्ञात, बिना पहिचानका
(adj.)				
अञ्जासि :	See आजानाति	- -	- -	- -
अञ्जो :	Other, otherthan, (adj.) different from	दुसरा, अन्य, खेरीज, वेगळा, निराळा, भिन्न	बीजुं, अन्य, जुदु, नोखुं, विविध	अन्य, दुसरा, विपरीत, अन्य, भिन्न

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अञ्जोज्जो :	Mutual	अन्योन्य, परस्परांचा,	आपस आपसनुं,	परस्पर, अन्योन्य
(adj.)		एकमेकांचा	अंदर अंदरनु	
अञ्चति :	To honour	सन्मानणें, गौरविणें,	मान अपावुं, गौरव स्थापवुं,	सन्मान करना,
		सत्कारणे	इज्जत वधारवी	प्रतिष्ठा करना
अञ्जति :	To anoint, to smear	लावणें, चोळणें, अभिषेक करणें, चोपडणें, माखणें	लगाडवुं, अभिषेक करवो, लेप करवो, लपेटवुं	तेल लगाना, राज्याभिषेक करना, लिपना
अञ्जनं :	A collyrium applied to the eye - lashes to darked them	अंजन, काजळ	- -	अंजन, सुरमा
अञ्जलि :	The hollow of the joined hands : a respectful	ओंजळ,	- -	अंजली,
(m.)	salutation by raising the joined hands to the fore-head	नमस्कार करणे		नमस्ते
अञ्जसं :	A road	मार्ग, रस्ता, वाट,	रस्तो, मार्ग, पंथो,	मार्ग, पथ, रास्ता, सडक
अण्डकं :	A birds egg	पक्षाचे अंडे	पक्षीनुं इंडु, बैदा	पक्षीयों का अंडा
अण्डजो :	Oniparous	अण्डज	अण्डज	अण्डज
(adj.)				

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अण्डूपकं :	A roll of cloth to serve as a stand for a vessel	चुंबळ, भांडे ठेवण्यासाठी केलेली कापडाची गुंडाळी	- -	- -
अण्डं :	An egg, a testicle	अंड, आंड	इंडु, बैदा, आंडवो, वृषण	अंडा, अंडकोष
अणु :	Small, minute, subthe	- -	नानुं, थोडुं, अल्प, हलकुं, झीणुं, सूक्ष्म, बारीक झीणुं, पातळुं, बारीक झीणुं, बारीक पोतवाळुं	अल्प, थोडा, छोटा, क्षुद्र, निर्बल, तुच्छ, सूक्ष्म, क्षुद्र, ब्योरेवार, धूर्त, चतुर, सूक्ष्म बुद्धि विलक्षण, अतिसूक्ष्म, मर्मज्ञ
अण्णवो :	The see, the ocean	समुद्र, दर्या, महासागर	दरियो, महासागरो	समुद्र, सागर
अण्णो :	Water	पाणी	जल, पाणी, उदक	जल, पानी, झील
अन्तकिरिया : (f.)	Bringing to an end, putting an end to	शेवटास आणणें, पर्यवसान करणें, तडीस नेणें,	अंत लाववो, छडासुधी लावुं, समाप्त करवुं	रोकना
अन्तको :	Death	मृत्यु, मरण	मोत, मरण, नाश, अन्त	मरण, मृत्यु, नाश
अन्तगतो : (P.P.P.)	Gone into, being in, continued in	आंत गेलेला, आंत असलेला, समाविष्ट केलेला, साठविलेला	- -	- -
अन्तगुण :	The mesentry	आंतड्यांची पिशवी	- -	अन्नपेशी, आँत का पुट्टा
अन्तमको : (adj.)	Final, last	अंतिम, शेवटला, अंत्य	अत्यं, पाठळनुं, छेल्लुं, आखरनुं	अन्तिम, निर्णीत, आखिरी, अन्त, पिछला

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अन्तमसो :	Even	सपाट, सारखा, साफ,	सपाट, सरखुं,	चौरस, सम, भी
(adj.)		एक सारखा, सम, शांत	सिध्धुं	
अन्तर :	Within, between	आंत, मध्ये, दरम्यान,	मां, अंदर, मध्ये,	भीतरी ओर, अन्तरमे, बीचमे,
(adv. prep)	among, in	मधून, पैकी	नी बच्चे, बन्नीने बच्चे	मध्यमे, तुलना मे, अंदर
अन्तरकप्पो :	See कप्पो	- -	- -	- -
अन्तरन्तरा :	From time to time,	वेळोवेळां, अंतरानें,	समय समयपर, दरम्यानो	समय समय पर,
(adv.)	at intervals	कधीं कधीं, मधून मधून	गाळो, आंतरो अवकाशशिमा	अन्तरसे, अवकाशसे
अन्तरन्तरे :	From time to time,	वेळो वेळी,	वचलो गाळो,	समय समय पर,
(adv.)	at intervals	मधून मधून	दखनं, वखतपर	अन्तरसे, अवकाशसे
अन्तरन्तरेन :	In the intervals of,	मधल्या काळांत, अवधित,	वचलो, वखत, आंतरो,	अंतरमे, आवकाशसे,
(adv.)	among	फुरसत, मध्यें, आंत,	फुरसत, मध्य मा, मध्ये,	तुलनामे, मध्यमें,
	between	दरम्यान	बन्नेभी, बच्चे	अन्तरमे, परस्पर
अन्तरधानं :	Disappearance,	अंतर्धान, अदृश्य, आच्छादन,	अदृश्य थवुं ते,	अदर्शन, ढकना,
	covering	झांकण, पडदा	आच्छादन, ढांकण	ओढना, चादरा
अन्तरधायति :	To vanish,	अंतर्धान पावणें, नाहीसा होणें,	अंतर्धान थई जवुं,	अंतर्धान होना, लुप्त हो
(Pass.)	to hide oneself	स्वतःला लपविणे,	पोताने संताडवुं, छुपी रहेवुं	जाना, स्वयंको छुपाना
अन्तरधायेति :	To cause to disappear,	अदृश्य करणें,	अदृश्य करवुं, परोक्ष करवुं,	अदृश्य करना
(caus.)	to render invisible	अपरोक्ष	अगोचर थवुं	
अन्तरभोगिको :	A village headman,	खेडेगांवांतील मुख्य पाटील,	पटेल,	गांवका मुख्य अधिकारी
	subordinate chieftain	लहानसा सरदार (नायक, सेनापति)	उतरता दर्जानो सरदार	(मुखिया), छोटसा सेनापति

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अन्तरवस्त्रं :	See अन्तो	-	-	-
अन्तरवीठी				
अन्तरवासको :	An under - garment	आंतील वस्त्र	भीतरनुं वस्त्र	अंतरस्थ वस्त्र
अन्तरहितो :	Vanished,	अंतर्धान झालेला, अदृश्य	अंतर्धान थई जवुं, अदृश्य थवुं,	अंतर्धान हुआ, नष्ट हुआ,
(P.P.P.)	disappearing, hidden	झालेला, लपलेला, छपलेला	अलोप थवुं, संताडेलु, छुपेलुं	छीपा हुआ
अन्तरा :	Between,	मध्ये, दरम्यान,	नी बच्चे, मध्यें,	मध्यें, बीचमें, अन्तरमे,
(adv. & Prep.)	on the way	आंत : वाटेंत	मार्गपर, रस्ताउपर	मार्गपर, रास्तेपर
अन्तरापरि :	Technical name for one of	पांच अनगामि पैकी एकाचे	-	पांच अनगामिमे से
निब्बायी :	the five sorts of Anagami	सांकेतिक नांव		एक का सांकेतिक नाम
(m.)				
अन्तरायिको :	Causing an obstacle,	-	अडचण, विरोध, हे खुत,	विघ्न, बाधा,
(adj.)	impending,		विघ्न, प्रतिबंध, उत्पन्न करवुं,	प्रतिबंध करना,
	injiurious		पैदा करवुं, अडचन करवी,	प्रतिबन्ध करना,
			हरकत करवी, अवरोध करवो,	रोकना, पीडाकर,
			गुण प्राप्त करवुं, .. राबाकर्ता,	हानिकारक
			दुःखकारक	
अन्तरारति :	To run into danger	धोक्यात जाणें,	भावना, नांखवुं, बीक मां	धोकेमे जाना,
		जोखीम घेणें,	माखवुं संकटमा पडवुं	आपत्तिमे बढना
अन्तरितो :	Hidden	लपविलेला, गुप्त,	संताडेलु,	गुप्त, छिपाना,
(P.P.P.)		आच्छादित	गुप्त, ढांकेलुं	छिपा हुवा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अन्तरीपं :	An island	बेट, द्वीप	बेट, टापू, द्वीप	टापू, द्वीप
अन्तरीयं :	An under garment	अन्तरीय, अंगाबरोबरचे वस्त्र,	भीतरनुं कपडुं	भीतरी पोशाक
अन्तरे :	Between, among,	मध्ये, आंत, दरम्यान,	बन्नेनी बच्चे, अंदर, मध्ये,	मध्यमें, बीचमें, अन्तरमें,
(prep.)	during, while,	पर्यंत, आंतल्याबाजूस	सुधीमा, दरमीआनमा,	तुलनामें, जबतक, भीतरी
	within, in		ते अस्सामा, मां, अंदर	ओर, अन्तरमें, भीतर, अन्दर
अन्तरेन :	Between,	मध्ये, अन्तराने, वगळून,	नी बच्चे, मध्ये, बच्चेनी,	बीचमें, अन्तरमें
(prep.)	except	शिवाय, विना	बच्चे, सिवाय, बिना बगर	सिवाय, बिना
अन्तरं :	Interior, included space,	आंतीला, आंतचा, अंतर्भूत	अंदरनु, अंतरस्थ, समावेली,	अंतस्थ, भीतरी, अंतर्गत,
	midst, interval,	जागा (अंतर) मध्ये, अंतर,	जग्या, मध्ये, बचमा, दरम्यान,	स्थान, बीचमें, अंतर,
	opportunity, instant,	अवकाश, अवधि, प्रसंग,	गाळो, अवकाश, अंतर, प्रसंग,	अवकाश, समय, क्षण,
	difference, other,	अवसर, तात्कालिक, वर्तमान,	अवसर, तत्पर, उतावळ,	तत्काल, अवशेष, भेद,
	peculiarity, a hole, an	फरक, भेद, अंतर, विशेषतः	तफावत, भिन्नभाव, बीजु,	अन्य, भिन्न, विलक्षणता,
	inner garment, the heart	खांच, छिद्र, बीळ, खळगा,	अन्य, विशेषतः, विलक्षणता,	छीद्र, बील, अन्तर,
	or mind	आंतील वस्त्र, मन, चित्त,	काणु खाडो, अंदरनु,	वासीक, मन, चित्त, बुद्धि
		अंतःकरण	वस्त्र, अंतःकरण, दिल, चित्त	
अन्तलिक्खं :	The sky,	आकाश, आभाळ, अंतरिक्ष,	आकाश, अस्मान,	आकाश
	the air	हवा, वायु	आभ, हवा, वायु	वायु, मंद पवन
अन्तवण्णो :	A Sudra	शूद्र	शूद्र :	शूद्र
अन्तिकं :	Vicinity	निकट, समीप, जबळ,	निकटमा, पडोशमा, सानिध्य	समीप, पडोसमें
अन्तिनो :	Final,	शेजारचा शेवटचा, शेवटील,	आखरनुं, पाछळनुं	अन्तिम, आखिरका,
(adj.)	last	अंतिम	पछेल्लुं	पिछला

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अन्तेपुरिको : (adj.)	Belonging to a royal harem	रंगमहेला लगतचा	राजानुं जनानखाननुं लगतनुं	राजाके अन्तःपुर लगतका
अन्तेपुरं : (adj.)	Royal precincts, palace, ladies apartments in the palace, harem gynecum	राजकीय हद्द, राजमहाल, राजमहालातील स्त्रीयांचे दालन, अंतःपुर, जनानखाना, रंगमहेल	राजकीय सीमा राजमहेल, राजमहेलमां राणीनुं ओरडो, अंतःपुर, जनानो	राजकीय, राजभवन, महेल, अन्तःपुर, जनानाखाना
अन्तेवासिको :	A pupil	शिष्य, चेला, विद्यार्थी, डोळ्यातील बाहुली	शिष्य, विद्यार्थी, चेलो,	शिष्य, विद्यार्थी, छात्र आँखकी पुतली
अन्तेवासी :	A pupil	शिष्य, विद्यार्थी, छात्र चेला, डोळ्याची बाहुली	शिष्य, विद्यार्थी, चेलो, डोळो	शिष्य, विद्यार्थी, छात्र आँखकी पुतली
अन्तो :	End, limit, boundery,	अंत, शेवट, मर्यादा, हद्द, बांध,	अंत छेडो, सीमा, हद्द	शेष, सीमा, अवधि, हद्द,
अन्तं :	proximity side, destruction, death, lowest, inferior, interior	लगतची, सानिध्य, नाश, संहार, घात, लय, हानि, मृत्यु, मरण, खालचा, हलक्या दर्जाचा, आंतील, आंतचा	मर्यादा, अवधी, समीपता, निकटता, नाश, पायमाली, मोत, मरण, अंत, नीची पदवीनुं, अंतरनु, अंतस्थ	मर्यादा, समीपता, निकटता, सीमा प्रान्त, नाश, क्षय, मृत्यू, सबसे नीचेका, हीन, अन्तस्थ, भीतरी
अन्तो, अन्तरा : (adv. & prep)	Within, in, inside	- -	मां, अंदर मध्ये, अंदर, अंदरखी बाजुमा	भीतरी ओर, अन्तर में, बीचमे, भीतर में, बीच, अन्दर, द्वारा, भीतरी भाग, भीतरी, भीतरी की ओर
अन्तोकप्पो :	See कप्पो	- -	- -	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अन्तोगधो : (adj.)	Contained in, being among	- -	समानवुं, मवडाववुं, समावेश करवो, धारण करवुं, अंदर मध्ये मां, थवुं होवुं	रखना, धरना, लपेटना, बराबर होना, बीच में, मध्यमें, तुलनामें
अन्तोभावो, : अन्तोघरं, अन्तोजातो, अन्तोठितो	See last	- -	- -	- -
अन्तं :	An intertine, the bowels	आंतडें, आंतडी	आंतडु	अन्त्र, अँतडी
अन्तं :	See अन्तो	- -	- -	- -
अदनं :	eating	खाणे, जेवणे, चापणे,	खाई जवुं, भक्षण करवुं	खा जाना, भोजन करना
अदस्सनं :	Not seeing, not meeting with, disappearance, not showing, concealment	न पाहता, न भेटता, अदृश्य, अंतर्धान, न दर्शविता, न दाखवता, झाकणे, छपवणी, मुप्तता	न जोवुं, न मळवुं, न भेटवुं, अलोप, अदृश्य, संताडवुं ते	नहीं देखना, नहीं भेटना, अदृश्य होना, अंतर्धान, असूचिता, छिपाव
अदासी :	See Dadit	- -	- -	- -
अदासो :	Not a slave, a free man, a freed man	गुलाम नसलेला, स्वतंत्र मनुष्य, दासत्वांतून मुक्त केलेला मनुष्य	गुलाम नथी, स्वतंत्र, स्वाधीन माणस	दास नहीं, स्वतंत्र मनुष्य
अदिनट्टो : (adj.)	Not seen, unseen	न दिसणारा, अदृश्य	नहि जोयेलुं, अदृश्य	न देखा हुआ, अदृश्य

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अदिति :	The mother of Gods	आदि पुरुषांची जननी	परमात्मानि मा,	देवताओकी माता,
(f.)		(माता)	माता (जननी)	जननी
अदिनादायी :	One who takes what is not	जे दिलेले नाहीं तें घेणारा,	जे नहि आप्पुं होय ते लेनार,	जो नही दिया वह
(m.)	given, a thief	चोर	चोर	लेनेवाला, चोर
अदिन्नादानं :	Taking what is not given,	जे दिलेले नाहीं ते घेणे,	जे नहि आपेलुं होय ते लेवुं,	जो नही दिया वह लेना,
	appropriation, thefe	आपलासा करणे, चोरी	खाई जवुं ते, चोरी	अपनाना, चोरी
अदिन्नो :	Not given	जे दिलेले नाहीं ते	जे आपेलु नथी ते	जो नही दिया हुवा वह
(adj.)				
अटुक्खमसुखा :	Indifference, Insensibility,	औदासिन्य,	उदासीनता	उदासीनता
(f.)	Indifference to pair or	उदासीन वृत्ति		
	pleasure			
अटुक्खमसुखा :	Indifference,	अनास्था, औदासीन्य, बधिरत्व,	उदासीनता, बेपरवाई,	उदासीनता, उपेक्षा,
(f.)	insensibility,	बेसावधपणा, यातना, दुःख,	असावधपणुं,	अचेतना, मूर्च्छा,
	indifference to pair or	पीडा - यांची बेपरवाई,	दुःख अने सुख नी बेपरवाई	पीडा या क्लेश से या
	pleasure	सुख, आनंद यांची बेपरवाई,		अभिलाषसे अभाव
अटुमं :	See Amu	- -	- -	- -
अदो :	Eating	खाणें, पोसणें,	खावुं, जमवुं,	खाना खिलाना,
(adj.)	feeding on	चारणें	खवराववुं	पालना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अदो :	Eating, feeding on	आहार, पोषण, पालन	जमवुं, खानुं	खाना, खिलाना, पालना.
(Adj.)			भरण - पोषण करवुं	
अदोसो :	Not an offence,	अन्याय, अपराध नाही,	अपराध नथी,	अपराध नहीं,
	absence of guilt	निष्पाप, निर्दोष	दोष नथी	निरपराध, निर्दोष
अदोसो :	Absence of hatred or	वैरचा अभाव	वेर विनानुं	निद्वेष,
	anger	क्रोध, राग, कोप	क्रोध, गुस्सा, कोप	क्रोध, कोप
अदोसो :	Not an offence,	निर्दोष, निरपराध	निर्दोष, निरपराधी	निर्दोष
	absence of guilt			
अदोसो :	Absence of anger or	अद्वेष, अवैर	अद्वेष, अवैर	अद्वेष, अवैर
	hatred			
अदुं :	See adum	- -	- -	- -
अदुळं :	Green ginger	आलें	अद्रक	अद्रक
अदुळिख, अदुस :	See Passati	- -	- -	- -
अदुळो :	Immaterial,	निराकार, अमूर्त,	निराकार, अमूर्तिमान,	आध्यात्मिक,
(Adj.)	abstract	पृथक,	निराळुं, गहन, गुढ	अमूर्तिमान,
		विशेष पदार्थापासून निराळा		आदर्श, अव्यावहारिक
अदुहा :	Name of one of	- -	- -	- -
(f.)	the Nakkhattas			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अहि :	A mountain	डोंगर, पर्वत, पहाड	पर्वत, पहाड	पर्वत, पहाड
(m.)				
अहो :	Wet, moist	ओलावा, आर्द्र, दमट,	भीनुं, भींजायेलुं,	आर्द्र, गीला
(Adj.)		ओलसर	शरदीवाळुं	
उद्धगतो :	One who has made a long	ज्याने फार दूरची मुशाफीर	जेमने बहु लांबो प्रवास करेलुं	जिसने बहोत दूर तक
(Adj.)	journey advanced in years,	केलेली आहे. पुष्कळ लांब	छे ते, वृद्ध	भ्रमण करा है वह :
	aged	रस्ता चाललेला आहे, वयोवृद्ध		वयोवृद्ध, बुड्ढा.
अद्धगो :	A traveller	उतारू, प्रवासी	प्रवासी, पंथी, मुसाफर	पथिक, यात्री
(m.)				
अद्धनियो :	Lasting, going on	टिकाऊ, स्थिरस्थायी, चाल,	टिकाऊ, चिरस्थायी,	नित्य, स्थिर :
(Adj.)	continuing	गति, प्रयाण, चालवीत राखणे,	चालवुं, चालु राखवुं	चलता रखना :
		चालू ठेवणे		स्थायी
अद्धमासो : +	Half a month,	अर्धमास, पंधरवडा	अर्ध मास,	आधा महिना
अड्ड	a fortnight		पखवाडीयुं	अधमास, पक्ष
अद्धरत्तो :	Mid-night	मध्यरात्र, अर्धरात्र	अधीरात	आधीरात
अद्धा :	A road, distance,	मार्ग, रस्ता, वाट, अंतर, पल्ला,	रस्तो, मार्ग, छेटुं, अंतर,	सडक, रास्ता, मार्ग, अंतर,
(m.)	time	समय, अवधि, संधी, प्रसंग	वखत, समय, मुदत, काळ	भेद, काल, अवधि, अवस्था,
				समय
अद्धा :	Truely, certainly,	वस्तुतः, खचीत, खात्रीने,	वास्तविक रीते, चोक्कस, बेशक,	वस्तुतः, सचमुच, अवश्य,
(Adv.)	surely, evidently	साफ, स्पष्ट	खात्रीपूर्वक, स्पष्ट रीते, खुल्ली	निःसन्देह, प्रत्यक्ष रूप से
			रीते	

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अद्धानं :	A road, a long distance, a long time	मार्ग, वाट, दीर्घ अंतर, लांबचा पल्ला, फार अवधि, दीर्घ काळ	रस्तो, मार्ग, स्थळ बच्चेनु लंबु अंतर, घणो समय तक	मार्ग, रास्ता, दूर तक, भेद, चिरकाल तक
अद्धिको :	Journeying: (Adj.) travelling	भ्रमण, पर्यटन, प्रवास, मुशाफरी	प्रवास, पर्यटन, मुसाफरी, देशाटन	यात्रा, भ्रमण, घूमना, पर्यटन
अद्धो, अद्धो :	Half, halved (Adj.)	अर्धा, समसमान	अर्धुं, अडधुं, अडधो, अइध	आधा आधा आधा करना
अन्दु :	A chain (m.)	साखळी, रांग, परंपरा	सांखळ	जंजिर, श्रृंखला
अन्दुको :	An elephants foot chain	हत्तीच्या पायाला बांधण्याची साखळी	हत्तीना पगे बांधवानी सांखळ	हाथी के पैर को बांधने की जंजीर
अधमण्णो :	A debtor	रिणको, देणेकरी	करजदार, ऋणी	देनदार, ऋणी
अधम्मिको :	Irreligious, impious, (Adj.) wicked	अधर्मी, अनाचारी, भ्रष्ट, धर्मनिंदक, दुष्ट, पापी	- -	अधर्मी, भक्तिहीन, भ्रष्ट, दुष्ट
अधमो :	Lowest, very low, (Adj.) meanest, vile, contemptible, incomplete, imperfect	अधम, अगदी नीच, हीन, तुच्छ, क्षुल्लक, तिरस्करणीय, अपूर्ता, अधुरा	नीच, हलकुं, अधम, तुच्छ, दुष्ट, धिक्कारवा जोग, अधुरूं, अपूर्ण, काचुं	अधम, नीच, क्षुद्र, तुच्छ, दुष्ट, घृणित, अपूर्ण, अधूरा

अधम्मो :	Wrong, injustice, unlawfulness, false, doctrine, irreligion, impiety, unrighteousness	(Marathi) अनीतीचा, खोटा, अन्याय, अधर्म, बेकायदेशीपरपणा, असत्य धर्म तत्त्वे, अनाचार धर्मनिंदा, अभक्ति, अधार्मिक	(Gujarathi) गलित, ऊर्धु, अन्याय, अधम, गेरव्याजवीपणु, बनावटी, कृत्रिम, सिद्धांत, ईश्वरनिंदा, अभक्ति, दुष्ट, अप्रामाणिक	(Hindi) अनुचित, अयोग्य, अन्याय, अधर्म असत्यऊ मिथ्या - पंथ, (सिद्धान्त) अभक्ति, पाप
अधरो :	Lower,	हलका, कमी,	नीचे नुं,	नीचे का, धीमा
(Adj.)	inferior	खालचा, निरस	उतरतां दरज्जा नुं	न्यून, अनुत्तम
अधरोट्टो :	The lower lip	अधर, ओष्ट, खालचा ओठ	नीचलना होठ, अधर	नीचा ओठ
अधि :	Above,	वर, उपरि, पेक्षा,	ऊपर, मयाळे,	ऊपर, ऊंची ओर,
(Prep.)	over, superior to	उंच, पलीकडे, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, अधिक	ना करतां बधारे, श्रेष्ठ, उत्तम, विशिष्ट	बढकर, आरपार, आगे की ओर, अधिक
अधिकतरो :	Greater,	थोर, महात्मा	महान, मोटुं,	बडा, अधिक,
(Adj.)	superior	अधिक श्रेष्ठ	उत्तम, विशिष्ट	असामान्य, बढकर, श्रेष्ठ
अधिकतो :	A superintendent, (P.P.P.)	देखरेख करणारा	देखरेख राखनारा	निरीक्षक
अधिकरणसमथो :	Setting questions, or cases that have arisen	शंका निवारणे, वादविषय निकाल (निवाडा करणे)	सवालना (शक) निवाडो करवो	संदेहका निर्णय करना, विवाद का विषय स्थिर करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिकरणी : (f.)	A smiths quvil	लोहाराचा ऐरण	लुहारनो ऐरण	लोहारकी निहाई
अधिकरणं :	Relation : reference	संबंधी, विषयी	संबंधी, तुलना	संबंधी
अधिकारो :	Office, authority, function, act : desire, resolve : chapter, section :	अधिकार, सत्ता; कार्य, कर्म, कामना, अपेक्षा, निश्चय, संकल्प, धर्मोपदेशकांची मंडळी, वर्ग	अधिकार, होदो, काम, कार्य, क्रिया, अभिलाषा, इच्छा, निश्चय, संकल्प, धर्मोपदेशकनुं मंडल, वर्ग	अधिकार, पद, कर्तव्य, काम, आकांक्षा, अभिलाषा, निश्चय, किसी संप्रदाय काम
अधिकिच्च : (ger.)	Referring to, relating to	संबंध असणे, लागू होणे, पडणे	संबंध होवो, लागु पडवुं,	उद्देश्य करना, सम्बन्ध रखना
अधिको : (Adj.)	Exceeding, surpassing, more than, better than, superior	अधिकार, वरचढ, पराकाष्टेचा, अधिक चांगला, श्रेष्ठ, उत्तम	अधिक, अतिशय, घणुज, अधिक थवुं, वधारे,	अधिक, बहुत, अति बढकर
अधिकोट्टनं :	A chopping block, exeentioner's block	शिरच्छेदाचा ठोकळा	जेनापर माथुं मुकीने कापवामां आवतुं हतु ते लाकडानुं ढीमचुं	काटते वखत सिर रखने के लिये बनाया हुवा कुन्दा
अधिगच्छति :	To enter upon, to reach, to attain, to acquire	आरंभ करणे, सुरवात करणे, शिरणे, पोहोचणे, संपादणे साधणे, मिळवणे	शरू करवुं, पहोंचवुं, मळववुं, प्राप्त करवुं, संपादन करवुं	आरंभ करना, पहुंचना प्राप्त करना, पूर्ण करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिगतो : (P.P.P.)	Having attained or arrived at, attained, aquired	संपादून, प्राप्त करून, साधून	आवी पहोंचीने, प्राप्ति, लाभ, मेळववुं, संपादवुं	पहोंच कर, प्राप्त करके
अधिगमनं :	Obtaining, attainment, arriving at attainment of ariahatta, final sanctification	मिळवणे, संपादणूक, सिद्धि, पोहोचणे, अर्हत पदाला पोहोचणे, अंतिम अंतःशुद्धि	मेळवीनें, प्राप्ती, आवी पहोंचवुं, दाखल थवुं, अर्हतपद सुधीं पहाचवुं आखरनुं प्रायश्चित्त (पापमुक्ति)	प्राप्त करके, प्राप्ति : तक पहुंचना, अर्हत पदतक पहुंचना, अन्तिम शुद्धि
अधिगमो :	Attainment, study, reading	अध्ययन, व्यासंग, अभ्यास	अभ्यास, अध्ययन	अध्ययन, अभ्यास, व्यवसाय
अधिगहीतो : (P.P.P.)	Taken occupied by, in possession of	घेतलेला, नेलेला, ताब्यांत घेतलेला व्यापलेला	लीधेलुं, कबजे, लेवुं, मालकी, मेळववी	लीया हुवा, व्याप्त किया हुवा, प्राप्त करना
अधिचित्तं :	Lofty thought or contemptation	उच्च विचार, थोर भावना, कल्पना, चिंतन, मनन	प्रौढ विचार, ध्यान, समाधि	उन्नत विचार, मनन, चिन्तन
अधिच्चका : (f.)	Land or plateau on a mountain	उंचवट्यावरील मैदान	पहाड उपरना सपाट प्रदेश	पहड उपरकी चौरस भूमि
अधिच्चसमुप्पन्नो : (Adj.)	Uncaused, sprung into existence without a cause	निष्कारण, अकारण, निरर्थक उत्पन्न झालेला (अस्तित्व)	बिनाकारण, अमथुं, वगर हेतु ये, निर्माण थयुं होय ते	अकारण, निष्कारण, जो कारण, हेतु बिना उत्पन्न हुआ हैं

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिदृहति, :	To stand on :	तिष्ठत उभा राहणे,	उभा रहेवुं, वास करवो,	स्थिर रहना, रोकना,
अधिदृहति,	to stay is remain firm in,	स्थिरावणे, नेटाने टिकणे,	मक्कस रहेवुं, वसवुं	ठोस रहना, निवास करना,
अधितिदृहति	to inhabit, to appoint, to fix, to determine, to resolve, to will, to command, to devote, oneself to, to practice, to perform, to undertake, to be set upon, to fix the mind upon, dwell upon	वस्ती करणे, ठरवणे, नेमणे, स्थापणे, निर्णय करणे, हुकूम करणे, वाहून घेणे, अभ्यास, वहिवाट राखणे, करणे, हाती घेणे, मनाचा बळकट, निश्चय करणे, धरून, चिकटून बसणे	मुकरर करवुं, मजबूत बनाववुं, निश्चय करवो, फरमाववुं, समर्पण करवुं, टेव पाडवी, संपादन करवुं, चित चोटाडवुं, विवेचन करवुं	स्थापित करना, स्थिर करना निग्रह करना, आज्ञा देना, समर्पन करना, अभ्यास करना, पुरा करना, आरम्भ करना, निश्चय करना, चित स्थिर करना
अधिदृहानं :	Resting place, staying stopping, appointing, fixing, appointment, order, determination, resolution, resolve	विश्रांतीचे स्थान, थांबून, स्थिरावून, नेमून, स्थिर करून, नेमणूक, अनुक्रम, पद्धति, नियम, निश्चय, निर्धार, निग्रह	आरमनुं स्थान, अटकाववुं, रोकवुं, नेमववुं, स्थिर करवुं, नीमणुक, फरमान, हुकम, निश्चय, ठराव करवो	निवास स्थान, अबरोध करके, ठहराके, नियुक्त करके, स्थिर करके, आज्ञा, नियुक्ति, क्रम, आज्ञा, नियम, प्रतिज्ञा, निर्धारण, निश्चय

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिद्वायको :	Superintendent, director	देखरेख पाहणारा, मुख्य अधिकारी	देखरेख राखनार, अध्यक्ष सूचवनार अधिकारी	निरीक्षक, अध्यक्ष, अधिकारी
अधिद्वितो : (P.P.P.)	Appointed, fixed, determined, willed	नेमलेला, स्थिर, निश्चित, इच्छित	नीमववुं, स्थापववुं, निश्चित करवो, इच्छववुं	नियुक्तित, स्थापित, निश्चित, इच्छित
अधित्थि : (Adv.)	Relating to a woman, with reference to a woman	स्त्री संबंधी	स्त्री संबंध मा	स्त्री संबंधमे
अधिनाथो :	Lord, chief governor	धनी, अधिकारी, अधिपति (इलाख्याया)	अमीर, धणी, मालिक, मुख्य, राज्य चलावनार, मोटो अमलदार,	स्वामी, महाराज, मुख्य, प्रधान, शासक, राज्याधिकारी,
अधिपच्चं :	Sovereignty lordship, supreme rule	अधिपत्य, स्वामित्व, राज्य सत्ता, पराकष्टेचा अंमल	अधिराज्य, हकुमन, सर्वोपरी अंमल (सत्ता)	प्रभुत्व, अधिकार, अतिश्रेष्ठ शासन
अधिपति : (m.)	Lord, chief, sovereign, master	अधिपति, स्वामी, प्रमुख, अधिराज्य, धनी, मालक	अधिपति, स्वामी, मालिक, मुख्य, महाराजाधिराज	स्वामी, प्रधान, मुख्य, गुरु

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिपन्नो : (P.P.P.)	Caught, seized, assailed	धरलेला, पकडलेला, हिरावलेला, हल्ला केलेला	पकडी लेवुं, झडपवुं, हुमलो करवो	पकडा हुवां छीन लीया हुवां आक्रमण किया हुवा
अधिपो :	Lord, king, ruler, master	स्वामी, महाराज, राज्यकर्ता, मालक, धनी, अधिपति	धानी, राजधिराज, राज्य करवा वालो, मालिक	मालिक, राज्य करने वाला, राजाधिराज, स्वामी
अधिप्यायो :	Intention, wish, meaning, thought	अभिप्राय, उद्देश, इरादा, इच्छा, विचार, कल्पना	अभिप्राय, इच्छा, अर्थ, हेतु, विचार चिंतन	अभिप्राय, आशय, इच्छा, विचार, कल्पना
अधिप्येतो : (P.P.P.)	Meant, intended, desired	उद्देशणे, उद्देशाने, इराद्याने, अभिप्राय असलेला, अपेक्षित	मनमा होवुं, धारेलुं, नक्की करेलुं, ईच्छेलुं	नियुक्त करा हुवा, अभिप्राय रखते हुवा, इच्छित
अधिभवन् :	Subjection	ताबेदारी, अधीनता, दास्य, पारतंत्र्य	अधीनता, हुकमदारी, पराधीनता	अधीनता, वश्यता
अधिभासति :	To address, to speak to	संबोधून बोलणे, सांगणे, भाषण करणे	कहेवुं, भाषण करवुं, बोलवुं, वदवुं	निवेदन करना, बोलना, व्याख्यान देना, उच्चारण करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिभू : (m.)	Lord, master, chief, king	स्वामी, मालक, धनी, अधिपति, नायक, मुख्य, राजा, भूपाल	स्वामी, मालीक, धणी, मुख्य, श्रेष्ठ, राजा, भूपाल, भूपति	स्वामी, गृहपति, प्रधानं, प्रमुख, नायक, राजा, भूपाल
अधिभूतो : (P.P.P.)	Overcome mastered	पराभूत, जिंकलेला, निपूण, हस्तगत करणे	जितेला, ताबे राखेला	जीतना, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा हुवाँ
अधिमत्तो : (Adj.)	Excessive	अधिक	अतिशय	अधिक
अधिमत्तं : (Adv.)	Exceedingly, excessively	अधिक, अतिशय	घणुंज, अतिशय,	विशेष करके, अधिक होना, बढना
अधिमानो :	Undue confidence, undue estimate of oneself	बेसुमार भरवंसा, स्वतः विषयी अमर्याद विश्वास	घणो विश्वास, पोताना उपर घणु विश्वास	अनुचित विश्वास, खुदका मूल्य निरूपण अधिक करना
अधिमुच्चति : (Pass.)	To be inclined to, intent upon, have confidence or faith in : to be resolved, determined	कडे कलणे, झुकणे, मग्न, तत्पर, विश्वास, भरवंसा निश्चय करणे	- -	झुकना, झुकाना, उत्सुक, तत्पर, साहस, विश्वास, श्रद्धा, दृढ निर्णय
अधिमुत्ति : (f.)	Inclination, disposition, intention, resolution, resolve, will, confidence, faith	आकांक्षा, मनाची ओढ, स्वभाव, शील, इरादा, निग्रह, संकल्प, मनोदय, विश्वास	- -	झुकाव, प्रवृत्ति, स्वभाव, आशय, प्रतिज्ञा, निश्चय, इच्छा, विश्वास, श्रद्धा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिमुक्तो : (P.P.P.)	Inclined, disposed, intent upon, resolved for bent upon	झुकलेला, प्रवृत्त, मग्न, निग्रह, निश्चय	वलणवाळुं, निश्चयी	झुका हुआ, निग्रह, निश्चित
अधिमोक्खो :	Steadfastness, determination, certainly, confidence faith	निश्चय, निग्रह, निर्धार, दृढ विश्वास, श्रद्धा	द्रढता, चोक्कस विचार, निश्चय, भरोसो, श्रद्धा	स्थिरता, निश्चय, संकल्प दृढ विश्वास, श्रद्धा
अधिरोहिणी : (f.)	A ladder	शिडी, निसण	सीडी, निसरणी	निश्रयिणी (निसेनी)
अधिवचनं :	Denomination, designation, name, appellation	निर्देशन, नाव, संज्ञा, पंथ, संकेत शब्द	संज्ञा, नामकरण, योजना, अभिधान, नाम	संज्ञा, जाति, नाम, पदवी, अभिधान
अधिवत्थो : (P.P.P.)	Dwelling, residing	राहतो, वस्ती करतो.	वास करवो, वतनी थवुं	बसता हैं, निवास करता हैं
अधिवसति :	To dwell in, to inhabit	वास करणे, वस्ती करणे	वसवुं, रहेंवुं	निवास करना, बसना
अधिवासनं :	Consent, assent acceptance	अनुमति, सम्मति, स्वीकार	हा पाडवी, स्वीकार करवो	सहमत होना, सम्मति, स्वीकार

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिवासेति :	To consent, to assent, to comply with, to bear with, to accept, to approve, to favour, to receive favourably, to accept with resignation, to bear, to endure	मान्य करणे, स्वीकारणे, संभाळणे, वागवणे, मेहरबानी करणे, अनुकूल होऊन स्वीकारणे, नम्रतेने स्वीकारणे, सहन करणे, सोसणे	कबुल करवुं, संमति आपवी, स्वीकार करवुं, संभाळ करवोः मान्य करवुं, कृपा करवुं, अनुकूलताथी लेवुं, सहेवुं	स्वीकारना, सम्मति देना, सहायता देना, संभालना, कृपा करना, सादर स्वीकारना, सहन करना
अधिवासो :	Dwelling, residence, consent, acceptance	वास, वस्ती, अनुमति, ग्रहण	निवास, आवास स्थान, मळता थवुं	निवासस्थान, वास, स्वीकार, सम्मति
अधिवासो :	Perfuming the person	अंगाला (शरीराला) अत्तर लावणे	शरीरने सुगंधीदार करवुं	शरीर को सुगन्धित करना
अधिसक्करो :	Honour, hospitality, festivity	सत्कार, स्वागत, आतिथ्य, मेजवानकी, उत्सव	आदर, गान, अतिथि सत्कार, आदरभाव, उत्सव	सम्मान, आदर, आतिथ्य, सत्कार, उत्सव
अधिसेति :	To lie down upon, to lie, to rest, to sleep, to inhabit	लवडणे, विराम, विसावा करणे, झोपणे, स्वस्थ पडणे, वस्ती करणे	सूर्जवुं, आरामना, माटे आडा पडवुं, आराम लेवो, वसवुं	लेट जाना, पड रहना, सोना, विश्राम करना, निवास करना
अधीते, :	To read,	वाचणे, अध्ययन करणे,	अध्ययन	अध्ययन,
अधीयते	to study	शिकणे, विचार-मनन करणे	अभ्यास करवुं, वाचवुं, ध्यान करवुं	अभ्यास करना, पढना, चिन्तन करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधीतो :	Learned, read, having learned or read	जाणता, विद्वान, अध्ययनी, पढीक, वाचलेला	विद्वान, पढेलो, जाणकार	पढा, लिखा, विद्वान
अधीनो :	Subject dependent, (Adj.) servile	हुकुमांतला, अधीन, आश्रित, परतंत्र, ताबेदार	आधीन, गुलामी जेवुं, आश्रित, ताबेदार	अधीन, आश्रित, दास का
अधीरो :	Confused, (Adj.) embarrassed, limid, irresolute	भांबाक्लेला, गोंधळलेला, पेचांत पडलेला, भितरा, श्याड, चंचल, अधीर	मुंडाई गयेला, गभराववुं, सपडायेला, भीरूं, अस्थिर, ढचुपचुं	व्याकुलतासे, भ्रमपूर्वक, घबडा हुवा, डरपोक, चंचल, अस्थिर
अधुना :	Now, (Adv.) just now	आतां, आतांच, इतक्यात	अधूना, हमणां	अब, अभी
अधुनागतो :	Just arrived, (Adj.) newly come	इतक्यातच पोहोचलेला, नुक्ताच आलेला	अधुना आवी पहोंच्या थोडीबार अगाउथीज आवेलुं,	अभी पहोंचा हुवा, हालमें आया हुवा
अधो :	Under, underneath, (Adv. & Prep.) below, down, low down	खाली, खालच्या जागी, खालती, पालथा, अगदी खाली	नीचे, हेठण, तले नीचे उतरववुं	नीचे, तले, नीचे के ओर, नीचे तल मे नीचे को सरकता हुवा
अधोगामी :	Going downwards, (Adj.) descending	उतरता	नीचे उतरववुं	नीचे को सरकता हुवा
अधोठितो :	Standing below, (Adj.) situated below	खाली उभा असलेला, खाली बसलेला	नीचे स्थिर बेसाडेलुं	नीचे खडा हुवा नीचे स्थापित

अधोभागो :	The lower part	(Marathi) खालचा भाग	(Gujarathi) नीचलनो भाग,	(Hindi) नीचे का भाग
अधोभुवनं :	The lower region, patala, the naga world	पाताळ, नर्क	पाताळ, नर्क	पाताळ, यम लोक
अधोमुखो :	Looking downwards with (Adj.) the head bent down	खाली मस्तक (मुख) झुकवुन पाहणारा	माथुं नीचे वळवीने जोवुं	सीर नीचे झुकाकर देखना
अधोसाखो :	Having the branches (Adj.) downwards	फांद्या खाली लोंबत असलेला	नीचे लटकती हुवी डालीया छें ते	नीचे झुकी हुई डाली हैं वह
अन्धकारो :	Darkness	अंधार, अंधकार, अज्ञान	अंधकार	अंधेरा, अज्ञान
अन्धकियो :	Belonging to the (Adj.) Andra Country	आंध्र देशाचा भाग	आंध्र देशाना भाग	आंध्र देसका भाग
अन्धको :	Belonging to the (Adj.) Andhra Country	आंध्र देशाचा भाग	आंध्र देशाना भाग	आंध्र देसका भाग
अन्धतमं, :	Thick darkness	काळोखमेट, निबिड अंधार	घणो अंधकार (अंधेरा)	घना, गाडा - अंधेरा
अन्धतमो				
अन्धबालो :	Silly, stupid, (Adj.) doting	वेडसर, खुळसट, बावळा, अजागळ, मंद, सुस्त, वेडा, भुलून	नादान, भोळुं, जड, मुखं, टपका मुकवा	भोला, निर्बुद्धी मंद, सुस्त
अन्धभूतो :	Blind, (Adj.) in darkness, uneulightened	अंध, अविचारी, अज्ञान, अंधार, अबोध, असुसंस्कृत	अंधळु, आंध, अंधकार, शामता, प्रकाशहीन, अज्ञान	अंधा, अज्ञान, अंधकारमय, अंधेरा, ज्ञानहीन

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अन्धो :	Blind	आंधळेपणा, अंधत्व,	अंध, अंधळु	अंधा, अंधकारमय
(Adj.)		अविचार		
अनक्खातो :	Not described,	कथन न केलेला	बोलाय नही तेवुं,	वर्णन न कीया हुवा,
(Adj.)	ineftable	अनिर्वाच्य, अर्वाच्य,	अवर्णनीय,	अवर्णनीय,
		अवर्णनीय	अकथनीय	अकथनीय
अनक्खिको :	Without eyes,	आंधळा, नेत्ररहित	अंध, अंधळु	सूर, आंधा
(Adj.)	sightless			
अनगारिको :	One who does not live in a	घराबाहेर राहणारा,	घरना बाहेर रहेवालो,	मकानके बाहर रहिनेवाला,
	house, an ascetic or	संन्यासी, विरक्त	संन्यासि, वानप्रस्थ, मुनि,	संन्यासी,
	Buddhist priest	बौद्ध भिक्खु	बौद्ध भिक्खु	बौद्ध भिक्खु
अनगारिया :	The houseless life an ascetic,	संन्याश्याचे जीवन,	मुनीनो जीवन,	संन्यासीका जीवन चरित्र,
	asceticism,	तपश्चर्या, वैराग्य,	संन्यास, वैराग्य,	संन्यास, वैराग्य,
	the life of a Buddhist priest	बौद्ध भिक्षुंचे जीवन	बौद्ध भिक्षुनुं जीवन	बौद्ध भिक्षुका जीवन
अनगघको :	Priceless,	अमोल,	अमूल्य मोंघुं,	अमूल्य,
(Adj.)	invaluable	अमोलिक	अणमोल	अनमोल
अनघो :	Priceless,	अमोल,	अमोल,	अमूल्य,
	invaluable,	अमूल्य,	मोंघुं	बहुमूल्य,
	inestimable,	बहुमोली		
	precious, costly			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनघो :	sinless, blameless,	निर्दोष, निष्कलंक,	निरपराधी, निष्कलंक, निरदोष	निर्दोष, निष्कलंक,
(Adj.)	pure	शुद्ध	निर्मळ, स्वच्छ, साफ, चोखुं,	निर्मल, शुद्ध
अनङ्गणो :	Free from lust or	पापवासना नसलेला,	पापसक्ति वगरनुं,	विना लालसा,
(Adj.)	impurity	मलिनता, अशुद्धता, पवित्र,	मलिनता, अपवित्रता,	अपवित्रता,
	pure	निष्कलंक, निर्दोष, निर्मळ	निर्मळ, साफ	स्वच्छ, निर्मल
अनच्छरियो :	Not wonderful	आश्चर्यकारक नसलेला	आश्चर्यकारक न होय जेवुं	निलक्षण या अदभूत नही
(Adj.)				
अनच्छो :	Not clear,	गदळ, राड,	गंधु, मेलु	गँधला, गांढा,
(Adj.)	turbid	गढूळ		पंक युक्त
अनञ्जो :	Without another,	एकटा, एकाकी,	एकलु, मात्र, फक्त	एक अकेला
(Adj.)	alone	दुसरा कोण नसलेला		
अनत्ता :	Not a self,	अनात्म	अनात्म	अनात्म
(m.)	not a soul			
अनत्ताधीनो :	Not one's own master,	पराधीन,	ताबेदार	पराधीन,
(Adj.)	dependent	परावलंबी, आश्रित		अवलंबी, आश्रित
अनति :	To breathe,	जिवंत असणे,	जीववुं,	जीना, निर्वाह करना
	to live	जगणे,	रहेवुं,	
		गुजारण करणे,	गुजारन चलाववुं	
		उदरनिर्वाह करणे		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनत्तो :	Without individuality,	खोटा, कृत्रिम, स्वत्व नसणे,	प्रत्येकता वगरनु,	आत्माभिमान बिना,
(Adj.)	unreal	व्यक्तित्व शिवाय	असत्य, खोटु	असार
अनन्तरो :	Immediately following,	लागलचं पुढे,	ताबडतोब, तरतज,	निम्न लिखीत, आगला,
(Adj.)	next	तात्कालीक	लागोलगनु, जोडावुं	तत्क्षणका आगामी समीपका
अनन्तरं :	Immediately after,	लागलीचं नंतर,	तरतज, ताबडतोब,	तात्कालीक,
(Adv.)	next	जेंव्हाच्या तेंव्हाच,	तात्कालीक, लागोलगनुं	तत्क्षण बादमे, उसीदम :
		पुढला, येता, आगामी	पासेनुं	आगामी, प्रायः समीप का
अनन्तो :	Endless, eternal;	निरंतर, अपार, अनंत :	अननं, आगाध,	निरंतर, अनंत, सनातन,
(Adj.)	boundless,	सनातन, शाश्वत, असंख्य,	अपार	नित्य, अवधिरहित
	infinite	अपरंपार, अमर्याद		निस्सीम, अपरिमित
अनर्थोक्तो :	Unmeaning,	निरर्थक,	मूर्खो	अनर्थक,
(Adj.)	senseless,	निर्बुद्ध,	बेवकूफ	असंगत,
	foolish	असमंजस, मूर्खपणाचा		निर्बुद्धि, बुद्धिहिन
अनर्थो :	Foolish,	मूर्ख, वृथा, व्यर्थ,	मूर्खो, व्यर्थ,	निर्बुद्ध, व्यर्थ,
(Adj.)	vain	निरर्थक, अभिमानी, गर्विष्ठ	मिथ्या, निरर्थक	वृथा, निरर्थक
अनर्थो :	Disadvantage,	हानि, अपाय, वाईट, दुष्ट	खोट, नुकशान, खराब,	हानि
	evil,	पापी, अरिष्ट, दुदैव,	पापी, दुष्ट, कमनसीब,	निंदीत, दुष्ट,
	misfortune,	दुर्भाग्य, विपत्ति, अन्याय,	दुर्भाग्य, दुदैव,	अभाग्य, दुर्गति,
	injury	अपाय, अपराध, हानि	खराबी, नाश	अपकार, अनिष्ट

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनधिको : (Adj.)	Without additions or superfluities, not redundant	अनाधिका, अतिरेक अथवा गरजेपेक्षा अधिक नसलेला, फालतु नसलेला	वधारा पडतु न होय, फालतु न होय	अधिकता नहीं, अतिरिक्त नहीं
अनधिवरो :	An epithet of a Buddha (without a superior)	बुद्धाविषयी गुणवाचक विशेषण	बुद्धनी संज्ञा, बुद्धनु गुणनाम	बुद्ध विषयक विशेषण
अननुच्छविको : (Adj.)	Unsuitable, unworthy, improper	अयोग्य, असंगत, न शोभेसा, अनुचित	अनुचित, अयोग्य	अयोग्य, अनुचित, नीच, अशुद्ध
अननुस्सुतो : (Adj.)	Unheard	अश्रुत, न ऐकिलेला	न सामळेलुं	अश्रुत, अज्ञात
अननो : (Adj.)	Free from debt	ऋणमुक्त, कर्ज नसलेला	ऋणमुक्त,	ऋणमुक्त, कर्जसे बरी
अनपायी : (Adj.)	Not departing, lasting	अमर (न जाणारा) कायमचा, टिकाऊ, चिरस्थायी	गत थवु, टकाऊं, चिरस्थायी	बीदा हुवा नहीं सो, स्थायी, स्थिर
अनपेखी : (Adj.)	Free from desire	अनासक्त, अनपेक्ष, अनिच्छ, निष्काम	इच्छा वगर, अभिलाषा वगर,	अनिच्छ, अभिलाषा बिना
अनप्यको : (Adj.)	Much, great, considerable	महान, थोर, मोठा, प्रशंसनीय, योग्य, बराच	घणु, वधारे, पुष्कळ, महान, मोटुं, विस्तीर्ण मननीय, पूजनीय	प्रचुर, बहुत, अत्यंत, विशाल, बडा, स्तूल, भारी, असामान्य, मान्य, अधिक पूज्य

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनप्यो :	Much, great,	महान, थोर, मोटा,	घणु, वधारे, महान,	बहुत, अत्यंत बडा,
(Adj.)	numerous, many	विपुल, बहुत, पुष्कळ	मोटुं, पुष्कळ, बहु	स्तूल, अनेक
अनभिच्छ्ना :	Absence of covetousness or	निर्लोभी, अभिलाषा	लालची वगरनु,	लालची विनाका
(f.)	desire	अथवा इच्छा नसलेला	निर्लोभी	
अनभिरति :	Dissatisfaction,	असंतोष, असमाधान	असंतोष, अतृप्ति,	असंतोष, अतृप्ति,
(f.)	affliction, sorrow	दुःख, क्लेश, त्रास	नाखुषी, दुःख, पीडा,	दुःख, क्लेश, आपत्ति,
			कष्ट, शोक, खेद	शोक, खेद, व्यथा
अनभिरद्धि :	Anger, wrath	राग, क्रोध, आवेश,	क्रोध, रिस, घुस्सो,	कोप, क्रोध, रोष,
(f.)	rage	संताप, कोप	कोप	उत्पात
अनमतगो :	Without beginning or	उगम,	आरंभ आणि	उगदम या आरंभ या
(Adj.)	end	प्रारंभ आणि शेवट नाही असे,	अंत वगरनु	सीना रहित
		उगम आणि अंत नसेलेले		
अनयो :	Sin,	अपराध, पाप, कुकर्म	पाप, दुराचारण, कुकर्म,	पाप, अन्याय,
	wrong,	अन्याय, जुलूम, दुःख,	खोटू, गलित, दुःख,	अधर्म, अयोग्य,
	distress	दुर्दशा, मानसिक दुःख,	पीडा, कमनशीब,	पीडा, दुर्गति,
	misfortune	दुर्दैव, दुर्भाग्य, अरिष्ट	दुर्दैव, दुर्भाग्य	अभाग्य
अनरियवोहारो :	Unworthy	अयोग्य आचरण,	अयोग्य, व्यवहार	अयोग्य, संप्रदाय,
	practice	न शोभेसे वर्तन		निर्गुण, आचरण

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनरियो :	Not noble, not venerable, mean dishonourable, low	अकुलीन, अयोग्य, अपूज्य, नीच, हलका, अधम, बेअबु, हलक्या दर्जाचा, अप्रतिष्ठित, अनार्य	अकुलीन, अप्रौढ, खानदान वगारना, अपूज्य, अपवित्र, अधम, हलकुं, तुच्छ, अमाननीय, अपमानकारक, नीच, हलका कुटुंबमा उछरेलो	अंकुलीन, अशिष्ट, अपूज्य (आदरणीय नही सो) अधम (नीच), तुच्छ, क्षुद्र, अपमानयुक्त, नीच, अप्रतिष्ठित
अनरो :	Other than human	अमानुषी, अनर (मनुष्य प्राणी नाही अशापैकी)	अमानुषी, मनुष्याना जेवुं नथी	(अमनुष्यत्व) मनुष्य जाति का नही (अनर)
अनलो :	Fire	अग्नि, ज्योत, विस्तव	अग्नि, हुताशन, आंच	अग्नि, ज्वाला, भभक
अनवज्जता : (f.)	Blamelessness	निर्दोष	निर्दोष, निष्कलंक	अनिधता
अनवज्जो : (Adj.)	Blameless, harmless, not sinful	निर्दोष, निरुपद्रवी, निष्पापी, पापी	निर्दोष, निरपराधी, बिनगुन्हेगार, निष्पापी	निर्दोष, निष्कलंक, निरपराध, निष्पापी
अनवट्टिति : (f.)	Unsteadiness	चंचलता, अस्थिरता, चलबिचलता	अस्थिरता, चंचलता	अस्थिरता, अदृढता
अनवतत्तो :	See अनोतत्तो	- -	- -	- -
अनवयो : (Adj.)	Perfectly, acquainted with, versed in	संपूर्ण माहितगार, निष्णात, वाकबगार	संपूर्ण जाणीता करवुं, बाकेफगार बनावबुं, निपुण, चतुर	संपूर्ण रूपसे जानना, परिपूर्ण जानना, कुशल, निपुण और प्रवीण

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनवरतं :	Incessantly	सततचा, निरंतर	निरंतर, सतत,	नित्य, सतत
(Adv.)				
अनवसेसो :	Without any remaining,	अवशेष नसणारा,	वधु न होय जेवुं,	बचा न हुवा,
(Adj.)	all, every one, the whole	शिल्लक नसलेला, सर्व कांही, प्रत्येक, एकूण एक, अखंड, सारा, समग्र, पूर्ण, सगळा	बाकी न रहेवुं, सर्व आंखु तमाम, सगळुं, अखंड	सकल, पूर्ण, पूरा, प्रत्येक व्यक्ति, संपूर्ण, पूरा,
अनवस्सवो :	Not flowing - in, non - influx	ओष किंवा प्रवाह नसलेला	प्रवाह न होय ते	प्रवाह, बवाह नही जीसे
अनवस्सुतो :	See अवस्सुतो	- -	- -	- -
अनसनं :	Fasting	उपवास, उपोषण, अन्नावाचून असणे	अन्ननो त्याग करवो, वर्जन करवुं	लंघन, अनाहार, आहार न करना
अनस्सवो :	Disobedient	आज्ञा मोडणारा, आज्ञाभंजक	आज्ञा भंग करनान	आज्ञा उल्लंघन करनेवाला
(Adj.)				
अनळसो :	Industrious,	उद्योगी, मेहनती,	उद्योगी,	उद्योगी परिश्रमी
(Adj.)	diligent	दक्ष, तत्पर	मेहनतु	व्यवसायी
अनाकुलो :	Untroubled,	स्थिर, अचल,	शांतिवाल्, शांत,	अनुद्विध्न,
(Adj.)	quiet, peaceful	शांत, निवांत	स्थिर, शांत	कष्ट न दिया हुवा, स्थिरता, शांति, विश्राम, शांत, निष्कंटक

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनागतो : (Adj.)	Not come, not arrived, future	आगमन न झालेला, येणारा, भावी	नो आवी पहाँच्या, आगमन न थयेलुं, हवे पछीनुं, भविष्य समयनो	न आया हुवा (आनेवाला) भविष्यकालका
अनागमनं :	Not returning	परत न येणे, न उलटणे	पाछु न आवुं, अथवा जवुं	वापस न लोटना
अनागामिफलं :	Fruition of the statue of अनागामी	अनागामी स्थितीची प्राप्ति अथवा साफल्य	अनागामी अवस्थानुं फळ अथवा अनुभव	अनागामी अवस्था का आनंद या सुख
अनागामिमगो :	Path of one who does not return	जो परत फिरत नाही अशाचा मार्ग	पाछा नही करे एवानु रस्तो	जो वापस नहीं लोटता है वहकी मार्ग
अनागामी : (m.)	One who does not return	ज्याचे पुनरागमन होत नाही तो	पाछु न आवुं	फिर नहीं आता वह, फिर नहीं पलटना
अनागारो : (Adj.)	Houseless, homeless	घराशिवाय	घरबिनाका	घरसिवायनु :
अनाचरियको : (Adj.)	Without a master or a teacher, self taught	शिक्षक अथवा अध्यापका शिवायचा, स्वतंत्र शिकलेला	शिक्षक वगर भणेलुह पोतानाज प्रयत्नथी आगळं वधेलुं	गुरु बिना का, अध्यापक बिना का खुदके महीनतसे बढा हुवा
अनाचारो :	Bad conduct, bad manners	वाईट, दुष्ट वागणूक अथवा वर्तन, बाधक अथवा नुकसान- कारक रीति, चाल, पद्धति	खराब अथवा दुष्ट वर्तणूक अथवा रितु, चाल	बुरा या दुष्ट आचरण, बुरी चाल
अनाबुरो : (Adj.)	Healthy	निरोगी	निरोगी, आरोग्य	स्वस्थ, आरोग्यकर

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिज्झा :	Covetousness (अभिध्या)			
अधिवचनं :	Designation, appellation, name (अधि + वचन)	निर्देश, हुद्दा, पदवी, नांव संकेत शब्द	पदवी, हुद्दा	पदवी, नाम, (चिन्ह) उपाधि
अच्चति :	To offer : to honour : to revere (अर्च)	समर्पण ; सन्धानणें गौरवणें		
अधिद्वितो :	appointed, fixed, determined willed (अधिष्ठित = स्था)	नेमलेला, ठरविणे, वायदा करणें		नियुक्त करना, निर्धारित करना
अभिजातिको :	(adj) Belonging to origin or race (अभिजाति + क)			
अभिजातो :	Well born, noble: learned, wise (अभिजात = जन्)			
अभिजाति :	Origin, race, birth (अभि + जाति)			
अभिजप्पनं :	Muttering Spells, incantation (अभि + जल्पन)			
अभिकिरति :	To overwhelm, to cover (अभि + कृ)			
अधिगच्छति :	To enter upon, to reach, to acquire (अधि + गम्)	मिळविणे, पोहोचणें	मेळवुं	मिलाना, पोहोचना

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिच्चसमुप्यन्तो : (adj) Uncaused			
अधिगमनं :	Obtaining, attainment, arriving at	हेतु साध्य होणें, प्राप्त,	
अधिगमो :	Attainment : Study	प्राप्ति संपादिलेला गुण : कलाकौशल्य	
अधिकरणं :	Relation; reference : circumstance Subject; cause : a matter of dispute difficulty : suit, trial (अधिकरणं)	मिळविणे, पोहोचणें	मेळवुं
अधिगतो :	Having attained or, arrived at (अधिगत + गम्)	साधणें पोहोचणें	
अधिगृहीतो :	Taken; occupied by, in possession of (अधि + गृहीत = ग्रह)	ताब्यांत घेणे	
अधिकरणसमथो :	Settling questions or cases that have arisen (अधिकरण + शमथ)		
अधिकारो :	Office, authority : function desire : chapter	अधिकार (अधिकार)	
अधिकारिको :	An official (अधिकार + इक)		अधिकारी
अभिजनो :	Race, tribe, family (अभिजन)		मिलाना, पोहोचना

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिजानाति :	To know, to learn, to ascertain: to perceive : to admit to acknowledge (अधि + ज्ञा)	-	-
अभिहटो :	Brought (अभि + हत = ह)	-	-
अभिहितो :	Called, named : Spoken, said. (अभि + हित = धा)	-	-
अभिहन्ति :	To bring to : to acquire, to gain (अभि + ह)	-	-
अभिगीतो :	Song or recited to (अभिगीत = गै)	-	-
अभिवसति :	To dwell in, to inhabit (अधि + वस्)	राहणें, वसति करणें	निवास करना
अभिघातो :	Striking, concussion (अभिघात)	-	-
अभिकतो :	A Superintendent, Overseer (अभिकृत = कृ)	देखरेख करणारा	-
अभिसोभितो :	Adorned, beautiful, resplendent (अभि + शोभित = शुभ्)	-	-

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिसिक्तो :	Besprinkled (अभि + सिक्त = सिच)	-	-
अभिसिञ्चति :	To Sprinkle, to inaugurate a king by Sprinkling by Sprinkling of holy water (अभि + सिच्)	-	-
अच्चन्तो : (adj)	Excessive : endless (अत्यन्त)	पुष्कळ, अमर्याद	-
अधिभूतो :	Over come, mastered (आधी + भूत = भू)	प्राविण्य, पार पाडणें	-
अभिधानपदीपिका :	Lamp of nouns This is a name of a well-known Vocabulary of Pali-nouns, compiled on the model of Amarkosha by the grammarian moggallana of at the end of the 12th century. (अभिधान + प्रदीपिका)	-	-
अधिवासनं :	Consent, assent acceptance (अधि + Caus वस् + अन)	स्वीकारणें, संमति देणे, मान्यता	स्वीकारना, संमति
अभिक्कन्तो :	Handsome, beautiful; excellent, good (अभि + कान्त + कम्)	-	-

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अचेतनो : (adj.)	Unconscious, Senseless	बेहोष मूर्च्छा, बेशुद्ध	बेहोष, बेसुद	बेहोष
अच्युतो : (adj.)	Immovable : everlasting	नित्यं, शाश्वत, अनंतकाळपर्यंत	-	-
अचेलको : (adj.)	Unclothed, naked (अ + चेल + क)	नग्न	नंगा	नंगा
अच्युण्हो : (adj.)	Very hot (अति + उष्ण)	गरम, फार उष्ण, उष्मा, तिखट	-	-
अच्युळारो : (adj.)	Magnificent (अति + उदार)	भव्य, छानदार	भव्य	शानदार, खुबसुरत
अच्चोक्रड्डो : (adj.)	Very low (अति + निच)	नीच, कनिष्ठ, ठेंगा	-	-
अच्युक्रड्डो : (adj.)	Very high (अति + उत्कृष्ट)	-	-	-
अच्युगगतो : (adj.)	Raised, elevatedhide (अति + उदत = ग)	उत्कृष्ट, उच्च	-	-
अदोसो : (अ + द्वेष)	Absence of hatred or anger	द्वेषा शिवाय अवैर	-	-

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्छो :	A bear (ऋक्ष)	रिस्, अस्वल	-	-
अधिच्चका :	Land or plateau on mountain (अधित्यका)	-	-	-
अच्चि :	A ray of Light, a sunbeam, flame (अर्चि + अर्चिस्)	किरण, ज्वाला	-	-
आगामिको (adj.) :	Coming, approaching (आगामिक)	पुढे येणारा	-	आगामी
अदित्तो :	Blazing, burting (अक्षप्त + तिप)	जळजळीत, भडका, चमक	-	प्रज्वलित, जलना
आदियति :	To recive : to obtain, to take to heart to attend to (आ + दीयते = दा)	संपादणें, भिळविणें	-	प्राप्त करना, प्रवृत्त होना
आदिप्पति :	To blaze, to burn, to glow (आ + दीप्)	भडकाणें, चमकणें, जळणें	-	प्रभा, चमक, प्रज्वलित, तपना
आगामी (adj.) :	Coming, future (आ + गामिन्)	भावी, यावयाचे	-	आगामी, आनेवाला
अच्छिद्दो (adj.) :	Uninjured, intact Perfect, farlturs (अ + छिद्र)	संपूर्ण	-	-

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्छिन्दति : (adj)	To take away, to remove, to rob, plunders (आ + छिद्)	हिसाकावून घेणें, लुटणें	–	–
अधिभू :	Lord, master, chief, king (अधिभू)	धनी, मालक, प्रमुख, ईश्वर, खावंद,	मालिक, धनी	मालिक, खावंद, सरकार, अमीर
अधिभवनं :	Subjection (अधि + भवन)	आधीनता, ताबेदारी	–	–
अधि : (Prep.)	Above, over, Superior to (अधि)	वर, श्रेष्ठ	उपर, बडो	उपर, बडा
अधिभासति :	To address, to speak to (अधि + भाष)	संबोधणें	–	–
अधरोट्टो :	The lower lip (अधरोष्ठ)	ओठ	होठ	
अच्छि :	The eye (अक्षि)	डोळा	अख	अख
अब्भोक्किरणं :	Covering, bedceking (अभि + अव + किरण)	आच्छादन, पडदा, झांकण	–	–
आगमनं :	Coming, arriving, return: approach (आगमन्)	पोहोंचणे, आगमन, प्रवेश	–	पहुंचना, आगमन, प्रवेश

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिवासेति :	To couseant to, comply with, to approve, to beav to endure (अधि + वस्)	मानणें, स्वीकारणें, कबूल करणें, सोसणे	–	स्वीकारना, मानना, भोगना, सहनकरना
अगाधो :	Unfathomable (adj.) (अ + गाध)	अगाध	–	अगाध
अद्धमासो + :	A fort night अद्ध (अर्ध + मास)	पंधरवडा, अर्धमास	पंधरदाडा	पंधेरादिन
अच्चन्तं :	Exceedingly : very (adv) (अत्यन्तम्)	अत्यंत, अतिशय	बहु, घणु	बहोत
अद्धानं :	A long distance, a long time	दूर, पुष्कळ अवधि, अनंत काळ	आछु	आगे
अद्दि :	A mountain (अद्रि)	पर्वत, पहाड	पहाड	पहाड, पर्वत
अधित्थि :	Reference to a woman (अधि + स्त्री)	–	–	–
अधिद्वहति, :	To stand on, to stay to अधिद्वृत्ति, अधिद्वृत्ति set upon (अधि + स्था)	उभा राहणे, पास करणे, स्थिर करणे	–	रोकना, सहारा देना, मन लगाना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्चनीयो + : निघ्यो	Worthy of being offered (अर्चनीय)	वंदनीय, पूज्य	–	–
अदिन्नो : (adj)	Not given	न दिलेले	–	–
अदिति :	The mother of the Gods (अदिति)	–	–	–
आदितो : (adv)	From the beginning : fire	सुरवात, पहिल्यापासून, आरंभ	–	आरंभ, उद्गम, पहिलेसे
आदिसति :	To show, to point out, to tell (आ + दिश्)	निर्देशणे, सांगणे	वतावुं, केहकं	दिखलाना, बतलाना
अच्छिन्नो :	Taken away, removed stolen (आ + छिन्न = छिद्)	दूर नेणे		
अच्चितो :	Revered, honoured, (अर्च)	पूज्य मानणे		
अच्चिमा :	Fire (अर्चिमन्त्)	आग, जाळ, अग्नि, ज्योत	आग	आग
अच्चोदातो : (adj.)	Very white (अति + अबदात = दै)	पांढरा शुभ्र, सफेद	–	सफेद

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिसवन् :	Oozing trickling, flowing (अभि + स्रवण)	-	-	-
अधीतो :	Learned, read (अधि + इ)	शिकलेला, पढीक	पढेला, भणेला	विद्वान, पंडीत
अचना :	offering, worship (अर्चना)	अर्पण, पूजा	-	-
अधिद्वान :	Resting place, appointment staying, determination (अधिष्ठान)	जागां, नेमणूक, स्थापना, निर्धार	जागा, नेमणूक	नियुक्ति, स्थापना, निर्धार
अच्छो :	Clear, transparent (adj) (अच्छ)	पारदर्शक, प्रकाशभेद्य	-	-
अच्चारद्धो :	Very eager : very strenuous (adj) (अति + आरब्ध = रभ्)	उत्सुक	-	-
अच्चासन्नात्त :	Too great proximity (अति + आसन्न = सद् + त्व)	सान्निध्य	नजीकनुं	-
अच्छेरो :	Contracted form of (adj) accharing (अर्चना)	-	-	-
अच्छेको :	Unskiltul, ignorant, clumsy (adj) (अ + छेक)	अडाणी, बेढब	-	-

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्छरियो :	Wonderful : astonished	आश्चर्य	आश्चर्य	अजब
(adj)	marvellous (आश्चर्य)			
अच्छति :	To stay, remain, to settle down (आस्)	शांत होणे, स्थिर होणे	-	खामोश होना : रहेना
आधारो :	A support : a receptacle, a basin a round the foot of a tree to a retain water (आधार)	आधार	आधार	-
अधरो :	Lower, inferior (अधर)	खालचा, हलक्या दर्जाचा	-	-
अच्छरा :	A celestial nymph (अप्सरम्)	अप्सरा, परी	-	-
अच्छरा :	A moment; the snapping of finger; twinkling of an eye (अक्षर)	क्षण	-	-
अच्छन्नो :	Covered, hidden (आ + छन्न = छद्)	ढाकलेला, लपलेला,	-	-
अच्छम्भी :	Undaunted, undismayed (आ + स्तम्भ + इन्)	निर्भय	-	-
(adj)				

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अगम्य :	Having come to, having gone to, Having arrived at, by means of, on account of; according to, for the sake of (आ + गम्य =)	पोहोचल्यावर, मुळे, बरहुकूम	—	—
अधीते, अधीयते :	To read, to study (अधि + इ)	वाचणें, पढणें	वाचुं, पढुं	पढना, समझाना, खोजना
अधिद्वायको :	Suprintendent, director (अधिष्ठायक)	मुख्य अधिकारी, अध्यक्ष, देखरेख करणार	अध्यक्ष, अधिकारी	संचालक, अधिकारी, अध्यक्ष
अब्भुगच्छति :	to approach; to go to meet; to ascend, to go up (अभि + उद् + गम्)	पोहोचणें, जवळ जाणें, चढणें	—	—
अब्भोकासिको :	Living in the open air or in (adj) an open unsheltered space (आभ्यवकाशिक)	—	—	—
अब्भुगतो :	Having approached, gone to meet: Ascended (अभि + उद् + गत = गम)	—	—	—
अभिणहं :	Repeatedly (adv) (अभीक्षणम्)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिज्ञेय्यो : (adj)	That ought to be known (अभि + ज्ञेय += ज्ञा)	—	—	—
अभिनेति :	To bring to, conduct to (अभि + नी)	—	—	—
अभिनयो :	A dramatic representation (अभिनय)	—	—	—
आगमेति : (Caus)	To cause to come : to Communicate, to impart, to Wait (अ + गमयति + गम्)	कळविणें, देणें, वाट पाहणें	—	कहना, देना, ठहरना
अगदो :	Medicine, drug, medicament (अ + गद्)	औषध	दवा	दवा
अगामको : (Cadj)	Uninhabited (अ + ग्राम = क)	वसतिहीन	—	न वसा हुवा
अगलु :	Aloe Wood (अंगुरू)	—	—	—
आगहितो :	Seied, held : pulled (आ + गृहीत = ग्रह)	बळकाविलेले, ओढलेले	—	छीन लेना, खींचा हुवा
अधिकतरो : (adj)	Greater, superior (अधि + कतर)	मोठा, श्रेष्ठ	बडा, मोटा	बडा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अदो :	Eating, feeding on	जेवणें, पोट भरणें	जमवुं, जमाडवुं	खाना, खिलाना
(adj)	(अद)			
अदितो :	Afflicted oppressed	दुखविलेला	—	—
	(अर्दित = अर्द)			
अद्दो :	Wet, moist	ओलसर, आर्द्र	भिगु	गिला
(adj)	(आर्द्र)			
आदेति :	To take : to sieze : to receive	घेणें, बळकाविणें	—	—
	(आ + दयते = दय्)			
आदेशको :	Telling, informing	सांगणें, कळविणें	केवु	कहेना
(adj)	(आदेशक)			
आदेशो :	Information : direction	बातमी, सूचना	खबर	खबर
	order, injunction (आर्द्र)			
अच्चम्बिलो :	Very sour	अति आंबट	बहु खट्टा	बिहोत खट्टा
(adj)	(अति + अम्ल)			
अच्चगा :	See aceeti (अच्चेति)	—	—	—
अच्चगमा :	See (अतिगच्छति)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्चधानं :	Putting upon	—	—	—
(adj)	(अति + आ + धा + नं)			
अच्चदहति :	To put upon or over	ओढणें, ढाकणें	ओढवुं	ढकणा
(adj)	(अति + आ + धा)			
आचरियो :	A teachers : a professor : a scholar (आचार्य)	आचार्य, गुरुजी, पंडित, विद्वान	—	—
आचारो :	Conduct : practice : good manners (अति + अम्ल)	वर्तन	वर्तन	—
आचरति :	To live, to act, to perform, to treat, to practise (आ + चर)	करणें, वागणें, आचरणें	—	—
अचामो :	Scum of boiling rice (आचाम)	शिजणाया भातावरची खळ भाताची खरवड	—	—
अचलो :	Firm, steady, immovable (अ + चल)	अढळ, स्थिर, निश्चयी	—	—
आचमनं :	Rinsing the mouth, washing, cleansing (आचमन)	गुळणी करणें, चुळ भरणें, धुणें	कोगळा करवुं, धुवु	कोगळां करना, धोना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभ्यासो :	Near (अभ्याश)	जवळ	नजीक	नज़ीक
अभ्यासो :	Repetition, practice	अभ्यास	अभ्यास	—
अर्द्धो + अर्द्धो :	Half (adj) (अर्ध)	आरधा	अर्धु	अरधा
अर्द्धो :	Wealthy, rich (adj) (आढ्य)	श्रीमंत, धनाढ्य	श्रीमंत, पैसावाला	रहीश, पैसावाला
अर्द्धिको :	Journeying, travelling (adj) (अध्वन् + इक)	प्रवास करणें	—	—
अर्द्धयोगो :	Name of a sort of house (अर्ध + योग)	—	—	—
अर्द्धरात्रे :	Midnight (अर्ध + रात्र)	मध्यरात्र	—	—
अर्द्धतय्यो + :	Two & a half	—	—	—
अर्द्धतियो (adj)	(अर्ध + तृतीय)			

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अद्भनयो : (adj)	Lasting, going on continuing (अध्वन् + य)	टिकाऊ, चिरस्थायी	टकाऊ
अप्रेमानो : (adj)	Undeu confidence, undeu estimate of oneself (अधि + मान)	गर्व, अभिमानो	—
अधिमत्तं : (adj)	Exceedingly, excessively (अधि + मात्र)	अतिशय, अमर्याद	घणु
अधिमत्तो : (adj)	Excessive (अधि + मात्र)	अतिशय	—
अधिवासो : (adj)	Perfuming the person (अधिवास)	सुगंध लावणें	सुगंध लागावुं
अधिवत्थो : (adj)	Residing (अधि + वस्)	राहाणें	रहवुं
अधिकिच्च : (adj)	Referring to, relating to (अधिकृत = कृ)	लागू होणें	—
अधिमोक्खो : (adj)	Steadfastness, determination certainty, confidence, faith (अधि + मोक्ष)	निर्धार, निश्चय, विश्वास	—
अधिको : (adj)	exceeding, surpassing (अधिक)	जास्त, अधिक	जास्त, वधारे

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधिकोट्टन :	A chopping block, executioner's block (अधि + कट्ट)	ठोकळा	—	—
अदिन्नादानं :	Taking what is not given appropriation, theft (अध्वन् + इक)	चोरी करणें	—	अपनाना, चोरी करना
अधिप्पेतो :	Meant, intended, desired (adj) (अधि + प्र + इत = इ)	उद्देश, इरादा असणे	—	उद्देश करना, सुचित करना
अदिन्नादायी :	A thief, One who takes what is not given	चोर	चोर	चोर, तस्कर
अदीनवो :	Distress suffering, evil, (adj) guilt, disadvantage (आदीनव)	दुष्ट, मानसिक दुःख, विपत्ति, पापी	दुःख, क्लेश, पीडा, दुष्ट	क्लेश, पापी,
आदिको :	Beginning with, first initial (adj) (अदिक)	पहिला, प्राथमिक, प्रारंभ	पहिलो	आदिका, प्राथमिक, प्रारंभ
आदिमो :	First, initial (adj) (आदिम)	पहिला, प्राथमिक	—	आदिका, प्राथमिक
आदिच्चो :	The Sun (आदित्य)	सूर्य, रवि	सूर्य	सूर्य
आदिच्चपथो :	The sky, the heaven (आदित्य + पथ)	आकाश, स्वर्ग	आकाश, स्वर्ग	आकाश, स्वर्ग

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आदिब्रम्हचरियं : Fundamental morality as (adj) opposed to the details of practice to ritual (आदि + ब्रह्म + चर्य)	—	—	—
आदिच्चबन्धु : A name of Buddha as a member of a family of the solar race (आदित्य + बन्धु)	बुद्धाचे एक नाव सूर्याच्या कुटुंबा संबंधी	—	—
आदि : Beginning, starting point (आदि)	सुरवात, प्रारंभ	—	आरंभ, उद्गम
आढ्यो : Well-born, belonging to (adj) a wealthy family (आढ्य)	कुलवंत, श्रीमंत	कुलीन, श्रीमंत	कुलीन, ऐश्वर्यसे
अधुना : Now, just now (adv) (अधुना)	आतांच	—	अब, अभि
अधुनागतो : Just arrived, newly come (adj) (अधुना + आगत)	मुक्कामी पोहोचणें	—	पहुंचना
अधोसाखो : Having the branches (adj) downwards (अधस् + शाखा)	—	—	—
अधोठितो : Standing below, situated (adj) below (अधस् + स्थित्)	खाली बसलेला	नीचे बनेलु, करेलु	नीचे स्थापित
अदस्सनं : Not seeing, not meating with, disappearance concealment (अ + दर्शन)	अंतर्धान, गुप्तता	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आदो :	A locative of (आदि)	—	—	—
आदाता :	One who takes (आदातृ)	घेणे	—	—
आदातब्बो :	That ought to be taken (आदातण्य)	—	—	—
(adj)				
आदायी :	Taking (आ + दायिन्)	—	—	—
(adj)				
आदाति + :	to take = to recieve, to sieze	स्वीकारणे, मिळवणे	—	—
आददाति (adj)	(आ + दा)			
अद्दा :	Name of one of the Nakkhattas (आर्द्रा)	—	—	—
अद्दाब्बो :	Immaterial, abstract (अ + द्रव्य)	निराकार, गौण	—	—
(adj)				
अद्दक्खि + :	See पस्सति		—	—
अद्दस				
अद्दकं :	Green ginger (आर्द्रक)	आलं	अद्रक	अद्रक
अद्दद्दा :	Truely, certainly, surely, (अद्दद्दा)	खरोखर, निःसंशय	खरेखर	सच्च
(adj)	evidently			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अद्दा :	A Road ; distance : time	मार्ग, अवधि, काळ, अंतर	मार्ग, बखत्	रास्ता, वखत्
(adj)	(अध्वन्)			
अद्दगू :	A traveller	प्रवासी, वाटसरू	मुसाफीर	मुसाफीर
	(अध्वग)			
अद्दागतो :	One who has made	वयस्कर, म्हातारा	बुढो	बुढा
(adj)	a long journey, Aged			
	(अध्वन् + गत = गम्)			
अधिपति :	Lord, sovereign, master	मुख्य, प्रधान, मालिक, राजा	—	—
	(अधिपति)			
अभिभूतो :	Overcome, overpowered,	—	—	—
	subdued, vanquished			
	(अभि + भूत + भू)			
आभिधम्मिको :	Connected with or versed	—	—	—
(adj)	in the Abhidhamma			
	(अभि + धर्म + इक)			
अभावो :	Non existence : Absence	नास्तिक, अभाव, उणीव	—	—
	(अ + भाव)			
अभिच्छा :	Desire, longing	—	—	—
	(अभि + इच्छा)			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिभवनं :	Overcoming, vanquishing (अभिभवन)	—	—	—
अब्बति :	To go (अर्ब)	—	—	—
अभिहारो :	Bringing, offering (अभिहार)	—	—	—
अब्भाचिक्खति :	To accuse, to slander, to calumniate (अभि + आ + freq ख्या)	—	—	—
अब्भकं :	Talc, Mica (अभ्रक)	अभ्रक	अभ्रक	—
अब्बणो :	Unwounded (अ + व्रण)	वणरहित	—	—
(adj)				
अब्भागमनं :	Approaching, going to visiting (अभ्यागमन)	जवळ जाणें	—	—
अब्भाक्खानं :	Accusation slander, calumny (अभ्याख्यानं)	निंदा	—	—
अभिधानं :	Name, appellation, noun (अभिधान)	—	—	—

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिभासितो : Illumined (अभि + भास)	—	—	—
अभिभासति : To speak to, address (अभि + भाष्)	—	—	—
अभिभवति : To overcome : to attain, to master, to surpass (अभि + भू)	—	—	—
अभिभायतनं : Place or region of the vanquisher (अभिभू + आयतन)	—	—	—
अच्छादेति : To put on (आ + छद्)	कपडे घालणें	कपडा पेरवुं	कपडा पेहना
अभिभवो : Bring, overcome, defeat (अभिभव)	—	—	—
अच्छादनं : Covering; lid; curtain; clothes (आच्छादन)	आच्छादन, ढांकण, पडदा	ढाकणुं, कपडुं, पडदा	ढकणा
अच्चेति : To traverse : to surpaess : to conquer or overcome (अति + इ)	जिकणें	जीत	जीत

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अच्चायिको + : Irregular, Accidental :	अनियमित, अचानक, जरूरी	—	—
अच्चेको (adj) Pressing, urgent			
अच्चयो : Passing away, lapse of time, death, offence, sin (अत्यय)	मृत्यू, गुन्हा : कालगति	—	—
अभिगमनं : Approaching (अभिगमन)	—	—	—
अधिसेति : To lie upon : to lie, to sleep : to inhabit (अधि + शेते = शी)	पडणें, झोपणें, राहणें	लेटवानुं, रहेवानुं	लेटना, फलना, आश्रित होना
अभिधातब्बो : That ought to be declared (adj) (अभि + धातव्य = धा)	—	—	—
अब्भुदीरितो : Uttered (अभि + उद् + ईरित = ईर्)	उच्चारणें, बोलणें, म्हणणें	—	—
अभिभायतनं : Place or region of the vanquisher (अभिभू + आयतन)	—	—	—
अभिभू : Overcoming, mastering, vanquishing, surpassing (अभि + भू)	—	—	—
(adj)			
अदासो : Not a slave, a free man : freedman (अ + दास)	स्वतंत्र, स्वाधीन	—	—
(adj)			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आदासो + :	A mirror (आदर्श)	आरसा	शिसा	आयना, शिसा
अदासि :	See ददाति	—	—	—
आदरो :	Esteem, regard : respect, affection, devotion (आदर)	आदर	आदर	—
आदानं :	Taking appropriating, seizing : desire, attachment, clinging to the world (आदान)	बळकावणें, पकडणें, अभिलाषा, इच्छा,	आशा, इच्छा	उमीद, तमन्ना
आदरणीयो : (adj)	Estimable, deserving of respect (आदरणीय)	माननीय, पूजनीय	माननीय, पूज्य	—
अदनं :	Eating (अदन)	खाणें, जेवणें	जमवुं, खानुं	खाना
अदा :	See ददाति	—	—	—
अचिरो : (adj)	Short, brief (अ + चिर)	संक्षिप्त, थोड्या अवधीचा	—	—
आचितो :	Heaped up, collected (आ + चित = चि)	पुष्कळ साठविलेले	घणु भेगु करेलु	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अचिरप्पभा :	lightening (अचिर + प्रभा)	वीज	—	—
अचित्तेष्यो + :	Inconceivable,	अमर्याद, असंख्य	—	—
अचिन्तियो (adj)	incomprehensible, infinite (अ + चिन्त् + एय + य)			
अधिपन्नो :	Caught, seized : assailed (अधि + पन्न = पद्)	पकडले जाणें, हल्ला होणें	—	—
आधिपतेष्यं :	Influence, rule, supremacy (अधिपति + एय)	प्राधान्य, वशिला, अज्ञात शक्तिवा परिणाम	—	—
अधिसक्कारो :	Honour, hospitality, festivity (अधि + सत्कार)	आदरसत्कार, मान, मौज, उत्सव	—	सन्मान, उत्सवकाल, प्रसन्न
अधिरोहिणी :	A ladder (अधिरोहिणी)	शिडी, निसन, दादर	शिडी, पगथिया	निश्रयिणि (निसेनी)
अधिवासो :	Dwelling, residence : Consent acceptance (अधिवास)	वास, वास्तव्य, मान्यता	निवासस्थान, मकान	निवासस्थान, मान्यता, मकान
अधो :	Under, below, down, low (adv, + prep.) down (अधस्)	खाली, ताब्यांत	नीचे, काबुमा	नीचे, कम, आधीन
अधीरो :	Confused, embarrassed, (adj) timid, irrsolute (अ + धीर)	गोंधळ, भ्याड, बुजट	—	घबडना, व्याकुल करना, दरपोक
अधिपो :	Lord, king, master, nuler (अधि)	महाराज, यजमान, स्वामी	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अधोमुखो : (adj)	Looking downwards, with head bent down (अधस् + मुख)	—	—	—
अदोसो :	Not an offence, absence of guilt (अ + दोष)	निर्दोष, निष्पापी	—	—
अधोगमो : (adj)	Descending (अधस् + गम)	—	—	—
अदृष्टो :	Unseen (अदृष्ट = दृश्)	अदृष्ट	अदृश्य	अदृश्य
अधोगामी : (adj)	Descending (अधस् = गामिन्)	खाली जाणें	नीचे जावुं	नीचे आना
आधूतो :	Shaken (आधूत = धू)	हलविलेला	—	दिलाना
अधोभुवनं :	The lower region, the Naga world, Patala (अधोभुवन)	पाताळ, नरक	नरक	पाताळ
अधोभागो :	The lower part (अधम् + भाग)	खालचा भाग	नीचेनुं भाग	नीचेका भाग

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अदुःखमसुखा :	Indifference to pain, insensibility (अ + दुःख + सुख)	बेपर्वाई, समता	—	उपेक्षा, समभाव
अभिमानो :	Pride, wisdom (अभिमान)	—	—	—
आगच्छति :	To come, approach, to arrive, to return (आ + गम्)	पोंचणें, जवळ जाणें, येणे	—	समीप जाना, वापस लोटणां
अगा :	See इति	—	—	—
आबद्धो :	Fastened, joined : united, attached (आ + बद्ध = बन्ध)	जोडलेले, बांधलेले	बंधेलु	बांधेला
अदुं :	See अमु	—	—	—
अभया :	The plant Terminalia citrina (अ + भय)	—	—	—
अभावो :	Non, existence, absence (अ + भाव)	अभाव	—	—
अभिख्या :	Name, beauty, splendour, glitter (अभिख्या)	—	—	—
अभवो :	Decrease, decay, misfortune (अ + भव)	न्हास, उतरता, पाया, तूट	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभयो :	Fearless	अभय	—	—
(adj)	(अ + भय)			
अभिरति :	Delighting in, delight	आनंद मानणें	—	—
	(अभिरति)			
अभिरतो :	Devoted to, delighting in	—	—	—
	(अभिरत् = रम्)			
अभिरामो :	Delightful	—	—	—
	(अभिराम)			
अभिराजा :	A Supreme king	—	—	—
	(अभि + राजन्)			
अभिरम्मो :	Delightful	रम्य	—	—
(adj)	(अभि + रम्य = रम्)			
अभिरूतं :	Sound	आवाज, ध्वनि	—	—
	(अभिरूत = रू)			
अभिरमति :	To delight in	—	—	—
	(अभि + रम्)			
अभिरूपो :	Beautiful, handsome	सुंदर	—	खुबसुरत
(adj)	(अभिरूप)			

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिरूहति, : To ascend, to mount अभिरूहति	चढणें	—	—
अभिरोहति (adj) (अभि + रुह)			
अभिसज्जति : To be angry : to scold	रागावणें	—	—
अभिसद्दहनं : Firm faith or belief	विश्वास, श्रद्धा	—	—
अभिसद्दहति : To have firm faith, believe fully (अभि + श्रत् + धा)	पूर्ण विश्वास	—	—
अभिसम्बोधि : Perfect understanding infallible knowledge (अभि + सम् + बोधि)	—	—	—
अभिसमेति : To penetrate, comprehend, gain a full knowledge of (अभि + सम् + आ + इ)	संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करणें	—	—
अभिसम्बुद्धति : To gain perfect knowledge of (अभि + सम् + बुध)	—	—	—
आभिसमाचारिकः : Minor duties (अभि + समाचार + इक)	लहानसहान कर्तव्ये (सेखिय धम्मं)	—	—
अभिसमयो : Penetration, comprehension, clear understanding (अभि + समय)	—	—	—

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिसम्बुद्धो : Perfectly known, enlightened (अभि + सम् + बुद्ध = बुध्)	—	—	—
अभिसम्भुणोति +: To obtain णाति (अभि + सम् + भृ)	मिळविणें	—	मिलाना
अभिसन्धि : Intention (अभिसंधि)	मतलब, बेत	—	—
अभिसारिका : A woman who carries on an intrigue (अभिसारिका)	—	—	—
अभिसङ्करणं : Preparing, forming, effecting : pergetting : accumulation (अभि + सम् + कृ + अन)	—	—	—
अभिसङ्गो : Curse, imprecation (अभिषङ्ग)	शाप	—	गालि
अभिसम्मतो : Fully approved : honoured, prized (अभि + सम् + मत = मन्)	—	—	—
अभिसम्परायो : Future state, futurity (अभि + संपराय)	भविष्यकाल	—	—

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिसन्धेति :	To rain upon, to drench (अधि + स्यन्द्)	—	—
अभिसंयुतो :	Fitted out, equipped (अभि + सम् + युत = यु)	तयार	—
अभिसन्नो :	Rained on, drenched (अभि + स्यन्न = स्यन्द्)	—	—
अभिसङ्करोति :	To prepare, to form, to offcet, to perfect (अभि + सम् + कृ)	—	—
अभिसङ्गारो :	forming, effecting, perketing : accumulation of karma, merit & demerit : idea, conseption fancy (अभि + संस्कार)	—	—
अभिराधेति :	To content to Satisfy (Caus) (अभि + राधयति)	—	—
अभिसङ्गतो :	Prepared, formad : well-made, perfected (अभि + सम् + कृत = कृ)	—	—

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिपूजेति :	To offer, to present with (अभि + पूज्)	—	—
अभिपत्थेति :	To desire, to long for, to pray for (अभि + प्र + अर्थ)	—	—
अभिपीळितो :	Oppressed, afflicted (अभिपीडित = पीड्)	—	—
अब्धोकासो :	The open air : an open space (अभि + अवकाश)	रिकामी जागा	—
अभिञ्जो :	Knowing, conversant with (अभिज्ञ)	तज्ज्ञ	—
(adj)			
अभिञ्जातो :	Known, well-known, distinguished, remarkable (अभि + ज्ञान = ज्ञा)	—	—
अभिन्नो :	Undivided, not different, (adj) identical (अ + भिन्न = भिद्)	—	—
अभिनिमन्तेति :	To invite = to present with (अभि + नि + मन्त्र्)	आमंत्रणे	—
अभिधम्मो , :	Higher doctrine transcendental	—	—
अभिधम्मं	doctrine, metaphysics		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिलिप्तो :	Smearred : stained, polluted (अभि + लिप्त = लिप्)	—	—	—
अभिलेपनं :	Smearing : pollution (अभि + लिप)	—	—	—
आभाकरो :	The Sun (आभा + कर)	सूर्य, प्रभाकर	—	सूरज
आभरणं :	Ornament, decoration (आभरण)	आभूषणें, अलंकार, शोभा, जवाहरात	—	—
अभब्बो :	Unable (अ + भष्य = भू)	असमर्थ	—	—
(adj)				
अभब्बता :	Nonliability : inability (अभव्य + ता)	असामर्थ्य, नालायकी	—	—
अब्बुतो :	Undisciplined	अशिस्त	—	—
(adj)				
आभा :	Splendour, radiance, light (आभा)	शोभा, काँति, तेज	—	रोशनी

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अब्बुद :	One of the high numerals followed by fifty-six ciphers : a canker, stain : sore (अर्बुद)	—	—
अभिक्रमति :	To go forward, to advance, to approach (अभि + क्रम्)	—	—
अभिनिवेशा :	Adhering to : inclination to (अभिनिवेश)	—	—
अभिनिविसति :	To settle down : to devote oneself to (अभि + नि + विश्)	—	—
अभिनिसीदति :	To sit down (अभि + नि + सद्)	—	—
अभिलावो :	Cutting, reaping (अभिलाव)	—	—
अधमण्णो :	A debtor (अधमर्ण)	देणेकरी, ऋणकों	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिवृत्तो :	Advanced : having approached (अभि + क्रान्त = क्रम्)	—	—	—
अधम्मिको : (adj)	Irreligious, wicked	अधार्मिक, दुष्ट	—	दुष्ट
अधम्मो :	Wrong, injustice, unlawfulness : false doctrine : unrighteousness	अन्याय, अयोग्य, अनैतिक	—	—
आभतो :	Brought, carried, conveyed (आ + भृत = भृ)	वाहणें, पोंचविणें, नेणे	—	—
अधमो : (adj)	Lowest, very low : vile : incomplete imperfect (अधम)	नीच	नीच	—
अभिगच्छति :	To go to, to approach (अभि + गम्)	—	—	—
आबद्धहती :	To be bound (आ + बध्यते = बन्ध्)	बांधले जाणे, बंधन	—	—
अभिलापो :	Speaking to, talking (अभिलाप)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आबाधो :	Illness, sickness disease (आबाध)	आजार	बिमारी	बिमारी
अभिलासी : (adj)	Desirous (अभिलाषिन्)	—	—	—
अभिलंविखतो :	Marked, characterised, distinguished (अभिलक्षित = लक्ष)	—	—	—
अभिक्खणं :	Repeatedly (अभीक्षणम्)	—	—	—
अभिलभति :	To obtain receive (अभि + लभ्)	—	—	—
अभिनीहरति :	To turn, to direct (अभि + निस् + ह)	—	—	—
अभिनिब्बत्तो :	Reborn in another existence (अभि + निस् + वृत्त = वृत्)	—	—	—
अभिनिब्बत्तति :	To be reborn in another existence (अभि + निस् + वृत्)	—	—	—
अभिनिब्बति :	Re-birth in another existence (अभि + निवृत्ति)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अबद्धमुखो :	foul-mouthed, scurrilous (अबद्ध + मुख)	अभद्र मुख	—	—
अभिभवो :	Being over-come defeat (अभिभव)	—	—	—
अभिमत्थति :	To grind to crush (अभि + मथ्)	—	—	—
अब्भानं :	Rehabilitation of a priest who has undergone parivasa for an expiable offence (अभि + आयन)	—	—	—
अभिनिक्खमति :	To go out, to depart (अभि + निस् + क्रम)	—	—	—
अभिनीहारो :	Earnest wish or aspiration (अभि + निस् + हार)	—	—	—
अभिनादेति :	To fill with noise (अभि + नादयति = नद्)	—	—	—
अभिनन्दति :	To be pleased with, to approve of, to welcome, to, rejoice at, to delight in (अभि + नन्द्)	—	—	—
अभिठानं :	Crime, deadly sin (अभि + स्थान)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आचिनति :	To heap up, to accumulate	संग्रह करणें	भेगु करवुं	एकट्टा करना
आचिक्खति :	To tell, to announce : to show, inform	जाहीर करणें	—	—
आचिक्खनं :	Telling, Showing	सांगणें, दाखवणें	केवुं, बतावुं	कहेना, बताना
आचिण्णो :	Practiced, performed : Sanctioned enjoined (आचीर्ण = चर्)	आचरणें, करणें	—	—
अभितोसेति :	to gratify, to reward (caus) (अभि + तोषयति = तुष्)	—	—	—
अभित्थवति :	To praise (अभि + स्तु)	—	—	—
अभित्थरति :	To make haste (अभि + त्वर)	—	—	—
अभित्थुतो :	Praised (अभि + स्तुत = स्तु)	—	—	—
अभिवादनं + :	Respectful Salutation	—	—	—
अभिवादना				
अभिवद्भुति :	To increase, to grow (अभि + वृध्)	वाढणें	बढणा	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिवदति :	To say, to declare (अभि + वद्)	—	—	—
अभिवादेति :	To salute, to greet (अभि + वादयति = वद्)	—	—	—
अभिवदनं :	Respectful salutation (अभि + वन्द्)	—	—	—
अभिविजति + जेति :	To overcome, to conquer (अभि + वि + जि)	जिंकणे	—	—
अभिवन्दति :	To salute respectfully	—	—	—
अभिविनयो :	Higher discipline the subtleties and Vinaya (अभि + विनय)	—	—	—
अभिवुद्धि :	Increase, growth, prosperity (अभि + वृद्धि)	वाढ, भरभराट	—	—
अभियाति :	To approach, to attack (अभि + या)	पोचणें	—	—
अभियाचति :	To entreat, to ack, to request (अभि + याच्)	विनंती करणें	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभियोगो :	Charge, accusation	आरोप	—	—
अभिक्लन्तो :	Withered, exhausted (अभि + क्लान्त + क्लम्)	—	—	—
अभिनिक्रमनं :	Going out, departing; retiring from the world to devote oneself to an ascetic life (अभि + निष्क्रमण)	—	—	—
आभाति :	To shine (आ + भा)	शोभणें, चकचकणें	—	—
अभिनिम्ननं :	Creating	—	—	—
अभिनिपज्जति :	to lie down (अभि + नि + पद्)	—	—	—
आभस्सरो :	Shining, radiant (adj) (आ + भास्वर)	तेजस्वी, चमकणारा (चकचकीत)	—	—
आभिमुख्यं :	Front direction, towards (आभिमुख्य)	—	—	—
अबद्धमुखो :	Foul mouthed (अबद्ध + मुख)	दुर्गाधि तोंड किंवा मुख	—	—
अत्रद्धो :	Not bound, senseless, unmeaning (अ + बद्ध = बन्ध)	निरर्थक	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अब्भासो :	Repetition, practice (अभ्यास)	—	—	—
अब्भत्थं :	Setting, declining, perishing (अभि + अस्त)	—	—	—
अब्भानुमोदनं :	Rejoicing, thanks giving, praise (अभि + अनु + मुद + अन)	मौज करणें, समारंभ	—	खुषी मनाना, दावत
अब्भन्तरो :	Internal, inner (adj) (अभ्यान्तर)	आतील	अंदरनु	भितरका
अब्भञ्जनं :	Anointing (अभि + अञ्जन)	लावणें, चोळणें	लगाडवुं, चोळवुं	लगाना
अब्भन्तरं :	Interval, interior (अभ्यन्तर)	अन्तर	अंदरनु	अंदर
अभिनीलो :	Very black (adj) (अभि + नील)	—	—	—
अभिञ्जा :	Become cognisant of (अभिज्ञाय = ज्ञा)	—	—	—
अभिन्नको :	Not schismatic, orthodox; (अ + भिन्न = भिद + क)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिज्ञा :	Higher Knowledge, Supernatural knowledge or faculty (अभिज्ञा)	—	—	—
अभिज्ञाणं :	Sign, token (अभिज्ञान)	—	—	—
अभिधीयति : (pass)	To be declared, to be pointed out (अभि + धीयते = धा)	—	—	—
अभिधेय्यो : (adj)	To be declared, pointed out denoted, meant (अभिधेय = धा)	—	—	—
अब्बहती :	To take away, to remove (आ + बृह)	—	—	—
अब्बं :	One of the high numerals, one followed by seventy- seven ciphers (अर्थ)	अब्ज	—	—
अबलं :	Weakness (अ + बल)	—	—	—
अब्भेति :	To restore, a priest who has been degraded for an offence (अभि + आ + इ)	—	—	—
अबलो :	Weak (अबळ)	अशक्त	नबळो	कमजोर

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिमुदा :	Joy (अभि + मुदा)	—	—	—
अभिरूहणं :	Ascending, mounting (अभि + रुह + अन)	चढणें	—	—
अभिमुखो : (adj)	Facing towards, opposite (अभिमुख)	—	—	—
अभिरुचितो :	Pleasing, agreeable, liked (अभिरुचित = रूच)	मनपसंत	—	—
अभिमङ्गलं :	High festival, solemnity (अभि + मङ्गल)	—	—	—
आभोगो :	Fulness, plenty, thought, reflection (आभोग)	मुबलक, विपुल	—	—
अभिमदितो :	Crushed, trampled, over thrown (अभि + मर्दित = मृद)	—	—	—
आभुजी :	Name of a tree Bhujpatra (आ + भुज + ई)	—	—	—
अभयं :	Safety : protection from danger (अ + भय)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभूतो :	That has not been that is not false (अ + भूत = भू)	—	—	—
(adj)				
आभुजति :	To bend, to turn in (आ + भूज)	वाकणें	—	—
अधिप्यायो :	Intention wish, meaning, thought	इच्छा, विचार	इच्छा	इच्छा
अब्धं + अब्धो :	A cloud; sky : atmosphere (अभ्र)	ढग, आकाश	बादल, आकाश	बादल
अभिनिक्खमो :	Going out : retiring from world for ascetic purpose (अभि + निष्कम)	—	—	—
अभिनिनीयति :	To hide oneself, to lie hid (अभि + नि + ली)	—	—	—
अभिनिष्फादेति :	To effect, to accomplish, to succeed (अभि + निस् + पद्)	—	—	—
अभिनिन्नामेति :	To turn, to direct (अभि + निस् + नम्)	—	—	—
अब्भुज्जलनं :	Spittit fire (a juggler's trick) (अभि + उद् + ज्वलन)	धगधगणारी ज्योत किंवा आग	—	—

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिनिम्मनाति : To create, to cause to appear – + अभिनिम्माति by supernatural power (अभि + निस् + मा)		–	–
अद्भुतधम्मो + : A mysterious phenomenon धम्मं : or condition (अद्भुत + धर्म)	अद्भुत चमत्कार	–	–
अद्भुतो : Hidden, mysterious, (adj) wonderful : astonished (अद्भुत)	गूढ	–	–
अद्भोच्छिन्नो : Unbroken (adj) (अ + वि + अब + च्छिन्न)	अभंग, अखंड	–	–
अद्भुतो : The Marvellous (अद्भुत)	अद्भुत, आश्चर्यकारक, चमत्कारिक	–	–
अभासनं : Silence (अ + भाषण)	मौन	–	–
आबाधिको : affected with illness (आबाध + इक)	आजारी	बिमार	बिमार
अद्भुतकृटिको : unfrowning, genial (adj) (अ + भ्रुकृटि + क)	चिडखोर नाही म्हणजे आनंदी	–	–
अभिलासो : Desire (अभिलाष)	अभिलाषा, ईच्छा	–	तमन्ना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभितो :	Near, in the presence of, (adv) on both sides (अभितस्)	—	—	—
अभिततो :	Scorched (अभि + तप्त)	—	—	—
अभिस्सवनं :	fowing, dripping (अभि + स्रवण)	—	—	—
अभिसुणोति :	To hear, to listen to (अभि + श्रु)	—	—	—
अभिसङ्गो :	Attachment (अभिष्वङ्ग)	—	—	—
अभिसेको :	Sprinkling (अभिषेक)	—	—	—
अभिसेचनं :	Sprinkling: inauguration of a king (अभिषेचन)	अभिषेक	—	—
अभिसेचेति :	To cause to be sprinkled or inaugurated (अभि + सेचयति = सिच्)	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभितप्पेति :	To satisfy thoroughly (अभि + तर्पयति = तृप)	—	—	—
अधिमुक्ति :	Inclination, disposition : intention, will, confidence, faith, (अधि + मुक्ति)	मनाचा कल, बेत, इच्छा	—	—
अधिमुच्चति :	To be determined : intent upon : have faith in (अधि + मुच्यते)	निर्धार किंया निश्चय करणें	—	—
अधिनुत्तो :	Inclined, disposed, intent upon, resolved for, bent upon (अधि + मुक्त = मुच)	संकल्पित, निश्चित	—	—
अधीनो : (adj)	Subject, dependant, servile (अधिन)	परस्वाधीन, ताबेदार	—	—
आधिपच्चं :	Sovereignty, lordship supreme rule (आधिपत्य)	मुख्य अधिकार, अधिराज्य	—	—
अधिनाथो :	Lord, chief, governer (अधि + नाथ)	धनी, प्रमुख	—	—

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनाथपिण्डको : Feeds the poor. Surname of an eminent disciple of Buddha : his name was Sudatta	गोरगरिबांना पोसणारा, अन्न वगैरे पुरविणारा : भगवान बुद्धांचा अत्युच्च आणि थोर असा शिष्य - सुदत्त नावाचा	गरिब माणसना भरण पोषण करनार - भगवान बुद्ध ना एक प्रख्यात शिष्य. सुदत्त नामना.	गरिब और दुर्बल लोगों को भोजन करानेवाले, सहाय्य देनेवाला : भगवान बुद्ध के परम श्रेष्ठ अनुयायी. जिनका नाम सुदत्त था.
अनाथो :	Helpless, forlorn, destitute	दुर्बल, दुबळा, अनाथ, निराधार, निराश्रित	निराधार, निराश्रय, निराश्रित
अनादरियं :	Disregard, disrespect, unkindness	अनादर, अवमान, अपमान, अकृपाळू, अप्रिय, निर्दय, कठोर	उपेक्षा करना, अनादर, अशिष्टता, निर्दयी, क्रूर
अनादरो : (adj.)	Disrespectful, careless, reckless, bold	अपमानकारक, निष्काळजी, बेपर्वा, अविचारी, धाडसी, बहादूर, हिंमतवान, साहसिक निर्भिड.	असभ्य, अशिष्ट, असावधानी, साहसी, पृष्ट
अनादरो :	Disregard, disrespect, conempt, carelessness, indifference	अनादर, अपमान, अवमान, आज्ञाभंग, तिरस्कार, धिक्कार, बेपर्वाई, अनास्था, गफलत, निष्काळजीपणा.	अनादर, तिरस्कार, घृणा, उपेक्षा, असावधानी, उदासिनता, अपक्षपात

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनादानो :	Free from attachment or	आसक्ती नसलेले, अनासक्ती	अनासक्ति, अनिच्छ	अनुराग सिवाय (अनासक्ती)
(adj.)	desire	अनिच्छ, अनपेक्ष		इच्छा, आकांक्षाविना
अनानियन्तो :	Without minding,	निश्चित, बेहरकत, लक्ष न देता, चित्त अथवा ध्यान बगर,		बुद्धि बिना, ध्यान
(adj.)	without attending.	हजर न रहाता, निष्काळजी	ध्यानसिवाय, गैरहजर	सिवायका.
अनापत्ति :	Free from guilt, innocent	निरपराधी, निष्कलंक, निर्दोषी	निर्दोष, निरपराधी, गुन्हा,	निर्दोष, निरपराधी,
(adj.)			विनानु, निष्कपटी	निष्कलंक, अदोष
अनापत्तिको :	Free from guilt	निष्पापी, निर्दोषी, निरपराधी	निर्दोष, निरपराध	निरपराधी, निर्दोष,
(adj.)				निष्कपट
अनापुच्छा :	Without asking, Leave	परवानगी शिवाय, आज्ञे	रजा बगर, परवानगी बगर,	अनुमति बिना,
	without permission.	शिवाय, रजे शिवाय.	आज्ञा बगर.	आज्ञा बिना
अनामयो :	Free from illness, healthy	निरोगी, आरोग्य, तन्दुरस्ती	निरोगी, तंदुरस्ती	आरोग्यकर
(adj.)				
अनामिका :	The ring finger	आंगठा सोडून, हाताचे तिसरे	तिजी आंगळी	हातकी बीचली अंगुली
(f.)		बोट, करंगळी जबळील बोट,		
अनारतो :	Continual	नित्य, निरंतर, सतत	सतत, नित्य, निरंतर	सतत, निरंतर
(adj.)				
अनालयो :	Free from desire or	आसक्ति नसणे, अथवा	आसक्ति बगरनुं.	आसक्ति या अनुराग बिना
(adj.)	attachment	अनासक्ति		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनावटद्वारता : (f.)	Not closing the door against another accessibility, openhandedness	सुगम, सुलभ, सहज, सवधर, उदार, हाताचा सुटा	सुगमता, सगवडता, उदार.	प्रवेश, समीप, पहुँच, मार्ग, उदार, दानी.
अनाविलो : (adj.)	Clear, pure, untroubled, serene	निरभ्र, स्वच्छ, साफ, उघड, निर्मळ, पवित्र, शांत, संध.	स्वच्छ, शुद्ध, निर्मळ, चोखुं, पवित्र, शांत, स्वस्थ.	विमल, चमकीला, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, निर्मल अनुद्विघ्न, शांत, स्थिर.
अनासका : (f.)	Fasting	अन्नावाचून राहणे - असणे, उपवास, उपोषण, निरशन	अनशन व्रत पाळवु अपवास, उपवास	उपवास, अनाहार.
अनासवो : (adj.)	Free from human passion.	मनोविकार (राग, कोप, क्रोध) पासून मुक्त	मनोधर्म (क्रोध, घुस्सो, प्रेम) थी मुक्त, अनासक्त	मनोभाव (प्रेम, क्रोध, लालसा) विरहित
अनाहारो : (adj.)	Without food, fasting	अन्नावाचून राहणे, उपोषण, उपवास करणे, निराहार	उपवास करवा, अन्ननो त्याग करवो. अनशन व्रत पाळवु	उपवास करना, आहार न करना
अनिकट्टो : (f.)	One of the king's body guard, a life gaurdsman	राजाचा एक रक्षक	राजानो रक्षक, अंगरक्षक	नरपति का शरीररक्षक, प्ररक्षक, भूपालकका प्राणरक्षक, शरीररक्षक
अन्चिता : (f.)	Impenmance, instability, mortality, death	अनित्यता, अस्थैर्यता, मनुष्यत्व, मर्त्यत्व, मृत्यु.	अशा श्वतता, चंचलता, नाश, मृत्यु, मरण, अनित्यता, अदृढता, मोत, अंत.	अनित्यता अशा श्वतता, अस्थिरता, नशत्व, चंचलता, अस्थिरता, मरण, मृत्यु, नाश

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनिच्चो :	Not lasting, transitory	अटिकाऊ, नाशवंत,	टकाऊ, नहि ऐकं, चिरस्थायी	अनित्य, अस्थिर, क्षणिक,
(adj.)	perishable.	क्षणभंगुर, क्षणिक	नही ऐकं, क्षणिक, क्षणभंगुर,	भंगुर, नाश होने
			अनित्य, नाशवंत, अस्थिर,	योग्य.
			नाशपामे ऐकं, मरी जाय	
			तेनुं नाशवंत	
अनिच्छितो :	Not desired,	अनिच्छ,	अप्रिय, अरूचकर, नापसंद,	अनिच्छिता,
(adj.)	disliked,	नावड,	खुशीकारक नहीं एकं,	अप्रिय,
	unpleasing	अप्रिय, नापसंत	आनंद प्रमाडे नहीं तेवुं,	अरोचक
अनिदस्सनं :	The unseen,	न दिसणारा,	अदृश्य, अदृष्ट	अदृष्य,
	Nirvana	अदृष्ट, निर्वाण		न देखा हुवा
अनिष्फलो :	Not fruitless,	सफल, लाभकारक	सफल, लाभदायक, इनाम,	सफल, पुरस्कार देने योग्य
(adj.)	not without reward	बक्षीस, देणगी, मोबदला	बक्षीस अपवा, जेवुं	पारितोषक, प्रतिफल देने योग्य
अनिबिबद्धो :	Not traversed,	न ओलांडणे (लेला),	- -	आरपार न जानेका रस्ता,
(adj.)	not a thoroughfare	न तुडविलेला,		आरपार जाना मना है
		अरहदारीचा रस्ता,		ऐसा मार्ग
				अथवा रस्ता असामान्य सडक
अनिमित्तो :	See निमित्त	- -	- -	- -
अनिमिसो :	Not winking the eyes.	डोळा न मिचकावणे,	पलकारो नहीं करवुं,	पलक मारना नहीं,
(adj.)		डोळा न मारणे		चक्षु संकोचना नहीं,

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनिस्सतो :	Uncertain	संदिग्ध, बिनभरंवशाचा, साशंक,	अनिश्चित, अचौकस	अनिश्चित, संदिग्ध,
(adj.)	doubtful	संशयास्पद, अनिश्चित	शकविनानुं	संदेह युक्त, स्पष्ट
अनियमो :	Uncertainty	अनिश्चित, अनिश्चय,	अनिश्चय, संदेह	अनिश्चय, अनिर्णय
		संदेह, संशय		
अनिलो :	Wind	वारा, हवा, वायु	पवन, हवा,	हवा, साँस, वायु (पवन)
			वायुं,	वायुरोग
अनिसम्मकारी :	Acting inconsiderately, or	अविचाराने वागणे,	अविचारार्थी वर्तववुं.	अविवेकी - प्रमत्त -
(adj.)	recklessly.	बेपर्वाईने, निर्धास्तपणे वागणे	बेपर्वायीथी काम करवुं,	असावधानी व्यवहार करना,
अनिस्सयो :	Without supplies,	पुरवठा अथवा बेगमी शिवाय,	उजाड, शुष्क, अफळ	संचय बिना, व्यर्थ, निष्फल,
(adj.)	baren, desolate.	नापीक, ओसाड, व्यर्थ,		निर्जन, असहाय
		निर्जन, उध्वस्त		
अनिस्सामनको :	Not envious	मत्सर भाव नसणे,	- -	ईर्ष्यालि नही
(adj.)		हेकेखोरपणा नसणे		
अनीको, :	An army,	लष्कर, फौज,	लष्कर, सैन्य, फोज,	सैन्य, सेना,
अनीकं :	a host	सैन्य, झुंड	टाळकुं, समुह	समुदाय
अनीतिको :	Free from distress or	दुर्दशा, दुःख	अपदा बगरनुं,	पिडा बिनाका, निदुःख :
(adj.)	Calamity	विपत्ति, या पासून मुक्त	विपत्ति वगननुं	दुर्भाग्य बिनाका
अनीधो :	Free from suffering,	दुःखरहित, बेनुकसान,	दुःख, पीडी सिवायनु, संकट	क्लेश अथवा पीडारहित,
(adj.)	uninjured, scathless	नुकसानी न झालेला	वेदना व्यथा वगरनुः सही	चोट न लगा हुवा
			सलामत, सोबुत अतिशुद्ध	हानि रहित

(Marathi)

अनुं : After, under : less than : for : – –
 (adv. & Prep.) according to : along : again :
 in consequence of

अनुबन्धति : To follow, – –
 to pursue :
 to wait upon,
 minister to :

(Gujarathi)

त्यो पछीनुं पाछळ, पछी
 नीचे तले. आधीबस्तं वधारे
 ओछुं थोडुं नानुं उतरतु
 वास्ते काजे बदले खातर
 प्रमाणे अनुसार लांबु अने
 लांबु आगळ अने आगळ
 फरीथी बीजीवार एकवखत
 वधारे, परिणता, फळ, अर्थ
 कार्य.

पाछळ जनुं-चालक अनुयायी
 थवुं, ताबे थवुं, नी पाछळ
 पडवुं, बी पाछळ मंडवुं केडो
 लेवो, शह जोवी खोटी थवु
 वाट जोवी. बरदास करवी
 सेवा करवी चाकरी उठाववी
 कारभार करवो.

(Hindi)

पीछे अनुसरणमें, बाद में
 विषयमें अनुसार पदमें नीचा,
 नीचे तले कम आधीन न्यून,
 अल्प, कम अल्प मात्रामें, छोटा
 अंश, वास्ते लिये हेतुसे निमित्त
 विषयमें उद्देश्य से, अनुसार
 समान/बराबर साथसाथ, एक
 ओरसे दुसरी ओर ओरतवू
 फिर और भी अतिरिक्त
 विपरीत इस कारण से इस
 हेतु से
 आश्रय करना, अनुकरण
 करना, पीछा करना, अनुकरण
 करना, आज्ञा मानना,
 अनुकरण करना, पीछा करना,
 शिकार करना, खोजना, प्रतीक्षा
 करना, ठहरना, राह देखना
 स्थिर रहना, नौकरी करना,
 अनुकरण करना, सहायत देना,
 सेवा करना, प्रबंध करना.

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनुबन्धो :	Uninterrupted succession : consequences.	अटकाववुं नहीं बंध पाडवुं नहीं क्रम अनुक्रम हार एक पछि एक आववुं ते : परिणाम फळ हांसल अर्थ कार्य.	अबाध्य, निविघ्न, अभंग, अनुक्रम, परम्परा श्रेणी पंक्ति वंश उत्तराधिकार फल परिणाम महिमा प्रभाव
अनुभवति :	To feet,	लागवुं स्पर्श करवो, जणावुं देखवुं भागेववुं मोज शोक माणेवा, अनुभववुं लाभ लेवो, भाग लेवो, भागीदार थवुं, सामेल थवुं, सामेल होवुं मिळववुं, प्राप्त करवुं, संपादन करवुं, लेवुं, स्वीकारवुं, अंगीकार करवो, पामवुं आंगता स्वागता करवो परोणागत करवो.	स्पर्श का अनुभव करना, मालूम करना, दया करना उपभोग करना आनंद लेना चैन करना अंश बाँटना हिस्सेदार होना प्रतिपादन करना, प्राप्त स्वीकार करना (लेना), प्रवृत्त होना, सामना करना, सत्कार करना, आदर करना, सुनना मिलाना
अनुभोति :	to enjoy : to partake of : to obtain, is receive.	भाग लेवो, भागीदार थवुं, सामेल थवुं, सामेल होवुं, सुख भोग आनंद, मौजमजा, विलास विहार.	अंश बाँटना, हिस्सेदार होना आनंद उपभोग
अनुभवनं :	Pantaking of, enjoyment		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनेकधा :	In many ways	अनेकदा, अनेक मार्ग,	घणा मार्ग, दिशा, पंथ.	सर्वथा, बहुत मार्ग,
(adj.)		अनेकरित्या अनेक तन्हा.		अनेक पद्धति, उपाय.
अनेकविधो :	Of many sorts,	अनेकविधि,	अनेक प्रकारना,	अनेक प्रकार,
(adj.)	various	अनेक तन्हा,	अनेक तन्हेनुं	अनेक रिति,
		तन्हेतन्हेचा,	नानाविध विवध.	अनेक रंगका.
		चित्रविचित्र		
अनेकसो :	In many ways	अनेक प्रकारे.	अनेक रास्ता.	अनेक मार्ग,
(adv.)				अनेक उपाय.
अनेको :	Several,	अनेक, पुष्कळ	- -	अनेक, भिन्न,
(adj.)	many :	कित्येक		कई एक,
	manifold,	बहुविध, विविध,		अनेकरूप तथा आकार का :
	various	अनेक प्रकारचा		अनेक रंगका.
अनेजो :	Free from desire	अनिच्छ,	अभिलाषा वगोरनुं	इच्छा या आशा
(adj.)		अनपेक्षा		बिनाका
अनेन :	See	अयं	- -	- -
अनेसना :	Impropriety	अनौचित्य, अयोग्यता,	अयोग्यता, नालायकी,	अयोग्यता, अश्लीलता,
(f.)		नालायकी, असम्यपणा.	अयुक्ति, अयोग्यपणुं	असभ्यता
अनेसना :	That should not be sought	ची इच्छा अथवा याचना न	- -	- -
(adj.)	or desired, improper	करणे, अयोग्य, अनुचित		
		गैरवाजवी		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अनेळमूगो : (adj.)	Not deaf or dumb	मुका अथवा बहिरा नसलेला	बेहेरूं करवु-बनाववुं, मुंगु वाचा विनानुं,	बहिरा, गुँगा (मुका), वाक् शक्ति हिन.
अनोकं :	Being houseless, freedom from attachment to the world	घराबाहेर, घर सोडून गेलेला, अनासक्त, निरीच्छ, कशाही प्रकारची आसक्ति नसलेला.	घरबार विनानुं, सांसारिक बातोसे अलिप्त दुनियासां प्रेम मियात प्रीति वगरनो, प्रीति स्नेह आसक्ति, स्वतंत्रता छूट	गृह संसार त्याग कर गया हुआ अनासक्ति, अनुराग बिनाका स्वतंत्रता, स्पष्टता
अनोत्ततो :	Name of one of the seven	- -	- -	- -
अनवततो :	great lakes	- -	- -	- -
अनोत्तप्यं :	Absence of tear of sinning recklessness, hardness of heart	अभय : कुकर्माचा अभाव (सत्क्रीया), अविचारीपणा, मनाचा कठिणपणा, हृदयाचा कठोरपणा.	निडरता, कुकर्म, गाफेलपणुं, बेफिकराई हृदयनी दयाहीनता, असावधपणुं, अंतकरणनी, मजबुताई.	असावधानी, हृदयकी कठोरता, बेफिकराई चित्तकी कठीणाई
अनोत्तपी : (adj.)	Reckless fearless of sinning	अविचारी, धाडसी, निर्भिड, बेपरवा.	बेदरकार, बेपरवा गाफेल, नीडर पाप करवानी हिंमत, बहादुर.	असावधन, प्रमत्त, घृष्ट, पापसे निर्भय, अपराधसे निःशंक.
अनोमो : (adj.)	High, illustrious, lofty	प्रशस्त, वरिष्ठ, कुलीन, प्रख्यात, नामांकित, प्रसिद्ध, कीर्तिमान.	मोटुं, उंचु, प्रौढ : प्रसिद्ध, नामदार, प्रख्यात, विख्यात उन्नत.	उँचा स्थानका, श्रेष्ठ, प्रख्यात, प्रसिद्ध, उन्नत, विभवयुक्त, घमण्डी.
अनं :	A cart	खटारा, छकडा, रेकला	गाडु, रेंकडी.	सगगड, छकडा.

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अन्ना :	A mother	आई, माता, जननी,	मा, माता, मादर.	जनना, माता.
(f.)				
अन्नं :	Food, boiled rice	अन्न, भक्ष्य, भात.	खोराक, अन्न, भोजन, भात	अन्न, उबाळा हुवा चावल
अबद्धमुखो :	Foul mouthed;	तोंडाचा फटकळ : तोंडाळ :	गाळो आपे तेवुं : नीच.	अश्लील : नीच.
(adj.)	sewriious	नीच : अश्लील.		
अबद्धो :	Not bound : unmeaning,	असमंजस, मूर्ख, गैरसावध :	मूर्ख : समजूति, सिवायनुं :	असंगत : अनर्थक :
(adj.)	senseless.	निरर्थक.	अर्थ विनानुं.	निर्बुद्ध.
अबबं :	One of the high numerals,	अब्ज.	अब्ज.	अब्ज.
	representing 10,000,000			
अबलं :	Weakness	अशक्तता : कमकुवत, दोष :	नबळाई : अशक्ति, बुद्धिमंदपणुं	असामर्थ्य, दुर्बलता, दोष.
		व्यंग.	निर्बलता.	
अबला :	A woman	अबला : नारी : स्त्री	नारी : महिला : स्त्री.	स्त्री, नारी, दासी (चेटी).
(n.)				
अबलो :	Weak	दुर्बल : कमअक्कल, कमजोर :	कमजोर : नबळुं : काचो	अशक्त : दुर्बल : धीमा :
(adj.)		निर्जीव		मन्द :
अब्वणो :	Unwounded	जखम-दुखापत न झालेला,	अखंडीत : अछिन्न : सलामत	घायल न किया हुवा.
(adj.)		अक्षत, अछिन्न.	जखम, यथा सिवायनुं	
अब्वेदि :	To go	जाणे, चालणे.	जवुं : चालवुं.	चलना : जाना : घुमाना :
अब्वुतो :	Undisciplined	अशिक्षित : कच्चा	बीन केळवायेलुं : काचुं	अशिक्षित
(adj.)				

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अब्बुद :	One of the high numerals 10,000,000	10,000,000	- -	- -
अब्बोच्छिन्नो : (adj.)	Unbroken	अखंड : अभंग	अखंड : आखु.	अखंड, विना टूटा हुआ.
अब्बहति :	To take away, To remove	घेऊन जाणे, निवारणे, दूर करणे, काढून टाकणे, स्थलांतर करणे.	छिनवि लेवुं, पडावी लेवुं, दूर करवुं, खसेडवुं, एक जग्याथी बीजि जग्याये बदलवुं, स्थलांतर करवुं.	अलग करना, दूर करना, स्थान बदलना, हटाना.
अभब्बता : (f.)	Non-liability, inability	असमर्थता, अशक्ति	असामर्थ्य, अशक्यता.	असामर्थ्य, अशक्ति
अभब्बो : (adj.)	Unable, not liable	असमर्थ, अपात्र	असमर्थ	असमर्थ, अयोग्य.
अभया : (f.)	The plant, Terminalia, Citrina	- -	- -	- -
अभयो : (adj.)	Fearless	निर्भय, आशंक, बेपर्वा	नीडर, हिंमतवान	- -
अभयं :	Safety, protection from danger	निर्भयता, सुरक्षितता, आश्रय, धोक्यापासून बचाव.	सहीसलामती : निर्भयता : भयथि रक्षण, बचाव.	- -
अभवो :	Decrease, Delay, misfortune	क्षय, नाश, दुर्दैव, तूट, दुर्भाग्य, आपत्ति.	ओछुं, कमी करवुं, घटवुं, नाश, क्षीणता, दुर्दैव, दुर्भाग्य	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभावो :	Non-existence, absence	नास्तित्त्व, अभाव, गैरहजेरी, पश्चात.	नास्तित्त्व, अभाव, गैरहजेरी	- -
अभासनं :	Silence	मौन, शांतता, अभाषण	शांति, खामोशि.	- -
अभिकामी :	Desirous (adj.)	अभिलाषी	अभिलाषी	- -
अभिक्रिर्ति :	To overwhelm, To cover	दाबणे, बुडविणे, झांकणे, लपविणे.	दबावी नाखवुं, ढांकी देवुं, ओढाडवुं.	- -
अभिकृन्तो :	Withered : (P.P.P.) exhausted	सुकलेला, कोमेजलेले, थकलेला.	म्लान थयेलुं, सुकेलुं, थांकी गयेला.	- -
अभिकृन्तो :	Handsome, beautiful, (P.P.P.) excellent, good.	रूपवान, देखणा, सुंदर, उत्कृष्ट श्रेष्ठ, मंगल, चांगला, हित.	रूपालुं, मनोहर, सुंदर, खुपसुरत, श्रेष्ठ, सरस, हित.	- -
अभिकृन्तो :	Advanced (P.P.P.) having approached	सुधारलेला, आगाऊ दिलेला, पुढे सरसावलेला, जवळ जाऊन	सुधारेलो, अगाऊथी आपेला, उंची पायरीचे चढाववुं, नजीकमा गयेला.	- -
अभिकृन्मति :	To go forward, To advance, (P.P.P.) To approach.	पुढे येणे, जाणे, सरसावणे, सुधारणे, जवळजाणे, येणे, पोहोचणे.	पासे जवुं, उन्नति करवी, आवे प्होंचवुं	- -
अभिकृन्मो :	Advancing : Advance.	वाढ, सुधारलेला, संवृद्धि	उन्नति थवी, वृद्धि.	- -
अभिव्खणं :	Repeatedly (adj.)	वारंवार	वारंवार	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिख्या :	Name,	कीर्ति,	कीर्ति,	- -
(f.)	beauty,	सौंदर्य, शोभा,	शोभा,	
	splendour,	काँति	काँति,	
	glitter	चमकणे, लकाकी	झगझगाट	
अभिगच्छति :	To go to	जवळ येणे, जाणे,	पासे जवुं,	- -
	To approach	पोहोचणे.	पहोचवुं,	
अभिगमनं :	Approaching	जवळ येणे.	नजीकमा जवुं,	- -
अभिगीतो :	Sung, Recited.	सुरावर गाणे, पाठन :	गावुं, म्होंढेथी कहेलुं	- -
(P.P.P.)		पाठ केलेले		
अभिघातो :	Striking, concussion	आघात करणे, मारणे, हल्ला	मारवुं, टोकवुं, घा करवुं,	- -
(f.)		करणे, धक्का.	आंचको.	
अभिच्छा :	Desire :	इच्छा, आशा, अपेक्षा	इच्छा, अभिलाषा, मरजी	- -
(f.)	longing.			
अभिजप्पनं :	Muttering spells :	जप पुटपुटणे,	जप बडबडवुं,	- -
	Incantation	मंत्र जपणे.	मंत्र जपवुं.	
अभिजति :	Origin,	मूळ, आरंभ,	मूळ, आरंभ,	- -
	Race,	वंश, जात,	वंश, जात,	
	Birth.	उत्पत्ति	उत्पत्ति, शुरूआत.	
अभिजातिको :	Belonging to,	- -	- -	- -
(adj.)	origin or race			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिजातो :	Well-born, noble,	अभिजात, कुलीन, जाणता,	अभिजात, कुलीन, समजुं,	- -
(P.P.P.)	learned, wise	बुद्धिवान, शहाणा, पंडीत, शिकलेला.	बुद्धिवान, पंडीत,	
अभिजानाति :	To know,	जाणणे,	जणावुं,	- -
	To learn,	शिकणे,	शिखवुं,	
	To ascertain,	माहिती करून घेणे,	जाणवुं,	
	To perceive,	इंद्रियांनी जाणणे,	खबर पडवी,	
	To admit,	बोध करून घेणे,	खात्री करवी,	
	To acknowledge	कबूल करणे, मान्य करणे, जाणणे, आभार मानणे.	कबुल करवुं, स्वीकारवुं, आभार मानवो.	
अभिजानो :	Race,	वंश, परंपरा,	वंश, कुळ,	- -
	Tribe,	जात, टाळी,	जात, टोळी,	
	family.	कुटुंब परिवार.	कुटुंब	
अभिज्झा :	Covetousness	लोभी, हाव.	लालसा, लोभी.	- -
(f.)				
अभिज्झालू :	Covetous.	लोभी.	लालसु	- -
(adj.)				

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिज्ञा : (gen.)	Having known, become cognisant of :	ज्ञान असलेला, माहितगार, वाकबगार.	समजण, जाणीतुं, वाकरुं	- -
अभिज्ञा : (f.)	Higher knowledge transcendent or supernatural knowledge or faculty.	प्रवीणता, विद्वता अलौकिक ज्ञान : शक्ति	असाधारण विद्वता, अलौकिक ज्ञान, शक्ति	- -
अभिज्ञाणं :	Sign : Token	चिन्ह, लक्षण खूण, यादगिरी	लक्षण, चिन्ह यादगिरी, निशाणी.	- -
अभिज्ञेद्यो : (adj.)	That ought to be known : or that can be known.	ते माहित असलेच पाहिजे. ते जाणणे शक्य आहे.	ते जाणवुं.	- -
अभिज्ञो : (adj.)	Knowing conversant with	वाकबगार, निपुण, प्रवीण.	माहितगार, प्रवीण, जाणवुं.	- -
अभिठानं :	Crime, deadly sin.	पातक, अपराध, गुन्हा दुष्कर्म, घोर पाप.	गुन्हा, अपराध, घोर पातक, दुकर्म, दुराचरण	- -
अभितत्तो : (P.P.P.)	Scorched :	होरपळलेला, पोळलेला.	बाळी मुकेला दाझी गयेला.	- -
अभितपोति : (caus.)	To satisfy thoroughly.	पूर्ण समाधान करणे, शंका, संशय निवृत्ति करणे.	सारी रीते संतुष्ट करवो समाधान करवुं	- -
अभितो : (adv.)	Near, in the presence of : on both sides	जवळ, थोडक्यात, समीप, समक्ष, पुढें, दोन्ही बाजूने दोन्ही पक्ष, काठ.	पासे, समीप, आशरे, रुबरु, बने तरफेणुं, वने पक्ष तरफथी	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभितोसेति : (caus.)	To gratify : To reward.	तृप्त करणे, संतोषविणे, बक्षीस, इनाम देणे.	तृप्त करवुं, आनंदित करवुं बक्षीस आपवुं, बदलो वाळवुं	- -
अभित्थरति :	To make haste	त्वरा करणे.	उतावळ करवी	- -
अभित्थवति :	To praise	स्तवणे : वाखाणणे.	वाखाणवुं, प्रशंसा करवीं	- -
अभित्थुतो : (P.P.P.)	To praised	स्तुत्य : वाखाणलेला	वखाणेलुं, तारीफ करेलुं	- -
अभिदोसो :	Evening	सांज : संध्या : सायंकाळ.	सांज, संध्या, सायंकाळ.	- -
अभिधम्मिको : (adj.)	connected with abhidhamma : versed in or studying the abhidhamma.			- -
अभिधम्मो :	Higher doctrine :	- -	- -	- -
अभिधम्मं :	Transcendental doctrin : metaphysics	- -	- -	- -
अभिधातब्बो : (adj.)	That ought to be declared or named	- -	- -	- -
अभिधानप्य दीपिका : (f.)	Camp of Nouns : name of a well known vocabulary of Pali nouns, compiled on the model of amarkosha by the grammarians Moggattana at the end of the 12th century.	- -	- -	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिधानं :	Name : appellation : noun	नाम, नांव, संज्ञा, कीर्ति	नाम, संज्ञा, कीर्ति, अभिधान	- -
अभिधीयति :	To be declared, to be pointed out.	प्रकाशित करणे, निवेदन करणे, दर्शविणे.	जहेर करवुं, साफ कहेवुं	- -
अभिधेय्यो :	To be declared : pointed out :	प्रगट करणे, दाखवणे,	जणाववुं, बताववुं	- -
(adj.)	denoted : meant.	दर्शवणे, अर्थ असणे	अर्थ होवो, सूचन करवुं	- -
अभिनदति :	To roar	गरजणे, आरोळी मारणे.	गर्जना करवी, आरडवुं	- -
अभिनन्दति :	To welcome :	अभिनंदन करणे,	अभिनंदन करवुं,	- -
	To rejoice at :	सन्मान करणे, आनंद,	सन्मान करवुं,	- -
	To delight in :	खुषी मानणे,	आनंदित बनवुं,	- -
	To approve of :	मंजूर करणे, मान्य करणे	मंजूर करवुं,	- -
अभिनयो :	A dramatic representation	अभिनय	अभिनय	- -
अभिनवो :	Quite new :	अभिनव	अभिनव,	- -
(adj.)	new	अगदी नव, ताजे,	नवुं, ताजुं	- -
अभिनादेति :	To fill with noise	गोंगाट	घोंघाट	- -
अभिनिक्खमति :	To go out : To depart :	निघून जाणे	चाल्या जवुं	- -
अभिनिक्खमनं :	Going out : departing :	निघून जाणे,	जवुं, चाल्या जवुं	- -
	retiring from the world to devote oneself to an ascetic life :	निवृत्त होणे	निवृत्त थवुं	- -
अभिनिक्खमो :	Going out :	जाणे, निघून जाणे,	जवुं, चाल्या जवुं	- -
	from the world to devote oneself to an ascetic life :	निवृत्त होणे	निवृत्ति थवुं	- -

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिनिनामेति : To turn, to direct	फिरवणे मार्ग दर्शवणे	फेरवुं, पलटवुं, मार्ग देखाडवो	- -
अभिनिपज्जति : To lie down	लवंडणे, आडवा होणे,	आडा पडवुं, सूईजवुं	- -
अभिनिष्ठादेति : To effect : (caus) to accomplish : to succeed.	साधणे, करणे, पार पाडणे, अनुसरणे, यश मिळवणे, सफल होणे	साधवुं, करवुं, पार पाडवुं, अनुसरवुं, आबाद थवुं	- -
अभिनिब्बत्तति : To be reborn in another existence	पुनर्जन्म	पुनर्जन्म	
अभिनिब्बत्ति : Re-birth in another (f.) existence	- -	- -	- -
अभिनिब्बत्तो : Re-borne in another (P.P.P.) existence	- -	- -	- -
अभिनिमन्तेति : To invite, to present with	आमंत्रणे बक्षिस देणे	बोलाववुं, आमंत्रण आपवुं, बक्षिस आपवी	- -
अभिनिम्मिनाति : To create	निर्माण करणे		- -
अभिनिम्माति : To cause to appear by supernatural power	सृष्टि उत्पन्न करणे	सृष्टि उत्पन्न करवी	- -

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिनिम्ननं : Creating	उत्पत्ति, उत्पन्न करणे, निर्माण करणे	उत्पत्ति पैदा करवुं	- -
अभिनिनीयति : To hide oneself : to lie hide	लपणे, लपून बसणे	संताडवुं, संताडीने बेसवुं,	- -
अभिनिविसति : To settle down : To devote oneself to	स्थिर होणे, अर्पणे, समर्पणे	स्थिर करवुं, थवुं, अर्पण, समर्पण करवुं	- -
अभिनिवेशो : Adhering to : inclination to :	चिकटणे, लगटणे, कल, ओढ, झोक	चोंहोरवुं, मननुं वळण, झोक	- -
अभिनिनीदति : To sit down	खाली बसणे	निचे बेसवुं	- -
अभिनीलो : Very black (adj.)	अत्यंत काळे, अंधकार	काळुं, अंधकारवाळुं	- -
अभिनीहरति : To turn : to direct	फिरवणे, वळवणे : मार्ग दाखवणे	फरवुं, फेरवुं, मार्ग देखाडवो	- -
अभिनीहारो : Earnest wish or aspiration	अंतःकरणापासूनची इच्छा, महत्वाकांक्षा	खरा अंतःकरणवाळी इच्छा, महत्वाकांक्षा	- -
अभिनेति : To bring to : conduct to	आणणे, घेऊन येणे वाट दाखवणे	लई जवुं, दोरी जवुं	- -
अभिन्नको : Not schismatic, (adj.) Orthodox	धर्मभेद अथवा पंथभेद न करणारा, धर्मभोळा, श्रद्धालू	चालता धर्ममा, भेद न पाडवा वालो, धर्मयुस्त, जुना रीत रिवाजने अवलंबीने काम करनार.	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिन्नो : (adj.)	Undivided : not different, indentical	अभिन्न, अखंड, फरक नसलेला, एकरूप, सारखा	अभिन्न, अखंड, सरखुं, अभेद	- -
अभिपत्थेति :	To desire : to long for : to pray for :	इच्छा धरणे, आतुरता, उत्कंठा, प्रार्थना, अर्जी करणे	इच्छवुं, आतुरता राखवी, प्रार्थना करवी	- -
अभिपीळितो : (P.P.P.)	Oppressed : afflicted	पोळलेले, गांजलेले, पीडलेले, दुःखित	हेरान थयेला	- -
अभिपूजेति :	To offer : to present with	अर्पण, सादर, नजर, बक्षिस देणे	अर्पण करवुं, देवुं, भेट आपवी	- -
अभिभवति :	To overcome : to attain : to master : to surpass	जिकणे, प्राप्त करणे, संपादणे, अधिकार गाजविणे, श्रेष्ठ होणे, चढ करणे	जय मेळवूं, प्राप्त करवुं, संपादन करवुं, चढीआता थवुं	- -
अभिभवनं :	Overcoming : vanquishing	जिकणे, पराभव करणे, पराजित करणे	जीतवुं, वश करवुं, फत्तेह मेळववी, पराजय करवो	- -
अभिभवो :	Being overcome, defeat	सर करणे, पराभव करणे, पराजय.	पराजय, हार	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिभायतनं :	Place or region of the vanquisher	- -	- -	- -
अभिभासति :	To speak to :	संबोधून बोलणे,	कहेवुं,	- -
	to address :	भाषण,	भाषण करवुं,	- -
		पत्ता लिहिणे	सरनामुं करवुं	- -
अभिभासितो :	Illumined	प्रकाशित,	प्रकाशित करेलुं,	- -
(P.P.P.)		सुशोभित :	शणगारेलुं	- -
अभिभू :	Overcoming :	पराकाष्टेचा,	प्रवीणता,	- -
(adj.)	mastering :	श्रेष्ठ,	हठाची शकाय तेवुं	- -
	vanquishing :		अधिक थवुं,	- -
	surpassing	मागे टाकणारा	ना करतां श्रेष्ठ बनवुं	- -
अभिभूतो :	Overcome :	पराभूत,	पराभूत थयेला,	- -
(P.P.P.)	overpowered	जिकलेला,	वश थयेला	- -
	subdued	निग्रह केलेला,		- -
	vanquished	वश झालेला		- -
आभेमङ्गलं :	High festival solemnity	महोत्सव,	मोटुं तहेवारनुं,	- -
		विधि,	गांभीर्य,	- -
		गांभीर्य	धार्मिक विधि	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभिमत्थति :	To grind : to crush	दळणे, पिसणे, चुरडणे, जमीनदोस्त करणे	दळवुं, कचरी नाखवुं, चूर्ण करवुं, जमीनदोस्त करवुं	- -
अभिमानो :	Pride : wisdom	अभिमान, गर्व, शहाणपण, बुद्धि	अभिमान, गर्व, डहापण, बुद्धि	- -
अभिमुखो :	Facing towards : (adj.) opposite	अभिमुख, समोर, समक्ष, विरूद्ध, उलटा, पलिकडचा	अभिमुख, सामुं, विरोधी, उलट	- -
अभिमुख्यं :	Front, directions towards	आघाडी, पुढचा, दिशोकडे	आगलो भाग, दिशा सामेनु	- -
अभिमुदा :	Joy (f.)	आनंद, हर्ष, उल्हास	आनंद, हर्ष	- -
अभियाचति :	To entreat : to ask : to request	विनवणे, विनंती करणे, अर्ज करणे, याचणे, मागणे, प्रार्थना करणे.	विनंती करवी, आजीजी करवी, अरज गुजारवी, सवाल पुछवो, मागवुं	प्रार्थना, विनंती करना, माँगना, अर्ज करना
अभियाति :	To approach : to attack	जवळ जाणे, पोहोचणे, हल्ला करणे, अंगावर जाणे, आक्षेप करणे	पासे जावुं, आवी पोहोचवुं, चढाई करवी : हुमलो करवो : लडवुं	समीप जाना, आक्रमण करना, दोष लगाना, धावा करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभियोगो :	Charge :	आरोप,	आरोप, तोहमत,	आक्रमण,
	accusation	हल्ला,	सोपेलु काम,	सौंपना,
		आळ,	सुप्रत करेली,	दोषारोपण,
		अपवाद	जबाबदारी	अपराध
अभिरति :	Delighting -in :	रम्य, रमणीय	रमणीय,	- -
(f)	Delight		खुषीकारक	
अभिरतो :	Delighting in :	अर्पित, आसक्त	अर्पण करेलुं,	- -
(P.P.P.)	devoted in		आसक्त थयेलु	
अभिरमति :	To delight in	रमणे,	खुषी करवुं	- -
		आनंदविणे,	आनंद करवुं :	
		संतोषविणे		
अभिरम्मो :	Delightful	रमणीय,	मनोरंजक,	- -
(adj.)		आनंदकारक	आनंदजनक	
अभिराजा :	Supreme king	राजाधिराज,	राजाधिराज,	- -
(m)		सर्व राजात श्रेष्ठ	सर्वोत्तम	

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अभिराधेति :	To content	समाधानी, संतोषी,	संतुष्ट, समाधान करवुं,	—	—
(caus)	to satisfy	संतोष मानणे,	संतोष पामवों,		
		खात्री करणे	पमाडवो		
अभिरामो :	Delightful	उल्हासपूर्वक	खुषीकारक,	—	—
(adj.)		रम्य	मनोरंजक		
अभिरूचितो :	Pleasing:	मनोरंजक, सुखकारक,	सुखकारक,	—	—
(P.P.P.)	agreeable :	मान्य, अनुकूल,	माफक, अनुकूल,		
	liked	समान	गमवुं, समान		
अभिरूतम :	Sound	अव्यंग, निरोगी,	निरोगी, मजबूत,	—	—
		ध्वनी, आवाज	अवाज, घोंघाट		
अभिरूपो :	Beautiful :	रूपवान, मनोहर,	रूपाळु, मनोहर	—	—
(adj.)	Handsome	देखणा	खुबसुरत		
अभिरूहति :	To ascend	वर जाणे, उगवणे	ऊंचे जवुं	—	—
अभिरोहति :	To mount	उन्नति	उपर चढवुं		
			उन्नति थवी		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अभिरूहणं :	Ascending: mounting	चढणे, उदय होणे, आरूढ होणे	चढवुं, उदय थवो, सवार थवु, ना उपर बेसवुं	—	—
अभिलिखितो : (P.P.P.)	Marked, Characterised Distinguished	प्रख्यात, लक्षण असलेला, तारतम्य पाहून, निराळा केलेला, नामांकित	प्रख्यात, विशेष लक्षण बतावेला, नामांकित	—	—
अभिलभति :	To obtain, to receive	मिळवणे, घेणे, स्वीकारणे	मेळववुं, प्राप्त करवुं, लेवुं, स्वीकारवुं	—	—
अभिलापो :	Speaking to : talking:	बोलणे, उच्चारणे, सवाल, संभाषण	बोलवुं, उच्चारवुं बात करवी	—	—
अभिलावो :	Cutting: reaping	कापणे, कापणी करणे	कापवुं कापणी करवी	—	—
अभिलासी :	Desirous	अभिलाषी	अभिलाषी	—	—
अभिलासो :	Desire	अभिलाषा, इच्छा	अभिलाषा, इच्छा	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अभिलिप्तो :	Smearred : stained, :	लेप कोलेला, कलंकीत,	लेप करवुं, कलंकीत,	—	—
(P.P.P.)	polluted	भ्रष्टलेला	भ्रष्ट		
अभिलेपनं :	Smearing : pollution	लिंपणे, माखणे, भ्रष्ट करणे	चोपडवुं, भ्रष्टता	—	—
अभिवृद्धति :	To increase :	वाढवणे, चढणे, अधिक होणे,	विस्तार पामवुं, मोटा थवु,	—	—
	to grow	विस्तार होणे, उत्पन्न करणे	फेलाववुं, वधारवुं, उत्पन्न करवुं, उछेरवुं		
अभिवदति :	To say :	बोलणे, समजणे, खात्रीने	बोलवुं, कहेवुं, जबाब देवो,	—	—
	to declare	सांगणे, स्पष्ट, साफ सांगणे, निवेदणे, मत जाहीर करणे,	जाहेर करवुं, साफ कहेवुं, जणाववुं		
अभिवन्दति :	To salute respectfully	वाकून मुजरा करणे, आदराने नमस्कार करणे	आदरपूर्वक वंदन करवो	—	—
अभिवन्दनं, :	Respectful salutation	आदराने अभिवंदन करणे	मर्यादा पूर्वक नमन	—	—
अभिवादनं :	Respectful salutation	आदरयुक्त अभिवादन, नमस्कार, जोहार	आदरशील नमन, प्रणाम, सलाम	—	—
अभिवादना (f.)					
अभिवादेति :	To salute respectfully	मर्यादेने नमस्कार, वंदन करणे, नमूना मुजरा करणे, अभिवंदन करून कुशल प्रश्न करणे.	मानथी, आदरपूर्वक प्रणाम करवो, अभिवंदन करवुं, भेटवुं	—	—
	to greet				

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अभिविजयति, : To overcome,	जय मिळविणे, पराभव करणे,	जीतवुं, वश करवुं	—	—
अभिविजेति : to conquer	जिकणे, हस्तगत करणे	हराववुं, फतेह मेळववी		
अभिविनयो : Higher discipline, the subtleties or refinements of Vinaya	उच्च (उदात्त) प्रकारची शिस्त (शिकवणूक), विनय पिटकांतील बारीक (सूक्ष्म) भेद व मार्मिक गूढ.	प्रौढ केळवणी, शिस्त.	—	—
अभिवृद्धि : Increase, growth, (f.) prosperity	वृद्धि, चढ, विस्तार, उत्पत्ति, भरभराट, उत्कर्ष, भाग्य, समृद्धि	वृद्धि, उन्नति सफलता, सौभाग्य	वृद्धि, वधारो, आबादी, वैभव	
अभिसङ्गतो : Prepared, formed, (P.P.P.) well-made, perfected	— —	— —	— —	— —
अभिसन्नो : Rained on : (P.P.P.) drenched	पाऊस पडलेला, पाण्याने, पावसामुळे चिंब झालेला	बरसाद थयेला, पलाळीनें भींजवी नांखवुं	—	—
अभिसङ्करणं : Preparing : forming : effecting : perfecting : accumulation	तजवीज करणे, तयार करणे, बनवणे, बांधणे, संपादणे, प्रवीणता, निपुणता, साठा, संचय	लायक बनाववुं, तैयार करवुं, बनाववुं, रूप आपवुं, करवुं, पार पाडवुं, संपूर्ण करवुं, संचय, संग्रह	—	—
अभिसङ्करोति : To prepare : to form : to effect : to perfect :	तयार करणे, बनणे, वळणे, प्रवीण होणे	— —	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अभिसङ्घो :	Forming : effecting : perfecting accumulation of Karma, merit and demerit : idea, conception, fancy	पूर्व संस्कार, संचित कर्म, लायकी, योग्यता, गुणदोष, भावना, विचार हेतु	— —	—	—
अभिसङ्गो :	Attachment	आसक्ति, जप्ती	आसक्ति, जप्तीं	—	—
अभिसज्जति :	To be angry : to scold : to be angry with :	रगांवणे, खडसावणे, धमकावणे	गुस्से थवुं, क्रोधायमान थवुं, धमकाववुं, ठपको देवो	—	—
अभिसङ्गो :	Curse : imprecation	शाप, तळतळाट, त्रास	शाप, बददुवा, गाळीं	—	—
अभिसन्देति :	To rain upon : to drench (caus.)	पावसाप्रमाणे पडणे, गळणे, चिंब भिजणे	वरसाद पडवो, पलाळीने भींजवी नाखवुं	—	—
अभिसद्दहति :	To have firm faith : to believe	विश्वास ठेवणे, सत्य मानणे	विश्वास राखवो, साचुं मानवुं	—	—
अभिसद्दहनं :	Firm faith : belief	श्रद्धा, भाव, विश्वास, भरंवसा, धर्म	श्रद्धा, विश्वास, भरोंसो, ईतवार, पथ, धर्म,	—	—
अभिसन्धि :	Intention (m.)	इरादा, उद्देश, हेतु	अभिप्राय, हेतु, ख्याल, धारण	—	—
अभिसमयो :	Penetration, comprehension, clear understanding	कुशाग्र बुद्धि, भेदन, समावेश, समज, बोध, ग्रहण करणे, आकलन शक्ती, समजूतदार	तीक्ष्ण, कुशाग्र बुद्धि, समावेश, समजवुं, ग्रहणशक्ति	—	—
अभिसमाचारिकं :	Least duties, minor duties	कनिष्ठ, सर्वात लहान, कर्तव्ये, किरकोळ कामे	अल्प कर्तव्य, लघु कार्य	—	—

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)		
अभिसमेति :	To penetrate, comprehend, gain a full knowledge of	अर्थभेद, मर्मभेद करणे, समजणे, आकळणे, संपूर्ण ज्ञान संपादणे	अर्थ ग्रहण करवो, समजी लेवुं, ध्यानमां लेवुं, ज्ञाननो लाभ करवो	—	—
अभिसम्परयो :	Future state, futurity	भविष्यकाल, उत्तरकाल	भविष्यकाळ, आवतो समय,	—	—
अभिसम्बुद्धति :	To gain perfect, knowledge of	संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करणे	संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करवुं, मेळववुं	—	—
अभिसम्बुद्धो (P.P.P.)	Thoroughly understood : perfectly known : enlightened, knowing fully	पूर्णपणे अवगत, पूर्ण परिचित, जगप्रसिद्ध, प्रबुद्ध, ज्ञानी, कुशल, चतुर	सारी रीते जाणीतो, बधी रीतनुं ज्ञान घरावनार पूर्ण परिचित	—	—
अभिसम्नोधि (f)	Perfect understanding : infallible knowledge	संपूर्ण समजूत, अस्खलित ज्ञान	पूर्ण समजशक्ति, निभ्रांत ज्ञान, अस्खलित ज्ञान	—	—
अभिसम्भुणोति, अभिसम्भुणाति	: To obtain	मिळवणे, संपादणे, प्राप्त होणे	संपादन करवुं, मेळववुं प्राप्त करवुं	—	—
अभिसम्मतो (P.P.P.)	Fully approved : honoured : prized	मंजूर केलेला, मान्य झालेला, गौरवलेला, किंमती	मान्य करेलुं, मंजूर थयेलुं, गौरव करेलुं, इज्जत राखवुं	—	—
अभिसवनं :	Oozing : trickling, : flowing :	पाझरता (पाघळ), स्त्राव, झिरपणे, ओधळ, अस्खलित, सरळ वाहणारा	झरवुं, गळवुं, टपकवुं ओघ, प्रवाह, ओगळवुं	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अभिस्सवनं :	Flowing : dripping	वाहणारा, प्रवाह, टपकणारा	प्रवाह, टीपु टीपु गळवुं	—	—
अभिसारिका :	A woman who carries	कारस्थान करणारी स्त्री	कारस्थान करनार नारी,	—	—
(f.)	on an intrigue		कावत्रुं करनार स्त्री		
अभिसिञ्चति :	To be sprinkle, to inaugurate	चहूकडे शिंपडणे,	सिंचवुं, रेडवुं	—	—
	a king by sprinkling with	पवित्र पाणी शिंपडून			
	sacred water	राज्याभिषेक करणे.			
अभिसिक्तो :	Be sprinkled : inaugurated	चहूकडे शिंपून,	चारो तरफ छोटेलुं	—	—
(P.P.P.)	a king	राज्याभिषेक केला			
अभिसुणोति :	To hear :	ऐकणे, बातमी कळणे,	साभळवुं, श्रवण करवुं,	—	—
	to listen to :	लक्ष देणे, मनावर घेणे	लक्ष पूर्वक कान देवा,		
अभिसेको :	Sprinkling	सेचन, प्रोक्षण	भथराववुं ते	—	—
अभिसेचति :	To cause,	शिंपणे, शिंपडणे,	छाटवुं, बेरवुं,	—	—
	to be sprinkled :	प्रारंभ करणे,	सिंचन करवुं,		
	inaugurated	समारंभाने सुरवात करणे.	विधिपूर्वक आरंभ		
अभिसेचनं :	Sprinkling : inauguration	अभिषेक, सिंचन,	सिंचन करवं		
	of a king	राज्याभिषेक			
अभिसोभितो :	Adorned : beautified :	सुशोभित, भूषित केलेला,			
(P.P.P.)	resplendent	चकचकीत			

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)	
अभिसंयुतो :	Fitted out :	सज्ज,	सज्ज, तैयार थयेला,	—	—
(P.P.P.)	equipped :	सजवलेला, तयार, लायक	लायक करेला		
अभिहतो :	Brought	आणलेला	लाववुं	—	—
अभिहनति :	To assail : to strike	हल्ला करणे	हुमलो करवो, लडवा माडवुं,	—	—
अभिहरति :	To bring to :	आणणे,	लावी आपवुं,	—	—
	to acquire :	संपादणे, पैदा करणे,	संपादन करवुं,		
	to gain :	प्राप्त करणे	प्राप्त करवुं,		
अभिहारो :	Bringing :	घेऊन,	लाववुं,	—	—
	offering	अर्पण, समर्पण, भेट	अर्पण, भेट		
अभिहितो :	Called, named,	बोलावलेला, नावे ठेवणे,	नाम आपेलुं, आगाऊ	—	—
	spoken, said Calamity	कथित, पूर्वोक्त	बोलेलुं, उपर कहेलुं,		
अभिण्हं :	Repeatedly	वारंवार	वारंवार	—	—
(adj.)					
अभूतो :	That has not been,	खोटा, बनावट, चुकीया	खोटुं, झटुं, अप्रमाणिक	झूठा, खोटा, बनावटी	
(adj.)	that is not : false				
अब्भकं :	Talc	अभ्रक, भस्म	अबरख	अब्रक	
अब्भक्खानं :	Accusation,	आरोप, चुगली,	गुन्हा, चुगली, आरोप,	अपराध, दोष,	
	slander,	निंदा, तोहोमत,	निंदा, आळ	अपवाद, अपयश,	
	Calumny	आळ, नालस्ती		निंदा, आक्षेप	

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अभ्युगच्छति :	To approach, to go to meet to ascend, to go up	जवळ येणे, जाणे, पोहोचणे, चढणे, उदय होणे, उगवणे, वर जाणे	पासे जवुं, आवी पहोचवुं, चढवुं, उदय थवो, उन्नति थवी	पास जाना, मिलने के लिये जाना; चढ़ना, बढ़ना, उपर चढ़ना (उन्नति)
अभ्युगतो :	Having approached (P.P.P.)	gone to meet, ascended	जवळ जाऊन, भेटण्यास जाऊन, वर चढून.	समीप जाकर, भेंट के लिये, गया हुआ, ऊपर चढ़ा हुआ.
अभ्युज्जलनं :	Spitting fire	आग फेकणे	आग फेकवी	ज्वाला, आग फेंकना,
अभ्यञ्जनं :	Anointing	उटणे, अभिषेक, अभ्यंग	लेपन करवुं, लगाडवुं, चोपडवुं ते, अभिषेक करवुं ते,	अभिषेक,
अब्धन्तरो :	Internal (adj.)	आतला, मनातला देशातला	वास्तविक, खरू, अंदरगत, अंदरनु,	आन्तरिक, भीतरी, अन्तरस्थ
अब्धन्तरं :	Internal : Interior : A certain measure	मधला काळ, अंतर, अवकाश, फुरसत, आतील, माप, मर्यादा, अनुमान	आंतरो, दरम्यान, अवकाश, फुरसद, अंदरनुं, मंहेनुं, माप	अंतर, अवकाश, अन्तस्थ, भीतरी, नाप, मर्यादा अनुमान
अब्धत्थं :	Setting : declining : Perishing	न्हास पावणे, मावळणे, अस्त, उतरती कळा, नाश, मरणे	अस्त पामवुं, नाश, लय पामवुं, उतरती अवस्था, ना पाडवी, क्षय थवुं	नाश, अस्त, अन्त, अस्वीकारना, लय, समाप्त होना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अब्धनुमोदनं : (n.)	Rejoicing: thausgiring : praise :	आनंद उत्सव, आभार प्रदर्शक, स्तुति, वाखाणणी	आनंद, खुशाली, उत्सव, धन्यवाद आपवो वखाण, स्तुति	आनंद, धन्यवाद देना, स्तुति करना
अब्धाकासिको : (adj.)	Living in the open air or in an open unsheltered	--	--	--
अब्धाकुटिको : (adj.)	Unfrowning: genial	अनुकूल, आनंदी, मनमिळाऊ	अनुकूल, आनंदी	आनन्दी, सुखप्रद
अब्धागमनं : goint to : visiting :	Approaching: goint to : visiting :	नजीक जाणे, येणे प्रयाण, भेटण्यास जाणे, येणे	नजीकमा जवुं, मळवा माटे जवुं भेटवा जवुं	समीप जाना, प्रवेश करना, जाना, मुलाखत, मिलनेके लिये जाना.
अब्धाचिक्खति : to slander : to calumniate	To accuse : to slander : to calumniate	दोषणे, बेअब्रू करणे, नालस्ती करणे, आळ घेणे	दोष काढवो, निंदा करवी, दूषण, लांछन लगाडवुं, आल मूकवुं	दूषित करना, अपराधी ठहराना, कलंक लगाना, निंदा करना
अब्धानं : on	Rehabilitation of a priest who has undergone parivasa or peninenee for on	--	--	--

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अब्भासो : (n.)	Repetition : practice: reduplication	घोळणे, अभ्यास, व्यवहार, दुप्पट करणे	गोखवुं, अभ्यास, टेव, वारंवार, व्यवहार बेवडुं करवुं ते	पुनरुक्ति, दोहराव, अभ्यास, आचरण, व्यवहार
अब्भुतधम्मो : अब्भुतधम्मं :	Mysterious or Supernatural phenomenon or condition	अदभूत धर्म अलौकिक धर्म, गहन धर्म	अलौकिक धर्म, असाधारण, गहन धर्म	अलौकिक, उद्भूत, गहन, धर्म
अब्भुतो :	The marvellous	चमत्कारिक, अद्भुत, विलक्षण	अदभूत, विलक्षण	आश्चर्यजनक, अद्भूत
अब्भुतो : (adj.)	Hidden : mysterious wonderful : astonished	गूढ, गहन, अजब, आश्चर्याविह, विस्मित	गूढ, गहन, अजब, ताजुब जेवुं, आश्चर्यकारक	छिपा हुआ, गहन, विलक्षण, विस्मित, चकित
अब्भुदीरितो : (P.P.P.)	Uttered	उच्चारलेला	कहेलुं, जाहेर करेलुं, उच्चारेलुं	कहेना, उच्चार करना,
अब्भेति :	To restore a priest who has been degraded	—	—	—

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अब्भोकासो :	Open space	मोकळी जागा	खुली जग्या	खुली जागा
अब्भोक्किरणं :	Covering :	झाकण, आच्छादणे,	ढांकण, ओढाडवुं	ढकना, ओढना,
	Bedecking :	वेष्टन, सजवणे,	शणमात करवुं ते,	चादरा,
		सजावट	सुशोभित करवुं ते.	सजाना
अब्भं :	A cloud	ढग, कालिमा	बादलुं, नभ	मेघ, बादल,
अब्भो :	The sky :	वातावरण, हवा,	आकाश, आस्मान,	आकाश
	air, atmosphere	वायु, आकाश	हवा, वातारण	
अभ्यासो :	Near	जवळील, समीपस्थ,	पासेनुं, नजीकनुं,	समीप, निकट,
(adj.)		शब्दाला मूळाला धरून	समीपनुं	पास में
		असलेला.		ठीक अनुमान
अभ्यासो :	Repetition :	अभ्यास, संवय,	अभ्यास, प्रचार,	अभ्यास, आचरण,
	practice	परिपाठ, प्राघात,	पुनरावृत्ति, व्यवहार,	व्यवसाय, संप्रदाय,
		पठन, पुनरावृत्ति	टेव	पुनरूक्ति, आवृत्ति
अभग्गो :	Wrong way,	चुकलेला अथवा	खोटो मार्ग	बुरा या कुमार्ग
	wrong path	उलटा अथवा	उंधो मार्ग	
		विपरीत मार्ग		
अमच्चो :	A companion,	सोबती, सहवर,	साथी, मित्र,	मित्र, सहचर, सडंगी
	a king's minister	राजाचा मंत्री	सोबती,	साथी
	a privy councillor	अथवा अमात्य,	राजानु प्रधान, दिवाण	राजाका मंत्री
		सल्लागार	कारभारी	राजदूत उपदेशक
			सल्लाहकरी	

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अमञ्जपो : (adj.)	Abstinence	मितोपभोग, अल्पाहार, वर्ज करणे, संयम	त्याग, संयमान	संयम, शराब न पिना
अमट्टो : (P.P.P.)	Touched Handled	हातात घेतलेला, हात लावलेला, हातात धरलेला	हाथथी पकडवुं, हाथे अडवुं	छुवा हुवा, हाथमे पकडा हुवा.
अमतपो :	One who drinks nectar Deva or God	अमृत पिणारा देव, परमेश्वर	अमृत पिवावाळो देव, ईश्वर	अमृत पिनारा देव, देव, ईश्वर
अमता : (f.)	Emblic myrobalan	- -	- -	- -
अमति :	To go	जाणे, चालणे, सरसावणे, पोचणे	जवुं, चालवुं, सिधाववुं, पलायन थवुं	चलना, जाना, प्रस्थान करना, घुमाना
अमति : (adj.)	Foolish, mad	अक्कलशून्य, अविचार, मूर्ख, वेडा, खुळा, कावलेला	बेवकूफ, मूर्ख, कमअक्कलवालो, गांडो	निबुद्ध, उन्मत्त, भ्रान्त चित्त कावलेला
अमतो : (adj.)	Eternal, everlasting	शाश्वत, अनाध्यंत, सनातन, चिरकाल टिकणारा, नित्य, अनंत.	कायम, हमेषु, नित्यनुं, सदाकालनुं	नित्य, सनातन, अमर, अनंत

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अमृतं :	Neetar or Ambrosia, drink of the Gods	अमृत	अमृत	अमृत.
अमत्तञ्जू :	Immoderate, (adj.) intemperate	अमर्याद, अमित, अतिशयित, अपरिमित, बेसुमार	अतिशय, परिमित, बेहद, घणुज, अत्यंत, बेसुमार	अत्यंत, अपरिमित, असंयमी, अतिभोग
अमत्तं :	A pitcher, vessel	घागर, मडके, पात्र, भांडे, वाहिनी	घडो, वासण, ठाम, पात्र,	कलश, घडा, मटका पात्र, पिपा.
अमधुरो :	Sour, bitter (adj.)	आंबट, खट्याल, कडु, कटु	खाटु, आंबट, कडवुं	खट्टा, चटपटा, चिडचिडा, कडुबा, कठोर, तीक्ष्ण
अमनसिकारो :	See मानसिकारो	- -	- -	- -
अमनापो :	Unpleasant, (adj.) disagreeable	अप्रिय, नापसंत, विषम	नापसंद, प्रतिकूल, उलटू	अप्रिय, अरूचिकर
अमनुस्सो :	Demon or evil spirit	पिशाच, राक्षस, यक्ष	दैत्य, भूत, असूर, दानव, पिशाच	भूत, पिशाच, दानव, राक्षस
अमरावती :	Name of Indra's city (f.)	इंद्र नगरी, इंद्र पुरी	- -	- -
अमरो :	A deva or God	परमेश्वर, देव, ईश्वर	परमात्मा, अविनाशी, देव, जगदीश	परमेश्वर, देव, देवता
अमलो :	Pure, clean, (adj.) spotless, white	स्वच्छ, निर्मळ, चोख, निष्कलंक, शुद्ध, पांढरा, सफेद.	स्वच्छ, साफ, चोक्खु, शुद्ध, निर्मल, डाग वगारनु, निष्कलंक, सफेद, ढोळु.	निर्दोष, निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, अभिश्रीत, सफेद, श्वेत.

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अमा :	With, present with,	जवळ, नजीक,	पासेनु, नजीकनु, समीपतु, साथे	समीप, निकट, पासमे,
(adj.)	near	समीपस्त, सहीत निशी.	सहित, संगाते, थकी, वडे	साथ ओर, तरफ
अमानुसो	Not human, in human,	निर्दय, क्रूर, राक्षसी,	निर्दय, क्रूर, दैत्यनुं,	क्रूर, निर्दय, पिशाचग्रस्त
(adj.)	demonical,	मनुष्यांच्या कृतत्वापलिकडील,	आध्यात्मिक, अलौकिक,	मनुष्य, शक्तिके बाहर,
	more than human,	स्वर्गीय, दिव्य, आध्यात्मिक,	अमानुष, स्वर्गीय, दिव्य.	निराकार, पारलौकिक,
	super human,	आत्मस्वरूप		धार्मिक, पवित्र, दिव्य,
	celestial, spritual			स्वर्गीय, आध्यात्मिक, दैवी.
अमावासी, :	The day of the new moon	अमावास्या	अमास	अमास
आमावासी				
(f.)				
अमितो :	Boundless	अपरंपार, अमर्याद,	अमाप, अगाध, घणुज,	अवधि रहित, अमित,
(adj.)	immense	अपरिमित, अवाढव्य, अफाट	बेहद, अत्यंत.	बहोत बडा
अमित्तो :	An enemy	शत्रु, वैरी, प्रतिपक्षी	शत्रु, बैरी	शत्रु, बैरी, प्रतिपक्षी
अमिलातो :	The plant Globe Amarnath or Gomphrena Globosa	- -	- -	- -
अमु :	See	- -	- -	- -
अमुको :	This, that	अमुक, हा, ही, हे, तो, ती, ते.	आ, ते, ए, जे, ते	यह, वह, जो दुसरा.
अमुख्यो :	Not principal	अप्रधान, गौण	मुख्य नहीं येवु, गौण,	अमुख्य, अप्रधान
(adj.)	Secondary	(मुख्य नसलेला)	द्वितिय, कोटीनुं	

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अमुतो :	See मुतो	-	-	-
(adj.)				
अमुतो :	Not shot or	बरची, भाला, अंकुर	फेकेलुं, बिन्धवुं	बरछी, उगा हुवा
(adj.)	darted	(अंकुरणे उद्भवणे प्रेरणे, अस्त्र फेकणे)		
अमुत्र :	In that place these : in	-	-	-
(adj.)	another world, in another state of existence, hereafter.			
अमूलको :	Unreal,	खोटा, कृत्रिम, निराधार,	खोटु, असत्य, बनावटी,	असत्य, असार, निराधार,
(adj.)	unfounded, faise : unpaid	अवास्तविक, चुकीया, असत्य, अप्रामाणिक, न फेडलेला	निराधार, निर्मूल, बनावट, कृत्रिम, पैसा न अप्या होय तेवुं.	निर्मूल, खोटा, झूटा, कृत्रिम, मिथ्या, मूल्य न दिया हुवा
अमूलो :	Without payment	न फेडलेला	बिन चुकवेली,	मूल्य न दिया हुवा,
(adj.)	unpaid		पैसा न अप्या तेवुं	ऋण न चुकाया हुवा
अमूळविनयो :	See विनयो	-	-	-
अमो :	Raw,	कच्चा, कोवळा, हिरवा	काचु, अपक्व	पक्व, अधुरा, कच्चा.
(adj.)	uncooked			
अमोहो :	Absence of ignorance or error, correct knowledge	अज्ञानाचा अभाव, बिनचूक माहिती, शुद्ध ज्ञान.	अज्ञाननो अभाव, ज्ञान, माहिती, ओळखाण.	अज्ञानका अभाव, शुद्ध ज्ञान.

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अम्बट्टा :	The plant clypea	- -	- -	- -
(f.)	Hernandifolia			
अम्बति :	To go	- -	- -	- -
अम्बरं :	The sky, the cloth	आकाश, आभाळ, वस्त्र, कापड	आकाश, अस्मान, कपडु, लुगडुं	आकाश, ऋतु, वस्त्र, कपडा.
अम्बा :	A mother	आई, जननी	मा, माता, मादर.	मा, माता.
(f.)		कापड, वस्त्र		
अम्बाटको :	The hog plum. spondias magifera	- -	- -	- -
अम्बिलो :	Sour, acid	आंबट, आंबूस	खाटु, आंबट, खटाश	खट्टा, चटपटा, चिडचिडा, वृक्ष
(adj.)				
अम्बु :	Water	पाणी	पाणी, जल	जल, पाणी
(n.)				
अम्बुजाकरो :	A pond or tank	तलाव, पुष्करिणी, तळे, टाकी	होज, कुंड, तलाव, टांकु, सरोवर	तडाग, सरोवर, बावली, तलाव.
अम्बुजिनी :	A lotus lake	कमळाची फुले असलेले सरोवर.	कमलनुं तलाव	कमलके फुलका जील
(f.)				
अम्बुजो :	A fish	मासा, मच्छी	मछली, मत्स्य	मछली, मत्स्य
अम्बुजं :	A lotus	कमळ, पद्म	कमल, पंकज	पद्म, कमलिनी.

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अम्बुधरो :	A cloud	अभ्र, मेघ, ढग	बादलु, नभ, टोळु	मेघ, बादल, घटा
अम्बुनिधी :	Sea, ocean	समुद्र, सागर, दर्या	समुद्र, दरियो, महासागर	सागर, समुद्र
(m.)				
अम्बो :	The mango tree - Magnifera Indica	आंब्याचे झाड	करीनु झाड	आमका पेड
अम्भो :	A stone, pebble	दगड, धोंडा, शिला, गारगोटी, खडा	पत्थर, शिला, पाषाण, कांकरो, मरडीयो	पत्थर, ढेला, रत्न, कंकड
अम्भो :	Oh ! I say !	अरं ! मी म्हणतो.	अरेरे ! हुं कहुंछुं	अरे ! मै कहता हुँ
Interj.)				
अम्भोजं :	A lotus flower	पह्य, कमल	पंकजं, कमल, कुमूद	कमल, पह्य,
अम्म :	Mother ! Daughter ! Lady ! Madam ! used by a son or daughter to a mother, By a father to his daughters. By a grandfather to his grand daughter. By a Brahmin to a young lady of rank. By a merchant to a lady.	आई, जननी, माता	मा, मादर, मातृ	माता, जनना
अम्मणं :	A canoe, a measure of capacity equal to eleven Donas	होडकें, तराफा - -	होडी, होडकु	नांव, डोंगी

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अम्मा :	Mother	आई, माता, जननी	मा, मादर, मातृ	माता, मा, जननी
(f.)				
अम्ह :	See अत्थि	-	-	-
अम्हमयो :	Made of stone,	दगडी, पाषाणमय	पत्थरमय, पत्थरवाळु	शिलामय, पथरीला
(adj.)	stony			
अम्हादिसो :	Like us	आमच्या सारखा दिसणारा,	हमारा जेवुं, हमारा सरखुं	हम लोगो समान
(adj.)		सदृश, समान, तुल्य		
अम्हि :	See अत्थि	-	-	-
अम्हं, अम्हाकं, :	See अहं	-	-	-
अम्हे etc.				
अलकनंदा :	A city of Kuvera	-	-	-
(f.)				
अलकूो :	A mad dog, name of a tree	पिसाळलेला कुत्रा	दिवानुं अथवा हडकायु कुतरो	उन्मत्त या पागल कुत्ता
अलकखी :	Bad luck,	कमनशीब,	कमनशीब,	अभाग्य,
(f.)	misfortune	दुर्देव, अरिष्ट	दुर्भाग्य, दुर्देव	दुर्गति
अलगदो :	A snake, serpent	साप, सर्प	साप, सर्प	साप, सर्प
अलगता :	Detachment, freedom from	अलगता, विषय,	विषय भावना वगरनुं	अलगाव, विरक्तता,
(f.)	attachment to the world, freedom from human - passion	पराङ्मुखता, विरक्तता	मनोविकार शिवाय	मानवी भाव विरहित

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अलङ्कृतो :	Adorned, decorated, embellished	अलंकृत, शोभायुक्त साजरा, भूषविलेला	शोभिवंत, शणगारेलु	सुशोभित बनाया हुवा, सजा हुवा, अलंकृत किया हुवा
अलङ्करणं :	Decoration	सजवणे, अलंकार	अलंकार, शोभा, भूषण, शणगार	अलंकार, सजावट
अलङ्करोति :	To adorn, to embellish, to decorate	सुशोभित करणे, सजविणे, श्रृंगारणे	शणगारवु, सुशोभित करवुं, सुंदर बनाववु	अलंकृत करना, सजाना, सुशोभित करना
अलङ्करो :	Ornament, decoration, trinkets, Ornaments, Rhetorical fingers or rhetone.	अलंकार, शोभा दागिना, भूषण नग, अलंकारविद्या शास्त्र, वाक्चातुर्य	आभूषण, अलंकार शोभा, हलकी किंतनुं धरेणु अलंकार शास्त्र, वाक्चातुर्य.	अलंकार, आभूषण श्रृंगार, कमदामकी वस्तु अलंकार शास्त्र
अलज्जी : (adj.)	Shamless, bold rebellious	निर्लज्ज, बेरड, निलाजरा, धीट उद्धट, बंडखोर	असभ्य, उद्धट, निर्लज बेमर्याद, हिंमतवान, साहसिक लोफानी, हुल्लडखोर	निर्लज, साहसी उपद्रवी, राजद्रोही
अलक्तको :	lee, a red animal dye	लाख	लाह	लाख
अलक्तो :	Lac	लाख	लाख	लाख
अलत्थ :	See लभति	-	-	-
अलब्दा :	See लभति	-	-	-
अलमबुसा : (f)	Name of a certain Apsanas or goddess	-	-	-

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अलसन्दा : (f.)	Alexandria a city in the Yona country	- -	- -	- -
अलसो : (adj.)	Idle, lazy, slothful, lanquid	आळस, सुस्त, आळशी, मंद, जड, म्लान, उदास	सुस्त, आळसु, नवरू, न कामु, मंद, ढिलुं, खिन्न, शिथिल	निरुद्योगी, आलसी, सुस्त, शिथिल, मंद, निर्बल
अलहुको : (adj.)	Heavy	भारी, जड, दुःसह	बोजवाळुं, वजनदार	भारी, अधिक, प्रंचड
अलातं :	Firebrand	आगलाव्या, कोलीत	बळतु, लाकडु, उमाडीयु, कज्जाळु	लुआठी
अलापु, लापु : (neut.)	A gourd, a pumpkin	भोपळा	कोवळुं	लौकी, कहु
अलाबु : लाबु :	A long gourd : a pumpkin	भोपळा	कोळू	कहु, लौकि
अलाभो :	Not getting : loss detriment, injury	अलभ्य, हानि, अपाय, नुकसान, तोटा, अपकार, अन्याय, अपराध, जुलूम,	नुकसान, हानि, टोटो, हार, बिघाड, नाश, धक्को	हानि, घाटा, अपकार, अनिष्ट,
अलि : (m.)	A bee	मधमाशी, भुंगा	मधुमाखी	भ्रमर, मधुमक्खी
अलिको : (adj.)	Disagreeable, unpleasant, untrue, false	अप्रिय, नापसंत, विषम, खोटा असत्य, मिथ्या, अनृत	नापसंद, प्रतिकूल, असत्य, खोटु, बेवफा	अप्रिय, असत्य मिथ्या, झूठा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अलिन्दो :	A terrace or Verandah outside a house	ओटा, गच्ची, माळवद	अगासी, धाबु, ओटलो चोतरो	चबुतरा, बरामदा
अलेखो :	A drawing, painting, picture	चित्र, रूपरेखा, तसबिर, रंगाचे चित्र, देखावा, वर्णन	चित्रकाम, आलेखान, छबी, चित्रकला, तसबीर.	चित्र विद्या, चित्र लेखन, प्रतिमा
अलोभो :	Absence of covetousness or desire	अलोभी, निलोभी, अभिलाषा नसणे.	लालसा बगैरनुं	बिना लालसा
अलं : (adv.)	Fit, able, adequate, sufficient, hold ! enough !	योग्य, लायक, कर्तबगार, अनुरूप, पुरा, पुरेसा हा ! हा ! हा !	समर्थ, शक्तिवान, पुरतु.	योग्य, प्रविण, निपुण, तुल्य, पर्याप्त, ठहरो, पर्याप्त, उचित.
अल्लपो :	Speaking to, talking	बोलणे, वदणे, कथन करणे	बोलवुं, कहेवुं, वदवुं	बोलना, वार्तालाप करना, व्याख्यान करना
अल्लियति :	To be attached, to adhere, to be bent upon	शी अनुरक्त असणे, चिंकटलेला असणे, बिलगणे, लगटणे, तोल अथवा कल असणे.	जोडवुं, बांधवुं, संयोग करवो, चोटवुं, वळगी हरेवुं, निश्चय थयेलो	मित्रताका संबंध, चपकना, दढ होना, एक चिज उपर ध्यान देना.
अल्लीनो : (P.P.P.)	Attached adhering	चिकटून बसणे, आसक्ति एकनिष्ठता	जोडेलु, चोटेलुं, वळगेलुं	अनुरक्त, असक्त, चिपका हुवा, दढ हुवा
अल्लो : (adj.)	Wet moist	ओला, भिजलेला, आद्र, दमट	भिनु, पल्लाळवुं	भिगा, गिला, आद्र, तर, नम.
अहंकारो :	Selfishness, pride, arrogance	अहंकार, गर्व	अहंकार, गर्व	अहंकार, गर्व

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अहतः	A new cloth or garment,	नवीन वस्त्र	पस्त, कपडा	पोशाक, लबादा
अहतं :	A new cloth or garment, before it is washed	- -	- -	- -
अहमहमिका :	Conceit of superiority,	अहंकार, उद्धट, मगरूर	अभिमान, अहंकार,	अहंकार, गर्व, अभिमान,
(f.)	arrogance, eqosim	अहंता	अहंभाव	स्वार्थ
अहमहमिका :	Conceit of superiority,	अहंकार, मोठेपणाचा	उपरीपणनो, अभिमान,	प्रधानता का अहंकार,
(f.)	arrogance, eqosim	अधिकार, अहंपणा	अहंकार, अहंभाव	गर्व, स्वार्थ, आत्मवाद
अहह :	Alas ! Oh !	हाय हाय	हाय, अफसोस	हाय, आह ओह
(Interg.)			ओह, अरे	
अहहं :	One of the high numerals, 10,000,000	- -	- -	- -
अहासि :	See Harate	- -	- -	- -
अहि :	Snake	सर्प, साप	सर्प	साँप, सर्प
(m.)				
अहिगुण्ठको :	A snake charmer	गारूडी	मदारी	गारूडी
अहितुण्ठको :	A snake charmer	गारूडी	मदारी	गारूडी
अहितो :	Bad,	नुकसान कारक,	नुकसान कारक	हानिकारक
(adj.)	prejudicial	अहित करणार		

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अहिरिका : (f.)	Shamelessness	बेशरमपणा	बेशरमपणू	निर्लज्जता
अहिरिको : (adj.)	Shameless	निर्लज्ज, कोडगा	असभ्य, उद्धट	निर्लज्ज
अहिंसको : (adj.)	Not injuring others, harmless, humane	निरूपद्रवी, निर्दोष, दयाळु	इजा न करे तेवुं दयाळु	निर्दोष, निरपराधी, दयाळु, परोपकारी
अहिंसनं :	Not injuring others, humanity	निरूपद्रवी, दयाळू	नुकसान नईं करे येवुं	निरपराधी, दयाळु
अहिंसा : (f.)	Not killing, not violence, humanity, kindness	हत्या, विरोध, अहिंसा, दया, माणुसकी, ममता, दयाळु	अहिंसा, माणसाई, मनुष्यत्व, माया, भलाई, कृपा सहानुभूति	हत्या न करना, अहिंसा, दया, कृपालुता सुजनता,
अहेसुं :	See Holi	- -	- -	- -
अहो : (Interj.)	Oh ! ah ! Alas !	अरेरे, हाय, हाय	- -	आह, अरे, हाय
अहोरत्तो : अहोरत्ति (f.)	A day & night	अहोरात्रि	दहाडो, रात	दिनरात
अहोसि : अहु, अहुवा,	See होति	- -	- -	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
अहं :	A day	एक दिवस	एक दिवस दहाडो	एक दिन
अहं :	I, myself	मी, स्वतः	हुं, मे, मारु	मैं, स्वयं, अपना
(pers pron.)				
अहंकारो :	Selfishness, pride, arrogance	स्वार्थी, मतलबी, अहंकार, गर्व	स्वार्थी, अभिमान अहंकार,	स्वार्थी, अभिमान, गर्व, अहंकार
अन्हो :	Day	दिवस	दहाडो	दिन, दिवस
अण्हो				
अळासे :	Crooked	वाकडा, तेढा, कपटी	वळेलु, वांकु	टेढा, कुटिल, बदसुरत
(adj.)				
अंसु :	A thread, a bit of thread a	दोरा, धागा, सूत,	दोरो, सूतर, तंतू,	दोरा, दागा, तंतु, सूत्र,
(m & n)	filament, a ray, a sunbeam	तंतु, सूत्र, किरण.	किरण, तेज	किरण, प्रभाव, सूर्य किरण
अंसुकं :	Cloth, fine cloth	कापड, वस्त्र, सुरेख कपडा	कपडुं, लुगडुं	कपडा, वस्त्र
अंसुमाली :	The sun	सूर्य, रवि	सूरज, दिवाकर, भास्कर	रवि, सूर्य, दिनकर
(m.)				
अंसो :	A part, portion, share, a period of time	भाग, विभाग, अंश, हिस्सा, तुकडा, समय, कालमान, मुदत, अवधि	भाग, अंश, हिस्सो : वखत, काळ, समय	अंश, विभाग, टुकडा, भाग, हिस्सा
अंसो, अंसं :	The shoulder	खांदा	खंबो, बांध	कन्धा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आकङ्क्षति :	To wish, to desire, to long for	इच्छिणे, लुब्ध होणे, खंतावणे	अभिलाषा राखवी, इच्छवुं, स्पृहा करवी	लालसा करना, लोभ करना या चाहना
आकङ्क्षा :	Desire, longing	इच्छा, अपेक्षा, आशा, उत्कंठा	इच्छा, मर्जी, अभिलाषा	इच्छा, आकांक्षा, आशा, अभिलाषा
(f.)				
आकङ्क्षति :	To draw towards, to drag along	जवळ ओढणे, खेचणे, फरफट पाडणे	सामे खेचवुं, घसडवु	पास खीचना, शक्ति लगाकर खीचना
आकङ्क्षनं :	Drawing, attraction	ओढणे, आकर्षण, मोहक शक्ति	आकर्षण शक्ति	खीचना, आकर्षण, प्रलोभन
आकङ्क्ष्यो :	Decent or elegant, attire, ornament embellishment, disguise	उचित अथवा सुरेख सुशोभित पोषाख, अलंकार, दागिने, भूषण, सजावट, वेष बदलणे, किंवा वेषांतर	लायक, सुशोभित, पोषाख, अलंकार, शोभा, श्रृंगार, वेषांतर	उचित या सभ्य या सुरूप या सुंदर या वेष, वस्त्र, अलंकार, आभूषण, सजावट वेष बदलना या छुपाना
आकारो :	A multitude mien, a mine	जमाव, मेळा, भरणा, खाण, सुरंग	समुदाय, मेळो, समुह, खाण, सुरंग	समुह, समाज, झुंड, आकार खान, सुरंग, खाई,
आकारो :	Appearance, mine, countenance, form, sign, token, way; manner, means, cause, reason object, purpose, a constituent, part of the body	स्वरूप, हजेरी, आकार, चेहरा, मुद्रा, रूप, आकृति, बांधा, चिन्ह, खूण, दाखल, गति, तन्हा, प्रकार, रीति, पद्धती, उद्देश्य, हेतु, तर्क, आशय, शरीराचा एक भाग	हजरी, डौल, रूप, आकृति, मुद्रा, आकारो, चिन्ह, लक्षण, निषाणी, यादगिरी, कारण, हेतु, प्रयोजन, धारणा, इरादो, मतलब, सरिरनो एक अवयव अथवा भाग	आकार, दिखावट, आकृति, ढंग, मुख, सौंदर्य, संकेत, चिन्ह, लक्षण, स्मारक, मार्ग, पथ, पद्धति, रिती, उपाय, प्रकार, सूचित करना, कारण, हेतु, तर्क, युक्ति, प्रयोजन, उद्देश, आकांक्षा, शरीरका एक भाग

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आकारो :	The vowel 'a'	स्वर आ	स्वर आ	स्वर आ
आकासट्टो : (adj.)	Standing or staying in the sky, resting in space	आकाशातील	आकाशमा	आकाश में बसे हुवे
आकासान :	Realm of infinity of space	अनंत जागा (अवकाश, आकाश)	अनंतता, आपारपणु (अवकाश जग्या, काळ)	अनंतता (अवकाश)
ञ्चायतनं				
आकासि :	See करोति	- -	- -	- -
आकासो :	The sky, air, heavens, the open space in air	अवकाश, आकाश, आस्मान, स्वर्ग, परलोक	आकाश, स्वर्ग, जन्त	आकाश, स्वर्ग, परमेश्वर
आकिञ्चञ्जं :	Poverty, destitution, nothingness, void	दारिद्र, गरिबी, हिनता, अभाव, रिकामी, रिता, पोकळ, निरर्थक	दरिद्रता, कंगाली, निराधारपणु तंगी, अभाव, शून्यता, थालु, शून्य	दरिद्रता, निर्धनता, दीनता, अभाव, निराश्रयता, निर्धनता अभाव, शून्यता, शून्य, हिन, रिक्त
आकिञ्चञ्चायतनं :	The Realm of nothingness	अभावाचे राज्य	शून्यतानु राज्य	अभाव, राज्य प्रदेश
आकिण्णो :	Crowded confused troubled	गर्दी असलेला, ठेचून भरलेला, गोंधळलेला, घाबरलेला, इजा करणे	भीड, गर्दी, गभराववुं, मुझंववु, मुशकली मा	भीड भाड का भ्रमपूर्वक, व्याकूलतासें, कष्ट देना या होना
आकिरति :	To scatter, to sprinkle	पसरविणे, उधळणे, शिंपडणे, शिंताडणे	वेरवुं, भमराववुं, छाटवु	फैलाना, बिखेरना, छिडकना, धोना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आकुञ्चितो :	Bent, curved	वाकडा, झुकलेला,	वाक लाळुं, वळेलु, बाकु	झुका हुवा, बाका हुवा,
(P.P.P.)		तोललेला, वळलेला		तेढा, घुमा हुवा
आकुलो :	Crowded, confused, troubled,	खच्चून भरलेला, गोंधळलेला,	भीड, मुझांवूं जवुं, घबारावुं,	व्याकुल, संप्रात, भीडभाड का,
(Adj.)	perplexed, distressed	धांदललेला, दुःखविलेला,	मुष्केलीमा, उपद्रवमा, भुलाव	कष्टी, दुःखी, अविद्ग्न,
		गुंतविलेला, दुःखी, कष्टी, व्यग्र	मा, दुःखी, हेराण	दुःखित, पिडीत
आकोटापेति :	To cause, to be smoothed	- -	- -	- -
(Caus.)	(आ + त्कुट)			
आकोटेति :	To beat, to beat down	मारणे, पराभव करणें	मारवु, ठोकवुं, प्रहार करवो,	पीटना, मारना, कूट कर
(Caus.)			वगाडवुं	चर करना, पराजीत करना
आकख्य :	Frequent in the Sinhalese	- -	- -	- -
	MSS			
आखु :	A rat or mouse	उंदिर	उंदर	चुव्हा, मुषक, मुसा
(m.)				
आख्या :	Name	नाम, संज्ञा, लौकिक	नाम, संज्ञा, अभियान	नाम, किर्ती, संज्ञा,
(f.)				
आख्यातो :	Said, announced, told	उक्त, जाहीर केलेले,	कहेलुं, बोलेलुं, जाहेर करेलुं,	कहा हुवां, प्रकाशित
(P.P.P.)		सांगितलेले	प्रसिद्ध थयेलुं, जणावेलुं	करा हुवां
आख्यायिका :	A tale, story, legend	आख्यान, कथा, वृत्तांत,	कथा, कहाणी, आख्यान,	कथा, कहानी, जीवनी,
(f.)		हकीगत, आख्यायिका, चरित्र	वार्ता, वृत्तांत, गाथा	वृत्तांत, कहानी, उपाख्यान,
				पौराणिक कथा, गाथा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आगच्छति :	To come, to approach, to arrive, to return	येणे, जवळ जाणे, पोहोचणे, पुनरागमन, परत फिरणे	जवु, पासे जवुं, जावी पोहचवुं, पाछुं, मोकलवुं	जाना, समीप जाना, पहुंचना, आ जाना, पलटना, वापस आना
आगन्तु : (Adj.)	Coming, arriving, occasional, adventitious, incidental	आगान्तुक, आकस्मीक, क्षुल्लक	प्रसंगो पातनु, प्रासंगिक	आकस्मिक, अनित्य, प्रासंगिक, अनावश्यक
आगन्तु : (Adj.)	Coming, arriving, occasional, adventitious, incidental	आगामी, आगन्तुक, बाहेरचा, नैमित्तिक	आवी पोहोचवुं, प्रासंगिक, एकाऐक, प्रसंगोपातनुं	आगामी, प्रासंगिक, समयनुसार, आकस्मिक, अनित्य, अनावश्यक
आगन्तुक : (Adj.)	Coming, arriving, adventitious, incidental, foreign	आगान्तुक, परकीय, अयोग्य	प्रासंगिक, पारकुं, परायु	अनित्य, प्रासंगिक, अयोग्य, परदेशी
आगन्तुको : (Adj.)	Coming, arriving, adventitious, incidental, foreign	आगामी, आगन्तुक, परकीय, परदेशी	आवी पोहोचवुं, एकाऐक, प्रसंगोपातनुं, पारकुं	आगामी, प्रासंगिक, आकस्मीक, भिन्न, विदेशी
आगतो : (P.P.P. आगच्छति)	Having come having arrived, having returned, having attained, contained in, existing in, found in	मुक्कामी पोहोचून, प्राप्त करून, परत करून, फेडून, समाविष्ट, अस्तित्वात असलेला	आवी पोहचवो, मेळवावुं, प्राप्त करववुं, समावेले, अस्तित्वमा थयेलुं, मळेले, शोधि काढेले	आ कर, पहुंचने बाद, वापस करके, चुका कर, पलट कर, पा कर, लपेटा हुवा, जीवन स्थिती
आगतो : (P.P.P.)	Having come, having arrived, having returned, having attained, contained in, existing in, found in	येऊन, पोहोचून, परतून, परत फिरून, संपादून, साधून, साठवलेला, अस्तित्वांत येऊन, स्थापून	आवी पोहोचीनें, पाछा आवुं प्राप्त करववुं, संपादन करववुं, समाववुं, अस्तित्व धराववुं, स्थापववुं	आ कर, पहुंच कर, वापस आ कर, प्राप्त करके, रख कर, अस्तित्व, स्थिर करके

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आगमनं :	Coming, arriving, return, approach	परत येणे, पुनरागमन, पोचणे	पासे जवुं, नजीकमा जवुं, पाछु देवुं	समीप जाना, वापस जाना, चुकना
आगमनं :	Coming, arriving, return, approach	आगमन, पोहोचलेला, पुनरागमन, प्रवेश	आववुं, आगमन, प्रवेश	आना, पा लेना, पलटा, पुनरागमन
आगमेति : (Caus. आगच्छति)	To cause, to come, to communicate to, to impart, to wait	निवेदन करणे, कळविणे, देणे, अर्पणे, प्रतिक्षा करणे	जाणववुं, निवेदन करवुं, अपवुं, दान तरिके अर्पण करवुं, प्रतिक्षा करवुं	कहना, देना, भाग देना, समाचार देना, प्रतिक्षा करना
आगमेति :	To cause, to come, to communicate to, to impart, to wait	येणे, पोहोचणे, घडुन येणे, कळविणे, जाणविणे, देणे, दान करणे, खोळंबून राहणे, बसणे	आववुं, जणाववुं, निवेदन करवुं, विदित करवुं, राह जोवी, वाट जोवी	आना, कहना, देना, फैलाना, सूचित करना, राह देखना, ठहरना
आगमो :	Advent, arrival, income, influx, knowledge, sacred books, the Buddhist scriptures, Doctrine religion	येणे, आगमन, अंतप्रवाह, ज्ञान, पवित्र पुस्तक, धर्म ग्रंथ, धर्मतत्त्व, धर्म-सिद्धांत	आगमन, अंतप्रवाह, ज्ञान, पवित्र पोथी, धर्मग्रंथ, सिद्धांत	आगमन, प्रवाह, ज्ञान, बोध, पवित्र किताबे, धर्म पुस्तक, शिक्षा, मत, धर्म
आगमो :	Coming, advent, arrival, income, influx, knowledge, sacred book, Buddhist scriptures, Doctrine religion	आगामी, पोहोचणे, प्राप्ति, अदा, अंतःप्रवाह, ज्ञान, परिचय, पवित्र, धार्मिक ग्रंथ, बुद्धलोकांचे धार्मिक ग्रंथ, तत्त्वे आणि धर्म	आगमन, आवक, आमदनी, अंतःप्रवाह, ज्ञान, विद्या, पवित्र चोपडी, बौद्ध लोकनी धर्मपुस्तक, सिद्धांत, धर्म	आगामी, आगमन, आय, आमदनी, अर्न्तप्रवेश, ज्ञान, परिचय, धार्मिक पुस्तक, बौद्धजनोका धर्म पुस्तक, मत, पंथ, धर्म

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आगम्प :	Having, arrived, having gone to, having come to by means of, on account of, according to, for the sake of,	जाऊन, येवून, च्या द्वारे, त्यामुळे, प्रमाणे, अन्वये, च्यासाठी, च्याकरिता	ना थी, मतलब थी, ने लीधे, ने लईने, अनुसार, मुजब खातर	वजह से, प्रकारसे, वास्ते, अनुसार, वास्ते, लिये
आगम्प : (Gert)	Having come to, having gone to, having arrived, having returned, by means of, on account of, according to, for the sake of, on behalf of,	येवून, जाऊन, पोहोचून, परत येऊन, द्वारे, च्यामुळे, वरहुकूम, कारणासाठी, मुळे, करिता	आवीने, जईने, पाछा आवीने, नाथी ने लीधे, नं लईन, अनुसार, मुजब, मतलबथी, माटे	आ कर, जा कर, वापस लोट कर, कारणसे, वास्ते, लिये, तदनुसार, निमित्त
आगहितो : (P.P.P.)	Seized, hold, pulled	धरलेले, ओढलेले, पकडलेले	पकडेलुं, खेचेलुं	धरा हुवां, पकडां हुवां, खेचा हुवां
आगहितो : (P.P.P.)	Seized, hold, pulled	बळकावलेला, धरलेला, ओढून घेतलेला	एकदम पकडेलुं, झालेलुं	छिन लिया हुआ, पकडा हुआ, खींचा हुआ,
आगामिको : (Adj.)	Coming, approaching	जवळचा,	- -	प्रवेश, योग्य
आगामिको : (Adj.)	Coming, approaching next	आगामी, जवळचा,	आगामी, ते पछीनुं	आगामी, समीप का
आगामी : (Adj.)	Future, coming	भावी, आगामी	भविष्यनुं, आगामी	भविष्य काल, आगामी

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आगारं :	A house, a building, an apartment, a hall	घर, गृह, इमारत, खोली, दालन	घर, मकान, निवास, इमारत, ओरडो, कोटडी, दिवानखानुं	मकान, भवन, कोठी, कमरा, दालान
आगारं :	A house, a building, an apartment, a hall	घर, इमारत, खोली दिवानखाना	घर, मकान, इमारत, कोटडी, ओरडो, दिवानखानुं	घर, कोठी, कमरा, दीवानखाना
आगिलायति :	To be tired, to ache	थकणे, दमणे, दुखणे, वेदना	थकी जवुं, श्रमीत थवुं, दुःख थवुं, पीडा थवी	थका हुवा, दरद होना, पीडा होना
आगिलायति :	To be tired, to ache	थकणे, दुखणे,	थाकी जवुं, पीडा थवी	थकना (थकावट), पीडा (दुःख) होना
आगु :	Sin, guilt, offence, crime (n.)	पाप, अपराध, अन्याय, गुन्हा	अपराध, गुन्हो	अपराध, रोष
आगु :	Sin, guilt, offence, crime (n.)	पाप, दोष, अपराध, गुन्हा आघात	पाप, दोष, अपराध, गुन्हो	पाप, अपराध,
आघाटनं :	Slaughter-house, shambles, place of execution	कत्तलखाना, खाटकांचा बाजार, देहान्त शिक्षेची जागा	कसाई खाना, खाटकी बजार, फांसी देवानी जग्या	वध स्थान, कसाई खाना, फांसी देनेकी जागा
आघातनं :	Slaughter - house, shambles, place of execution	कत्तल घर, खाटीकखाना, फांशी देण्याची जागा	कसाईखानुं, खाटकीवाडो, फांसी अपे ती जग्या	कसाई खान, वधस्थान
आघातुको :	Injuring, hurting (Adj.)	नुकसानी करणे, जुलुम करणे, दुखवणे, आघात	माहुं लगाडवुं, दुखाववुं, इजा करवी	आघात, घाव, पीडा देना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आधातुको :	Injuring, hurting	दुखापत करणारा,	वगाडवुं, इजा करवी,	दुसरेको अपाय देना
(Adj.)		दुखवणारा, आघात करणारा	दुःख देवुं	(करना) आघात करना
आघातो :	Anger, ill-will, hatred, malice	राग, क्रोध, द्वेष, वैर	क्रोध, द्वेष, वैर, धिक्कार	क्रोध, कोप, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या
आघातो :	Anger, ill - will, hatred, malice	राग, क्रोध, द्वेषबुद्धि, वैर द्वेष,	क्रोध, कोप, वेर, द्वेष, अदावत	क्रोध, कोप, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या
आचमनं :	Rinsing the mouth, washing, cleansing	चूळ भरणे, धुणे, विसळणे, भिजवणे, धुऊन टाकणे	म्हों पाणीसे खंखाळवुं, धोवुं, पाणीथी साफ धोवुं, बिछळवुं	मुह पाणीसे धोना, धोना, मारून, शुद्ध करना
आचरति :	To live, to act, perform, to treat, to practice	वागणे, राबणे, उदरनिर्वाह, उपजिविका करणे, सिद्धिस नेणे - करणे, वागवणे, वागणे, उपचार करणे, आचरणे, पढविणे, संवयीने करणे	काम करवुं, आचरवुं, गुजारन चलाववुं, जीववुं, संपादन करवुं बजाववुं, बरदास करवी, चर्चा करवी, अभ्यास राखवो	जीना, निर्वाह करना, कार्य करना, संपादन करना, अनुकरण करना, विधान करना, अभ्यास करना, उद्यम करना, प्रबन्ध करना
आचरियो :	A teacher, a scholar, a professor	गुरु, अध्यापक, पाठक, पंडीत, विद्यार्थी, शिष्य	गुरु, अध्यापक, महेताजी, शिष्य, विद्यार्थी, आचार्य, पाठक	अध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, छात्र, विद्वान, विश्वविद्यालय का पाठक/अध्यापक
आचामो :	Scum of boiling rice	पेजेवरची तवंग	कांजी उपरनो तवंग	माँड
आचारो :	Conduct, practice, right conduct good manners	वर्तन, आचार, वागणूक, शुद्ध आचार, सरळ वर्तन, चोख वागणूक	योग्य वर्तणूक, व्याजवी आचार, भली चाल, सारी ढब	आचरण, अभ्यास, व्यवहार, उचित आचरण, उत्तम, योग्य रीति, (चाल ढंग)

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आचिक्खति :	To tell, to announce, to point out, to show	सांगणें, जाहीर करणें, दर्शविणें, दाखवणें, सुचवणें,	जाहेर करवुं, खबर आपवी, कहेवुं, देखाडवुं	बतलाना, निवेदन करना, प्रकट करना, दिखलाना
आचिक्खनं :	Telling, showing	सांगत होता, दाखवणें, सुचवणें, दर्शवणें	जणाववुं, निवेदन करवुं, देखाडवुं, बताववुं	कहता था, सूचित करता था
आचित्तो : (P.P.P.)	Heaped up, collected	सांचवलेला, एकत्रित केलेला, गोळा केलेला	संग्रह करेलुं ते, गंज, भेगुं करेलुं ते	इकट्टा करा हुवाँ, संग्रहीत
आचिनति :	To heap up, to accumulate	रास करणें, साचविणें, जमा करणें	संचय करवो, ढगलो करवो, ऐकटुं करवुं	इकट्टा करना, ढेर लगाना, धन संचय करना
आजञ्जो : (Adj.)	This is another form of आजानीयो with the same meaning	- -	- -	- -
आजाननं :	Knowing, understanding	जाणून, बुद्धिपुरःसर समज, अक्कल	जाणी जोईने, समज, ज्ञान	ज्ञानपूर्वक, जान बूझकर, ज्ञानशक्ति बुद्धि
आजानामि :	To perceive, To understand, To learn, To know	जाणणें, समजणें, शिकणें, जाणणें	जणवुं, जणावु, समजवु, शिकवुं, भणवुं	जानना, समजना, सिखना पढना
आजानेय्यो, : आजानीयो (Adj.)	Of good bread or race	खानदानी वंश, जाति, कुल	खानदान वंश, कुल	खानदानी वंश, जाति, कुल

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
जाजि :	Battle or strife	लढाई, युद्ध, झोंबी,	लढाई, युद्ध, कज्जो, तंटो	युद्ध, संग्राम, कलह
(f.)		झटापट, भांडण		
आजीवको :	One belonging to, a Hindu seek of naked ascetics, a religious, mendicants	आजीवक	आजीवक	आजीवक
आजीवनं :	Livelihood or subsistence	उपजीविका, चरितार्थ, उदरनिर्वाह	गुजराण, उपजिविका, निर्वाह	जीविका, वृत्ति, प्राणयात्रा
आजीवी :	Living	उदरनिर्वाह, जगणे	गुजारो	जीना
(Adj.)				
आज्जवं :	Rectitude	सरळपणा, प्रामाणिकता	सरळपण, प्रामाणिकता, निती	सच्चाई, सदाचार
आढ्यो :	Belonging to a wealthy family, well born of good family	श्रीमंत घराण्यातील कुलीन, चांगल्या कुटुंबातला	श्रीमंत कुटुंबनो ते, कुलीन, सारा परिवारमा थी	धनाढ्य कुलका, कुलीन, अच्छे कुलमे पैदा हुवा
(Adj.)				
आणत्ति :	Command, injunction, ordinance	आज्ञा, स्वामित्व, हुकूम, ताकीद, कायदा, विधि, कर्म	हुकूम, आज्ञा, ताकीद, नियम, कानून, ठराव	आज्ञा, प्रभुत्व, आदेश, आशा, नियोग, विधि, नियम
(Adj.)				
आणत्तो :	Commanded, enjoined	हुकूम आज्ञा बजाविलेला, ताकीद दिलेला	फर्मावेलुं, आज्ञा करवी, ताकीद आपवी	आज्ञा दिया हुवा
आणा :	An order, a command, authority	आज्ञा, व्यवस्था, हुकूम, क्रम, अधिकार, सत्ता	हुकूम, आज्ञा, व्यवस्था, फर्मान क्रम, पद्धति, रिति, हुकूम, सत्ता, अधिकार, अखत्यार	आज्ञा, नियम, विधि, फर्मान, अधिकार, शक्ति
(f.)				

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आणापनं :	Ordering, commanding	हुकूम सोडणें, आज्ञा देणें	हुकूम, आज्ञा, फर्मान हुकूमत चलाववी, हुकूम करवो, फर्मावुं	आज्ञा देना, फरमाना
आणापेति :	To order, to command	आज्ञा करणे, देणे, फरमाविणे, हुकूम करणे	हुकूम अपवो, आज्ञा अपवी, फर्मावुं	आज्ञा देना, प्रबंध करना
आणि : (f.)	The pin of a wheel axle a linch-pin, a peg or pin	चाकाच्या आंसाची खीळ, चाकाची खीळ, खुंटी, टांचणी	पैडानी खीली - खोलो, खुंटी, खुंटो, मेख, टांकणी, खीली मेख	धुरे पर लगी हुई कील जो पहिये की गिरने से रोके रहती है। कीला, खुंटी, सूईरापान, आलीपान, खुंटी, सूई
आदरणीय : (Adj.)	Estimable, deserving of respect	मान्य, योग्य, आदरणीय	सन्मान लायक, आदर योग्य, उचित	मान्य, आदरणीय, पूज्य, गौरव योग्य
आदरो :	Esteem, regard, respects, interest, care, devotion, affection	आदर, बहुमान, प्रतिष्ठा, पूज्यबुद्धि, आस्था, कळकळ, खबरदारी, भक्ति, आसक्ति, ममता, माया	आदर, किंमत, मानवुं, लागणी, पूज्य बुद्धि, काळजी, दरकार, संभाळ, काळजी, आसक्ति, अनुराग	आदर, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा पक्षपाती, स्वार्थ दृष्टीसे, चिन्ता, सावधानी, निष्ठा, अनुराग, आसक्ति, वह लेनाही चाहिये
आदातब्बो : (Adj.)	That ought to be taken	ते घेतलेच पाहिजे	पेलुं लेवुं जोईये	वह लेनाही चाहिये
आदाता : (m.)	One who takes	जो कोण घेऊन जातो तो	जो कोण लई जाय	जो कौन लेता है वह

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आदाति, :	To take, to receive,	घेणें, स्वीकारणें, अंगीकारणें,	लेबु, स्वीकारवुं, बलत्कारे	लेना, स्वीकारना, छीन लेना,
आददाति :	to seize, to take away	हिरावून घेणें, अलग करणें,	लई लेवुं	जप्त करना, अलग करना
आदानं :	Taking, appropriating, seizing, attachment, clinging to the world, desire, Taking what is not given	अंगीकार, ग्रहण करणें, गिळंकृत करणें, बळकावणें, आसक्ति, संसार, प्रपंच, इहलोक यांना कवटाळणे, अपेक्षा, कामना, चोरणें	झपाटमां पडववु, पचावी पाडवुं, बलत्कारे लई लेवुं, जप्त करवुं, आसक्ति, दुनिया, जगत ने बळगवुं चोरववुं	पकडाना, अंगीकार करना, अपनाना, स्वायत्ती करण, छीन लेना, अनुराग, आसक्ति, संसार, प्रपंचको चिपकना, इच्छा, अभिलाष, चोरना
आदायी :	Taking	घेऊन, मोहक	लई ने	लेकर, मनोहारी, रम्य
(Adj.)				
आदासो :	A mirror	आरसा	आरिसो, दर्पण	आईना, दर्पण
आदि :	Beginning, starting - point	प्रारंभ, सुरवात	शुरु करवुं, आरंभ, प्रारंभ करवो ते	आरंभ, उद्गम
(m.)				
आदिको :	Beginning with, first, initial	सुरवाती पासून, आरंभी, आदि, प्राथमिक	आरंभीथी, आद्य, पहेलुं, शुरुआतनुं	आरम्भ से, उद्गमसे, प्रथम, आदिका
(Adj.)				
आदिच्चपथो :	The sky, the heavens	आकाश, स्वर्गलोक, अस्मान	आकाश, आस्मान, स्वर्ग	आकाश, स्वर्ग
आदिच्चबन्धु :	Kinsman of the sun - a name of Buddha as a member of a family of the solar race	सूर्य गोत्रातील (सजातीय), बुद्ध नाव सूर्यवंशावळीपैकी आहे	सूर्यनो कुटुंब गांथी, बुद्ध नाम सूर्य वंशावळी मांथी छे	सूर्य परिवारमेसे, बुद्ध नाम, सूर्यवंशमेसे है
(m.)				
आदिच्चो :	The sun	सूर्य	सूर्य,	सूरज

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आदित्तो :	From the beginning, first	सुरवात पासून, आद्य पूर्व,	आरंभथी, पहेलुं, आद्य	आरम्भसे, आगला प्रथम
(Adj.)		मुख्य		
आदित्तो :	Blazing, burning	झगझगीत, दैदीप्यमान	तेज, प्रकाश	दैदीप्यमान
आदित्तो :	Blazing, burning	झळझळीत, तेज, धगधगीत	अजवाळुं, तेज, दाह, दाज	प्रज्वलित, तेज,
(P.P.P.)				परितप्त (जलना)
आदिप्पति :	To blaze, to burn, to glow	भडकणे, जाळ होणे, प्रदीप्त होणे	भडकवुं, बळवुं, दीपवुं	भभकाना, जलना, प्रज्वलित करना
आदिब्रह्मचरियं :	Primary or fundamental morality as opposed to the details of practice and ritual	मूलभूत आणि आवश्यक अशी नीति अथवा धर्माचरण, आचरण आणि संस्कार विधिच्या उलट अथवा विरुद्ध	आधारभूत अने मूळ नीति अथवा सदाचरण, विधि, संस्कार थी विरुद्ध	प्रारंभिक अथवा सारभूत नितितत्व, आचार और संस्कार विधिसे विरुद्ध
आदिमो :	First, initial	प्रारंभीचे, आदि, आद्य	पहेलुं, आरंभनुं	आदिका, प्रथमका
(Adj.)				
आदियति :	To take, to receive, to obtain, to take to heart	घेणें, स्वीकारणें, मिळविणें, प्राप्त करणें,	लेवुं, स्वीकारवुं, मेळवुं, संपादन करवुं.	मिलाना, लेना, स्वीकार करना, प्राप्त करना
आदियति :	To take, to receive, to obtain, to take to heart, to attend to	घेणें, स्वीकारणें, मिळवणें, संपादणें, मनाला लावून घेणें, काळजी घेणें, आत मन घालणें,	लेवुं, स्वीकारवुं, पागवुं, प्राप्त करवुं, मेळवुं, मनमां राखवुं, लागी आववुं, ध्यान आपवुं	लेना, स्वीकार करना, प्रतिपादन करना, हृदयकू लगा लेना, ध्यान लगाना.
आदिसति :	To show, to point out, to tell	दाखवणें, दर्शवणें, सांगणें	बताववुं, देखाडवुं	बतलाना, दिखलाना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आदीनवो :	Distress, suffering, evil result or consequence, evil guilt, sinfulness, disadvantage	व्यथा, दुःख, क्लेश, दुष्परिणाम, गुन्हा, अपराध, पापी, पातकी, हानी, नुकसान	दुःख, पीडा, दुष्ट परिणाम, फळ, गुन्हो, अपराध, दुराचरण, नुकशान, गोरफायदो	क्लेश, पीडा, दुःख, पुष्परिणाम, नीचता, दुष्ट, अपराध, पातक, हानि, असुविधा
आदेति :	To take, to seize, to receive, to obtain	घेणें, स्वीकारणें, बळकावणें, हिरावून घेणें, आदरातिथ्य करणें, मिळवणें, संपादनं	लेवुं, पकडवुं, धरवुं, झालवुं, स्वीकारवुं, केळववुं, संपादन करवुं	लेना, पकडना, छीन लेना, स्वीकारना, सत्कार करना, प्राप्त करना
आदेसको : (Adj.)	Information, direction, order, injunction	आदेश, बातमी, दिश दाखवणें व्यवस्था, हुकूम, ताकीद	सूचना, खबर, दिशा, हुकूम, आज्ञा	आदेश, बातमी, आज्ञा, दिशा
आदेसको : (Adj.)	Telling, information	सांगणें, कळविणें, बातमी	कहेवुं, निवेदन करवुं, समाचार, खबर	कहना, समाचार देना, सूचना
आदो :	A locative of आदि	- -	- -	- -
आदो :	A locative of adi	- -	- -	- -
आधारो :	A prop, support, stand, a basin round the foot of a tree to retain water : a receptacle locative in Grammer	आधार, टेंका, आश्रय, झाडाभवती पाणी राहण्यासाठी केलेले कुंड (खळें), पात्र	आधार, टेको, थांबलो, आश्रय, झाडने आसपास पाणी राखवा माटे बन्धायेलुं कुंड, भंडार	आधार, खम्भा, सहारा, उंचा चबुतरा, झाडके चारो ओर पाणी रोकने के लिये बनाया हुवा भांड (कुण्ड), पात्र, बर्तन,

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आधिकारिको : An official office bearer.	अधिकारी, कामगार, हमाल (कचेरीत काम करणारा)	अधिकारी, कचेरीमा काम करवा वालो दूत	अधिकारी, कर्मचारी, गृह काम करनेवाला नौकर.
आधिपतेय्यं : Influence, rule, Supremacy	कर्तृत्व शक्ति, अधिकार, श्रेष्ठत्व, प्रभुत्व	सत्ता, अधिकार, ऐश्वर्य,	शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार, श्रेष्ठता, प्रभुत्व
आधुतो : Shaken (P.P.P.)	हालवलेला	ध्रजबी देवुं, हलाववुं,	कंपना, हिलाना,
आनञ्चं : Infinity, immensity, boundlessness	अपार, अनंतता, अपरंपार, अमर्याद, अगाध	अनंतत्प, अपारणपणु, अगाध	अनंतता, महत्व, अपधिरहित
आनन्तरिको : Uninterrupted (Adj.)	अभंग, न मोडलेला, अतुटक	बांध पाड्या वगरनुं	अबाध्य, अभंग
आनन्दनं : Friendly greeting, Welcome	स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन	अभिनंदन स्वागत	अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत, शुभ, सुखद
आनन्दो : Joy, delight, happiness : Name of a famous disciple of Buddha : name of a fabulous Seamonster	आनंद, हर्ष, उल्लास, संतोष, सुख, भगवान बुद्धांचा नामांकित अनुयायी, अतिशय मोठा पाण्यात रहाणारा प्राणी	आनंद, हर्ष, उल्लास, सुख, कल्याण, भगवान बुद्धनो विख्यात चेला, बहुत मोटु जनावर,	आनंद, हर्ष, सुख, भगवान बुद्धके प्रसिद्ध शिष्य, बडे आकारका अद्भूत पशु
आननं : The mouth	तोंड, मुख	म्हों, वदन, मुख	मुख, छिद्र

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आनयनं :	Bringing near escorting	जवळ नेणें, समीप नेणें, संरक्षणाकरितां बरोबर जाणे	पासे जवुं, नजीक लेवुं, भोमिओ, मार्गदर्शक	समीप लेना, पास जाने, रक्षाके लिये साथ देना
आनयन्यं :	Freedom from debt	कर्ज नसलेला, अत्रुणी	करज नाही	ऋण नाही जिसको
आनापानं :	Inspiration respiration	श्वास ओढणे, श्वासोश्वास	श्वासोश्वासनी क्रिया, श्वासोच्छ्वास	उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास
आनापेत्ति :	To cause to be brought, to send for	बोलावणे, बोलविणे पाठविणे	ने तेढी गंगा ववु, ने तेढा ववु, आमंत्रण करवु	बुलाना, बुलवाना
आनायो :	A net, a fish - net	जाळे, पाश, मासे पकडण्याचे जाळे	जाळ, पाश, माछली पकडवा माटे जाळुं	फंदा, जाल, मच्छी पकडनेका जाला
आनितो :	Brought, conveyed	आणलेले, नेलेले, पाठविलेले, जाहीर केलेले	लई आवुं, लावी आपवुं, पहोचडावेल, कहेबडाववुं	ले आना, ले जाना सन्मुख करना, पहुंचाना
आनिसंसो :	Advantage, profit, good result, blessing, reward, merit	लाभ, फायदा, किफायत, संधि कल्याणकारक अथवा हितावह परिणाम (फळ पर्यवसान); आशिर्वाद, कृपा, देणगी, मोबदला, पुण्याई, भलाई, उत्तमता, लायकी, योग्यता	फायदो, लाभ, हित, कल्याण, उत्तम परिणाम, सारुं फळ, सुख, आशिर्वाद, भले गुण, दुवी कृपा, इनाम, बक्षीस, गुण योग्यता, लायकी, इनाम बक्षिस बदलो पारितोषिक, पुण्य धर्म फळ बदलो	सुविद्या, महत्व, बडाई, लाभ प्राप्ति, संतोषप्रद, परिणाम, सुचित फल, आशिर्वाद, कृपा, प्रतिफल, पारितोषक, गुण, योग्यता, ईश्वरकी कृपा, प्रतिफल, दक्षिणा, श्रेष्ठता

	(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आनुभाववा : (Adj.)	Possessing power, gifted with, supernatural power	राखवुं होवुं, कबजामा राखवुं, मालीक होवुं, भगववुं, शक्ति, जोर, बळकौवत, सत्ता, अधिकार अमल देवताई असाधारण अलौकिक सत्ताबळ - अधिकार अंमल बक्षिस आपवी नजराणुं आपवुं बुद्धि आपवी	अधिकार रखना, धारण करना, प्राप्त करना पूर्ण करना, शक्ति सामर्थ्य योग्यता विभव प्रभुत्व अधिकार राज शक्ति, प्रकृति विरुद्ध (अमानुषी) अलौकिक अद्भूत शक्ति सामर्थ्य (बल) योग्यता, विभव, प्रभुत्व अधिकार, दान देना (Gift)
आनुभावो :	Dignity, authority, powers, might supernatural power, efficacy	मननी मोटाई प्रतिष्ठा प्रताप प्रभाव सत्ता अधिकार अखत्यार सत्ता शक्ति जोर, बळ कौवत, अधिकार अमल जोर बळ शक्ति ताकाद देवताई असाधारण अलौकिक शक्ति सत्ता अधिकार गुण बळ असर प्रभाव	महत्व प्रताप गौरव (प्रतिष्ठा) शक्ति (प्रभुत्व) अधिकार प्रभाव प्रमाण प्रवीण मनुष्य शक्ति सामर्थ्य योग्यता विभव प्रभुत्व अधिकार शक्ति बल पराक्रम सामर्थ्य अलौकिक अद्भुत शक्ति प्रभाव आधिकार योग्यता प्रभाव (सामर्थ्य) गुण

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आनेज्जं :	Immovability, Impossibility	अढळ, अचलता, अचर, वेदनारहित	अचळपण, स्थिरता, सुख दुःख लागे नाही तेवु, अचेतन पणुं जडता	स्थिरता, दुःख न सहेन, योग्य
आनेति :	To bring, to bring home, to fetch, to prourse, to carry, to convey	आणणे, धरी आणणे, जाऊन आणणे, मिळविणे, घडवून आणणे, पैदा करणे, नेणे पाहून नेणे, वाहणे, नेणे.	लाववुं, लावी अपवुं आपवुं अपजवु मनमा ठसाववुं साबीत करवु जईन लाववुं भेळववुं संपादन करवुं, सांधवु, लई जवुं जणाववु पहोचडेववुं कहेडाववुं पाडी लेवुं, लई जवु पहा चाडवुं जणाववुं कहेवडाववु	लाना, घर ले आना, जाकर लाना, निकालना, उपार्जन करना फैलना, उत्पन्न कर देना ले जाना, प्रतिपादन करना लाना, बदलना पहुँचाना ले जाना, प्रतिपादन करना (देना)
आनं :	Inhaled air, inhalation, inspired breath	श्वासोश्वास, श्वास	श्वास, दम	उछ्श्वास, साँस, श्वास लेना
आबज्झति :	To be bound : fettered, (Pass.) held fast	बिडी घातलेला, बांधून घेणे, बांधणी करणे, घट्ट धरलेला.	निगडीत, बंधायेलुं, सज्जड पकडायेलुं बेडीमा पडेलुं	बाँधना, बेडीसे बंधा हुवा, पकडना
आबद्धो :	Fastened, joined, (P.P.P.) united, attached	जप्त केलेला, आसक्त, जोडलेला, संयुक्त, एकत्रित, जखडलेला	बंध वेसाडेळुं, बद्ध एकत्र करलुं, जडयुं, चोटाडेळुं,	बन्धा हुवा, मिला हुवा, संयुक्त

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आबाधिको :	Affected with illness :	आजारी, अयोग्य,	आजारी, मांडु, असम्य,	बीमारी, बुरा,
(Adj.)	ill, sick	रोगी, अस्वस्थ, वीट, कटाळा आलेला	माटुं, अस्वस्थ,	अस्वस्थ
आबाधो :	Illness, sickness	दुखणें, आजार, रोग, विकार, मळमळ (ओकारी)	बीमारी, मांदगी, मोल, आवती होय तेवुं, असुख,	बीमारी
आभतो :	Brought, carried, (P.P.P.) conveyed	आणलेला, आणला, वाहून नेलेला, पोहोंचविलेलें	लाव्युं, लावी, आपवुं, कहेवडाववुं, पहोंचाडवुं,	- -
आभरणं :	Ornament, decoration	अलंकार, भूषण, शोभा, सजावट	अलंकार, भूषण, शोभा, शणगार,	अलंकार, आभूषण, सजावट, श्रृंङ्गार
आभस्सरो :	Shining, (Adj.) Radiant	चकचकीत, तेजस्वी, देदीप्यमान	झळकतुं, तेजस्वी, प्रकाशित,	- -
आभा :	Splendour, (f.) Radiance, light	शोभा, तेज, चकाकी, प्रकाश	शोभा, तेज, प्रकाश, झगझगाट,	तेज, कान्ति, प्रकाश, प्रभा
आभाकरो :	The Sun	सूर्य, सूर्यप्रकाश, ऊन	सूर्य, सूरज, सूर्यनो ताप, तडको	सूर्य, धूप
आभाति :	To shine	चकाकणें, चमकणें, प्रकाशणें, शोभणें, गाजणें	प्रकाशवुं, शोभायमान करवुं झगझगवुं	- -

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आभुजति :	To bend to, to turn in	लववणें, वळवणें, वांक देणें, फिरवणें, उपयोगी कामी लावणें, पालटणें	वाकवुं, वळवुं, फेरववुं, उलटाववुं, बदलवुं,	झुकाना, घुमना, मोडना, बदलना, पलटना, उलटना, नई रीति में लगाना
आभूजी :	Name of a tree - Bhojpatra	भोजपत्राचे झाड	भोजपत्रनुं झाड	भोजपत्रका झाड
(f.)				
आभोगो :	Fulness, plenty thought, ructim	पूर्णता, भरपूर, रेलचेल, विपुलता, विचार, मनन, चित्तन, तर्क, भावना, मनोदय	भरपूर, भरेलुं, पुष्कळ, घणुज, विपुलता, समृद्धि, मनन, विचार, ध्यान, संकल्प, अभिप्राय	संपूर्ण, पूरा, प्रचुरता, बहुतायतः, विचार, भावना, ध्यान, बुद्धि
आम :	Indeed, truly, (Intenj.) yes	वास्तविक, खरोखर, खचित, यथार्थ, इमानी, खरं, सात्विक,	खरोखर, खच्चित, वास्तुत, वास्तविक रिते, बराबर हा	वस्तुतः, यथार्थमे, सचमुच, इमानदारीसे, सचाईसे, हाँ हुँः
आमको :	Raw, uncocked (Adj.)	कच्चा, कोवळा,	भले, ठीक, काचु, अपकव	अपक्कव, अधुरा, कच्चा
आमण्डो :	The castor oil - plant	एरंडाचे झाड	एरंडो	रेडीका पेड
आमन्तणं :	Calling, speaking to, addressing	निर्मंत्रण करणें, बोलणें, वदणें, कथन करणें, संबोधणें	बोलाववुं, कहेवुं, वदवुं, भाषण करवुं	बोलना, कहेना, उच्चारण करना, निवेदन करना
आमन्ता :	Yes, (Intej.) certainly	निःसंशय, होय, खरोखर	हा, भले, ठीक, चोक्कस रिते, खात्रीपूर्वक	हाँ, हुँ, अवश्य, निःसंदेह
आमन्तेति :	To address, to speak to, to call	संबोधून बोलणें, मानपत्र देणे	बोलवु, कहेवुं, भाषण करवु,	बोलना, नाम लेना, चिल्लाना कहेना. निवेदन करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आमयो :	Sickness, ill-health to greet	रोग, विकृति, व्याधि, आजार, दुखणे	मांधु : मांदगी : आजारी पणु :	अस्वस्थ, रोगी, बुरा, व्याधि
आमलको :	Emblie myrobalan	- -	- -	- -
आमलको : (f.)				
आमलकं :				
आमसनं :	Touching, handling	स्पर्श करणारा, ला हात बोट लावणे, ची वाटाघाट करणे	स्पर्श करवुं, हाथथी पकडवुं, वपराश, हाथमा लेवु ते	स्पर्श करना, छुना, हाथ का कार्य
आमिसं :	Flesh, meat,	मांस, मांसाहार, आहार, भोग	मांस, गोस, खोराक अन्न,	मांसहार, अन्न, आहार,
आमिसो :	food object of enjoyment bait, lust, desire	वस्तु, आमिष, मोल, भूल, लोभ, आशा, आस्था, इच्छा	भोगनी वस्तु, खोराक अपि ललचाववुं, लोभ, मोह, आकर्षण, पापसक्ति: इच्छा, अभिलाषा	उपभोगकी चीझ, ललचाना, लोभ, प्रलोभन, लालसा, इच्छा, अभिलाषा
आमुत्तो :	Dressed, (P.P.P.) accoutrements for battle	लष्कर पोशाख केलेला	गोठववुं लष्करी पोशाख करेलु	आभूषित, अलंकृत फौजी पोशाखसे सज्जा हुवा
आमोदना :	Rejoicing (f.)	आनंद, हर्ष, आनंदाचे प्रदर्शन	हर्ष पामवुं	आनंदकर
आमोदो :	Pleasure, joy, A strong perfume, fragrance	आनंद, सुख, मौज, उल्हास, हर्ष, घमघमीत, सुवासिक, सुगंध	मोज, आनंद, ऐषाराम, हर्ष, सुवास, सुगंध	आनंद, संतोष, हर्ष, उग्र गंध, सुगंध, खुषबु
आलका :	The city of kuvera	कुबेर नगरी	कुबेर नगरी	कुबेर नगर

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आलपति :	To speak to, to address	बोलणें, वदणें, संबोधणें, लिहिणें	बोलवुं, कहेवुं, भाषण करवुं	बोलना, व्याख्यान करना, निवेदन करना, उच्चारण करना, मार्ग दिखलाना
आलपनं :	Speak to, addressing The vocative case	वदणें, बोलणें, संबोधणें	बोलवुं, कहेवुं, वदवुं, कहेवुं, भाषण करवुं	बोलना, वार्ता, आलाप करना, निवेदन करना.
आलम्बति :	To lean upon, to take hold of	रेलणें, कलणें, झुकणें, टेकणें, ठेवणें, धरणें	आधार, टेको, लेवो, पकडी लेवुं	सहारा देना, आश्रित होना, झुकना, टेक लगना, पकड
आलम्बनं :	Support, an object sense	आधार, अवलंबणं, टेका, आश्रय, इंद्रिय	आधार, टेको इंद्रिय	सहारा, टेका, इंद्रिय,
आलम्बो :	Support, object of sense	टेका, आधार, संभाळणे, आश्रय, पालन, इंद्रिय	टेका, आधार, निर्वाह, इंद्रिय	संभालना, पोसना, अवलंब, आश्रय, सहार, इंद्रिय
आलयो :	Dwelling, house, abode, longing, desire, attachment, lust	घर, वसतिस्थान, आशा, इच्छा, अपेक्षा, आसक्ति, हाव, तृष्णा	वास, मकान, घर, स्पृहा, उत्कंठा, अभिलाष, मर्जी, आसक्ति, दुबुद्धि, पापासक्ति,	निवासस्थान, घर या मकान, उत्कंठा, अभिलाष, लालसा, इच्छा, आकांक्षा, अनुराग
आलवालकं :	A basin or trench round a tree to retain water	झाडाभवती पाणी रोकण्या- साठी केलेला चर	झाडने आसपास खोदेली खाई	पेड़ के चारो तरफे बनाई होई खाई या परिखा जिसमे पानी रुका जाता है
आलसियं आलस्यां, आलस्सं	Idleness, sloth	आलस्य, आळशी, सुस्ती, रिकामटेकडा	आळसु, नवरु, नकामु	आलसी, निर्द्योगी

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आलानं :	A stake or post to which an elephant is tied	हत्तीला बांधण्यासाठी खुंटी	- -	- -
आलापो :	Speaking to, addressing, speech	बोलणें, वदविणें, भाषण, संबोधणें, वाणी	कहेवुं, भाषण करवुं, भाषण, व्याख्यान, वाचा	बोलना, व्याख्यान देना, भाषण देना, भाषण, व्याख्यान
आलि (f.)	A woman's female friend, a line, a dike, an embankment	मैत्रिणी, बांध, धरण, खंदक, बंधार	सहेली, निक, बांध, बाळ	सहेली, खाई, बांध, बाँवर
आलि (m.)	A scorpion	विंचू	विंछि, वृश्चिक	वृश्चिक, विच्छ
आलिखति :	To draw, delineate	चित्र रेखाटणें, रेखणें	खोचवुं, ताडवुं, आलेखवुं वर्णन करवुं	खीचना, नकाशा खीचना
आलिङ्गति :	To embrace, to enfold	आलिङ्गणें, स्वीकारणें, अङ्गिकारणें, मानणें, लपेटणें	भेटवुं, आलिङ्गन करवुं	आलिङ्गन करना, लपेटना, अङ्गिकार करना
आलिङ्गनं :	An embrace	आलिङ्गन, मिट्टी	आलिङ्गन, भेटो	आलिङ्गन
आलिङ्गो :	A small drum	ढोल, मृदंग	नगारु, पडदं	ढोल, दुदुंभी, नगाडा
आलिम्पापेति (caus.)	To cause to be anointed	तेल अथवा उटणे चोळलेला, अभिषिक्त	तेल लगाडपुं अभ्यंग करावो	राज्याभिषेक करा हुवा, तेल लगाया हुवां
आली (Adj.)	Free from attachment or desire	विषय परांग, मुखता, आसक्ति	अनिच्छा	अलगाव

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आलुलति :	To agitate, to disturb, confuse	खवळणें, चळवळ करणें, घाबरे करणें, त्रास देणें, क्रम मोडणें, ढवळणे, गोंधळ करणें, घोटाळा करणें, गोंधळविणे.	हलाववुं, घबराववुं, उष्केरवुं, बेचेन अथवा हेराण करवुं, गोंगाट करवुं, तोफान मचाववुं, गुणववुं, घबराववु, मुझाईववुं	हिलाना, हलचल मचाना, व्याकुल करना, क्षुब्ध करना, गडबड करना.
आलोकनं :	Seeing, looking	पाहणें, अवलोकन	जोवु, निहाळवुं, अवलोकवुं,	देखना, परिक्षा करना
आलोकसन्धि :	A window (n.)	खिडकी	बारी, खिडकी	रोशनीदान, खिडकी, वातायन झरोक
आलोकितं :	Looking at, regarding, seeing	पाहणें, अवलोकणें, मानणें, लक्षपूर्वक पाहणें	जोवुं, निहाळवुं, दरकार राखवी, गणकारवुं	देखना, ध्यानसे देखना, आदर करना, मानना
आलोको :	Sight, look, light	दृष्टी, नजर, देखावा, चेहरा, मुद्रा, सुरत, चर्या, रुप, प्रकाश, उजेड, तेज, काँति, ज्योत, दिवा	दृष्टी, देखाव, तमासो, दर्शन जोवुं, निहाळवुं, अहाबाळु, दिवो, तेज, प्रकाश, रोशनी	दर्शन, दृष्टी, देखना, प्रकाश, प्रभा, रोशनी, दिपक
आलोपो :	A fragment, a bit, a morsel a mouthful of rice or other food taken up with the hand, a lump or ball of food	तुकडा, खांड, कुटका घास कण	टुकडो, अंश, भाग, विभाग कुळीयो	खंड, अंश, टुकडो
आलोळापेति :	To cause to be mixed or (caus.) jumbled up together	ढवळणें, घालमेल करणें, गोंधळणें.	गोटाळो करववुं, घालमेल करववु	मिलावट करा हुवा

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आलोळेति :	To mix, to shoke or stir together, to jumble, to confuse	मिसळणें, भेळणें, हलविणें, ढवळणें, गोंधळ, धांदलणें, उलथा पालथ करणें	भेळववुं, मेळववुं, हलाववुं, उठाववुं, घालमेल करवी, मुंझाई जवुं, मुंझववु	मिलाना, संयुक्त करना, मिश्रित करना, उकसाना, हिलाना, मंथन करना, मिलावट करना, व्याकुल करना
आह :	To say to speak, to call, to tell	वदणें, बोलावणें, सांगणें	बोलवुं, बुलावुं, कहेवुं, वदवुं	बोलना, बुलाना, कहना
आहच्च :	See Ahanati	- - -	- - -	- - -
आहच्चापादो :	Name of a particular sort of bed or chair, one of the leg which can be easily removed by drawing out a pin	हे नाव ----- एक प्रकारचा पलंग अथवा खुर्ची ज्याचा एक पाय, त्याचीच एक खुंटी काढून अलग करता येतो, त्याचे आहे	एक जातनी खुर्शी अथवा पलंग, जेनो पग, एक खीली निकालवाथी	यह नाम ----- एक जातकी कुर्सी या चारपाई जिसका एक पैर उसकी एक खील निकालनेसे आसनसे अलग हो सकता है
आहच्चो :	To be brought forward, to be adduced, removable	पुढे आणणें, काढावया जोगा	आगळ लाववुं, खात्रीपूर्वक कहेलुं, लई जई शकाय तेवुं	आगे करना, आगे खीचना बढाना, सुचित करना, हटाने योग्य
आहच्चो :	To be brought forward, to be adduced, removable	पुढे आणलेला, दाखवलेला काढण्यासारखा	आगे लई आवुं, खात्रीपूर्वक कहेवुं, खसेडी शकाय तेवुं	आगे लाया हुवा, सुचित किया हुवा, हटाने योग्य

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आहटो :	Brought, carried, obtained	आणलेला, नेलेला, संपादलेला, मिळवलेला	लाववुं, उपडी लीधेलुं, मेळवेलुं	लाया हुवा, मिलाया हुवा, प्राप्त किया हुवा
(P.P.P.) (आहरति)				
आहतो :	Struck, stamped	मारलेला, ठसविलेला	मारववुं, प्रहार थयेलुं	मारना, पिटना, ठप्पा लगा हुवा
(P.P.P.) (आहनति)				
आहनति :	To strike, to throw, to beat, to pound, to reach	मारणें, फेकणें, पाडणें, पोहचणें.	मारळवुं, पीटवुं, फेकवुं, पोहचवुं	मारना, पीटना, फेकना, पहुँचना
आहनति :	To strike, to throw, to beat, to pound, to reach	आघात करणें, फेकणें, मारणें, ठेचणें, पोहोंचणें	प्रहार करवुं, फेकवुं, मारवुं, ठोकवुं, पहोंचवुं	पीटना, उछलना, मारना, कुटना, पहुँचना
आहरणं :	Bringing, accomplishing	घेणें, आणणें, तडीस नेणें, संपादणें	लाववुं, पार पाडवुं, पुरु करवुं	लाना, पूर्ण करना, सिद्ध करना
आहरणं :	Bringing, accomplishing	आणतो, संपादून, मिळवून	लाववुं, समाप्त करीने, पार पाडवुं	ले आना, पूर्ण करके
आहरति :	To bring, to fetch, to take, to plunder, to tell, to relate	आणणें, जाऊन आणणें, घेणें, लुटणें, सांगणें, कथणें, लुबाडणें.	लाववुं, लावी आपवुं, लेवुं, लुटवुं, कहेवुं	लाना, ले आना, देना, लुटना, चुराना, कहेना, वर्णन करना

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आहरो :	Bringing	आणणे	लाववुं, लई आवुं	लाना, लेना
(Adj.)				
आहवनीयो :	Sacrificial	यागा संबंधाचा अग्नि	यज्ञनो, यज्ञने लगतु	यज्ञ संबंधी
(Adj.)				
आहवो :	War, battle	युद्ध रणसंग्राम	युद्ध, लढाई	युद्ध, लढाई
आहारो :	Food, nourishment, cause	आहार, भोजन, कारण, निमित्त, हेतु	भोजन, खुराक, कारण, हेतु	आहार, भोजन, कारण निमित्त
आहावो :	A through or watering place by a fountain or well	कुंड, टाकी (पाणी साठवण्यासाठी)	कथरोट, थाळी	कठौता
आहिण्डति :	To roam, to wander	हिंडणें, भटकणें	रखडवु, भटकवुं	घुमना, भटकना
आहितग्नि :	One offers sacred fire	अग्नि देणारा	पवित्र अग्नि देवावाळो	पवित्र अग्नि देनेवाला
(n.)				
आहितो :	Bad, prejudicial	- -	- -	- -
(Adj.)				
आहु :	See Aha	- -	- -	- -
आहुनेय्यो :	Sacrificial, Worthy of	आराधनीय,	पूजनीय, आराधनीय	पूजनीय, आदरणीय, यज्ञ
(Adj.)	offering, worshipful	यज्ञाचा, यागाचा	यज्ञने लगतु	बलिदान संबंध

		(Marathi)	(Gujarathi)	(Hindi)
आहंसु :	See Aha	- -	- -	- -
आळको :	Certain measure of capacity	- -	- -	- -
आळकम	the stake or post to which an elephant is tied			
आळम्बरो :	A drum, pride, arrogance	ढोल, कानाचा पडदा, गर्व, अहंकार, ताठा, तोरा, अभिमान, उद्धटपणा	ढोल, नगारु, पडधं, मगरूरी, गर्व, अभिमान, अहंकार	नगडा, दुदुंभी, ढोल, गर्व, अभिमान
आळविको : (Adj.)	Dwelling in forest	जंगलात राहणे	अरण्यमा रहेवुं	जंगलमें रहेना
आळवी : (f.)	Name of a city in India	- -	- -	- -
आळारिको :	A cook	स्वैपाकी, आचारी	रसायो, रांधनार	रसोईयादार
आळहानं :	Cremation ground, cemetery	दहनभूमि, कबरस्थान	स्मशान, कबरस्तान	श्मशान, कब्रिस्तान

BLANK

BOOK III
PALI GRAMMAR

BLANK

The Pali Grammar

Section	I	वर्णविचार -	Orthography
Section	II	भाषानियम -	Rules of change
Section	III	शब्दविचार -	Etymology
		A ₁ - Nouns -	I General grammar
			II Words in groups
			III Sentences
		A ₂ - Pronouns -	Classification same as above
		A ₃ - Adjectives -	Classification same as above
		B - Verbs -	I General grammar
			II Verbs in groups
			III Participles
			IV Participles in groups
			V General conversation
		C - Particles	I Prefix
			II Indeclinables
			III Particles in groups
			IV Sentences
Section IV		Cardinals	
Section V		Syntax	
Section VI		General conversation	
Section VII		General information	

Section 1

ALPHABETS or वर्ण 41

वर्णविचार (Orthography)

1. (i) सरा (स्वर in Sanskrit) or Vowels in Pali are eight in number viz :—
अ a, आ a, इ i, ई i, उ u, ऊ u, ए e, औ o. Out of these अ, इ, उ are short or रस्स (ःह्रस्व), and आ, ई, ऊ are long or दीघ (दीर्घ); ए and औ are diphthongs.
- (ii) Consonants or व्यंजना are Thirty-three :-
- (a) क ka; ख kha; ग ga; घ gha; ङ na (कवर्गो)
च ch; छ cha; ज ja; झ jha; ञ na (वर्गो)
ट ta; ठ tha; ड da; ढ dha; ण na (टवर्गो)
त ta; थ tha; द da; ध dha; न na (तवर्गो)
प pa; फ pha; ब ba; भ bha; म ma (पवर्गो)
य ya; र ra; ल la; व va; स sa; ह ha; ळ la;
- (b) The above consonants are classified into two categories – hard and soft.
- (i) The last three consonants in each group and य, र, ल, व, ह and ळ together are the twentyone soft consonants.
- (ii) The first two consonants in each group and स together are the eleven hard consonants.
- (iii) ङ, ञ, ण, न, म – are nasal
- (iv) संयुक्त व्यंजन :- Conjunct Consonants.
क्क kka; क्ख kkha; क्य kya; क्रि kri; क्व kva;
क्य khya; क्ख khva; ग्ग gga; ग्घ gggha; ग्र gra;
ङ्क nka; ङ्ख nkha; ङ्ग nga; ङ्घ nggha;
च्च cca; च्छ ccha; ज्ज jja; ज्झ jjha; ज्ञ nna; ज्ह nha;
ञ्च, ञ्च nca; ञ्छ ncha; ज्ञ्ज, ज्ञ्ज njja; ज्ञ्झ njha; ट्ट tta;
ट्ट ttha; ड्ड dda; ड्ढ ddha; ण्ण nna; ण्ट nta; ण्ठ ntha;
ण्ड ndha; त्त tta; त्था ttha; त्व tva; त्र tra; द्द dda;
द्ध ddha; द्र dra; द्व dva; ध्व dhva; न्त nta; न्थ ntha;
न्द nda; न्थ ndha; न्न nna; न्ह nha; प्प ppa; प्फ ppha;
ब्ब bba; ब्भ bbha; ब्य bya; ब्र bra; म्म mpa; म्फ mpha;
म्ब mba; म्भ mbha; म्म mma; म्ह mha; य्य yya;
य्ह yha; ल्ल, ल्ळ lla; ल्य lya; ल्ह lha; व्ह vha; स्स ssa;
स्म sma; स्व sva; ह्य hma; ह्व hva; ळ्ह lha.
- (iii) अनुस्वार or निग्गहिता i.e - म्र pronounced as अहं and written as Ahan.
- (iv) विसर्ग (:)

- (v) There are no vowels ऋ, ॠ, लृ, लॄ, ऐ and औ nor are there the consonants श and ष in Pali. स substitutes श and ष in Pali.
- (v) All Pali words end with vowels, e.g.:—
दण्डिन् = दण्डी in Pali.

An inherent अ is present in all consonants.

2. Pronunciation; च, ज, and झ are respectively pronounced as in चहा, झिम्मा and झकास.

3. Mode of writing certain words.

गंगा = गङ्गा पंडित = पण्डित लिप = लिम्प
पंच = पञ्च अंध = अन्ध

4. Mode of writing numbers.

१०१ = एकाधिकं सतं; एकत्तुर सतं
२२८ = अट्ठविसति द्विसतं
१२० = वीसति अधिक सतं

Section 2

भाषानियम (Rules of Change)

(A) Vowel Changes :-

1. ऋ is changed to अ, इ, उ, e.g. :-
 - (i) घृत = घत (Ghee); कृत = कत (done); गृह = गह (house) मृत = मत (dead).
 - (ii) ऋषि = इसि; ऋद्धि = इद्धि; धृति = धिति (courage); मृग = मिंग (deer)
 - (iii) ऋतु = उतु; ऋजु = उजु (straight); ऋषभ = उसभ (an ox); वृषभ = बसभ (ox)
2. अ is changed to इ, उ, ए, आ.
 - (i) चंद्रमा = चन्दिमा
 - (ii) असूया = उसूया (hatred)
 - (iii) एकशय्या = एकसय्या
 - (iv) अलका = आलका
3. आ is changed to अ, उ.
 - (i) संमार्जनी सम्मुज्जनी (broom)
4. इ is changed to उ, ए, अ.
 - (i) इषु = उषु (arrow); इक्षु = उक्षु (Sugarcane)
 - (ii) निषाद = नेसाद; विमध्य = वेमज्झ
 - (iii) पृथिवी = पठवी
5. उ is changed to अ, इ, ओ.
 - (i) गुरु = गरु
 - (ii) पुरुष = पुरिस
 - (iii) प्रामुख्य = पामोक्ख; शुण्डा = सोण्डा (Trunk) :
6. ए is changed to ओ.
 - (i) द्वेष = दोस
7. ऐ is changed to ए, इ.
 - (i) वैशाख = वेसाख
 - (ii) ऐश्वर्य = इस्सरिय (riches)
8. औ is changed to उ.
 - (i) होत्र = हुत्त (offerings to god)
9. औ is changed to ओ, उ, आ, अ.
 - (i) औषध = ओसध
 - (ii) मौक्तिक = मुक्तिक; औत्सुक्य = उत्सुक
 - (iii) गौरव = गारव (respect)
 - (iv) सौम्य = सम्म (friend)
10. The visarga (:) preceded by अ is changed to उ after अ and is dropped after other vowels e.g. :-
 - (i) बुद्धाः = बुद्धा; मतिः = मति; श्वश्रू = सस्सू

(B) Consonantal Changes :-

- I. (i) क changed to ख
 - (i) कील = खाल (nail); शुनक = सुनख
- (ii) ग changed to क - तडाग = तळाक (bottom)

- घ changed to ह - लघु = लहु (small)
- (iii) ड changed to ङ - गुड = गुळ (jaggery)
- क्रीडा = कीळा (game)
- ट changed to ङ - स्फटिक = फळिक
- द changed to ङ - दोहद = दोहळ
- (iv) ढ changed to ङह - आषाढ = आसाळ्ह
- (v) प changed to फ - परशु = फरसु (axe)
- (vi) भ changed to ह - प्रभु = पहु (almighty)
- (vii) य changed to व - आयुध = आवुध
- (viii) र changed to ल - मारुत = मालुत (air)
- (ix) ल changed to न - ललाट = नलाट (forehead)
- (x) श, ष changed to छ, स - शावक = छापक
- आकाश = आकास
- (xi) ध changed to ह - रुधिर = रूहिर (blood)
- (xii) ह changed to ध or भ - इह = इध (here)
- मित्रद्रोही = मित्तदूभी

II. Conjunct-consonantal changes :-

1. A long vowel is made short when followed by a conjunct, consonant or an anuswara.
 - (i) मार्ग = मग्ग; मार्जार = मज्जार (cat)
ईश्वर = इस्सर (god); पराक्रम = पराक्कम
 - (ii) a) शालाम् = सालं; नदीम् (-) = नदिं
 - (iii) b) when the anuswara on short vowels is dropped the latter are lengthened
सिंह = सीह; दंष्ट्रा = दाठा;
सदंश = संडास
 - (c) when long vowel has an anuswara becomes short :-
सनातन = सनंतन (old)
 - (d) when a long vowel is accompanied with anuswara, it becomes short :-
मांस = मंस (meat)
2. (i) The first member of a conjunct consonant(संयुक्त जोडाक्षर) in a sanskrit word is dropped in its Pali form and the remaining member is doubled e.g. :-
भुक्त = भुत्त; शब्द = सद्द.
- (ii) If the first member of a conjunct consonant, so doubled, is the second letter of a class(वग्ग), it is changed to the first letter of the same class; and if it is the fourth, it is changed to the third :-
अर्थ → अथ्य → अत्य as भू is the second letter of the तवग्ग.
दुग्ध → दुद्ध → दुद्ध - milk
लुब्ध → लुद्ध → लुद्ध - greedy
- (iii) The remaining first member of a conjunct consonant is

not doubled at the beginning of a word e.g. :-

स्खलित → खलित (mistake)

Nor is it doubled after a niggahita or anuswara e.g. :-

संत्रास → संतास (fear)

This doubling is optional in a compound e.g. :-

पञ्जाय सहितो → सपञ्जो or सप्पञ्जो (wise)

- (iv) य is doubled after ए; e.g. गेयम् → गेय्यं (song); पेयम् → पेय्यं (drink)
- (v) When म्, न्, य्, or द् stands as the last member of a conjunct consonant, it is dropped and the remaining member is doubled Rule (i) is superseded by this and by the subsequent rule (vii) e.g. युग्म → युग्ग (pair); स्मृति → सति (rule iii) (recollection); नग्न → नग्ग; सौम्य → सोम्म, ध्वंस → धंस, (destruction).
Exception :- When म्, न्, य्, व् are combined with ह, this change does not take place. e.g. सह्य → सह्ह (bearable).
- (vi) म् is not dropped in the conjunct consonants ल्म and न्म e.g. उन्माद → उम्माद; कल्माष → कम्मास (spotted); जाल्म → जमो (a rogue); निम्न → निन्न (deep). स्म is either retained or changed to म्ह e.g. भस्म → भस्म; तस्मिन् → तम्हि (in it) उष्मा → उस्मा (heat).
- (vii) र् whether the initial or final member of a conjunct consonant is dropped and the remaining member is doubled. e.g. मार्ग → मग्ग; वर्ण → वण्ण; चक्र → चक्क; दरिद्र → दळिद्द; exceptions आदर्श → आदास (mirror); दीर्घ → दीघ; शीर्ष → सीस (the head)
- (viii) र्य is changed to रिय and the preceding vowel if long is made short. e.g. आचार्य → आचरिय; वीर्य → विरिय (effort) भार्या → भरिया; सूर्य → सूरिय; आर्य → अरिय → अय्य.
- (ix) र्ह is changed to रह; e.g. अर्हत → अरहति. (deserves), गर्हति → गरहति (censures). अन्तर्हित → अन्तरहित (concealed).
- (x) इ is inserted between the two members of a conjunct consonant whose final member is ल. e.g. क्लेश → किलेसो (torture); ग्लान → गिलान (ill); म्लान → मिलान (faded).
- (xi) Similarly इ is inserted between the two members of the conjunct consonants in the words ज्या; ह्री; स्यात्; चैत्य; वज्र; ह्यस; श्री etc.:-
ज्या → जिया (Bow - string); ह → हीरो (shame); स्यात् → सिया (may be); चैत्य → चेतिय (temple); वज्र → वजिर (Diamond); ह्यस् → हिद्यो (yesterday); श्री → सिरी (prosperity).
- (xii) व् in combination with another consonant is changed to ब e.g. सर्व → सब्ब; काव्यं → कब्बं.
- (xiii) त्, यू, ध्य् and स्त are respectively changed to च्, ज्, झ् and थ् at the beginning and to च्च, ज्ज, ज्य्, त्थ् - in the middle of the words. e.g. त्याग → चाग; नृत्य → चच्च; मय → मज्ज; द्युति → जुति; ध्यान → झान; प्रथमध्यानम् → पठमज्झानं; स्तामन् → धाम (strength).
Exception : उद्यान → उय्यान (garden).

- (xiv) स्त् and ष् are changed to ट् and ट् according to their position in a word.
e.g. :- स्थान → ठान; → गृहस्थ → गहट्ट; काष्ठ → कट्ट (ष् is changed to ट्, whenever it is either in the middle or end of a word).
- (xv) थ्य्, श्व, त्स् and प्स are changed to च्छ e.g. :- तथ्य → तच्छ (truth); आश्चर्य → अच्छरिय; पश्चिम → पच्छिम (behind); वत्स → दच्छो (calf); अप्सरा → अच्छरा.
- (xvi) ष्क्, स्क् and क्ष् are changed to ख or क्ख according to their position in a word e.g. :- शुष्क → सुक्ख; दुष्कर → टुक्खर; स्कन्ध → खन्धो; नमस्कार → नमक्कार; भिक्षु → भिक्खु; क्षीर → खीर; क्षय → खय; (when at the beginning क्ष is changed to ख, and छ, when at the end or middle it is changed to क्ख) क्षमा → छमा : इक्षु → उच्छु (Sugar-cane)
- (xvii) स्प् and ष्प are changed to फ्, प्फ and प्फ्, प्प respectively. e.g. स्पन्दनम् फन्दनं; वनस्पति → वनप्पति; पुष्प → पुप्फ; चतुष्पद् → चतुप्पद्.
- (xviii) न्य्, ण्य् and ज्ञ् are changed to ज् or ज्ज e.g. न्याय → जाय; कन्या → कज्जा (when in the middle or at the end); अरण्य → अरज्ज; श्रामण्य → सामज्ज; ज्ञान → जाण; पज्ञा → पज्जा; कृतज्ञ → कतज्जु Conjoint consonants mentioned in Rules xiii to xviii, preceded by anuswara undergo those changes which they would do at beginning of words, e.g. कांक्षा → कंखा.
- (xix) ष्ण is changed to ष्ह e.g. उष्ण → उण्ह; कृष्ण → कण्ह; उष्णीय → उण्हीस पाष्णि → पण्ह.
- (xx) अब्ब changed to ओ e.g.; व्यवहार → वोहार; जवण → लोणी Salt.
- (xxi) व्य् changed to व e.g.; व्यायाम → वायाम; व्यवस्था → ववट्टा
- (xxii) श्न changed to ज्ह e.g.: प्रश्न → पज्ह

III. Ending Consonants

- (i) a consonant is dropped at the end of a word. e.g. :- भगवान् → भगवा.
- (ii) But the ending म् and ending त् or द् of a pronoun are substituted by an anuswara e.g. :- बुद्धम् → बुद्धं (to Buddha); एतत् → (द) → एतं (this, that).
- (iii) The ending visarga (:) or स् or र् preceded by अ is changed to ओ, together with the preceding अ; and is dropped when preceded by other vowels. e.g. सर्वतः → सब्बतो; बुद्धाः → बुद्धा; रुचिः → रुचि; भिक्षु → भिक्खु.
- (iv) Ending ट् of a pronoun (सब्बनाम) or in an उपसर्ग (prefix or suffix) and at the end र्, often reappear when followed by vowels. e.g. :- एतं + अहोसि = एतदहोसि (this happened); ताव + एत्थ = तावदेत्थ (also); पातो + एव = पातरेव, पातोऽव.
- (v) य्, व्, म्, त्, and द् → are often inserted as revivals from sanskrit forms or by analogy to such insertions.
सक्कि + एव = सक्किदेव; पुन + एव = पुनरेव, पुनदेव, याव + अत्थं = यावतत्थं

Section 3

शब्दविचार (Etymology)

Parts of speech :-

In Pali there are eight parts of speech as in English though the Pali Grammarians do not classify them in the same way. Their general classification is :-

I. Nouns (नाम) :- This group includes substantives, pronouns and adjectives. Pronouns are simple pronouns when they stand alone in a sentence, and admit of all genders as they stand for every person or thing which are in different genders. Pronouns become adjectives when they qualify other nouns. Pronouns have no vocative forms. Adjectives in Pali are treated like nouns because they take all the inflections of the nouns and are declinable. Almost all pronouns become adjectives when they are used before a substantive of the same gender, number and case. As the adjectives qualify nouns, which are of different genders and numbers, they must agree with their substantives in gender, number and case.

Nouns are divided into five classes, viz. :-

- (i) नामनाम = Substantives and proper nouns (includes common, proper and abstract nouns).
- (ii) सब्बनाम = Pronouns.
- (iii) समासनाम = Compound nouns formed by combination of two or more words. e.g. राजपुत्त.
- (iv) पद्धितनाम = Derivatives from nouns or Secondary Derivatives are formed from a substantive or a primary derivative (verbal derivative) by adding another suffix to it. e.g. नावा (ship) + इका (in the meaning of engaged) = नाविक (sailor).
- (v) कितकनाम = Verbal derivatives otherwise called Primary Derivative, are formed from the verbal root itself by adding suffixes. e.g. दा (To giver) + (अक = दायक (giver); नी (to lead) + तु = नेतु (leader). About 75% of Pali nouns are derived from Sanskrit.

A. As in English, in **Pali there are** three genders and two numbers.

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| (i) Gender (लिंग) | (i) Masculine = पुल्लिङ्ग |
| | (ii) Feminine = इत्थिल्लिङ्ग |
| | (iii) Neuter = नपुंसकलिङ्ग |

- (ii) Number (वचन) (i) Singular = एकवचन
(ii) Plural = बहुवचन

B. Nouns in Pali are declined in eight cases according to their gender and termination. Eight cases (विभक्ति) namely :-

- (i) पठमा (प्रथमा) = Nominative, denotes the *subject* or कर्ता.
(ii) दुतिया (द्वितीया) = Accusative, denotes the *object* or कर्म.
(iii) ततिया (तृतीया) = Ablative of agent and of instrument, denotes the person or thing *with* or *by* whom something is performed. कारण, साधन.
(iv) चतुथी (चतुर्थी) = Dative, the person *to* whom or *for* whom something is given संप्रदान (to, at, towards).
(v) पञ्चमी (पंचमी) = Ablative of separation अपादान.
(vi) छट्ठी (षष्ठी) = Genitive or possessive in English. संबंध.
(vii) सत्तमी (सप्तमी) = Locative shows the place, in, on, upon, at, etc. अधिकरण.
(viii) आलपन (संबोधन) = Vocative is used to address person.

The inflections or case endings vary according to gender and number e.g., masculine words or stems ending in A (अ) declined as follows :-

Masculine Nouns ending in A (अ). We may take Buddha and decline it thus :-

Case	Singular (Terminations)	Plural (Terminations)
Nominative (पठमा)	बुद्धो (ओ)	बुद्धा (आ)
Accusative (दुतिया)	बुद्धं (म्)	बुद्धे (ए)
Instrumental (ततिया)	बुद्धेन (एन)	बुद्धेहि, बुद्धेभि (एहि, एभि)
Dative (चतुथी)	बुद्धाय, बुद्धस्स (आय, स्स)	बुद्धं (नं)
Ablative (पञ्चमी)	बुद्धम्हा, बुद्धस्मा, बुद्धा, (म्हा, स्मा, आ)	बुद्धेहि, बुद्धेभि (एहि, एभि)
Genitive (छट्ठी)	बुद्धस्स (स्स)	बुद्धानं (आनं)
Locative (सत्तमी)	बुद्धे, बुद्धस्मिं बुद्धमिह, (ए, स्मि, मिह)	बुद्धेसु (एसु)
Vocative (आलपन)	बुद्ध, बुद्धा (आ)	बुद्धा (आ)

Masculine nouns ending in इ and उ are declined differently. So also feminine and neuter nouns are declined differently depending on their endings.

WORDS IN GROUPS

II. Nouns (नाम) :- **Nons** in the following groups are shown with their nominative singular endings in order to help the student in finding their respective genders. The words ending in 'O' are masculine; most of those ending in 'a' (आ) are feminine : those ending with 'N' (अनुस्वार) are neuter. The adjectives are given in their stems with the figure 3 after them, in order to indicate that they should be declined according to the gender number and case of their substantives. Neutral nouns are shown by 'nt'.

1. Human Beings, मनुस्सा

Boy, दारको, कुमारो	Miser, लुब्धो, मच्छरी
Brahman, ब्राह्मणो	Mystic, योगी (m)
Cripple, पीठसम्पी (m)	Monk, मुनि, समणो
Dwarf, वामनो	Nun, समणी, भिक्खुणी (f)
Enemy, अरि, सपत्तो	Nurse, धाती (f)
Eunuch, पण्डको	Old-man, महल्लको
Fool, बालो, मुळ्हो	Old-woman, महल्लिका
Friend, मित्रो	Prince, राजपुत्तो
Girl, दारिका, कुमारी	Princess,, राजधुता
Hermit, तापसो	Queen, राजिनी, महेसी (f)
Infant, थनपो	Servant, सेवको
King, राजा, भूपति (m)	Warrior, खत्तियो
Lord, सामी, अधिपति (m)	Widow, विधवा
Low-caste-man, चण्डालो	Widower, मतभरियो
Maiden, युवती, तरुणी (f)	Wise man, पण्डितो
Man, पुरिसो, मनुस्सो	Woman, इत्थी, वनिता, नारी
Master, सामी, पभू (m)	Young man, तरुणो, युवा (m)
Millionaire, सेट्टी (m)	Young woman, तरुणी, युवती (f)

2. Persons according to their occupations

Actor, नटो	Baker, पूपकारो
Artisan, सिप्पि (m)	Barber, नहापितो
Artist, चित्तकारी	Blacksmith, कम्मरो
Author, गन्थकारो	Book-binder, पोत्थकसिबको

Broker, कयविक्रयिको	Goat-herd, अजपालो
Butcher, मामविको, पसुघातको	Gold-smith, सुवण्णकारो
Caravan-leader, सत्थवाहो	Grass-dealer, टिणहारको
Carpenter, वड्ढकी, (m)	Harlot, गणिका
Carter, साकटिको	Hireling, भटको
Charioteer, रथाचरियो, सारथी (m)	Horse-keeper, अस्सगोपको
Cheat, वञ्चको, सठो	Hunter, ब्याधो, लुहो
Chemist, रसायनिको	Jockey, अस्साचरियो
Clerk, लेखको	Juggler, इन्द्रजालिको
Compositor, वण्णयोजको	Labourer, कम्मकारो
Confectioner, पूपियो	Lawyer, नीतिवेदी (m)
Cook, सुदो	Lutanist, वेणिको
Cow-herd, गोपालो	Mason, इट्टकवड्ढकी, (m)
Cultivator, कस्सको	Mathematician, गणको
Dancer, नटो : नत्तको	Merchant, वाणिजो
Dealer in carpets, पादारिको	Messenger, दूतो, सासनहारो
Dealer in cloth, वत्थिको	Musician, वादको
Dealer in furniture, दारूभण्डिको	Orator, कथिको
Dealer in liquor, मज्जविक्रयी	Painter, वण्णालेपको
Dealer in medicine, ओसधिको	Pedlar, कच्छपुटो
Dealer in oil, तेलिको	Physician, वेज्जो
Dealer in perfume, गन्धिको	Player, कीळको
Dealer in swine, सूकरिको	Potter, कुम्भकारो
Dealer in wood, कट्टिको	Preacher, देसको
Driver, पाजको	Printer, मुद्रापको
Drunkard, सुरासोण्डो	Publisher, पकासको
Dyer, रज्जको	Rice-merchant, तण्डुलिको
Elephant-keeper, हत्थिगोपको	Scavenger, पुक्कुसो
Engineer, यन्तसिप्पी (m)	Sculptor, सिलावड्ढकी, (m)
Farmer, कस्सको	Shepherd, मेण्डपालो
Fisherman, केबट्टो	Shoe-maker, उपाहनिको
Fish-monger, मच्छिको	Shoe-keeper, आपणिको
Foreman, कम्मन्तनायको	Singer, गायको
Fortune-teller, झक्खणिको	Slave, दासो (m), दासी (f)
Fowler, साकुणिको	Stationer, लिपिभण्डिको
Gambler, अक्खधुत्तो	Surveyor, भूमिमापको, रज्जुगाहको
Gamester, जूतकारो	Tailor, तुण्णवायो
Gardener, उय्यानपालो	Tanner, चम्मकारो
Garland-maker, मालाकारो	Teacher, आचरियो, सिक्खापको
Gate-keeper, द्वारपालो	Thief, चोरो

644 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

Trainer of horses, अस्सदमको	Washerman, रजको, धोवको
Turner, चुन्दकारो	Weaver, पेसकारो
Warrior, योद्धो	

3. Relations, जातका

Aunt, (maternal uncle's wife) मातुलानी (f)	Great-grand-mother, पय्यिका, मातामही (f)
(paternal uncle's wife) चुल्लमाता	Great-grand-son, पनत्ता (m)
Blood relation, सालोहितो	Husband, पति, भत्ता (m)
Brother, भाता (m)	Husband's brother, देवरो
Brother-in-law, कालो	Maternal Uncle, मातुलो
Child, दारको	Mother, माता, अम्मा
Cousin, (Paternal aunt's son), पितुच्छापुत्तो	Mother in-law, सस्सु (f)
Cousin, (paternal uncle's son), मातुच्छापुत्तो	Mother's sister, मातुच्छा
Cousin (maternal uncle's son), चूलपितुपुत्तो	Nephew, (sister's son), भगिनेय्यो
Daughter, धीता	Nephew, (Brother's son), भातुपुत्तो
Daughter-in-law, सुणीसा	Niece, (Sister's daughter), भागिणेय्या
Elder-brother, जेडुभाता	Niece (Brother's daughter), भातुधीता
Elder-sister, जेडुभगिनी	Paternal uncle, चूलपिता (m)
Father, पिता (m)	Sister, भगिनी (f)
Father-in-law, ससुरो	Sister in-law, ननन्दा
Father's sister, पितुच्छा	Son, पुत्तो
Grand-father, अय्यको; पितामहो	Son-in-law, जामाता (m)
Grand-mother, अय्यिका; मातामही (f)	Wife, भरिया
Grand son, नत्ता (m)	Younger-brother, कणिडुभाता (m)
Great-grand-father, मय्यको	Younger-sister, कणिडुभगिनी (f)

4. Members, Organs and Component parts of the body;

सरीरावयवा च एव कोट्टासा

Abdomen, वत्थि (nt)	Back bone, पिड्डिकण्टको
Ankle, गाप्फको	Belly, कुच्छि (mf)
Anus, गुडं	Bile, पित्तं
Arm, बाहु (m)	Blood, लीहितं, रुधिरं
Arm-pit, कच्छो	Body, कायो; सरीरं
Artery, धमनी (f)	Bone, अट्टि (nt)
Back, पिड्डि (f)	Bowels, अन्तं

Brain, मत्थलुङ्गं	Lip, ओट्टो, दन्तावरणं
Breast उरो	Liver, यकनं
Breast of Woman, धनो	Lungs, पप्फासं
Cheek, कपोलो	Lymph, वसा
Chin, चुबुकं	Marrow of the bone, अट्टिमिज्जा
Collar-bone, अक्खको	Mesentery, अन्तगुणं
Crown of the head, मुद्धा (m)	Nail, नखो
Ear, कण्णो; सोतं	Neck, गीबा
Elbow, कप्परो	Nerve, सिरा
Excrement, बच्चं	Nipple, चूचुकं
Eye, अक्खि; नयनं	Nose, नासा, धाणं
Eye-brow भमुका	Outer-skin, छवि (f)
Eye-lash, पखुमं	Palm, हत्थतलं
Face, आननं; बदनं	Phlegm, सेहं
Fang, दाठा	Pleura, किलोमकं
Fat, मेदो	Pupil of the eye, अक्खितरा
Female-organ, योनी (f)	Pup पूयो
Finger, अङ्गुलि (f);	Rib, फसुका
Little finger, कणिट्ठाङ्गुलि (f)	Saliva, खेलो
Flank, पस्सं	Semen virile, सुक्कं
Flesh, मंसं	Shank, जन्घा
Foot, पादो	Shoulder, अंसकूटो
Fore-head, ललाटो, नलाटो	Sinew, नहारु (m)
Fore-finger, तज्जनी (f)	Skin, तचो
Hand, हत्थो, पाणि (f)	Skill, सीसकपालो
Hair, केसो; On the body लोमं	Snot, सिङ्घाणिका
Head, सिसं	Sole, पादतलं
Heart, हृदयं	Sweat, सेदो
Heel, पण्डि, (f)	Synovial fluid लसिका
Hip, जघनं; कटि (f)	Tear, अस्सु (nt)
Jaw, हनुका	Thigh, ऊरु (m)
Kidney, वक्कं	Thumb, अङ्गुट्टो
Knee, जाणु (m)	Toe, पादाङ्गुलि (f)
Knot of hair, धम्मिल्लो	Tooth, दन्तो
Leg, पादो	Urine, मुत्तं

5. Victuals, आहारा

Barley, यवो	Liquor, (distilled) सुरा
Bean, मासो	(Fermented), मेरयं
Beaf, गोमंसं	Meat, मंसं;
Beverage, पानं	Dried meat, वल्लूरं
Bread, गोधुमपूपो	Essence of meat, मंसरसो
Butter, नोनीतं	Milk, खीरं
Butter-milk, ताक	Molasses, फणीतं
Clearified butter, घतं	Mustard, सिद्धत्थो
Cake, पूवो; पुपो	Mutton, एळकमंसं
Candy, खण्डो	Oil, तेलं
Chillies, मरिचं	Onion, पलण्डु (m)
Coffee, कॉफी (f)	Paddy, वीही (m)
Corn, धञ्जं	Pepper, कोलकं
Cummin-seed, जीरकं	Pork, सूकरमंसं
Curd, दधि (nt)	Rice, तण्डुलं;
Curry, व्यञ्जनं	Rice-boiled, ओदनो; भत्तं
Curry-stuffs, कटुकभण्डं	Rice-gruel, यागु (f)
Drink, पानकं	Salad, उत्तरिभङ्गो; सालवो
Fat, वसा	Salt, लवणं, लोणं
Fish, मच्छो;	Sesame, तिलं
Dried fish, सुक्खमच्छो	Sweetmeat, खञ्जकं
Salted-fish, लोणमच्छो	Syrup, पानं; पानकं
Flour, पिट्टं	Tamarind, चिञ्च
Fried-flour, सत्तु (m)	Tea, चहा
Food, भोजनं, आहारो	Treacle, फाणीतं
Hard food, खादनीयं	Turmeric, हळिद्दि (f)
Soft food भोजनीयं	Venison, मिगमंसं
Garlic, लसुणं	Vinegar, बिलङ्गो
Ghee, घतं	Wine, मुद्दिकासवो
Gingilly, तिलं	Yam, कन्दो; आलुवो
Grain, धाञ्जं	
Gram, चनको	
Green-peas, मुग्गो	
Honey, मधु (nt)	
Jaggery, गुळो	
Kernel, मिञ्जा	

Adjectives

Boiled, सेदित
Cooked, पक्क, पचित
Fried, भञ्जित
Roasted, अङ्गारपक्को

Perfuming, वासनं	Soap, नहानीयं
Pin, सलाका	String of pearls, मुत्तावली (f)
Rag, नन्तकं	Toilet powder, वासचुण्णं
Ring, अङ्गुलिमुद्दा	Toilet-box, वासकरणडो
Signet, मुद्दिका	Towel, मुखपुञ्चनं
Sandals, उपाहनं	Turban, सीसवेठनं
Scent, गन्धसारो	Umbrella, छत्त
Shoe, पादुका	Veil, मुखाबरनं
Silk, कोसेय्यं	Walking stick, कत्तरयट्टि (f)
Smoking pipe, धूमनेत्तं	Watch, होरालोचनं

8. Parts of a house and building materials

गेहङ्गा, गेहोपकरणानी च

Barn, कोट्टं	Lavatory, वञ्चकुट्टि (f)
Bathing closet, नहानकोट्टको	Lime, सेतचुण्णं
Beam, तुला	Mortar, चयनलेपो
Bed-room, सयनिधरं	Pillar, थम्भो
Board, फलको	Pinnacle, कूटागारो
Bolt, अगगलं	Rafter, गोपानसी (f)
Brick, चयनिट्टका	Roof, छदनं
Cement, काळचुण्णं	Room, गम्भो
Compound, अङ्गणं	Sand, वालुका
Dining-room, भोजनसाला	Stable, अस्ससाला
Door, द्वारं	Stair, सोपाणो
Door-frame, द्वारबाहा	Store, उद्दासितो
Drawing-room, पटिकूमनं	Terrace, वेदिका
Eaves, निम्बं	Threshold, उम्मारो
Garage, रथसाला	Timber, कट्टनं; दारु (nt)
Gate, द्वारकोट्टको	Top-plate, पक्खपासो
Granary, कुसूलो	Upper-floor, पासादतलं
Hall, साला	Verandah, आलिनदो
Hearth, उद्वनं	Wall, भित्ति (f)
Hinge, द्वारावट्टको	Wall-plate, सङ्घटो
House, घरं; गेहं	Window, वातपानं
Inner room, ओवरको	Window-shutter, कवाटं
Key, कुञ्चिका	Window with a balcony, सीहपञ्जरो
Key-hole, कुञ्चिकाविवरणं	Women's apartment, इत्थावगरं, ओरोथो

9. Things that are in a house, गेह भण्डानी

Ash, चारिका	Lid, पिटानं
Basket, पिटकं	Lid for a pot, सरावो
Bag, पसिब्बको	Mat, किलज्जो
Bed, मञ्चो	Mirror, आदानो
Bed sheet, मञ्चत्थरणं	Mortar, उदक्खलो
Bench, निसीदनफलको	Mosquito net, मकसावरणं
Betel-server, तम्बुलपेळा	Needle, सुचि (m)
Bottle, नाळिका	Pestle, मुसलो
Box, मञ्जुसा	Pillow, विम्वाहनं
Broom, सम्पपञ्जनी (f)	Pillow-case, चिमिलिका
Brush, बालण्डूपको	Plate (to eat from), कंसो
Carpet, कोजवो	Pot, चाटि (f)
Chair, पीठं	Pot-stand चुम्बटकं
Charcoal, अङ्गारो	Purse, पसिब्बको
Corn measure, नाळि (f)	Rattan chair, भद्दीपीठं
Couch, मल्लणको	Rope, रज्जु (f)
Cup, कसको	Scales, तुला
Desk, लेखणफलको	Scissors, कत्तरिका
Dish, थालि (f)	Seat, आसनं
Fire, अग्नि (m)	Sewing machine, सिब्बनयन्तं
Fire-brand, अलाटं	Sieve, पिट्टुचालिका
Fire-place, उद्धनं	Spittoon, खेलमल्लको
Fire-wood, दारु (nt)	Spoon, कटछु (m)
इन्धनं	Stone to grind on, निसदो
Furniture, दारुभण्डं	Stone to grind with निसदपोतो
Glass-bottle, काचतुम्बो	Table, भोजनफलको
Glass-ware, काचभण्डं	Thong, वरत्ता
Hand-basket, पच्छि (f)	Thread, सुत्तं; तन्तु (m)
Jar, (big) अरञ्जरो	Threstield, उम्मार (m)
Jug, कुण्डिका	Tray, कंसाधरो
Knife, सत्थं, छुरिका	Vessel, भाजनं
Ladle, डब्बि (f)	Clay-vessel, आमिक्तिकं
Lamp, पदीपो	Bronze-vessel, कंसभाजनं
Lamp-wick, दीपवट्टी (f)	Water-pot, घटो
Leathern bag, भस्ता	Winnowing basket, सुण्णो

10. Trees and vines, रुक्खलता

Areca palm, पूगो	Margosa, निम्बु
Bamboo, वेळु; वेणु (m)	Marshy date-palm, हिन्टालो
Banyan, निग्रोघो	Palmyra-palm, तालो
Bark, तचो	Pandanus, केतकी (m)
Bassia, मधुको	Parasite-plant, वन्दाका
Betel-vine नगलता	Pericarp, कणिका
Branch, साखा	Plant, गच्छो; लत्थि (f)
Bud, मकुलं	Plantain-tree, मोची; कडलितरु (m)
Buhch, मञ्जरी (f)	Red-lotus, कोकनंद
Cassia fistula, राजरुक्खो	Reed, नळो
Cedar खदिरो	Root, मूलं
Champae, चम्पको	Rose-apple tree, जम्बुरुक्खो
Cluster, थबको	Sal-tree, सालो
Coconut palm, नाळिकेरो	Sandal-wood, चन्दनं
Coral-tree, किंसुको	Shrub, गुम्बो
Cotton-plant, कप्पासी (f)	Silk-cotton tree, सिम्बली (m)
Date-palm, खञ्जरी (f)	Sprout, अडुरो
Ebony, काळसारो	Stalk, वण्टं
Fig-tree उदुम्बरो	Talipot palm, ताली (f)
Flower, पुष्पं; कुसुमं	Tree, रुक्खो; तरु (f.)
Fork (of a tree), विटपो	Hallow of a tree, कोटरो
Grape-vine मुद्दिका	Trumpet-flower-tree पाटली (f)
Holy fig, अस्सत्थो	Trunk, खन्धो
Ironwood tree, नागरुक्खो	Twing, पसाखा
Joint, पब्बं	Vine, लता
Leaf, पत्तं : पण्णं	Water-lily, उप्पलं
Lotus, पदुमं	White-water-lily, कुमुदं
Mango-tree, अम्बो	Wood apple-tree, कपित्थो
Marmello, बेलुवो	White lotus, पुण्डरीकं

11. Medicinal Herbs and drugs, भेसज्जमुआदीनी

Aloe-wood, अगरु (m)	Camphor, कप्पूरं
Aloe-perfotiala, अमिलातो	Cardamom, एळा
Asafocetida, हिङ्गु (m)	China-rose, जयसुमन
Asparagus, सतावरी (f)	Citron, मातुलुङ्गो
Babreng, विलङ्गं	Clitoria, गिरिकण्णी (f)
Beeswax, मधुरित्थं	Cloves, लवङ्गं
Bdellium, गुग्गुळु (m)	Collyrium, अज्जनं

Corrander, धानियं	Onis root, गोलोमी (f)
Ginger, सिङ्गिचेरं	Prickly nightshade, निदिद्धिका
Gum, निव्यासो	Red lead, चिनपपिट्टं
Jasmine, जातिसुमनां	Rasin, पक्खधुपो
Lead-work, अगिसज्जितो	Rock-salt, सिन्धवो
Liquorice, मधुलट्टिका	Sacrificial Grass, कुसो
Mace, जातिकोसो	Saffron, कुङ्कमं
Musk, कत्थूरिका	Sulphur, गन्धकं
Myrobalana belerica: विभीटकी (f)	Swallow wort, अक्को
Plyrobalana Emblica, आमलकी (f)	Thorn-apple, उम्मत्तो
Yellow myrobalana, हरीटकी (f)	Wax, सित्थकं
Yutmeg, जातिफनं	Yellow-pigment, हरितलं

12. Animals, तिरच्छाना

Bear, अच्छो	Frog, मण्डूको
Beast, पसु (m)	Goat, एळको, अजो
Beast of prey, वालो	Hare, ससो
Beast of burden, वाहकपसु	Hide, चम्मं
Bitch, सुनखी (f)	Hoof, खुरो
Boa, अजगरो	Horn, सिना
Buffalo, महिसो	Hump, ककु (m)
Calf, वच्छो, पोतको	Hyena, तरच्छो
Camel, ओट्टो	Iguana, गोधा
Cat, बिळालो	Leopard, दीपि (m)
Cattle, गो (m)	Lion, सीहो
Chamelcon, ककण्टको	Lioness, सीही (f)
Cobra, नागो	Mare, बळवा
Colt, किसोरो, हयपोतो	Mongoose, नकुलो
Cow, गावी (f)	Monkey, वानरो
Crab, कुळीरो	Ox, गोणो
Dear, मिगो; female, मिगी (f)	Pig, सूकरो
Dog, सुनखो	Porcupine, सल्लो
Donkey, गदभो	Quadruped, चतुप्पदो
Elephant, हत्थि; करी (m)	Ram, मेण्डो
She-elephant हत्थिनी (f)	Rat, आखु (m)
Elk, गोकण्णो	Rat-snake, घरसप्पो
Female of an animal, धेनु (f)	Rhineeros, खगविसाणो
Flying fox, पक्खविळालो	Scorpion, विच्छिका
Fox, सिगालो	Serpent, सप्पो; अहि (m)

Shark, मकरो	Turtle, कच्छपो
Tiger, ब्याग्धों	Viper, गोनसो
Tortoise, कुम्भो	Wolf, वको

13. Birds and Insects, पक्खिनो, खुद्दजन्तवो च

Ant, पिपीलिका; किपिल्लिका	Hen, कुकुटी (f); पक्खिधेनु (f)
Red-ant, तम्बकिपिल्लिका	Herd, यूथो
White-ant, उपचिका	Heron, कणको
Ant-hill, बम्मिको	House-lizard, घरगोलिका
Bat-large, जतुका	Indian-cuckoo कोकिलो
Bat-small वग्गुलि (f)	Locust, पतङ्गो
Beak, मुखतुण्डं	Leach, जालूका
Bee, मधुकरो, अलि (m)	Louse, ऊका
Blue jay, किकी (m)	Mosquito, मकसो
Bug, मणकुणो	Nest, कुलावको
Carpenter-bee, भमरो	Isprey, कुक्कुहो
Centipede, सतपदी (m)	Owl, उळूको
Cock, कुक्कुटो	Parrot, सुको, सुवो
Crane, बको	Peacock, मयूरो
Crest, चीरी (f)	Peacock's tail, ब्रिहं
Crow, काको	Pheasant, वनकुक्कुटो
Crow-she काकी	Pigeon, पारावती
Curllew, कोञ्चा	Raven, काकोली
Dove, कपोतो	Serpent's body, भोगो
Drake, कादम्बो	Serpent's slough निम्मोको
Eagle, गरुळो	Serpent's fang, सम्पदाठा, आसी (f)
Egg, अण्डो	Sparrow, चातकी
Feather, पत्थं, पेखुणं	Spider, उण्णनाभी (m)
Flea, उप्पातको	Swan, हंसो
Fly, मक्खिका	Venom, विसं
Goose, Ruddy, चक्कवाको	Vulture, गिञ्जो
Grass hopper, सलभो	Wing, पक्खो
Gracula religiosa, साळिका	Worm, किमि, कीटो
Hawk, सेनो	

14. Gems and Minerals, रतन खणीजानी

Brass, रीरी (f) आरकूटो	Copper, तम्बो
Bronze, कंसो	Coral, पवालं
Cats-eye, वेळुरिपं	Diamond, वजिरं

Emerald, मरकटं	Plumbago, अब्भकं
Gem, मणि (m)	Quick silver, पारदो
Gold सुवर्णं, Bullion, हिरञ्जं	Ruby, लोहितङ्को
Iron, अयो; कालायसं	Sapphire, इन्दनीलो
Lapis, lazuli, नीलमणि (m)	Silver, रजतं
Lead, तिपु (nt)	Topaz, फुस्सरागो
Pearl, मुत्ता	

15. The Universe, लोकधातु

Cloud, वलाहको	Moon, चन्दो; moon-beams चन्दिकं
Cold, सीतं	Planet, गहतारा (f)
Comet, धूमकेतु (m)	Rain, मेघो, वस्सं, वुट्ठि
Constellation, नक्खत्तं	Rain-bow, इन्दधनु (nt)
Darkness, अन्धकारो	Rising of the moon, चन्दोदय
Dew, तुहिनं	Rising of the sun, सुरियोदयो
Eclipse of the moon, चन्दग्गाहो	Rotation, परिब्भमणं
Eclipse of the sun, सुरियग्गाहो	Sky, आकासो, नभं
Fire, अग्गि (m)	Snow, तुहिनं
Hail-storm, करका	Snow-storm, हिमपातो
Heat, उण्हं	Summer, गिम्हान, निदा
Heaven, देवलोको; सग्गो	Thunder, थनितं; Thunder-bolt असनि (f)
Hell, निरयो	Water, जलं, उदकं
Ice, हिमं	Wind, वातु; वायु (m)
Light, आलोको	World, लोको
Lightening, विज्जु (f)	Zodiac, रासिचक्रं
Meteor, उक्कापातो	

16. The earth, पठवीं

Antartic zone, विन्तको	Garden, आरामो, उय्यानं
Arctic zone, करवीको	Gravel, सक्खरा
Cave, गुहा	Ground, भूमि (f)
City, नगरं, पुरं	Island, दीपो
Content, महादीपो	Kingdom, रज्जं
Country, रट्टं, जनपद	Land, थलं
Desert, कन्तारो	Market town, निगमो
Dust, धूलि (f)	Mine, आकरो
Empire, अधिरज्जं	Metropolis, राजधानी (f), अग्गनगरं
Field, खेत्तं	Mountain, पब्बतो; Peak, गिरिसिखरं
Forest, वनं, अरञ्जं	Mud, पङ्को, कललं

North-pole, सुदस्सनो	Site for a building, घरवत्थु
North-temperate zone, ईसधरो	Soil, मत्तिका
Path, मग्गो	South-pole अस्सकण्णो
Precipice, पफातो	South temperate zone, नेमिन्धरो
Province, पदेसो;	Stone, सिला, पासाणो
Sub-province, उपपदेसो	Swamp, अनुपो
Rugged land जङ्गलो	Table-land, सानु (m)
Rock, सेलो	Valley, उपच्चका
Sand, सिकता, वालिका	Village, गामो

17. Water-Storage and Water-ways, जलासया, जलमग्गा च

Bank (River's), तीरं, कूलं;	Ocean, समुद्धो, सागरो
across, पारं; Near, ओरं	Opposite wind, विरूद्धवातो
Bathing place, नहानतित्थं	Oyster, सिप्पिका
Billow, कल्लोलो	Pilot, कण्णधारो
Boat, दोणी (f), नावा	Pond, पोक्खराणी (f)
Ship's boat, पोटो	Pool, सोब्भो; Rocky-pool सोण्डी
Bubble, बुब्बुलं	Raft, उळुम्पो
Canal, जलमातिका	River, नदी (f)
Cause, खुद्दकदोणी (f)	Mouth of a river, नदीमुखं
Cascade, निञ्जरो	Rudder, गोटविसो
Captain of a ship; नियमको	Sail, लकारो
Conch सङ्घो	Sailor, नाविको
Cyclone, वेरम्भवातो	Salt-water, खारोदकं
Engineer of a ship, यन्तिको	Ship, नावा
Drain, परिखा	Shore, वेला
Favourable wind, अनुकूलवातो	Suice, जलनिग्गमो
Ferry, तित्थं	Stream, कुन्दी (f)
Fish, मीनो; Fish-hook, वलिसं	Submarine, अन्तोदकनावा
Fish-trap, कुमिनं	Tank, वापी (f), जलासयो
Flood, ओघो; Great flood, महोघो	Torrent, जलधारा
Foam, फेणं	Vallisneria, सेवालो
Lagoon, लोणी (f)	Voyage, समुद्गमनं
Lake, सरो, तळाको, Small lake फल्लं	Water-drop, थेवो
Lotus-pond, अम्बुजिनी (f)	Water-fall, निञ्जरो
Man-of-war युद्धनावा	Wave, उमि (f); तरङ्गो
Mast, कूपको	Well, कूपो
Merchant-vessel, वाणिजनावा	Whirl pool, आवट्टो
Net, जालं	Yatch, लकारनावा
Oar, आरित्तं	

**18. Public Places and such other buildings in
a country, महाजनिकट्टानानि**

Bank, धनागारं	Pleasure-garden, उय्यानं
Barber's shop, नहापितसाला	Police-station, भटागारं
Barrack, योधनिवासो	Post-office, सन्देशागारं
Carpenter's shed, वट्टकीसाला	Pottery, कुम्भकारसाला
Cemetery, सुसानं	Printing office, मुद्रङ्कनालयो
Church, देवायतनं	Prison, कारा
College, विज्जालयो	Race-course, अस्समण्डलं
Factory, कम्मन्तसाला	Railway-station, धूमरथनिवत्तनं
Flower garden, पुष्कारामो	Rest-house, विस्सामसाला
Granary, धञ्जागारं	Sanitorium, सोत्थिसाला
Hospital, आरोग्यसाला	School, पाठसाला
Hotel, भोजनागारं	Smithy, कम्भारसाला
Jail, बन्धनागारं	Surgery, सल्लकत्तालयो
Law-court, विनिच्छयसाला; अधिकरणट्टानं	Tavern, पानकन्दिरं
Lunatic asylum, उम्मत्तालयो	Technical school, सिप्पायतनं
Market, आपणो	Temple, विहारो; अस्समो
Orchard, फलारामो	Theatre, नच्चसाला
Park, उय्यानं	University, निखिलविज्जालयो
Pharmacy, भेसज्जागारं	Warehouse, भण्डागारं
Photographic Studio, छायारूपसाला	Weaving hall, पेसकारसाला
Playground, केळिमण्डलं	

19. Things and persons in a city,

नागरिकवत्थूनी पुग्गला च

Bastion, उद्दापो	Inner-city, अन्तेपुरं
Chosen beauty of a town, नगरसोभिनी (f)	Light house, पदीपागारो
City-gate, नगरद्वारं	Mayor, नगरगुट्टिको
City-wall, पाकारो	Moat, दिग्घिका, परिखा
Citizen, नागरिको	Municipality, नगरसभा,
Clock-tower, घटिकाथम्भो	Members of Municipality
Council-chamber, मन्तिसभा	नगरसभिको
Crossing of roads, चच्चरं	Museum, अब्भुतवत्थुनिचयो
Customs office, करग्गाहालयो	Palace, राजमन्दिरं
Education office, अज्झापनकिच्चालयो	Royal-bed, सिरिसयनं
Gate-way, बहिद्वारं	Royal-chamber, सिरिगम्भो
	Royal-garden, राजुय्यानं

Royal-treasury, राजकोसो	State horse, मङ्गलस्सो
Scavanger, नगरसोधको	Street, वीधि; रच्छा
Secretariat, महालेखकालयो	Town-hall, सन्थागारो
State elephant, मङ्गलहत्थी	War-office, युद्ध-किच्चालयो
State-chariot, राजरथो	Watch-tower, अट्टालको

20. Government, रज्जपालनं

Ally, मित्तसेना	Emblem of Royalty, राजककुथमण्डानी (nt)
Ammunition, युद्धोपकरणानी	Emperor, अधिराजा (m)
Archer, धनुद्धरो	Empress, अधिराजिनी (f)
Armour, कवचो, सन्नाहो	Envoy, राजदूतो
Armoured, सन्द्ध (pp)	Fighting, युद्धनं
Army, युद्धसेना	General, सेनापति (m)
Army of elephants, हत्थिसेना	Government agent of a province मण्डलि
Hostile army, सत्तुसेना	Handle of a sword, थरु (m)
Army of troops, सेनाव्युहो	Head of the army, अगगसेनापति (m)
Arrow, सरो; कण्डो	Head of the public works, कम्मिकामच्चो
Artillery, नाळियन्तसेना	Hero, वीरो, महायोद्धो
Banner, पताका	Infantry, पदाति (m)
Battalion, अणीकं	Killing, हननं
Battle, युद्धं	King, नरपति (m)
Battle axe, कुठारी (f)	Kingdom, रज्जं, विजितं
Battle field, युद्धभूमि (f)	King's command, राजाणा
Baynet, महाछूरिका	King's command sword-bearer असिग्गाहको
Body-gaurd, अणीकटो	Lord Chancellor, अक्खदस्सामच्चो
Bow, धनु (nt)	Minister, अमच्चो, of education अजझापनामच्चो, - of health, सोख्यामच्चो
Cavalry, अस्ससेना	Navy, नाविकसेना
Camp, खन्धावारो	Parasol, सेतच्छत्तं
Cannon, महाअग्गिनाळी (m)	Peace, सामं
Chamberlain, सिरिसयनपालको	Prime Minister, महामच्चो
Constable, राजभटो	Punishment, दण्डो : कारणा
Consul, राजानुयुत्तो	Queen, राजिनी (f)
Councillor, मन्ति (m); Privy-councillor, सचिवो	Quiver, सरकलापो
Crown-prince युवराजा (m)	
Dagger, छूरिका	
Defeat, पराजयो	
Disunion, भेदो	

Rebel, दामरिको	Spy, चरपुरिसो
Retreat, पच्चोसक्कनं	Sting of a bow, जिया
Revenue, करो: बलि (m)	Sword, खग्गो, असि (m)
Rifle, अग्गिणाली (m)	Swordsman, खग्गधरो
Royal, राजकीय (3)	Throne, सीहासनं
Royal-seal, राजमुद्दा	Viceroy, उपराजा (m)
Secretary of state, महालेखकामच्चो	Victory, जयो
Sheath, कोसी (f)	Violence, जलक्करो, हठो
Sheriff, जनमदभोजको	War, युद्धं
Shooting, विज्झनं	War-cry, युद्धघोसो
Siege, अवरोधनं	War-chariot, युद्धरथो
Soldier, युद्धभटो	Weapon, आयुध
Spear, हेति (f)	

21. Litigation, अधिकरणं

Abusing, अक्कोस	Interpreter, भासानुवादको
Bail, पाटिभोगो	Intimidation, परिभासनं
Barrister at law, अधिनीतिवेदी (m)	Judge, अनुविज्जको, विनिच्छयामन
Be-heading, सीसच्छेदो	Judgement, विनिच्छयो
(The) Bench, विनिच्छथासनं	Law-court, अधिकरणताला
Coercion, बलक्कारो	Lawsuit, अट्टं
Command, आणा	Lawyer, नीतिवेदि (m)
Complaint, कोदना	Litigant, अट्टकारो
Condemned, वज्झप्पत्त (3)	Magistrate, धम्माधिकारी (m)
Confiscation, राजायतकरणं	Murder, मनुस्सघातो
Confiscation of one's whole' estate, सब्बस्सहरणं	Petition, आयाचनपण्णं
Corporal punishment, कारणा	Place of execution, आघातनं
Crime, अपराधो	Plaintiff, चोदको
Culprit, अपराधी: साहसिको	Plunder, अच्छिन्दं
Dacoity, गामघाटो	Police-court, उपदिसाधिकारणं
Defendant, चुदितको	Prisoner, बधनागरिको
District Court, दिसाधिकरणं	Privy-council, राजाधिकरणं
Evidence, सक्खि (nt)	Punishment, दण्डो, वधो
Execution, वधो, घातनं	Supreme court, सेट्टाधिकरणं
Executioner, वधको	Theft, चोरियं, थैय्यं
False-witness, कूटसक्खिको	Trial, अनुविज्जनं
Highway robbery, विपरामोसो	Witness, सक्खिको, - Box, सक्खिप
Imprisonment, बन्धनं, कारापक्खिपनं	Violence, साहसं

22. Vehicles, वाहनानी

Aeroplane, ब्योमयानं	Untrained horse, खुळङ्को
Axle, अक्खो	Well trained horse, वीनीअस्सो
Bridle, मुखाधानं	Linch pin, अक्खग्गकीलो
Carriage, रथो	Litter, सिपिका
Cart, सकटो	Maker-cart, सयंवट्टको,
Chariot, अस्सरथो - body,	Motor-cycle, विज्जुचक्कयुगं
रथपञ्जरो - rug,	Mule, अस्सतरो
रथअत्थरो - pole,	Nave (of a wheel), नाभि
धुरो	Nose-rope, कुसा
Charioteer, सारथी	Palnquin, दोला
Driver, पाजिता (m) - of an elephant	Push-cycle, चक्कयुगं
हत्थारोही	Railway train, धूमरथो
Elephant-rug, हत्थत्थरो,	Reins, रथरस्मि (t)
- Hook to quiet an elephant,	Rickshaw, हत्थवट्टको
तूत्तं - trappings for an elephant,	Rim (of a wheel), नेमि (f)
हत्थिकप्पनो	Saddle, अस्सकच्छा
Fender of a carriage, वरूथो	State-carriage, फुस्सरथो
Flect horse, जधनो	Tram-car, विज्जुरथो
Horse of good breed, आजानीयो	Wheel, चक्कं
Horse rug, अस्सत्थरो	Whip, कसा
Horse trappings, अस्सकप्पनो	Yoke, युगं
Horse-shoe, खुरावरणं	

23. Diseases and medical treatment, रोगा च एव पतिकारा च

Ailment, रुजा - in ears	Cholera, विसूचिका
कण्णरोगो, — of joints	Colic, वातसूलं
पब्बवाताबाधो	Collyrium, रसञ्जनं
Alkaline solution, खारं	Consumption, कासो
Anointing, अब्भञ्जनं	Cough, उक्कासनं
Antidote, विसहरणं	Decoction, कसायो
Asthma, सासो	Diabetes, बहुमुत्तरोगो
Appendicite, अन्तगण्ठिकाबाधो	Disease, व्याधि (m); रोगो
Attendant to the sick, गिलानुपट्टाको	Doctor, वेज्जो; भिसक्को
Beneficial, सप्पाय (३)	Dysentery, अतिसारो
Biliousness, पित्तब्भमो	Bilious dysentery, लोहितपक्खन्दिका
Boil, गण्डो	Elephantiasis, सीपदं
Catarrin, पिनासो	Enteric fever, सन्निपातजरो
Chemical compound, रसायनं	Epidemic, सङ्कटिकरोगो

Epilepsy, अपमारो	Patient, रोगी, गिलानो
Excess of wind, वातकोपो	Paralysis, पक्खघातो
Eye-diseases, अक्खिरोगो	Physician, भिसक्को
Fainting, मुच्छा	Pharmacy, भेसज्जागारो
Fever, जररोगो malarial, विसवात	Pill, गुळिका, वाटिका
Fistula, भगन्दरा	Plague, अहिवातकरोगो
Headache, सीसरुजा	Purgative, विरेचनं
Health, आरोग्यं	Purged, विरित्त (P.P.)
Hemorrhoids, लोहितारिसं	Rheumatism, वातरत्तं
Hiccough, हिक्कारो	Surgeon, सल्लकत्तो
Indigestion, अजिण्णकं	Surgery, सल्लकत्तियं
Inflammation, दाहो	Surgical operation, सल्लकम्मं
Influenza, सेम्हरोगो	Sickness, गिज्ज
Insanity, उम्मादो	Sickroom, गिलानसाला
Itch, कच्छु, कण्डु (f)	Small-pox, मसूरिका
Jaundice, पण्डुरोगो	Steam-bath, सेदकम्मं
Leprosy, कुट्टं,	Swelling, सोफो
White leprosy, सङ्गकुट्टं	Swoon, मुच्छा
Medical treatment, त्तिकिच्छा	Tooth ache, दन्तरोगो
Medicinal, ओसधीय (3)	Urinary-disease, मेहो
Medicine, भेसज्जं	Venom, विसं
Ointment, आलेपो	Venereal disease, उपदंसो
Optician, अक्खिवेज्जो	Vomiting, वमनं

24. Stationery and Printing, लिपिभण्डानि मुद्दापनज च

Black-board, काळफलको	News-paper, पवत्तिपत्तं
Book, पोत्थकं	Note-paper, सासनपत्तं
Compilation, सङ्गणहनं; सङ्गलनं	Ola, तालपण्णं
Composing, वण्णयोजना	Page, पिट्टं
Compositor, वण्णयोजको	Paper, काकचपण्णं
Desk, लेखनफलको	Pen, लेखनी (f)
Editing, गन्धसोधना	Pen-nib, लेखनीमुखं
Envelope, सासनावरणं	Pen-holder, लेखनीधरो
Fountain-pen, नाळलेखनी (f)	Pencil, अब्भकलेखनी (f)
Ink, लेखनकसटो	Periodical, कालिकसङ्गहो
Ink-stand, कज्जलाधारो	Poem, कब्बं, पज्जं
Letter, लेखनं, सासनं, अक्खरं	Printer, मुद्दापनं
Line, पन्ति, रेखा	Printing press, मुद्दायन्तं
Metrical composition, पज्जवन्धो	Proof, सोध्यपण्णं

660 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

Proof-reader, वण्णसोधको	Signature, हत्थलज्जनं
Ruler, उजुरेखको	State, सिलापत्थरो, - Pencil, सिलालेखनी
Scribe, लेखको	Straight line, उजुरेखा
Seal, मुद्दा	Writing, लिखनं : लिपि
Sealing-wax, जतु (nt)	

25. Tools and Implements, आयुधोपकरणानि

Adze, वासि (f)	Mowing, लायनं
Anvil, अधिकरणी (f)	Nail, आणि (f)
Awl, आरा	Pingo, काजो, basket, सिक्का
Axe, फरसु, (m)	Pick-axe, टाङ्को
Bellows, गगरी, (f)	Piners, सण्डासो
Boring, विनिविज्जनं	Plough, नाङ्गलं, Ploughing, कसनं
Breaking, भिन्दनं	Plough-share, फालो
Carpenter's line, काळसुत्तं	Pole of a plough, नङ्गलीसा
Chisel, निखादनं	Plumet, ओलम्बको
Chopping, तच्छनं	Razor, खुरं
Crow-bar, खणित्ती (f)	Saw, ककचो
Crucible, मूसा	Shuttle, तसरो
Cutting, चिन्दनं	Sickle, दात्तं
Digging, खणनं	Sledge-hammer, महाकूटो
File, लोहखादको	Splitting, फालनं, विदारणं
Hammer, कूटं	Trowel, करणी (f)
Iron-chain, अयोदामो	Vice, कट्टपीळको
Loom, वेमो	Weaving, वायनं
Mallet, कट्टहत्थो	Whetstone, निकसो
Mammotty, कुद्दालो	Wimble, आरहत्थो

26. Buildings and other things in a monastery,

विहारङ्गण समणपरिक्खारानी च

Alms hall, दानसाला	Devotee, भत्तिमा (m)
Altar, पूजासनं	Devotion, सद्धा
Belfry, घण्टात्थम्भो	Doctrine, धम्मो
Bell, घण्टा	Elderly monk, थेरो
Bo-tree, बोधिरुक्खो	Enlightened one, बुद्धो
Bowl, पत्तो	Faithless, असद्ध (3)
Buddhist-monk, भिक्खु (m)	Image, पटिमा
Chapter house, सीमाघरं	Image-house, पटिमाघरं

Library, पोत्थकालयो	Preacher, देसको
Monastery, विहारो, आरामो	Preaching, देसना
Monks' quarters, पणसाला	Preaching hall, धम्मसाला
Missionary, धम्मदूतो	Pulpit, धम्मासनं
Novice, सामणेरो	Relic casket, धातुकरण्डो
Pagoda, चेतियं	Religious book, धम्मपोत्थको
Platform around a bo-tree, बोधिङ्गणं	Water-strainer, परिस्सावनं
Platform around a pagoda, चेतिङ्गणं	Yellow-robe, चीवरं, कासाय

27. Musical Instruments,

तुरियभण्डानी

Conch-shell, सङ्घो	Lutanist, वेणिको
Cymbal, घनं	Lute, वीणा
Dance, नच्चं; - ing, नच्चनं	- Belly of a lute, पोक्खरो
Drum, भेरि (f); - Stick, भेरिदण्डो	- Bow of a lute, कोणो
Sounding of a drum, भेरिवादनं	- Neck of a lute, उपवीणो
Flute, धमनवंसो	Music, वादितं, नच्चगीतं
Flute-player, वेणुधमो	Musical note, सरो
Harmony, लयो	Musician, वादको
High-tone, तारो	Tabor, मुदिङ्गो, मुरजो
Low-tone, मन्दसरो	Trumpet, सुसिरं

A²PRONOUNS

Pronouns are words used, to replace nouns or substantives, to avoid repetition. The word Pronoun means “for a noun” or “instead of a noun”. Pronouns admit of all genders, as they stand for every person or thing which are in different genders. They are also *declined as nouns*, with the only difference that *there is no Vocative forms*. They are classified into various groups by the English Grammarians, but for our purposes, we will restrict to only the important groups, viz :-

I. (1) Personal Pronouns :

- (i) First personal – “Amha” अम्ह (अस्मद्)
- (ii) Second personal – “Tumha” तुम्ह (युष्मद्)
(m.f.n.) : – Thou, you.
- (iii) Third personal – “Ta” त (तद्)(m) : when used as a demonstrative pronoun, meaning ‘that’, it is declined differently in three genders.

No. (i) and (ii) are declined similarly in all the three genders.

(2) Relative Pronouns :

Relative Pronouns : - Such as ‘who’, ‘which’, ‘that’, so called because they relate or refer to a noun, which has gone before. These are declined like nouns ending in अ (m,n.) or आ (f) with some differences. In the declension of masculine Pronouns, the Nominative and Accusative plural termination is ए; terminations for the Dative and Genitive plural are एस्, एसान्; while in the singular the following terminations are absent :- आय of Dative, आ of the Ablative and ए of the Locative.

In the neuter gender, the pronouns are declined like masculine nouns with slight change in Nominative and Accusative plural their terminations being ए or आनि.

The feminine base is formed by adding आ to the masculine base and are declined like कञ्जा.

There are no vocative forms.

(3) Demonstrative Pronouns :

This, that, those, etc. words used to point out the object or objects to which they refer.

त (that)—declined in these genders with certain changes; addition of prefix
इ to त gives इत (that or this) which is also declined like त.

इम (this)–

II. Some important Pronouns and Pronominal terms :

A, An, एक (in singular it means 'one'; in plural it means 'some')	Everybody, सब्बेव Everyone, सब्बे
All, सब्ब, सकल (3)	He, सो
Another, अञ्ज अपर (3)	Her, तं (acc.), तस्सा (gen.)
Both, उभय (plural only: 3)	Him, तं
Certain, अञ्जतर (3)	His, तस्सं
Each other, अञ्जमञ्जं	I, अहं It, तं
Me, मं, ममं	
My, मम मद्दं	
No one, न कोचि [suffix चि (चित्) added to interrogative pronoun]	
Other, अञ्ज इतर, पर (3)	
Some, एकच्च [in the singular एक means 'one' or 'a, an' in plural it means 'some' 'certain' (3.)]	
Somebody, कोचि	
Somebody else, अञ्जो कोचि	
That man, इसो [prefix "e" added to सो- nominative singular of त (that)]	
That woman, इसा	
That thing, इतं	
These men, इमे	
These women, इमा	
These things, इमानि	
Their, तेसं (m, nt), तासं (f)	
Them, ते m, ता (f), तानि (nt)	
This man, अयं	} इम = This : Nominative forms.
This woman, अयं	
This thing, इमं, इदं- Nom. Neut, forms of इम = This	

Thee, तं, त्वं	
Thine, तव, ते, तुह्यं	
Those men etc., ते	Which (of the two), कतर (3), कतम
Those woman, इता, ता	Which, who, को, किं (from क) य
Those things, इतानि, तानि	Whosoever, यो कोचि
Us, अम्हे	Whom, कं ? (Nom. Sin. of
We, मयं	क Neu.)
What, किं ?	Whose, कस्स (क m; nt)
Whatsoever, यं किञ्चि	You, तुम्हे
Western, अपर	Your, तुहाकं
Eastern, पुब्बा	

III. Sentences wherein some of the above listed Pronominals are used.

1. What is the use of water to me ? किं म्हं वारिना ? ।
2. The Buddha tells this story about a monk. इदं वत्थुं बुद्धो एकं भिक्खुमारब्भ कथेति ।
3. I have three bows. मम ताणि धनूनि होन्ति ।
4. What is the use of medicine to one not diseased ? अब्याधितस्स किं भेज्जेन ? ।
5. You bind the cow with a rope. त्वं रज्जुया धेनुं बन्धसि ।
6. You throw sugar into the gruel. तुम्हे यागुयं सक्खरं खिपथ ।
7. Good men live together in mutual satisfaction. सप्पुरिसा तुट्ठिया अञ्जमञ्जं संपसन्ति ।
8. Gold is the best of all metals. सुवण्णं सुब्बासु धातुसु सेट्ठं ।
9. Both are degraded by nature; both do not see the duty. उभो पकतिया चुता, उभो धम्मं न पस्सन्ति ।
10. He tells me a story. सो म्हं वत्थुं कथयति ।
11. What is the use of a bow without arrows ? सरेहि विना किं धनुना ? ।
12. We bring fuel and grass from the forest below. अम्हे दारू च तिणं च अरञ्जा आहराम ।

13. They sprinkle the king with water from three conchshells. ते तीहि सङ्घेहि भूपं सिञ्चति ।
14. He throws dust in my eye. सो मम चक्खुस्मिं रजं खिपति ।
15. Fie upon that acquisition of fame and wealth, Oh Brahmin, which (implies) a maintenance (livelihood) in degradation and in an impious living. धिरत्थु तं यसलाभं धनलाभं च ब्राह्मण । या वृत्ति विनिपातेन अधम्मचरणेन वा ।
16. The physician wraps your nose with cloth. वेज्जो तव (तुम्हं) नत्थुं (नासिकं) वत्थेन पलिवेठेति ।
17. The girls throw dust at one another for amusement. कञ्जायो केळिया अञ्जमञ्जं रजं (धूलिं) खिपन्ति ।
18. You remember the strength of the lord of monkeys. तुम्हे वानरिन्दस्स सत्तिं अनुस्सरथ ।
19. You strive for the acquisition of wealth. तुम्हे धनलाभाय वायमथ ।
20. I wish to go to the garden. उय्यानभूमिं गन्तुं इच्छामि ।
21. You too, O ascetic, plough and sow and eat after ploughing and sowing. त्वंऽपि समण, कसस्सु च वप्पसु च कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जसु ।
22. May you and your bride live happily. त्वञ्च तव वधू च सुखेन वुत्थ ।
23. There is the father, O Rahula, go and ask for the inheritance. सो ते राहुल जनको, गच्छसु दायज्जं याचाहि ।
24. Let all things be happy and contended. सब्बे सत्ता सुखिता च सुहिता च होन्तु ।
25. Let us go to the younder mountain and eat jambu fruit. अम्हे परिमं पब्बतं गच्छाम जम्बूनि च खादाम ।
26. We shall describe the powers of the former Buddhas. पुब्बेसं बुद्धानं आनुभावं अम्हे वण्णेस्साम ।
27. Who is your teacher whose Doctrines do you like ? को ते आचरियो, कस्स वा धम्मं रोचेसि ? ।
28. He is the son of Bindusara. एसो बिन्दुसारस्स पुत्तो ।
29. This novice will be the master of this house. अयं सामणेरो इमस्स गेहस्स सामिको भविस्ससति ।

30. Letters come from all towns on the same day. एकदिवसमेव सब्बेहि नगरेहि पण्णानि आगच्छन्ति ।
31. Who is your father ? को ते जनको ?
32. You will not get anything from me, go to another. तुवं मे किञ्चि न लभिस्ससि परं गच्छ ।
33. Those elders have (got) other pupils. अमूसं थेरानं अज्जे माणवका होन्ति ।
34. A certain physician brings the root of a certain tree. अज्जतरो वेज्जो कस्सचि रूक्खस्स मूलं आहरति ।
35. I shall live in that cottage. अहं तायं कुटियं वसिस्सामि ।
36. This is the chariot in which I shall sit to-morrow. अयो सो रथो यस्मिं अहं स्वे निसीदिस्सामि ।
37. Speak what you like. यं इच्छसि तं ब्रूहि ।
38. From what city has the messenger come? कस्मा नगरा दूतो आगतो ?
39. The way of wealth is one and the way of deliverance is another. अज्जो धनस्स मग्गो, अज्जो च मुत्तिया मथो ।
40. All trees and all the creepers are in blossom in the summer. निदाघे सब्बे च रूक्खा, सब्बा च लता पुप्फिता होन्ति ।
41. See this fruit of faith and character. सद्भाय सीलस्स च इदं फलं पस्स ।
42. This house is mine, that place is yours and the cottage is hers. इदं घरं मदीयं, अमु पासादो तावको, सा कुटि च तदीया ।

A³ ADJECTIVES

Adjectives are describing words and add something to the meaning of a noun i.e., they qualify the nouns. Hence they are treated as nouns and carry all the inflections of the nouns. As the adjectives qualify nouns which are of different genders and numbers, they must agree with their substantives in gender, number and case. Roughly they could be classified thus (according as their derivations—from) :-

- (1) Pronouns becoming adjectives when used before a substantive of the same gender, number and case – *Pronominal adjectives*.
- (2) Adjectives formed, from verbal bases. They are also called participles. Like verbs they are divided into Present, Past, and Future Tenses; and each group is divided into Active and Passive voices. Becoming adjectives, they are declined in all the genders—*Verbal Adjectives or participles*.
- (3) *Adjectival Nouns* are often used as adjectives : they become substantives when they stand alone in the place of person or the thing they qualify. They are decline in all genders.
- (4) *Adjectives proper*, qualify nouns and must agree with their substantives in gender, number and case.

II. Verbal Adjectives or Participles (Declinable)

1. Present Participles

Going, गच्छन्त	Sitting, निसीदन्त
Cooking, पचन्त	Carrying, हरन्त
Doing, करोन्त	Buying, किणन्त
Walking, चरन्त	Standing, तिष्ठन्त
Running, धावन्त	Bringing, आहरन्त
Bathing, नहायन्त	Living, residing, विहरन्त
Laughing, हसन्त	Selling, विक्रिणन्त
Eating, भुञ्जन्त	Giving, ददन्त
Sleeping, सयन्त	Crying, रोदन्त
Seeing, looking at, पसन्त	

2. Past Participles

Gone, गत	Sat, निसिन्न
Come, आगत	Lived, वुत्थ
Made, done, कत	Bitten, दट्ट
Told, said, वुत्त	Cooked, पक्क, पचित
Broken, भिन्न	Received, लब्ध
Descended, ओतिण्ण	Bought, कीत
Brought, आहट	Eaten, भुत्त
Beaten, पहट	Worshipped, वन्दित
Carried, हट	Killed, हत
Dead, मत	Cut, छिन्न
Slept, सुत्त, सयित	Enraged, कुब्ध
Stood, थित	

3. Some adjectival nouns (Masculine ending in 'u')

Rich, धनवन्त	Fortunate, पुञ्जवन्तु
Powerful, बलवन्त	Of high caste, कुलवन्तु
Sun, भानुमन्तु	Fruitful, फलवन्तु
The exalted one, fortunate, भगवन्तु	Possessor of ice, snowy, हिमवन्तु
Wise, पञ्जवन्तु	Possessor of eyes, चक्कमन्तु
Famous, यसवन्तु	Virtuous, सीलवन्तु
Mindful, सत्तिवन्तु	With many relations, बन्धुमन्तु
Intelligent, बुद्धिमन्तु	

4. Adjectives as such

Small, खुदक	Many, much, बहु, बहुक
Big, large, महन्त	Umpire, आम
Long, दीघ	Ripe, पक्क
Short, रस्स	Young, दहर
High, tall, उच्च	Elderly, old, महल्लक
Low, vulgar, नीच	Wide, broad, वित्थत
Medium, मज्झिम	White, सेत
Few, a little, अप्पक	Blue, नील

Red, रत्त	Foolish, young, बाल
Black, काल	Wise, पण्डित
Yellow, पीत	Powerful, बलवन्तु
Shallow, उत्तान	Feeble, दुब्बल
Deep, गम्भीर	Beautiful, सरूप
Rough, coarse, खर	Handsome, दस्सनीय
Soft, मुदु	
	Insane, उम्मत्त
Bald, खल्लट	Lame, खञ्ज
Blind, अन्ध	Poor, दळिद्
Blind of one eye, काण	Rich, धनवन्तु
Deaf, बधिर	Squint-eyed, वलिर
Dumb, मूग	
	Red, रत्त, लोहित
Azure, मन्दनील	Tawny, कपिल
Black, काळ	Yellow, पीत
Blue, नील	Yellowish white, पण्डुवण्ण
Brown, पिङ्गल	Astringent, केसाव
Dark-brown, कण्हपीत	Bitter, तित्त
Green, हरित	Pungent, कटुक
Grey, घूसर	Salt, लवण
Light-red, अरुण	Sour, अम्बिल
Multi-coloured, कम्मास	Sweet, मधुर
Orange-coloured, पीतरत्त	
Pink, पाटल	Bold, निब्भय
	Brave, वीर
Bad, असुन्दर, अभद्दक	Bright, पभस्सर, भासुर
Bad-smelling, दुग्गन्ध	Broad, वित्थत
Belonged, आयत्त	Charitable, अलुद्ध
Beautiful, सुन्दर, सरूप	Cheerful, सुमन
Bent-down, ओनत	Circular, चक्काकार
Big, महन्त	
Blunt, अतिखिण	

670 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

Clean, निम्मल, सुद्ध	Foolish, दन्ध, मन्दबुद्धिक
Close, समीप, आसन	Fortunate, धञ्ज, सुभग
Coarse, कक्कस	Friendly, अविरुद्ध, सुहृद, अनुकूल
Cold, सीतल	Full, पुण्ण, सम्पुण्ण
Composed of mind, समाहित	Globular, गोलाकार
Concealed, गत्त, पतिच्छन्न	Good, सुन्दर, भद्दक
Covered, छन्न	Great, महन्त, उत्तम
Crooked, वद्ध, कुटिल	Greedy, लुद्ध, महिच्छ
Cruel, दुट्ट, कुरीर	Gross, ओळारिक
Deep, गम्भीर	Haggard, किस
Despised, निन्दित, वम्भित	Handsome, सरूप
Dim, निप्पभ, मलिन	Heavy, भारिय
Dirty, किलिट्ट	Hard, थद्द
Distant, दूर	High, उच्च
Distracted, असमाहित	Honest, अवद्ध, उजु
Dry, सुक्ख	Hostile, विरुद्ध
Egg-shaped, अण्डाकार	Hot, उण्ह
Empty, तुच्छ	Ignoble, अधम, नीच
Eternal, सस्सतिक	Immovable, अचल, थावर
Even, सम	Impermanent, अनिच्च
Excellent, पणीत, अतिसुन्दर, विसिट्ट	Kind, कारुणिक
Exposed, विवट, अनावट	Lazy, अलस
Extreme, अच्चन्त	Less, ऊन
Fair, सोभन	Light, सल्लहुक
Famous, विस्सुत	Little, सुद्दक, परित्त
Fat, थूल	Long, दीघ, आयत
Few, कतिपय	Loose, सिथिल
Fine, सुखुम	Low, नीच

Many, बहुक	Smooth, सिनिद्ध, मृ
Mean, हीन	Soft, मुदु
Moderate, मञ्जिम, मत्तञ्जू	Square, चतुरस्स
More, अधिक	Straight, उजु
Movable, जङ्गम, चल, पारिहारिय	Sublime, सुखुम
Much, पहूत	Sweet, मधुर
New, अभिनव	Sweet-smelling, सुगन्ध
Noble, पवर, उत्तम	Thick, घन
Octagonal, अट्टसिक	Thin, तनु
One's own, सक, साकीय	Timid, भीरूक
Old, पुराण	Tringular, तिकोणक
Opened, विवट, अनावट	Ugly, विरूप, असोभन
Other, पर, अपर	Unclean, मलिन, असुद्ध
Permanent, निच्च, थावर	Uneven, विसम
Praised, अभित्थुत	Unknown, अपाकट, अपञ्जात
Pure, परिसुद्ध	Unfortunate, दुक्खित, भाग्यहीन
Respected, मानित, बहुमत	Unfriendly, दुहद, विरुद्ध
Rotten, पूटिक	Virtuous, सुसील
Round, वट्टल, वट्ट	Vicious, दुस्सील
Sad, दुम्मन	Well-known, विस्सुत, सुपाकट
Semi-circular, अद्धचक्ककार	Weighty, भारिय, गरूक
Shallow, उत्तान	Wet, तित्त, अल्ल
Sharp, तिखिण	Wise, पञ्जवन्तु
Short, रस्स	Wounded, वणित
Skilful, पटु, दक्ख	Young, वरुण
Small, खुद्दक	

B. VERBS

I. Verb- आख्यात is an integral and important part of speech; verbs are divided into groups called धातुगण. In Pali there are seven Conjugations, though some Grammarians mention ten as in Sanskrit. Each group has one or more conjugational signs (विकरण), which come between the root (धातु) and the verbal termination (प्रत्यय), Thus the base or अंग of a verb is formed by the combination of the root (धातु) with its conjugational sign, to which is added the verbal termination, as for instance:-

पच् + ति = पच् + अ + ति = पचति = cooks.

The Pali Grammarians represented roots with an ending vowel as गम्, वस् etc. and not as गम् or वस्, as in Sanskrit. But the end अ of a root is dropped when the conjugational sign is added. Before the first conjugational sign अ), the penultimate short and the ending vowel take their गुण, अ has no गुण or strengthening. The गुण of इ, ई, is ए; and of उ, ऊ, is ओ. Thus :- नी (to carry) is a root + अ conjugational sign + ने + अ. भू (to be) + अ = भो + अ → भवति, ∴ ओ followed by अ becomes अब and thus भू → भवति.

Root-groups (धातुगण) with their signs according to Pali-course.

1st	Conjugation	-	a, अ, भुवादिगण
2nd	Conjugation	-	m : a, अनुस्वार : अ : रुधादिगण
3rd	Conjugation	-	ya : य, दिवादिगण
4th	Conjugation	-	no : nu : una : स्वादिगण
5th	Conjugation	-	na, णा : क्रियादिगण
6th	Conjugation	-	o, yira : ओ, यिर : तनादिगण
7th	Conjugation	-	e, aya : ए, अय : चुरादिगण

Number of roots are included in the first and the seventh group. Pali verbs are conjugated, in three Tenses, two Voices, two Numbers and three Persons :-

1. Tenses or काल

- (i) Present tense – वत्तमानकाल
- (ii) Past tense – अतीतकाल
- (iii) Future tense – अनागतकाल

2. Voices or प्रयोग

(i) Active – कत्तुकारक (कर्तरि) : a transitive verb that represents its subject as acting, is in Active Voice. Here the Subject or कत्ता takes Nominative and the Object कम्म is in Accusative (दुत्तिया), and the verb takes the same gender and/number as the Subject – e.g., अहं बुद्धं नमामि; सा बुद्धं नमति; तुम्हे बुद्धं नमथ.

(ii) Passive Voice – कर्मणि प्रयोग.

A *Transitive verb*, that represents its subject as being *passively acted upon*, is in Passive Voice. The sign of the Passive Voice is य (ya) irrespective of the conjugation, and is added directly to the root. The final अ of a root is dropped and the remaining ending consonant and the य of the Passive undergo the necessary changes (according to rules of change).

In the Passive Voice, in a sentence, the subject (कर्ता) takes the Instrumental (तत्तिया) Case and the Object (कर्म) takes the Nominative Case, and the verb takes the same person and number as that of the Object :

The Attanopade (आत्मनेपद) terminations are frequently used in the Passive Voice; but it is optional.

Examples of Verbs in Passive Voice :-

करीयति = is done or made	आकङ्खीयति = is dragged or drawn
कसीयति = is ploughed	दीयति = is given
देसीयति = is preached	मारीयति = is killed
आहरीयति = is brought	वन्दीयति = is worshipped
हरीयति = is carried	किणीयति = is bought

बन्धीयति = is tied

विक्रिणीयति = is sold

भासीयति = is told

धोवीयति = is washed

भुग्जयति = is taken

(iii) Impersonal Construction, भावे प्रयोग

In this construction the Subject takes Instrumental Case and the verb always is in third person single.

Examples :- कर्तरि – नरोगच्छति

भावे – नरेन गम्मते

3. Persons :- (i) Third Person – पठम पुरिस

(ii) Second Person – मञ्झिम पुरिस

(iii) First Person – उत्तम पुरिस

4. Numbers वचन :- (i) Singular

(ii) Plural

5. Padas :- (i) परम्पद – more commonly used

(ii) आत्मनेपद – rarely met with in literature except in poetry and in the Passive Voice.

The Padas have their own verbal terminations.

6. Moods – The manner in which a verb is used to express an action is called Mood.

(i) Imperative Mood – आज्ञार्थ – This mood is used to express command, prayer, advise, wish, blessing or proposal.

(ii) Potential Mood – विध्यर्थ – This Mood expresses probability, command, wish, prayer, hope, advise and capability. It is used in conditional or hypothetical sentences in which one statement depends on another as its reason or condition.

(iii) Conditional – संकेतार्थ (कालातिपत्ति) – The Conditional Mood is used in those hypothetical sentences in which the non-

performance of action is implied :— e.g., सचे देवो वस्सिस्स धज्जं च तिणं
च उप्पज्जिस्स – when it rains then there will be corn and grass.

Each mood has its own verbal termination depending on the number and person.

Verbs in Groups, नानाख्यातपदा

Present 1st Singular	Past Participle (declinable)	Absolutive (The Gerund)
Abuses, अक्कोसति	अक्कुट्ट	अक्कोसित्वा
Ails, रूजति	—	रूजित्वा
Anoints, अज्जति	अज्जित	अज्जित्वा
Appears, पज्जायति	पज्जात	पज्जायित्वा
Ascends, आरूहति	आरूळ्ह	आरुह्
Assembles, सन्निपतति	सन्निपतित	सन्निपतित्वा
Associates, सेवति, भजति	सेवित, भजित	सेवित्वा, भजित्वा
Attempts, उस्सहति	—	उस्सहित्वा
Awakes, पबुज्झति	पबुद्ध	पबुज्झित्वा
Awakens, पबोधेति	पबोधित	पबोधेत्वा
Balances, तुलेति	तुलित	तुलेत्वा
Bathes, नहायति	नहात	नहायित्वा
Bears, वहति	वहित, वुळ्ह	वहित्वा
Beats, पहरति	पहट	पहरित्वा
Becomes, भवति, होति	भूत	भवित्वा, हुत्वा
Becomes established, पतिट्ठति	पतिट्ठित	पतिट्ठाय
Becomes full, आपूरति	आपुण्ण	आपूरिय
Becomes purified, विसुज्झति	विसुद्ध	विसुज्झित्वा
Begs, याचति	याचित	याचित्वा
Begins, आरभति	आरब्ध	आरब्ध, आरभित्वा
Behoves, वट्टति	—	—

676 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

Believes, सहति, बिंस्ससति	सहति, विस्सत्थ	सदहित्वा, विस्ससित्वा
Binds, बन्धति	बद्ध	बन्धिय
Bites, दसति	दट्ट	दास्सित्वा
Blows (wind), वायति (with mouth), धमति	वायित धन्त	वायित्वा धमित्वा
Breaks, भिन्दति भञ्जति	भिन्न भग्ग	भिन्दिय भञ्जिय
Brings, आहरति	आहट	आहरित्वा
Brings-up, पोसेति	पोसित	पोसिय
Buries, निखणति	निखात	निखणित्वा
Burns (v.i.) दाहति (v.t.) दहति	दड्ड दड्ड	डह्मित्वा दहित्वा
Buys, किणाति	क्रीत	किणित्वा
Carries, हरति	हट	हरित्वा
Ceases, निवत्तति, निरूद्धति	निवत्तित निरूद्ध	निवत्तिय निरूद्धित्वा
Collects, ओचिणाति उपचिणाति	ओचित उपचित	ओचिनित्वा उपचिनित्वा
Combines, संयोजेति	संयुत्त	संयोजेत्वा
Comes, आगच्छति	आगत	आगन्त्वा, आगम्म
Comes-in, पविसति	पविट्ट	पविसित्वा
Comes-into-existence, उप्पज्जति	उप्पन्न	उप्पज्जित्वा
Comes-out, निक्खमति	निक्खन्त	निक्खम्म
Composes, रचयति	रचित	रचयित्वा
Conceals, गोपेति पटिच्छादेति	गुत्त पटिच्छन्न	गोपेत्त्व पटिच्छादिय
Concentrates, समादहति	समाहित	समादहित्वा
Covers, छादेति	छन्न, छदित	छदित्वा, छादिय
Creates, मापेति निम्मिणाति	मापित निम्मित	मापेत्वा, निम्मिणित्वा

Cries, रोदति	—	रोदित्वा
Crosses (a stream), तरति	तिण्ण	तरित्वा
Cures, तिकिच्छति	तिकिच्छत	तिकिच्छय
Cuts, छिन्दति	छिन्न	छिन्दित्वा
Dances, नच्चति	—	नचित्वा
Decides, निच्छेति	निच्छत	निच्छय
Decorates, मण्डेति	मण्डत	मण्डेत्वा
अलङ्करोति	अलङ्कत	अलङ्कुरित्वा
Defeats, पराजेति	पराजित	पराजिय
Deprives of, वोरुपेति	वोरुपित	वोरुपिय
Descends, ओरूहति	ओरूह	ओरूहित्वा, ओरूह
Dies, मरति	मत	मरित्वा
Digest, जीरेति	जिण्ण	जीरेत्वा
Digs, खणति	खत	खणित्वा
Disappears, अन्तरघायति	अन्तरहित	अन्तरघायित्वा
Disputes, विवदति	विवदित	विवदित्वा
Divides, भाजेति:	भाजित	भाजेत्वा
विभजति	विभत्त	विभजिय
Does, करोति	कत	कत्वा, करित्वा
Drags, आकङ्कति	आकङ्कत	आकङ्कित्वा
Dries, (v.t.) सुक्खापेति	सुक्खापित	सुक्खापेत्वा
(v.i.) सुस्सति	सुक्ख	सुस्सित्वा
Drinks, पिवति	पीत	पिवित्वा
Dwells, वर्साते	वुत्थ	वसित्वा
Dwindles, परिहायति	परिहीन	परिहायित्वा
Eats, भुञ्जति, अस्नाति	भुत्त, असित	भुञ्जिय,
अदति	—	अदित्वा
Emerges from water, उत्तरति	उत्तिण्ण	उत्तरित्वा
Enshrines, निदहति	निदहित, निहित	निदहित्वा
Enters, पविसति	पविटु	पविसित्वा

678 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

Establishes, (v.t.) पतिट्टापेति, (v.i.) पतिट्टति	पतिट्टापित पतिट्टित	पतिट्टापिय पतिट्टाय
Exists, पवत्तति	पवत्त, पवत्तित	पवत्तेत्वा
Falls, पतति	पतित	पतित्वा
Fears, भायति	भीत	भायित्वा
Feels, वेदेति	वेदित	वेदयित्वा
Fights, युञ्जति	युञ्जित	युञ्जित्वा
Fills (v.t.), पूरेति (v.i.) पुरति	पूरित पुण्ण	पूरेत्वा पूरित्वा
Flees, पलायति	पलात	पलायित्वा
Flies, उड्डेति	उड्डित	उड्डीयत्वा
Floats (v.i.) वुहति (v.t.) प्लावेति उप्लवति	वूळ्ह प्लावित उप्लवित	वुहित्वा प्लावेत्वा उप्लवित्वा
Flows, पग्धरति सन्दति	पग्धरित सन्दित	पग्धरिय सन्दित्वा
Folds, संहरति	संहट	संहरित्वा
Follows, अनुगच्छति	अनुगत	अनुगन्त्वा
Forbears, सहति अधिवासेति	सहित अधिवासित	सहित्वा अधिवासेत्वा
Forgets, पमुस्सति	पमुट्ट	पमुस्सित्वा
Forgives, खमति	खन्त	खमित्वा
Forsakes, चजति, पजहति, जहाति	चत्त पजहित जहित	चजित्वा पहाय, पजहिय जहित्वा
Gets, लभति, अधिगच्छति	लब्ध अधिगत	लब्धा, लभित्वा अधिगन्त्वा
Gives, ददाति, देति	दिन्	दत्त्वा, ददित्वा
Gives in charge, निव्यादेति	निव्यादित	निव्यादेत्वा
Goes, गच्छति, याति	गत, यात	गन्त्वा
Goes ashore, पारं गच्छति तरति	पारङ्गत तिण्ण	पारङ्गित्वा तरित्वा
Goes out, निक्खमति	निक्खन्त	निक्खम्म
Governs, अनुपालेति	अनुपालित	अनुपालेत्वा

Grows, (v. i.) वृद्धति	वृद्ध	वृद्धित्वा
(v. t.) वृद्धेति	वृद्धित	वृद्धेत्वा
Grows up, रूहति	रूह	रूहित्वा
Hangs, (v. i.) ओलम्बति	ओलम्ग	ओलम्बित्वा
(v. t.) ओलम्बेति	ओलम्बित	ओलम्बेत्वा
Happens, सिञ्चति	सिञ्च	—
Hears, सुणाति, सुणोति	सुत	सुत्वा, सुणित्वा
Heats, तापेति	तापित, तत्त	तापेत्वा
Honours, पूजेति, मानेति	पूजित, मानित	पूजेत्वा, मानेत्वा
Identifies, सन्तीरेति	सन्तीरित	सन्तीरेत्वा
Illuminates, ओभासेति	ओभासित	ओभासेत्वा
जोतेति	जोतित	जोतेत्वा
Imitates, अनुकरोति	अनुकत	अनुकरित्वा
Imprisons, रोधति	रोधित	रोधिय
Interprets, अनुवादेति	अनुवादित	अनुवादेत्वा
Interrogates, पुच्छति	पुट्ट, पुच्छित	पुच्छित्वा
अनुविज्जति	अनुविज्जित	अनुविज्जित्वा
Interrupts, उपच्छिन्दति	उपच्छिन्न	उपच्छिज्ज
Is, भवति, अत्थि	भूत	भवित्वा
Is able, सक्रोति	—	सक्कुणित्वा
Judges, तीरेति	तीरित	तीरेत्वा
विनिच्छेति	विनिच्छित	विनिच्छय
Jumps, पक्खन्दति	पक्खन्त	पक्खन्दित्वा
Keeps, थापेति	थापित	थापेत्वा
Kills, मारेति	मारित	मारेत्वा
घातेति	घातित	घातेत्वा
हनति	हत	हन्त्वा
Kindles, जालेति	जालित	जालेत्वा
Knits, गन्थेति	गन्थित	गन्थेत्वा
Knows, जानाति	जात	जात्वा
Laments, विलपति	—	विलपित्वा
Laughs, हसति	हट्ट	हसित्वा
Lays aside, निक्खपति	निक्खत्त	निक्खपित्वा
Leads, नेति	नीत	नेत्वा, नीत्वा

Learns, उग्गण्हाति	उग्गहित	उग्गहेत्वा, उग्गण्हिय
Lifts up, उच्चारेति	उच्चारित	उच्चारेत्वा
उक्खिपति	उक्खित	उक्खिपित्वा
Lives, जिवति	—	जीवित्वा
Looks, पस्सति	दिट्ठ	पसित्वा
ओलोकेति	ओलोकित	ओलोकिय
Manifests, पातुभवति	पातुभूत	पातुभवित्वा
Measures, मिणाति	मित	मिणित्वा
Moves, चलति	चलित	चलित्वा
Nurses, आपादेति	आपादित	आपादेत्वा
Observes, रक्खति	रक्खित	रक्खिय
पटिपज्जति	पटिपन्न	पटिपज्जित्वा
Obtains, अधिगच्छति	अधिगत	अधिगन्त्वा
Opens, विवरति	विवट	विवरित्वा
Oppresses, पीळेति	पीळित	पीळेत्वा
Originates, उप्पादेति	उप्पादित	उप्पादित्वा
निब्बत्तेति	निब्बत्तिति	निब्बत्तेत्वां
Perishes, विनस्सति	विनट्ठ	विनस्सित्वा
Plays, कीळति, रमति	रत	कीळित्वा, रमित्वा
Pleases, तुस्सति	तुट्ठ	तुस्सित्वा
Ploughs, कसति	कट्ठ	कसित्वा
Pounds, कोट्टेति	कोट्टित	कोट्टित्वा
Praises, अभित्थवति	अभित्थुत	अभित्थविय
Preaches, देसेति	देसित	देसेत्वा
Prepares, सज्जेति	सज्जित	सज्जेत्वा
Prints, मुद्देति	मुद्दित	मुद्देत्वा
Promises, पटिजानाति	पटिज्जात	पटिजानित्वा
पटिस्सुणाति	पटिस्सुत	पटिस्सुत्वा
Protects, पालेति	पालित	पालेत्वा
Prevents, निवारेति	निवारित	निवारेत्वा
Purifies, विसोधेति	विसोधित	विसोधेत्वा
सम्पसादेति	सम्पसादित	सम्पसादिय
Purges, विरेचेति	विरित्त	विरेचेत्वा
Pushes away, पनुदति	पनुदित	पनुदित्वा
Rains, वस्सति	वट्ठ	वस्सित्वा
Raises, उट्ठापेति	उट्ठापित	उट्ठापेत्वा

Reads, पठति	पठित	पठित्वा
Recites, सञ्जायति	सञ्जायित	सञ्जायित्वा
Regains, पटिलभति	पटिलद्ध	पटिलभित्वा
Remembers, अनुस्सरति	अनुस्सरित	अनुस्सरित्वा
Resolves, अधिद्व्यति	अधिद्वृत	अधिद्व्यत्वा
Returns (v.i.) पटिनिवत्तति पच्चांगच्छति	पटिनिवत्त पच्चागत	पटिनिवत्तित्वा पच्चागन्त्वा
Rises, उट्टति	उट्टित	उट्टयत्वा
Roars, नदति	—	नदित्वा
Runs, धावति	—	धावित्वा
Says, वदति	वुत्त	वत्वा
भासति	भासित	भासित्वा
कथेति	कथित	कथेत्वा
Seeks, गवेसति	गवेसित	गवेसित्वा
परियेसति	परियेसित	परियेसित्वा
Sees, पस्सति	दिट्ठ	पस्सित्वा, दिस्वा
Sells, विक्रिणाति	विक्रित	विक्रिणित्वा
Sends, पेसेति	पेसित	पेसेत्वा
Sets fire, झापेति	झापित	झापेत्वा
Sews, सिब्बति	सिब्बित	सिब्बेत्वा
Shakes, कम्पेति	कम्पित	कम्पेत्वा
चालेति	चलित	चालेत्वा
Shines, विरोचति	विरोचित	विरोचित्वा
ओभासति	ओभासित	ओभासित्वा
Shoots, विञ्जति	विद्ध	विञ्जित्वा
Shows, दस्सेति	दस्सित	दस्सेत्वा
Shuts, पदहति	पिहित	पिदहित्वा
Sings, गायति	गायित	गातित्वा
Sinks, (v.i.), निमुज्जति	निमुग्ग	निमुज्जित्वा
Sits, निसीदति	निसिन्न	निसीदित्वा
Sleeps, सयति	—	सयित्वा
निहायति	—	निहायित्वा
Smells, घायति	घायित	घायित्वा
Sows, ककचेर, छिन्दति	छिन्न	छिन्दित्वा

682 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

Spends, विस्सजेति	विस्सट्ट	विस्सज्जेत्वा
Spreads, (v.i.) पत्थरति	पत्थट	पत्थरित्वा
(v.t.) वित्थारेति	वित्थत	वित्थारेत्वा
Springs up, उब्भिज्जति	उब्भिन्न	उब्भिज्ज
Stands, तिट्ठति	ठित	ठत्वा
Steals, चोरेति, शेनेति	चोरित, शेनित	चोरित्वा, शेनेत्वा
Strews, विकिरति	विकिण्ण	विकिरित्वा
Strings, आवुणति	आवुत	आवुणित्वा
Stumbles, पक्खलति	पक्खलित	पक्खलित्वा
Swallows, गिलति	गिलित	गिलित्वा
Sweeps, सम्मज्जति	सम्मट्ट	सम्मज्जित्वा
Swoons, मुच्छति	मुच्छित	मुच्छित्वा
Takes, आदाति	आदिन्न	आदाय, आदियित्वा
गणहाति	गहित	गहेत्वा, गण्हय
Takes down, ओतारेति	ओतारित	ओतारेत्वा
ओरोपेति	ओरोपित	ओरोपिय
Tastes, सायति	सायित	सायित्वा
Teaches, उग्गण्हापेति	उग्गण्हापित	उग्गण्हापेत्वा
सिक्खापेति	सिखापित	सिखापेत्वा
Thinks, चिन्तेति	चिन्तित	चिन्तेत्वा
Threatens, तज्जेति	तज्जित	तज्जेत्वा
Throws, खिपति	खिन्त	खिपित्वा
Touches, फुसति	फुट्ट	फुसित्वा
Trains, सिक्खापेति	सिक्खापित	सिक्खापिय
दमेति	दमित	दमिय
Translates, परिवत्तेति	परिवत्तित	परिवत्तेत
Trembles, कम्पति	कम्मित	कम्पित्वा
Turns, वट्टेति	वट्टिट	वट्टेत्वा
Understands, बुज्जति	बुज्झ	बुज्झित्वा
Unfolds, पसारेति	पसारित	पसारिय
Vomits, वमति	वमित	वमित्वा
Waits for, आगमेति	—	आगमेत्वा
Walks, चरति	—	चरित्वा
Wanders, आहिण्डति	—	आहिण्डित्वा

Washes, घोवति	घोत	घोवित्वा
Wears on, निवासेति	निवत्थ	निवासेत्वा
Weaves, विनाति	वीत	विनित्वा
Wins, जिनाति	जित	जिनित्वा
Wishes, इच्छति	इच्छित	इच्छिय
Wraps, वेठेति	वेठित	वेठेत्वा
Writes, लिखति	लिखित	लिखित्वा
Yokes, योजेति	युत्त	योजेत्वा, योजिय

III. The Participles धातुसाधिते

The participles are either *verbal adjectives*, agreeing with the qualified nouns in gender, number and case or *indeclinables*. As usual with verbs they are classified according to tenses, as present, past and future: The *Future Participle* is less commonly met with. The *Past Participle is the declinable past passive participle* and is formed by त् or इत् to the root. The Pali Past Participles, listed above, are all from the Sanskrit forms directly, with modification. *The past participles are used as adjective and are declined like बुद्ध (m); फल (n); कञ्जा (f)*: The *Indeclinable Past Participle* also called the *Absolutive* (Pali-Course) or the *Gerund* (English Grammar) are formed by adding त्वा to the root. They are dealt with under Nipata or अव्यय. The *Infinitive of purpose* is the same thing as तुमन्त अव्यय and is indeclinable.

(1) *Present Participles* : Addition of अन्त or मान to a root forms Present Participle (masculine) and are declined भगवन्त; बुद्ध.

गम - गच्छ + अन्त = गच्छन्त; गच्छ् + मान = गच्छमान
दद - वद् + अन्त = वदन्त; वद् + मान = वदमान
कंख - कंख् + अन्त = कंखन्त; कंख् + मान = कंखमान
लभ - लभ् + अन्त = लभन्त; लभ् + मान = लभमान
रुद - रोद् + अन्त = रोदन्त; रोद् + मान = रोदमान
सुप - सुप् + अन्त = सुपन्त; सुप् + मान = सुपमान
दा - दद् + अन्त = ददन्त, देन्त; दद् + मान = ददमान
हा - जह् + अन्त = जहन्त; जह् + मान = जहमान
कुध - कुञ्झ् + अन्त = कुञ्झन्त; कुञ्झ् + मान = कुञ्झमान
युध - युञ्झ् + अन्त = युञ्झन्त; युञ्झ् + मान = युञ्झमान

सु - (श्रु) सुण् + अन्त = सुणन्त; सुण + मान = सुणमान

सक (शक्) सक्कोन्त =

पुच्छ - पुच्छ् + अन्त = पुच्छन्त; पुच्छ + मान = पुच्छमान

मर - मर् + अन्त = मरन्त; मर + मान = मरमान

भुञ्ज - भुञ्ज् + अन्त = भुञ्जन्त; भुञ्जमान

कर - (कृ) कर् + अन्त = करोन्त

गह - गण्ह + अन्त = गण्हन्त; गण्ह + मान = गण्हमान

वि + की - विक्रिण् + अन्त = विक्रिणन्त; विक्रिण + मान = विक्रिणमान

चुर - चोरय् + अन्त = चोरयन्त; चोरय + मान = चोर + अन्त = चोरेन्त

कथ - कथय् + अन्त = कथयन्त; कथे + अन्त = कथेन्त;

कथय + मान = कथयमान

Addition of अती, अन्ती माना, to the verbal root forms Feminine Present Participle :-

गम - गच्छ् + अती = गच्छती; गच्छन्ती; गच्छमाना

वद - वद् + अती = वदती; वदन्ती; वदमाना

कख - कंख् + अती = कंखती; कंखन्ती; कंखमाना

लभ - लभ् + अती = लभती; लभन्ती; लभमाना

They are declined
like, गच्छती, गच्छन्ती

The neuter Present Participle is formed by adding अन्त and मान to the root and is declined like फल.

(2) The Future Participle, not very common, is formed by inserting इस्स between the verbal base (धातुङ्ग) and the termination अन्त or मान of the Present Participle, e.g. :-

पच + इस्स + अन्त = पचिस्सन्त = who will be cooking

पचिस्समान =

- Masculine forms.

पच + इस्स + अती = पचिस्सती; पचिस्सन्ती

- Feminine forms

पत + इस्स + अन्त = पचिस्सन्तं = पचिस्सन्तं फलं,

a fruit about to fall

- Neuter forms.

(3) The declinable Past Participles are often referred as declinable Past Passive Participles. They are formed by adding त् or इत् to the verbal

root. For convenience and easy understanding a list of Past Participles with their genders are given below :-

Root	Masculine Gender	Feminine Gender	Neuter Gender
गम	गतो	गता	गतं
नम	नतो	नता	नतं
पुच्छ	पुच्छितो, पुट्टो	पुच्छिता, पुट्टा	पुच्छितं, पुट्टं
दिस	दिट्टो	दिट्टा	दिट्टं
नी	नीतो	नीता	नीतं
ठा, तिट्ठ	ठित्तो	ठिता	ठित्तं
हन	हते	हता	हतं
पा	पीतो	पीता	पीतं
लभ	लब्धो	लब्धा	लब्धं
गह	गहितो	गहिता	गहितं
कर	कतो	कता	कतं
आ + रभ	आरद्धो	आरद्धा	आरद्धं
दा	दत्तो, दिन्नो	दत्ता, दिन्ना	दत्तं, दिन्नं
आ + रूह	आरूळ्हो	आरूळ्हा	आरूळ्हं
ओ + लोक	ओलोकितो	ओलोकिता	ओलोकितं
खाद	खादितो	खादिता	खादितं
खिप	खित्तो	खित्ता	खित्तं
चर	चरितो, चिण्णो	चरिता, चिण्णा	चरितं, चिण्णं
छिद	छिन्नो	छिन्ना	छिन्नं
जा	जातो	जाता	जातं
धोव	धोवितो	धोविता	धोवितं
न्हा	नहातो, न्हातो	नहाता, न्हाता	नहातं, न्हातं
बुद्ध	बुद्धो	बुद्धा	बुद्धं
भास	भासितो	भासिता	भासितं
मर	मतो	मता	मतं
मुच	मुत्तो	मुत्ता	मुत्तं
याच	याचितो	याचिता	याचितं
रक्ख	रक्खितो	रक्खिता	रक्खितं
वस	वसितो, वुसितो	वुसिता, वुसिता	वसितं, वुसितं

(4) *The Potential Passive Participles* are used to denote some action which is fit or proper to be done e.g., the students should get up at dawn माणवकेहि पच्चूसकाले उद्वितब्ब. Here the subject must be in the instrumental while the participle must agree with the object in gender, number, and case. If there is no object then the participle must be in Neuter, Nominative, Singular e.g. :-

- रक्ख – रक्खितब्ब, रक्खनीय, रक्खिय
 वंद – वन्दितब्ब, वन्दनीय, संदिय (वन्य)
 छिद – छेतब्ब, छेदनीय, छिन्दितब्ब
 सु – सोतब्ब, सुणितब्ब, सवणीय
 कथ – कथयितब्ब, कथेतब्ब, कथनीय
 पूज – पूजयितब्ब, पूजेतब्ब, पूजनीय, पुज्ज

IV. Some adverbial phrases, interjections and addressing forms.

Ah ! Alas ! हा, अहो	Four times, चतुक्खत्तुं
Anyhow, येन केनचि आकारेन	Six times, छक्खत्तुं
By how much, कित्तावता	Twenty times, वीसतिकखत्तुं
By this much, एत्तावता	Thousand times, सहस्सक्खत्तुं
For a long time, चिराय	How many times, कतिकखत्तुं ?
Hail ! जयतु!	Well done, साधु ! सधु !
In many places, बहुत्थ	What else, अज्जं किं ?
In one place, एकत्थ	In hundred ways, सतथा
In one way, एकधा	In many ways, बहुधा
In two ways, द्विधा	In how many ways, कतिधा
In three ways, तिधा	In every way, सब्बधा
In four ways, चतुधा	In both ways, उभयथा
In five ways, पञ्चधा	In another way, अज्जथा
In six ways, छधा	In the other way, इतरथा
In seven ways, सत्तधा	In another place, अज्जदा
In eight ways, अट्ठधा	In both places, उभयत्थ
In nine ways, नवधा	In another day, अज्जदा
In ten ways, दसधा	In the presence of, सम्मुखा
Twice, द्विक्खत्तुं	In the absence of, परम्मुखा

Look here, इड्ध	Thrice, तिक्खत्तुं
Methinks, मज्जे	Five times, पञ्चक्खत्तुं
My dear, भो, अम्मो, आवुसो, सम्म, मारिस	Ten times, दसक्खत्तुं
Revered Sir, भन्ते, भदन्ते	Hundred times, सतक्खत्तुं
Sir, सामि, अय्ये	Many times, बहुक्खत्तुं
Shame, धि! धिरत्थु	My Lord, देव

Adverbs of Time, कालभेदा

Afternoon, अपरण्हो	Morning, पभातो,
Afterwards, पच्छा	In the morning, पातो
Always, सदा, निच्चं (Ind.)	Moment, खणो
Dawn, अरूणो, अरूणोदयो	Night, रत्ति (f)
Day, दिवसो	First watch of night, पठययामो
Day after to-morrow, परनसुवो (Ind.)	Last watch of night, पच्छिमयामो
Day before yesterday, परहीयो (Ind.)	Middle watch of night, मज्झिमयामो
Day time, दिवसकालो	New-moon-day, अमावसी (f)
One day, एकदा (Ind.)	Now, इदानि (Ind.)
Early morning, पच्चूसो	Rainy-season, वस्सनो
Evening, सायं	Season, उतु, (m, f)
Fast-day, उपोसयो	Second, अच्छरा
Formerly, पुब्बे, पुरा (Ind.)	Spring, वसन्तो
Fore-noon, पुब्बण्हो	Summer, गिम्हानो
Fortnight, अद्धमासो, पक्खो	Time, कालो
Fullmoon day, पण्णरसी (f)	Past time, अतीतो
Future, अनागतो	Present time, पच्चुप्पन्नो
Hour, घटिका	To-day, अज्ज (Ind.)
Mid-day, मज्झण्हो	To-morrow, सुवे (Ind.)
Midnight, निसीथो	Week, सत्ताहो
Minute, मुहुत्तो, खणो	Winter, हेमन्तो
Month, मासो	Year, सरदो, संवच्छरं
	Yesterday, हीयो, हिय्यो

V. General Conversation, साधारण सल्लापो।

1. Do you know Pali ? त्वं पालिभासं जानासि?।
2. I know a little; अहं थोकं जानामि।
3. Are you able to converse in Pali ?
सकूोसि त्वं पालिभासाय सल्लपितुं?।
4. Yes, I am able to converse a little :
आम, थोकं सल्लपितुं सकूोमि।
5. What is your name ? युद्धं नामं किं? किंमो नामेसि?।
6. My name is Vijayabahu; अहं विजयबाहू नामो ढ्हि।
7. Where do you live ? त्वं कथं वससि?।
8. I live in Colombo; अहं कोळम्बनगरे वसिमि।
9. What is your age ? तुद्धं आयुष्पमाणां कित्तं?।
10. My age is fifteen मद्धं आयुष्पमाणं पण्णरस।
11. How old are you ? कतिवस्सोसि त्वं (आयुना)?।
12. I am twenty years old; अहं वीसति वस्सोऽढ्हि।
13. Where do your parents live ?
तुद्धं मातापितरो कुह्णिं वसन्ति?।
14. They too live in Colombo now ?
ते पि इदानि कोळम्बनगरे येव वसन्ति।
15. Do you have brothers and sisters too ?
तुद्धं भातु भगिनीयो पि सन्ति?।
16. Yes, I have four brothers and two sisters :
आम, मद्धं चत्तारो भातरोच द्वे भगिनियो च सन्ति।
17. What do your brothers do ? तव भातरो किं करोन्ति?।
18. One of them is a merchant, the second one is a clerk and the other two still attend schools;
तेसु एको वाणिजो, दुतियो लेखको, द्वे ताव पाठसालासु उग्गण्हन्ति।
19. What do you like to be ? त्वं किं कम्म कातुं इच्छसि?।
20. I like to be a carpenter; अहं एको बड्ढुकी भवितुं इच्छामि।
21. When did you come here; कदा त्वं इध आगतो सि?
22. I came here yesterday; हीयो हं इध आगिंच्छ।

1. Who are you ? को सि त्वं?
2. I am a farer; अहं एको पथिको।
3. Where do you come from ? कुतो त्वं आगच्छसि?
4. I come from India; अहं इन्दुदेसतो आगच्छमि।
5. For what purpose have you come ? त्वं किं कातुं आगतो सि?
6. I want to sell some goods; अहं भण्डानि विक्रिणितुं इच्छामि।
7. Why did you come here; कस्मा इध आगतो सि?।
8. I came here to talk to you; तथा सद्धिं सल्लपितुं आगतो म्हि।
9. What is your father ? को तुहं पिता?
10. My father is the merchant Mahanama; मम पिता महानाम वाणिजो
11. Who is your friend and acquaintance here ?
को इध तव मित्तो वा सन्दि टो वा?
12. The mayor of this city is a friend of mine;
इध नगरगुत्तिको मय्हं मित्तो होति।
13. Where do you work ? कत्थ त्वं कम्मं करोसि?
14. I work in a post office; अहं एकस्मिं सासनगारे कम्मं करोमि।
15. Where do you go from here ? इतो त्वं कुहिं गच्छसि?
16. I will go to another town from here; अहं इतो अज्जं अगरं गमिस्सामि
17. Do you like this place ? पियायसि त्वं इदं ठानं?
18. I may like this place if it is not to hot;
पियायेय्यम इदं ठानं सच्चेदं नाच्चुण्हंभवेय्य।
19. When will you go home ? कुदा त्वं सकट्टानं गमिस्ससि?
20. I will go home when I get enough money;
यदि पहोणकं मूलं लभिस्सामि, तदाऽहं गमिस्समि।
21. How much money have you now with you ?
कित्तकं मूलंऽदानि तव सन्तिके अत्थि?।
22. I have fourteen rupees and fifty cents;
चुद्दस रूपियानि अद्धारूपियञ्च च मम सन्तिके सन्ति।

Orders and Advice

1. Ring the bell; घण्ठं वादेहि।
2. Bring my watch here; मम होरालोचनं इध आहार।
3. Call that man here; तं पुरिसं इध पक्कोसाहि।

4. Wash your feet; तुहं पादे धोवाहि।
5. Do not go in the Sun; आतपे मा गच्छाहि।
6. Do not drink intoxicants; मज्जं मा पिवा।
7. Fold my silk dress; मम कोसेय्यच्छादनं संहराहि।
8. Give this begger some rice; इमस्स याचकस्स शोकं तण्डुलं देहि।
9. Send that boy to fetch a pen; लेखणिं आनंतुं तं दारकं पेसेहि।
10. Be always obedient to your parents;
सदा मातापितुन्नं वचनकरा भवथा।
11. Do not ridicule elders; मा बुद्धानं परिहासं करोथा।
12. Never tell lies; मा कदाचि पि मुसा भणथा।
13. Do not kill living beings; मा जीविनो जीविता वोरुपेथा।
14. Pay respect to all religious teachers; सब्बेसं समणानं गारवं करोथा।
15. Keep company with virtuous friends; कल्याणमित्ते सेवथा।
16. Do not keep company with friends who have fallen into voice; पापमित्ते मा भजथा।
17. Do not steal even a needle that belongs to others; मा परसन्तकं सूचिमत्तं पि शेनेथा।
18. Do not tease animals; तिरच्छानगते मा हिंसथा।
19. Do not try to find others faults; मा परेसं छिद्धानि गवेसथा।
20. Find out your own faults and avoid them;
अत्तनो वज्जानि गवेसेत्वा तानि पजहथा।

Conversation with a school boy

1. Why did you not come yesterday ? Or why were you absent yesterday ?
कस्मा त्वं हीयो न आगतो सि?।
2. Yesterday I went with my father to a funeral;
हीयो ऽहं पितरा सद्धिं मतकट्टानं अगमिं।
3. Where are your books and writing material ?
कुहिं तव पोत्थका लेखनभण्डानि च?।
4. I came here having left them on the desk in the school;
तान ऽ हं सालब्धन्तरे लेखनफलके ठापे त्वा आगतो ऽ म्हि।
5. Why do you come late to-day ?
कस्मा त्वं अज्ज चिरायित्वा आगच्छसि?।

6. Being unable to cross the bridge as it was broken down, I am late;
अन्तरामगे सेतुनो भिन्नता तरितुं असक्कोन्तो चिरायिं।
7. What did that boy say to you ? सो दारको तुहं किं कथेसि?।
8. He said he could not buy the necessary books as he had no money; निमूलत्ता
इच्छते पोत्थके किणितुं नासक्खि ति सो वदि।
9. Why did he send for you ? कस्मा सो तं पक्कोसि?।
10. He has send for me because he wished to get a book from me ; मम सन्तिका
एकं पोत्थकं लब्धुं इच्छन्तो सो मम पक्कोसि।
11. How many books did you buy ? कति पोत्थका कीता तया?।
12. I bought four books; मया चत्तारो पोत्थका कीता।
13. How much did you pay for them;
तेसं अत्थाय कित्तकं मूलं दिन्नं तया?
14. I gave eight rupees and twenty five cents;
अट्ट रूपियानि पञ्चवीसति-सतभागे च अहंअदासिं।
15. Can you run quickly; सक्कोसि त्वं सीघं धावितुं।
16. I am not able to run very fast; अहं अतिसीघं धावितुं न सक्कोमि।
17. Was it done by him in your presence?
कतं इदं तेन तुहं सम्मुखे?।
18. No; it was done by him in the presence of two other students;
न; अञ्जेसं द्विन्नं सिस्सस्स सन्तिके तेन इदं कतं।
19. If it is so how do you know this ? यदि एवं, कथं त्वं इदं जानासि?।
20. They told me that he did so; सो तथ करी ति ते मं वदिसु।
21. When will your father return ? युहं पिता कदा पच्चागमिस्सति?।
22. He will return from there day after tomorrow; परसुवे सो ततो आगमिस्सति।
23. Did you tear the leaves of this book ?
त्वं इमस्स पोत्थकस्स पत्तानि दालेसि नु?
24. I did not; I was writing my copy;
न अहं लिपिपरिचये अक्खरानि लिखन्तो निसीदिं।
25. Do you write with steel nibs ? अयलेखनीमुखेहि नु तुम्हे लिखथ?।
26. We write with quill pens; मयं पत्तनाळा-लेखनीहि लिखाम।
27. What did your teacher teach you yesterday ?
किं तुम्हाकं आचरियो हियो उग्गणहापेसि।

692 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

28. He taught us geography of India;
सोऽम्हाकं भारत भूमिवित्थारं उग्गण्हापेसि।
29. As my slate is broken I shall buy another to-morrow;
मम सिलापत्थरस्स बिन्ता सुवेऽहं अज्ज किणीस्सामि।
30. Did he give you that book ? सो तं पोत्थकं तुहं अदसि नु?।
31. No, it was given by him to his sister;
न तेन सो अत्तनो भगिनिया दिन्नो।
32. I cannot give you the book, for it is not mine;
मम अनायत्तत्ता तं पोत्थकं तुहं दातुं न सक्कोमि।
33. Having been expelled from the school the boy returned home;
पाठसालाय निक्कड्डितो सो सिस्सो अत्तनो गामं पच्चागमासि।
34. If you wish to be successful in the future, learn while you are young;
अनागते अभिवुद्धिं पत्तुं इच्छन्ता, दहरकाले सिप्पुग्गहणं करोथा।

Conversation between two farmers

1. Good morning; सुप्पभातां।
2. It is good of you to have come here; सुन्दरं तथा कतं इध आगच्छन्तेन।
3. I hoped that you would come as I was anxious to meet you;
अहं तथा समागन्तुं इच्छन्तो तव आगमनं पच्चासिंसन्तु वसिं।
4. Why have you been away so long ?
कस्मा त्वं चिराय इध नागतो सि?
5. I could not go anywhere for about a month as I was ill;
गेलज्जेन आभिभूतोऽहं एक मासमत्तं कत्थचि पि गन्तुं नाखविंखा।
6. Was your harvest fruitful ? तव सस्सं निप्फन्नं वा नो वा?।
7. My crop was destroyed by an excess of water, only a small quantity is left unharmed;
अधिक जलेन मम सस्सं विनस्सि; थोकं एव अविसिट्टं अहोसि।
8. What about your own crop ? का भवती सस्से पवत्ति
9. At first, some cattle broke the fence and ate the young plants, and then the remainder died of drought;
पठमं गावो वत्ति भिन्दित्वा तरुणासस्सं खादिंसु, अथावसिट्टं अनोदकेन मिलायि।
10. If it is so how will you feed your family ?
यज्जेवं, कथं त्वं अत्तनां कुटुम्बं पोसेतुं सक्कोसि?
11. I will earn my living by selling pot-herbs brinjals, pumpkins, etc;
अहं साकपण्णाणि च भण्डाकीकुमीण्डादीनि च विक्किणित्वा जीविकं कप्पेस्सामि

12. Are there many orange trees in your garden;
सन्ति वव उय्याने बहु जम्बीररुक्खा?
13. There are twenty trees in my garden;
वीसति रुक्खा मम उय्याने रोपिता होन्ति।
14. How many fruits do you gather from those trees in one crop ?
एकस्मिं वारे तेहि कित्तकानि फलानि ओचिनासि?।
15. I get about two thousand fruits in one crop :
एकस्मिं फलवारे द्विसहस्समत्तानि फलानि लभामि।
16. When do you wish to plough your field;
कदा तव खत्तं कसितुं इच्छसि?।
17. I will plough it when I get oxen and plough :
यदा गोणे च नाङ्गलानि च लभिस्सामि तदाऽहं कसिस्सामि।
18. How many mowers do you need in reaping ?
लायने कित्तका लायका इच्छित्त्वा?।
19. Ten reapers with ten scythes will be able to reap my harvest ;
दस लायका दसहि दात्तेहि मम स्ससं लायितुं सक्खिस्सन्ति।
20. Having heaped them on the threshing floor, how many oxen do you need for threshing ?
खले रासीक्त्वा कतीहि गोणेहि महापिस्ससि?
21. Having got them threshed by eight oxen and having removed straw and chaff, I will bring home the grain after getting it dried :
अट्टाहि गोणेहि महापेत्वा पलालं उद्धरित्ता भुसं पप्फोटेत्वा सुक्खापेत्वा च धाञ्जं गेहं आनेस्सामि।

Conversation between two merchants

1. Welcome ! Please sit down here;
स्वागतं भवतो ! निसिदाह इमस्मिं आसने।
2. How are you getting on ? कथं तव सरीरप्पवत्ति?।
3. Thank you; I am quite well; थुति अत्थु; अहं अच्चन्तनिरोगी विहरामि।
4. Are your wife and children well and happy ?
तव पुत्त-दारा पि निरोगा सुखिनो।
5. Yes, they too are in good health and contented; एवं, ते पि अप्पावाधा चेव सन्तुट्ठा च।
6. How much did you get this month by selling your goods ?
इमस्मिं मासे भण्डविक्कयेन कित्तको लाभो लब्धो भवता?।

694 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

7. There was no gain but only loss, as I had to sell my goods at less than the cost price;

कीतमूलतो पि ऊनामूलेन विक्रिणितत्ता मय्हं हानि येव अहोसि न वड्ढि।।

8. What goods did you buy from Persia ?

पारसिका - देसतो कानि भण्डानि तथा कीतानि?।

9. I went there with a carvan and brought many carpts with the aid of Camels;

अहं सत्यवाहेन सध्दि तत्थ गन्त्वा बहूनि अनग्धकोजवानि ओट्टेसु ओरोपेत्वा आनेसिं।

10. At what price do you want to sell your carpets ?

एकं कोजवं कित्तकेन मूलेन विक्रिणितुं इच्छसि?।

11. I will sell them at double the cost;

कीतमुलतो दिगुणेन मूलेन विक्रिणिस्सामि।

12. I have heard that a merchant-uessel arrived in the harbour yesterday;

एक वाणिजनावा हीयो पट्टनं आगता ति सुतं मया।

13. Yes, I went to the harbour and gave some money in advance to buy goods from there;

एवं, अहं नावातित्थं गन्त्वा ततो भण्डं गहेतुं सच्चकारं अदासिं।

14. To-morrow I will have them brought to my shop in ten carts; सुबे अहं

दसहि सकटहि तानि भण्डानि मम आपणं आहरापेस्सामि।

15. I am inclined to buy the whole lot;

अहं सब्बं भण्डरासिं किणितुं इच्छामि।

16. A hundred mangoes could be had in a rupee;

सतं अम्बफलानि एकेन रूपियेन केतुं सक्क।

17. How much did you pay for this blanket

एतस्स कम्बलस्स अत्थास कित्तकं तथा दिन्न्?।

18 I gave ten rupees and fifty cents;

अहं दसरूपियानि पण्णास - सतभागे च अदासिं।

C. PARTICLES :-

C. Particles :— Avyaya (अव्यय) in Pali, is a group of words consisting of

- (i) Conjunctions
- (ii) Prepositions
- (iii) Indeclinable past participles ending in त्वा, त्वान, य
- (iv) Infinitives.

They are usually divided into two broad classes viz., (I) Prefix or उपसर्गा
(ii) Indeclinable particles or निपात.

I. Prefix or उपसर्गा are put before verbs and substantives to modify their meaning. They are put before verbal root whereby sometimes the quality and meaning of the word is completely changed e.g. :-

गच्छति = goes; उप + गच्छति = goes near;

आ + गच्छति = comes

सर (स्मृ) - recall; वि + सर = विस्सरति = to forget

तर = Swim; ओ + तर = ओतरति = descend or get down

More than one or two prefix could be put before a verbal root, e.g.,

वि + आ + करोति = व्याकरोति = explains

अधि + आ + वसति = अङ्गावसति = lives

सं + उत् + आ + चरति = समुदाचरति = addresses or practices.

A list of the more common उपसर्गा :-

Prefix	Meaning, अर्थ	Verb, क्रिया
अति	Beyond, over	अतिक्रमति, अतितति
अधि	Over, upon above	अधिगच्छति (goes over or acquires or grasps)
अनु	After	अनुसरति (follows) अनुस्सरति (remembers)
अप	Away, insult	अपभासति (criticizes) अपमञ्जति (insults) अपनयति (to remove away) अपचायति (worships)
अभि	Towards, oppose	अभिमुखं, अभियाति (attacks)
ओ (अव्)	Down, contempt	ओतरति (descends)
आ	Upto, until	आगच्छति (comes) आहरति, आनयति (brings)

696 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

उद	Up, out	उतिट्टति (gets up) उत्तरति (ascends)
उप	Near, nearby	उपसंकमति (comes near) उपराजा (viceroy)
नि (निस्)	Down, away, less	निसीदति (sits down) निपतति (falls down) निगच्छति (goes away) निम्मक्खिक (fly-less)
नी (निर्)	Out	नीरहति (takes out)
प (प्र)	Begin, shine forth	पयाति (starts), पज्जलति (प्रज्व) shines forth पवादो (a theory or hypothesis)
पटि, पति	back, in-return	पच्चागच्छति (comes back), पटिपुच्छति (asks in return), पटिक्खपो (प्रतिक्षेप) refusal.
परा	return	परापतति (returns) पराजयति (defeats) पराक्कमति (strives)
परि (पलि, पळि)	Surrounding	परिधावति (runs about) पलिवेठेति (wraps round)
वि	Oppose, differ apart	विवाद (quarrel) विवसन्ति (lives separately) विभजति (divides) विहरति (lives)
सं (सम्)	Together	संवसन्ति (live together) संवादो (conversation)

II. *Indeclinable particles or निपात or अव्यय :-*

This group includes conjunctions, prepositions, indeclinable past participles, indeclinable participles, infinitives. Words which have no gender, no number and no case, are all निपात or अव्यय.

(a) List of particles or निपात or अव्यय :-

- | | |
|---|---|
| 1. How, कथं—
What, किंसु, कच्चि, किं
Really, ननु
Isn't that so, really, नु | 5. Vocative Nipatas
Superiors, भन्ते
O, you, अरे, रे, भी
For servants, जे
For Sraman, आबुसो |
| 2. Without, besides, विना,
अन्तरेण, रिते | 6. As, when, यथा
That, that way, तथा
Thus, एवं
As it were, सेय्यथा
As, यथरिव
Thus, तथरिव |
| 3. Doubt, sorry, अहो
What, where of, किमु
Or, उदाहु, किमुत्त | 7. Because, यतो
That's why, ततो
Owing to, Because of निस्साय
With reference to, about, संधाय |
| 4. Nipatas indicating time,
Now, अधुना, इदानि, इतरहि
When, यदा
Then, तदा
To-day, अज्ज
To-morrow, सुवे (श्वः)
Dayafter to-morrow, परसुवे
(परश्वः)
Yesterday, हिय्यो (ह्यः)
Evening, सायं
Morning, पातो
Day-time, दिवा
Day-break, पगे | 8. No, न, नो, मा
Otherwise, नोच
Enough, अलं |

All prepositions except ठपेत्वा, धिरत्थु, नमो, विना, are placed after the nouns. Prepositions govern their objects in different cases as indicated below :

- The Accusative – याव until; आरब्ध, उद्दिस्स, निस्साय, सन्धाय, पटिच्च with reference to, about; धि, धिरत्थु fie upon!
- The Instrumental – अलं enough of; किं what is the use of? (Interrogatively); वट्टति it is proper for; सक्का, it is possible for; सद्धि, सह with.
- नमो governs the dative.

698 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

- (d) पट्टाय (from) governs the ablative; याव is used with the ablative optionally : विना (without); governs the accusative, the instrumental or the ablative.
- (e) The genitive, अधो under; अन्तरे, अन्तो in, among; उद्धं, उपरिं on, upon above; ओरं on this side; पारं beyond; हेट्टा below, under; वट्टति.

०००

B) Terminations त्वा, त्वान, तून, य when put after a verbal root, we get त्वान्त अव्यय or *Indeclinable Past Participle or the Gerund*. Before the addition of त्वा, the root undergoes the same changes as before तब्ब; e.g. पचित्वा having cooked, विञ्चित्वा after piercing, खिपित्वा, कथित्वा, कथयित्वा, हारापे - पयित्वा etc; य optionally takes the place of त्वा; generally in cases where an उपसर्ग is prefixed to the root, as उपट्टहित्वा or उपट्टाय having approached; अनुभवित्वा or अनुभूय; उपेत्वा or उपेच्च having approached; प्र + विश् = प्रविश्य.

Some roots with their Gerund; Indeclinable Past Participles (Absolute)

कीळ + इ + त्वा = कीळित्वा; कीळ + इ + त्वान = कीळित्वान;

कीळ + इ + तून = कीळितून = Having played.

खिप = खिपित्वा, खिपित्वान, खिपितून = Having thrown.

पिव = पिवित्वा, पिवित्वान, पिवितून = After drinking or having drunk.

वस = वसित्वा, वसित्वान, वसितून = Having lived or living.

धोव = धोवित्वा, धोवित्वान, धोवितून = After washing.

चिन्त = चिन्तयित्वा, चिन्तयित्वान, चिन्तयितून = After having thought or after thinking,

छिद् = छिन्दित्वा, छिन्दित्वान, छिन्दितून = After cutting.

भुज = भुञ्जित्वा, भुञ्जित्वान, भुञ्जितून = After eating.

ठा = ठत्वा, ठत्वान = Having stood or standing.

गह = गहेत्वा, गहेत्वान, गहेतून = Bringing with.

पीळ = पीळयित्वा, पीळयित्वान, पीळयितून = torturing or having tortured.

C) Terminations तुं, तवे, ताये when added to a root we get तुमन्त अव्यय; they are usually used to express purpose of a verb or क्रिया. *These forms are also called the Infinitive of Purpose :-*

कीळ = कीळितुं, कीळितवे, कीळिताय = for playing

पठ	=	पठितुं पठितवे, पठिताये	=	for studying
चर	=	चरितुं, चरितवे, चरिताये	=	for wandering about
रूद	=	रोदितुं, रोदितवे, रोदिताय	=	for crying
पस्स	=	पस्सितुं, पस्सितवे, पस्सिताये	=	for seeing
जि	=	जेतुं, जेतवे, जेताय	=	for conquering
नी	=	नेतुं, नेतवे, नेताये	=	for carrying
roots with]	प + हर	=	पहरितुं, पहरितवे, पहरिताये = for beating
उपसर्ग		नि + कम	=	निक्खमितुं, निक्खमितवे, निक्खमिताये = for going

III. Indeclinables And adverbs, निपाता

Above, उपरि, उद्धं.	Between, अन्तरा.
Across, तिरो, तिरियं.	But, तथापि.
After (that), पच्छा, अत्थ.	Certainly, अब्धा, वे, हवे, कामं, जातु.
After a long time, चिरेन.	Constantly, अभिण्हं
Again, पुन.	Eastwards, पुरत्थ.
Again and again, पुनप्पुनं.	Either or, वा, अथवा, उदाहु
All-round, समन्ततो.	Else, अपि च.
Almost, मनं, केवलकप्पं.	Elsewhere, अञ्जत्थ.
Also, अपि, चापि.	Enough, अलं.
Although, तथापि.	Ever, सदा, सब्बदा.
Always, सततं, सदा.	Every where, सब्बत्थ.
And, च, अपि.	Exactly, यथातथं.
As, यथा, तथा.	Except, विना.
As far as, याव, ताव.	Far less, किमङ्ग
As follows, सेय्यथीदं	Frequently, अभिक्खणं.
Aside, एकमन्तं.	From afar, दूरतो.
At first, ताव, पठमं.	From here, इतो.
Because., यतो, यस्मा, तस्मा.	From there, ततो
Before (in front), पुरतो.	From where, कुतो.
Before (formerly), पुरा, पुब्बे	Grattis, मुधा.
Before long, अचिरं.	Hastily, सहसा.
Before-hand, पगेव, पटिगच्चेव.	Hence, इतो, एत्तो.
Behind, पच्छतो.	Hence forth, इतो पभुति.
Below, अधो, हेट्ठा.	Here, इथा, अत्र, एत्थ, इह.

700 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

How, कथं ?	So, तथा
However, यथा कथञ्चि	So far, तावता
How much, कित्तकं, कीव	So long, तावता
If, सचे, यदि	So long as, याव किंव
In, अन्तो	Soon, खिष्यं, सीघं, आसु, तुवतं
Indeed, खलु	Strictly, दळ्हं
Instantly, सञ्जु	Surely, अवस्सं, एकन्तेन
Is not, ननु ?	Then, तदा
Just, एव	Thence, ततो
Just as, यथ, रिव	There, तत्थ, तत्र, तहिं
Like, विव, इव	Therefore, तस्मा, तन
Likewise, तथेव	Through, अन्तरेन
More and more, भीयो	Tightly, गाळ्हं
Mostly, येभुय्येन	Together, एकञ्झं
Namely, सेय्यथीदं	Together-with, सह येव
Never, न कदाचि	Until, याव, ताव
No, न, नो	Upon, उपरि
No where, न, क्वचि	Very much, अतिविय, अतीव
Do not, मा	Well-nigh, मनं
Often, अभिण्हं	What, किं
Once, सकिं	What if, यन् नून
Oneself, सयं, सामं	When, कदा ?
Or, उदाहु, अथवा	Whence, कुतो
Outside, बहि	Whenever, यदा
Otherwise, अञ्जथा	Where, कुहिं, कुत्र ?
Perhaps, अप्पेव	Wherever, यत्थ कत्थचि
Properly, सम्मदेव	Wherefore, यस्मा
Rather, किञ्च	Whether, कच्चि
Rightly, सम्मा	Why, कस्मा ?
Secretly, रहो	With, सह, सद्धि
Seldom, कदाचि, करहचि	Without, विना, ठापेत्वा
Shortly, अचिरं	Wrongly, मिच्छा
Silently, तुण्ह	Yes, आम, एवं
Slowly, सनिकं	

Sentences showing use of various Particles :-

Hail to the Buddha ! Fie upon the Evil Spirit ! नमो बुद्धाय, घिरत्थु मार ।

A quarrel arises among the crows about the bones; अट्टीनि निस्साय काकानं कलहो उप्पज्जति ।

Enough of honey and curds to me; I have requirement of fire wood; अलं मे मधुना दधिना च; दारूना मे अत्थो ।

There lives a hare under a cluster of palms; तत्थेको ऽ ससो तालगच्छस्स हेट्ठा वसति ।

The monkeys go daily beyond the Ganges ; वानरा पच्चहं गंगाय पारं गच्छन्ति ।

The bearers of load return with fuel; भारहारका दारूहि सद्धिं पच्चागच्छन्ति ।

What is the use of water to me ? किं मय्हं वारिना ।

The Brahmin throws ghee over the fire; ब्राह्मणो अच्चिस्स उपरि सपिं पक्खिपति ।

It is not proper for a man a tell an untruth ; असच्चं नरस्स न वड्ढति ।

It is not possible for a hare to give sesamums to a Brahmin ; ससेन ब्राह्मणाय तिलानि दातुं न सक्का ।

The Buddha tells this story about a monk : इदं वत्थुं बुद्धो एक भिक्खुमारब्भ कथेति ।

Hares do not eat anything without grass ; तिणं विना ससा न खादन्ति ।

What is the use of bow without arrows ? सरेहि विना किं धनुना ?

We bring fuel and grass from the forest below : अम्हे दारूं च तिणंच अरज्जा आहराम ।

Birds fall down on the ground with speed; सक्कुणा वेगेन भमियं निपतन्ति ।

Good man live together in mutual satisfaction; सप्पुरिया तुट्टिया अज्जमज्ज (mutual) संवसन्ति ।

The Elephantess of Udena runs in the sand, like lightening; उदेनस्स करेणु वण्णुयं विज्जु विय धावति ।

A man who possesses the four virtues of lord of the monkeys, viz. truth, justice, courage and charity, overcomes all difficulties; यस्सेते चतुरो धम्मा वानरिन्द यथा तव । सच्चं धम्मो धिति चागो दिट्ठं सो अतिवत्तति ॥

A crocodile used to live in the Ganges ; सुंसुमारो गङ्गाय विहरति ।

The physician wraps your nose with cloth ; वेज्जो तव नासिकं वत्थेन पलिबेठेतिं

A serpent takes out its head from the hallow ; नागो सीसं सुसिरस्मा नीहरति.

You remember the strength of the monkeys ; तुम्हे वानरिन्दस्स सत्तिं अनुस्सरथ ।

The splendour of the Doctrine shines forth in four quarters; धम्मस्स रूचि चतूसु दिसासु पकासति ।

The cow jumps up from the ground ; धेनु भूमिया उप्पतति ।

The elephantess ascends from the deep pit; करेणु निन्नाय कासुया उत्तरति ।

The student should inform his teacher everything that he has done, seen or heard personally; यं यं अत्तना कतं वा दिट्ठं वा सुतु वा सब्बं तं आचरियस्स आरोचेतब्ब ।

The elder monk Mahatissa, went to the court yard of the temple in the evening, saw the moon-light, turned his face towards the temple, became full of joy, jumped up in the air and stood firmly at the great temple : महातिस्सत्थेरो सायं चेतिय चेतियट्ठणं गत्वा चंदालोकं दिस्वा चेतियाभिमुखो हुत्वा पीतिं (joy) उप्पादेत्वा आकासे उप्पतित्वा महाचेतिये पतिट्ठासि ।

I am not allowed to go to the monastery at my liking or to hear the Doctrine or to offer gifts; अहं अत्तनो रुचिया विहारं वा गन्तुं धम्मं वा सोतुं दानं वा दातुं न लभामि ।

Do not allow this child to go anywhere ; दारकस्स कत्थचि गत्तुं मा देश ।

The pupil must get up early, must put off his shoes, must give the tooth-pick to the preceptor, and must arrange his seat; अन्तेवासिना कालस्ससेव उट्ठाय, उपाहना ओमुञ्चित्वा, आचरियस्स दन्तकट्ठं दातब्बं, आसनञ्च पञ्जापेतब्ब ।

If the place becomes dirty, it should be swept; सचे सो देसो उक्लापो होति सम्मज्जितब्बो ।

The Son of the banker covered the street, constructed a pandal, and began drinking wine surrounded by a large company ; सेट्टिनो पुत्तो वीथिं आवरित्वा, मण्डपं कारापेत्वा महाजनेन परिवृतो सुरं पातुं आरब्धो ।

The messenger saw that the sage had gone to the Pandva mountain after taking his alms round and after going out the city; and he informed this to the king ; स मुनि पिण्डाय चरित्वा नगरा निक्खम्म, पण्डव उपगता ऽ ति दिस्वान दूतो आगन्वा. राजिनो पटिवेदयि ।

If a man does not get friends that are better than him and that are worthy of friendship, then he should live alone, like a king who lives alone after abandoning the kingdom which is conquered (by others); सेट्टे समे सेवितब्बे सहाय अलब्धा, राजा ऽ व विजितं रट्टं पहाय एको चरे ।

One should not take resort to sinful friends, should not utter false words, should not drink wine, and should not cause destruction of life ; पापका मित्ता न भजितब्बा, मिच्छा वाचा न वचनीया, मज्जं न पेय्यं, पाणातिपातो च न कातब्बो ।

I shall not be allowed to renunciate by my parents ; मातापितरो मद्दं पब्बजितुं न दस्सन्ति ।

Whatever is thought by the mind should be spoken out by the tongue ; यं किञ्ची मनसा चिन्तितं सिया, तं वाचाय वत्तब्ब ।

If the western dusty wind blow, the western windows should be closed ; सचे पच्छिमा सरजा वाता वायेय्युं, पच्छिमा वातपाना थाकेतब्ब.

If the store house is dirty it should be swept ; सचे कोट्टको उक्लापो होति, सम्मज्जितब्बो ।

Charities should be given commandments should be observed, and fast should be kept; दानानि देय्यानि (दातब्बानि), सीलानि रक्खितब्बानि, उपोसथो च करणीय ।

The crane, catching the fish, carrying it to the great lake, tearing it down and taking its life, ate it; वको मच्छं गण्हित्वा, तं महातळाकं नेत्वा (हरित्वा), तं फालेत्वा, जीवितक्खयं पापेत्वा अखादि ।

Some boys went to a garden to steal fruit, but the gardener came and beat them; केचि बाला फलानि चोरेतुं उय्यानं गता, उय्यानपालो पन आगम्म ते पहरि ।

704 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

The boys said "O Sir, do not beat us, not a single fruit has been stolen by us." वाला अबोचुं, "अय्य मा नो पहरि, एकमपि फलं अम्हेहि न खादितं" ति.

It is not proper to insult a good man and not possible to insult a wicked man ; सुजनं अपमञ्जितुं न वद्वति, दुद्वं अपमञ्जितुं च न सक्वा.

They having approached the king prayed him to release the deer; ते राजानं उपेच (उपसंकमित्वा, उपसंकम्म, or उपेत्वा), मिगं मोचयितुं तं पत्थेसु.

So long as the peacock had not been seen by the residents, the crow was fed by them ; रद्ववांसीहि अदिद्वे मोरे, काको तेहि पुद्वो (पोसितो).

The grass is eaten and the water is drunk by the cow ; धेनुना तनं खादित च उदकं च पिवितं च ।

The cows have been milked and sent to the pasture ; धेनुयो दुद्व्वा, गोचरं च पहिता.

The sick monks should attend upon one another ; गिलानेहि भिक्खूहि अञ्जमञ्जं उपद्व्वातब्बं.

Our money has been wrested, our country conquered and parents have been killed by you ; त्वया अम्हाकं चमू च अच्छिन्ना, रद्वं च जितं, मातापितरो च मे मारिता.

Section 4**1. Cardinals - Number - संख्या**

1 = एकं.	34 = चतुत्तिसती.
2 = द्वे.	35 = पञ्चत्तिसती.
3 = तयो, ति.	36 = छत्तिसती.
4 = चतु (चत्तारो).	37 = सत्तत्तिसती.
5 = पञ्च.	38 = अट्टत्तिसती.
6 = छ.	39 = एकूनचत्ताचाळीसती.
7 = सत्त.	40 = चत्ताळीसति.
8 = अट्ट.	41 = एकचत्ताळीसति.
9 = नव.	42 = द्विचत्ताळीसति.
10 = दस.	43 = तेचत्ताळीसति.
11 = एकादस.	44 = चतुचत्ताळीसति.
12 = द्वादस, बारस.	45 = पञ्चचत्ताळीसति.
13 = तेळस, तेरस.	46 = छत्ताळीसति.
14 = चुद्दस, चतुद्दस.	47 = सत्तचत्ताळीसति.
15 = पण्णारस, पञ्चदस.	48 = अट्टचत्ताळीसति.
16 = सोळस.	49 = एकूनपण्णासा.
17 = सत्तरस, सत्तदस.	50 = पण्णासा, पञ्चासति.
18 = अट्टारस, अट्टादस.	51 = एकपण्णासा.
19 = एकूनवीसती. (f)	52 = द्वेपण्णासा.
20 = वीसती.	53 = तेपण्णासा.
21 = एकवीसती.	54 = चतुपण्णासा.
22 = द्वावीसती, बावीसती.	55 = पञ्चपण्णासा.
23 = तेवीसती.	56 = छपण्णासा.
24 = चतुवीसती.	57 = सत्तापण्णासा.
25 = पञ्चवीसती.	58 = अट्टपण्णासा.
26 = छब्बीसती.	59 = एकूनसट्ठि.
27 = सत्तावीसती.	60 = सट्ठि.
28 = अट्टावीसती.	61 = एकसट्ठि.
29 = एकूनत्तिसती.	62 = द्वासट्ठि, द्विसट्ठि.
30 = त्तिसती.	63 = तेसट्ठि, तिसट्ठि.
31 = एकात्तिसती. (f)	69 = एकूनसत्तति.
32 = द्वात्तिसती.	70 = सत्तति.
33 = तेत्तिसती.	71 = एकसत्तात.

706 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

72 =	द्वासत्तति, द्विसत्तति.	900 =	नवसतं.
73 =	तेसत्तति, तिसत्तति.	1,000 =	सहस्सं.
79 =	एकूनासीति.	2,000 =	द्विसहस्सं.
80 =	असोति.	10,000 =	दससहस्सं.
81 =	एकासीति.	100,000 =	सतसहस्सं, लक्खं.
82 =	द्वेअसीति, द्वियासीति.	10,00,000 =	दसलक्खं.
84 =	चतुरासीति.	100,00,000 =	सतलक्खं, कोटि (f).
89 =	एकूननुवति.	10,00,00,000 =	दसकोटि (f).
90 =	नवुति.	100,00,00,000 =	सतकोटि.
92 =	द्वानवुति, द्विनवुति.	101 =	एकधिकसतं.
93 =	तेनवुति, तिनवुति.	108 =	अट्टुत्तरसतं.
96 =	छन्नवुति.	110 =	दसत्तरसतं.
99 =	एकूनसतं.	150 =	दियड्डुसतं.
100 =	सतं.	250 =	अड्डुतेय्यसतं, तियड्डुसतं.
200 =	द्विसतं.	1,500 =	पञ्चसताधिकसहस्सं, दियड्डुसहस्सं.
300 =	तिसतं.	1/4 =	पादो.
400 =	चतुसतं.	3/4 =	अड्डुड्डो.
500 =	पञ्चसतं.	1½ =	अड्डु.
600 =	छसतं.		

2. Ordinals, - कमसंख्या

First, पठम (adj)	Sixteenth, सोळसम (adj)
Second, दुतिय (adj)	Seventeenth, सत्तरसम (adj)
Third, ततिय (adj)	Eighteenth, अट्टारसम (adj)
Fourth, चतुत्थ (adj)	Nineteenth, एकूनवीसतिम (adj)
Fifth, पञ्चम (adj)	Twentieth, वीसतिम (adj)
Sixth, छट्ठ (adj)	Thirtieth, तिसतिम (adj)
Seventh, सत्तम (adj)	Fortieth, चत्ताळीसतिम (adj)
Eighth, अट्टम (adj)	Fiftieth, पञ्चासतिम (adj)
Ninth, नवम (adj)	Sixtieth, सट्टितम (adj)
Tenth, दसम (adj)	Seventieth, सत्ततिम (adj)
Eleventh, एकादसम (adj)	Eightieth, असीतिम (adj)
Twelfth, द्वादसम (adj)	Ninetieth, नवतिम (adj)
Thirteenth, तेरसम (adj)	Hundredth, सतम (adj)
Fourteenth, चुद्दसम (adj)	Hundredth, सतम (adj)
Fifteenth, पञ्चदसम (adj)	

The numerals, almost all of them take all the genders, with the following difference :-

- (i) एक, ति, चतु take all genders but are declined differently in each gender
- (ii) द्वि, पञ्च, छ, सत्त, अष्ट, नव, दस are declined alike in all genders but only in the plural.
- (iii) एकनवीसति to नवनवुति are declined in the singular number and feminine gender only, whatever be the gender of the substantive qualified. The cardinals are treated as ordinary adjectives.
- (iv) सत्त and सहस्स may either be used in the neutre gender, or plural in the singular number agreeing only in case with the qualified substantives or as ordinary adjectives agreeing in all respects. For multiples of सत्त and सहस्स, Prefix the word indicating the multiplicator and treat the compound as an adjective e.g. अट्टसत्ता माणवका।
- (v) Multiplicative adverbs are formed by adding क्खत्तुं to the numerals in the sense of so many times e.g. द्विक्खत्तुं = twice : The word for 'once' is सकदा or सकिं.
- (vi) Suffix घा may be used after numerals in the sense of ways, times, fold etc. एकधा - once, द्विधा - of two kinds : तिधा - in three ways.
- (vii) सो is a distributive adverbial suffix e.g. एकसो = one by one; सत्तसो = by hundreds ; बहुसो in numbers.
- (viii) मत्त is added to numerals in the sense of 'only' turning them into adjectives e.g. चतुमत्ता खत्तिया - only four warriors.
- (ix) any number plus one-half is expressed by prefixing अद्ध to the consecutive higher number.
- (x) To give the distributive sense a numeral is repeated e.g. एकेक = each one.

Section 5

Syntax

(1) Position of words in a sentence : A sentence may contain any number of words, but a verb must necessarily be there i.e. a sentence must have two portions viz.

- (i) the subject कत्ता
- (ii) the predicate क्रिया

पुरिसो सयति is a complete sentence, पुरिसो being the subject and सयति the predicate. सयति being an intransitive verb does not take object, but transitive verbs must necessarily have an object (कर्म); therefore a sentence formed with transitive verb consists of three portions, e.g. :

पुरिसो (कत्ता), रूक्खं (कर्म), छिन्दति (क्रिया)

(2) In the above sentence, the subject comes first, object second and the predicate last (In an English sentence the object must come after the predicate). But there are no definite rules about the order of the words in a Pali sentence.

(3) Addressing words are very often placed first, in a sentence e.g.

- (i) भन्ते, इमस्मिं सासने कति धुरानि ?
- (ii) So also with आवुसो
- (iii) So also with भोति

(4) Interrogation is expressed by using interrogative adverbs.

(a) Pronouns or particles at the beginning of a sentence :- When there is an interrogative word in a sentence, the addressing word, if there be any, takes the second or last place.

- (i) किं कथेसि, भातिका ?
- (ii) अप आवुसो, अम्हाकं सत्तारं जानासि ?
- (iii) किं पन, भन्ते, इदानि पि दिन्ने लभिस्सन्ती ?
- (iv) कुहिं यासि, उपासक ?
- (v) कहं गतों सि, आवुसो ?
- (vi) को तत्थ वसति ?
- (vii) कस्मा, सो सप्पो एतं न डसि

(b) Interrogation is also expressed by placing the verb first, in a sentence, followed very often by the particle नु. :- पस्सथ नु तुम्हे, भिक्खवे, अमुं महन्तं अग्गिक्खन्धं ?

(5) Words of assent are also placed at the beginning of a sentence. Addressing words in such sentences are placed next to the assenting words, e.g. :- आम, सम्म, इदानीहं विहारं गन्त्वा शेरं दिस्वा आगतोमिह

(6) Extension of predicate, be it a single word, a phrase, or a clause is placed before the verb.

(7) The conditional particles सचे, यदि and the interjections are placed at the beginning of a sentence.

(8) Copulative च and disjunctive वा and the conditional चे are never placed at the beginning of a sentence.

(9) The following indeclinables are used correlatively :-

- (i) यथा; तथा (as : so)
- (ii) याव; ताव (as longas : until)
- (iii) यदा; तदा (when : then)
- (iv) यत्थ; तत्थ (where : there)

(10) Words qualifying the subject or object, generally come before the subject or object respectively.

Adverbs come before the verbs, but the adverbs of time always come first in a sentence.

(11) An adjective must agree with the noun it qualifies in gender, number and case.

(12) A relative pronoun must agree with its antecedent in gender, number and person.

(13) *Concord.*

- (i) The Predicate must agree with the subject in number and person.
- (ii) When there are several subjects of different persons and one verb in a sentence, the verb is put in the first person plural; and should there be no subject of the first person, the verb is put in the first person plural.
- (iii) One subject may have more than one finite verb.
- (iv) When there are more than one subject connected with, च in a sentence, the verb must be in plural.
- (v) When an action of many is the same, but if some of them are introduced by one of the particles सह, सद्भिन् or समं or with the instrumental case, the verb follows the subject which is in the nominative.
- (vi) When the subject is a collective noun the verb takes the singular form.

Section 6

General conversation - about animals, birds and insects.

1. Dogs watch over their masters' houses at night. सुनखा रत्तियं अत्तनो सामिकानं गेहानि रक्खन्त ।
2. People catch elephants and bring them from forests, tame them and get their work done by them. मनुस्सा अरञ्जतो हत्थी बन्धिवा, आनेत्वा, दमत्वा अत्तानं किच्चानि कारापेन्ति ।
3. Horses, harnessed to the carriages, run with them through the streets. रथेषु योजिता अस्सा ते आकड्डन्ता विथियासु धावन्ति ।
4. The donkey is able to bear a heavy burden. गद्दभो बहुं भारं वहितुं सक्कोत्ति ।
5. Camels, loaded with many goods, are able to go through the desert where there is no water. उट्टा बहूनि भण्डानि आदाय निरूदककन्तारे गन्तुं समत्था होन्ति ।
6. Having climbed the tree, the monkey destroyed the nests of the bird. वानरो रूक्खं ओरूहित्वा पक्खीनं कुलावके विनासेसि.
7. The cat chased the squirrel to the foot of the tree. विळालो कलन्दकं गणित्तुं रुक्खमूलं धावि ।
8. Hunters hunt deer and bring their flesh to be sold in the town. ब्याधा म्मिगे विञ्जित्वा मंसं विक्किणित्तुं नगरं आहरन्ति ।
9. While eating grass the hare saw a man and ran away frightened. तिणं खादन्तो ससो एकं मनुस्सं दिस्वा भीतो पलायि ।
10. The cow likes to allow her calf to suck, and does not wish to be milked by others. गावी सकं वच्चं पायेतुं इच्छति, न पन ऽ अञ्जेहि खीरस्स दुहनं ।
11. People take the honey by force which is made with much difficulty by the bees, with the pollen gathered from flowers. मधिकरेहि पुप्फरेणवो आहरित्वा किच्छेन क्तं मधुं मनुस्सा बलक्कारेण गणहन्ति ।

12. The parrot pierced the mango with its beak and sucked its juice.
सुवो मुखतुण्डेन अम्बफलं विञ्जित्वा तस्सा रसं पिवि ।
13. White ants bring a small quantity of earth at a time and gradually build a big ant-hill. उपचिका थोक-थोकं मत्तिकं आनेत्वा अनुक्कमेन महन्तं वम्मिकं करोन्ति ।
14. Mosquitoes worry people by biting them and sucking their blood. मकसा मनुस्से डसित्वा लोहितं पिवन्ता ते पीळेन्ति ।
15. In order to catch insects the spider spreads the web made by itself. उण्णनाभि खुद्दजन्तवो गहेतुं अत्तना कतं जालं पत्थरति ।
16. Ants prepare their homes by digging the earth. पिपीलिका भूमिं खणित्वा तासं वसनट्टानं पतियादेन्ति ।
17. Attracted by the glare grasshoppers fly into the fire and die there. सलभा अग्निं दिस्वा तस्स वण्णेण मोहिता तत्थ पतित्वा मरन्ति ।
18. The pigeons sat on the roof of the house and cooed. पारावता गेहस्स छदने निसीदित्वा रविसु ।
19. Many crows flew up and perched on the branches. बहु काका आकासं पक्खन्दित्वा रुक्खसाखासु निलीयिसु (निसीदिसु) ।
20. Hawks kill small birds and eat them. सेना खुद्दक-पक्खिनो मारेत्वा खादन्ति ।
21. There are ten swans and twenty cranes in that lake. तस्मिं तळाके दस हंसा विसति बका च सन्ति ।
22. Buffaloes like to wallow in dirty water. महिसा सपङ्के जले निमुज्जितुं इच्छन्ति ।
23. Snakes devour rats, but they (the snakes) are killed by the mungooses. सप्पा उन्दरे गिलन्ति तथा पि ते नक्कुलेहि मारीयन्ति ।
24. The venom of the scorpion is in its tail, but serpents have their venom at the root of their fangs. विच्छिकानं विसं नद्धुट्टे होति, सप्पानंम पन विसं दाठामूले ।

25. Musk is obtained in certain kind of deer which live in the Himalayan region. कथूरिका हिमवन्ते वसन्तिया एकाय मिगजातिया लब्धति ।

About Trees, Fruits, Flowers, etc.

1. There are many hundred thousands of coconut trees in Ceylon. लङ्कायं अनेक सतसहस्रसङ्घा नाळिकेरूक्खा संविञ्जन्ति ।
2. Some people plait coconut leaves and thatch their houses with them. एकच्चे तेसं पत्तानि वायेत्वा तेहि गेहानि छादेन्ति ।
3. They draw the sap from the flowers and make intoxicants out of it. तेसं पुप्फेहि रसं गहेत्वा मज्जानि सम्पादेन्ति ।
4. They condense the sap by heating it with fire and make treacle and jaggery with it. पुप्फरसं अग्निना तापेत्वा घनं कत्वा फाणितं गुळज च सम्पादेन्ति ।
5. They obtain milk and oil from the kernel of the nuts. फलेहि खीरं तेलज च लभन्ति ।
6. The water in the young coconut is sweet and cool. तरुणनाळिकेरानं जलं मधुरजचे ऽ एव सीतलज च ।
7. The boys brought down unripe mangoes by throwing sticks at them. दारका दण्डानि खिपित्वा (दण्डेहि पहारित्वा) आमानी अम्बानी पातेसुं ।
8. Jack-fruit, bread-fruit and bananas are found in tropical countries. पनसानि लबुजानि कदलिफलानि च उण्हाधिकरट्टेसु सम्भवन्ति ।
9. Grapes and apples grow in countries where there is a mild climate. मुद्दिका महाबदरा च समसीतुण्हेसु देसेसु जायन्ति ।
10. Nut-meg and mace are found in the same fruit. जातिफल-जातिकोसा एकस्मिं ये फले सम्भवन्ति ।
11. Of all kinds of sandalwood the red is the most valuable. चन्दनेसु रत्तचन्दनं महग्घतम ।
12. Cardamoms are a kind of small seed which have a pungent taste. एळा ति एका कटुकरसा खुद्दक बीजजाति ।

13. The jujubes of Ceylon are smaller than those of India. लङ्काय बदरानि जम्बुदीपे बदरेहि खुद्दतरानि होन्ति ।
14. The father brought grapes and oranges, and divided them amongst his sons and daughters. पिता मुद्दिकानि जम्बीरानि च आहरित्वा अत्तनो पुत्त-धीतरानं भाजेत्वा अदासि ।
15. Dates are imported to Ceylon from foreign countries. महाखज्जरीफलानि विदेसेहि लङ्कं आहरीयन्ति ।
16. The boys bought some ripe marmelos and gave them to their sisters. दारका पक्कानि बेलुवानि किणित्वा तेसं भागिनीनं अदंसु ।
17. Prince Siddharth was born under a sal tree; he became Buddha at the foot of a bo-tree. सिद्धत्थकुमारो सालरूक्खमूले जातो, अस्सत्थरूक्खमूले बुद्धो भवि ।
18. Bring cucumbers and snake-gourds from the market and prepare curries. आपणतो कक्कारीफलानि पटोलानि च आहरित्वा व्यञ्जनानि सम्पादेहि ।
19. Champak flowers have an agreeable smell, but the flowers of pentapets phoenicea are without any smell. चम्पकपुष्पानि मनुञ्जगन्धानि होन्ति; जयसुमनपुष्पानि निग्गन्धानि ।
20. The timber of the iron-wood tree is very hard, its flowers are exceedingly sweet scented. नागरूक्खस्स दारू अतिथद्धं, पुष्पानि अतिसयेन सुगन्धानि ।
21. The varana tree looks like a dead tree when its leaves have fallen. वरणरूक्खो पत्तानं गलितकाले सुक्खरूक्खो विय पञ्जायति ।
22. Betel and arecanuts, constantly used for chewing by the Indians, are unknown in European countries. जम्बुदीपिकेहि मुखवासत्थाय निच्चसेवितानि तम्बूलानि पुगानी च युरोपीयरट्टेसु अञ्जतानि ।

About a dwelling house

1. Open the door and the windows of room. मम गब्धे द्वारे वातयनानि विवराहि ।
2. She asked him to prepare mutton for breakfast. पातरासत्थाय एळकमंसं पचाही 'ति' सा तं वादि.
3. The servants covered the table with a cloth and set plates and spoons on it. सेबको भोजनफलकं अत्थरित्वा तत्थ कसे चे कटच्छु च थापेसि ।
4. Do you like yam. त्वं कन्दे भुञ्जितुं इच्छामि ?
5. No, like curd. न, अहं दधि भुञ्जितुं इच्छामि.
6. The children shouted 'we like to drink milk'. 'मयं खीरं पिबितुं इच्छामा' इति दारका उन्नदिंसु.
7. One person said the taste of mutton-curry was not palatable. मंसव्यञ्जनस्स रसो न सुन्दरो ति एको वदि ।
8. Bring me some salt and fresh butter quickly. थोकं लवणं नोनीतं च सीघं आहराहि ।
9. Standing on the threshold of the kitchen, the mistress of the house called the cook. घरणी रसवतिया उम्मारे उत्वा सूदं आमन्तेसि ।
10. Every morning the servant women sweep the comopunds and remove the dirt. दासियो सब्बदा पातो गेहङ्गानानि सम्मज्जित्वा कचवरं अपनेन्ति ।
11. The girl put rice into a pot, placed it upon the fire and kindled the fire. दारिका पातियं तण्डुले पक्खित्वा उद्धनं आरोपेत्वा अग्गिं जालेसि ।
12. The maiden will scrape the coconut with a scraper and extract the juice by squeezing it. तरुणी सण्हकरणीया नालिकेरमिज्जं सण्हं कत्वा महित्वा रसं गण्हिस्सति ।
13. The master told the attendant to spread a bed-sheet on the bed and put some pillows on it. मञ्चे अत्थरणं अत्थरित्वा बिम्बोहनानि थापेही ति सामिको उपट्टाकं आह ।
14. Having done so, he spread a mat before the bed and put a carpet upon the mat. सो तथा कत्वा मञ्चस्स पुरतो किलज्जं पत्थरित्वा तस्स ऽ ऊपरि एकं कोजवं पि अत्थरि.
15. The house holder said that the furniture in the house should be taken out and cleaned. गेहे दारुभण्डानि बहि नीहरित्वा सोधेतब्बानी ति गहपति अवदि ।
16. He bought bricks, tiles and timber in order to build a new house. सो नवं गेहं कारेतुं गिज्जका च चदनिट्टका च दारुसारानि च किणी ।

17. Masons raised the walls, and carpenters did the wood work, so that the building was soon completed. इट्टवड्ढकिनो भित्तीयि चिनन्ता दारुवड्ढकिनो दारूकम्मं करोन्ता सीघं एव ऐहं निट्ठापेसुं।
18. The daughter locked the door, and taking the key with her, went to the well for a bath. धिता द्वारं पिदहित्वा कुञ्चिकं आदाय नहानत्थाय कूपं अगमासि।

About a City

1. Cities generally have ramparts, moats, gates and watch-towers. नगरानि पन बहुसो पाकार-परिखा-गोपुर ट्टालेहि युत्तानि होन्ति।
2. In them are many streets and lanes, gardens and houses of many description. तेसु बहू खुद्दक महन्ता वीथियो, उय्यानानि नानाविघघरानि च सन्ति।
3. The streets of a city are crowded with horses, carriages, carts and pedestrians. नगरवीथियो अस्सेहि रथेहि सकटेहि पथिकेहि च आकिण्णा होन्ति।
4. When the horse races are held rich and poor assemble in large numbers at the race course. अस्सधावने वत्तमाने बहवो धनवन्ता निद्धना च अस्समण्डले समोसरन्ति।
5. In the evenings drunkards get together at taverns and drink intoxicants. सुरासोण्डा सायणहेसु पानमन्दिरेसु सन्निपतित्वा मज्जं पिवन्ति।
6. The municipal authorities get water from distant places to fill the reservoirs and distribute water among citizens through pipes. नगरपालिका दूरट्टानतो उदकं अनेत्वा जलासये पूरेत्वा नाळमग्गेहि नागरिकानं उदकं भाजेन्ति।
7. In cities there are prisons surrounded with massive walls. नगरेसु महन्तेहि पाकारेहि परिक्खित्ता बन्धनागारा सन्ति।
8. To-night they will drive in a carriage to the theatre and watch the performance. ते अज्ज रत्तिया अस्सरथेन नच्चसालं गन्त्वा नच्च ओलोकेस्सन्ति।
9. Those who come from foreign countries visit the museum. परदेसेहि आगच्छन्ता एकन्तेन कुतूहलसालं पस्सितुं गच्छन्ति।
10. Travelling by tram-car the compositor arrived at the printing press. वण्णयोजको विज्जुरथेन गन्त्वा मुद्दणकनालयं सम्मापुणि।

716 DR. BABASAHEB AMBEDKAR : WRITINGS AND SPEECHES

11. In the evening the sons and daughters of the rich, accompanied by their friends, walk in the parks. धवनन्तानं पुत्र धीतरो सायणहेसु अत्तनो अत्तनो सहायेहि सद्धिं उय्यानेसु अहिण्डन्ति।
12. More than twenty thousand people come by train to anuradhapur on *Poson* full-moon days. जेट्टुपुण्णमियं वीसतिसहस्साधिका मनुस्सा धूमरथेहि अनुराधपुरं आगच्छन्ति।
13. The kings palace and the palatila buildings of the ministerse are situated in the heart of the city. रज्जो च ऽ एव राजामच्चानञ् च पासादा नगरस्स मज्झभागे पतिट्ठिता।
14. Sentinels shut the city gates at night and take their stand on the watch tower. रत्तियं नगरद्वारानि थकेत्वा आरक्खका अट्टालेसु तिट्ठन्ति।
15. When people die in the city their relations carry the corpses to a cemetery and either cremate or bury them. अन्तोनगरे मनुस्सेसु मतेसु तेसं जातका मतसरिरानि सुसानं नेत्वा ज्ञापेन्ति पि, (भूमियं) निखणन्ति पि।
16. Scavengers and potters live in the suburbs outside the city. नगरसोध का कुम्भकारादयो च नगरतो बहि उपनगरेसु वसन्ति।
17. During the night the streets of the cities are illuminated with electric lights or some other kind of lights. रत्तियं नगरवीथियो विज्जुप्पदीपादीहि आलोकिता, होन्ति।
18. Our mayor will go round the city at about four o'clock this evening. अम्हाकं नगरगुत्तिको अज्ज चतुघटिकायं नगरं पदक्खिणं करिस्सति।
19. On Monday the king accompanied by a large retinue and harem will visit the pleasure garden outside the city. राजा महता परिवारेन ओरोधेन च सह चन्दवारे नगरतो उय्यानं गमिस्सति।
20. It is rumoured that a prisoner had murdered the jailor by striking him with a cudgel. एको वज्झप्पत्तो कारापालकं मुग्गेरेन पहरित्वा मारेसी ति सूयते।

Government affairs

1. The kings orders should not be violated. राजुनं आणा न अतिक्रमितब्बा।
2. Those who break the law receive various punishments. ये राजानं अतिक्रमन्ति ते नानाकारेहि दण्डनं लभन्ति।
3. In olden days, soldiers, wearing defensive armour and carrying shields and other weapons, fought with swords, javelins, bows and so forth. पुब्बे पन योधा सन्नाहसन्नद्धा फलकावुधहत्था असि-सत्ति-धनुआदीहि युज्झिंसु।

4. Now they mostly fight with fire-arms. इदानि ते बहुसो अग्गिप्पहरणेहि युञ्जन्ति।
5. The armies of the kings of old consisted of four divisions, namely, war elephants, cavalry, war-chariots, and infantry. पौराणराजूनं युद्धसेना हत्थि-अस्स-रथपत्तिवसेन चतुरङ्गिनी अहोसि।
6. At present, artillery has taken the place of war elephants. इमस्मिं काले हत्थिसेनाये ठाने नाळियन्तसेना तिट्ठति।
7. Having built fortresses at many places in Ceylon, King Dutthagamini fought against the Tamils. दुट्ठगामिनी महाराजा लङ्कयं नानाठानेसु खन्धावारे बन्धित्वा दमिळेहि युञ्जि।
8. A rebel named Tiya, having collected an army with the wealth plundered from the shrines, made havoc in Ceylon. तीयो नाम दामरिको चेतियानि भिन्दित्वा धनं गहेत्वा सेनं संहरित्वा लङ्कायं महन्तं विलोपं अकासि।
9. Two thousand two hundred years ago an emperor called Dharmasoka ruled India. इतो द्विसताधिकानं द्विन्नं वस्ससहस्सानं उपरि धम्मसोको नाम राजाधिराज जम्बुदीपं पालेसि।
10. The ministers sit in the council-chamber to discuss the affairs of Government. अमच्चा मन्तिसभाय सन्निपतित्वा रज्जकिच्चानि मन्तयन्ति।
11. The general led his army to the battle-field. चमुपति अत्तनो सेनाय युद्धाभूमिं अगमासि।
12. The allied army retreated to their own quarters when the hostile army advanced. यदा सत्तुसेना अब्भुय्यासि तदा मित्तसेना सकं खन्धावारं पच्चुय्यासि।
13. King Prasenjit defeated the army of Ajatasatru the king of Magadha, and captured him alive. राजा पसेनदि मगधरज्जो अजातसत्तुनो सेनं पराजेत्वा तं जीवगाहं गण्णि।
14. A battle-ship carrying a large number of mariners from China reached Colombo harbour while sailing west wards. एका युद्धनावा चीपरट्टो बहु नाविकयोधे गहेत्वा पच्छिमदिसं गच्छन्ति कोळम्बतित्थं पापुणि।
15. The envoys who started from Japan on the second day after the new moon of the month of *Citra*, reached Siam on the 14th of the same fortnight. जपान-दसेतो चित्तमासस्स सुक्कपक्खे दुतियायं निक्खन्ता राजदूता तस्मिं येव पक्खे चतुद्दसियं स्यामरट्टं सम्पापुणींसु।
16. Once an insane woman attempted to murder the premier of Italy.

एकदा एका उम्मत्तिका इटालिरट्टे महामच्चं उस्सहि।

17. The constables chased after a culprit for about a league in order to catch him. राजभटा एकं सहसिकं गहेतुं कोसपत्तं अनुबन्धिसु।
18. Village headmen often take bribes; they oppress the weak and help the rowdies. गामभोजका बहुसो लच्छं गणहन्ता दुब्बले पीळेन्ति, चण्डानं अनुबलं देन्ति।
19. The judge reprehended the mudaliyar who brought a false charge against a villager. विनिच्छयामच्चो एकस्मिं गामिके कूटट्टकारकं जनपदभोजकं तज्जेसि।
20. When a governor visits a certain place, the inhabitants there put up pandals etc., to receive him. मण्डलिस्सरे यं किञ्चि पदेसं गच्छन्ते तप्पदेसवासिनो तोरणादयो उस्सापेत्वा तं सम्पटिच्छन्ति।
21. Before the great war the spies of the German Emperor were in all parts of the world. महासङ्गामतो पुब्बे जर्मन-अधिरज्जो चरपुरिसा सब्बरट्टेसु वसिसु।
22. The son of the king's religious adviser married the daughter of the Secretary of State. पुरोहितस्स पुत्तो महालेखकस्स धीतरा विवाहं करि।
23. During the great war, while sailing from sea to sea a man-of-war, named Emden sank a great number of trading vessels. महाहवे वत्तमाने एम्डन-नामा एका युद्धनावा समुहेसु चरन्ति बहू वाणिजनावायो ओसीदापेसि।
24. The crown-prince took steamer at Colombo and arrived in London after twenty days voyage. युवराजा कोळम्बतित्थे नावं अभिरूहित्वा वीसतिदिनेहि समुहं तरित्वा लंडन नगरं सम्पापुणि।
25. On Wednesday the king with his ministers will go to see an array of tropps. राजा अमञ्चेहि परिवुत्तो बुधवारस्स सायण्हे सेनाव्यूहं पस्सित्तुं गमिस्सति।
26. Some Chinese air-men flying in aeroplanes destroyed many Japanese war-planes by dropping bombs on them. एकच्चे चीनभटा व्योमयानेहि गन्त्वा गुळप्पहरिणानि पतेत्वा जपानरट्टिकानं व्योमयानानि विनासेसुं।
27. Modern warriors are able to destroy many lives by spreading poisonous gases. वत्तमानिका योधा विसधूमानि विस्सज्जेत्वा बहूनि जिवितानि विनासेतुं सक्कोन्ति।
28. The victorious army takes possession of the ammunition horses etc. of the defeated army. जयग्गाहिका सेना पराजिताय सेनाय युद्धोपकरणानि अस्सोदयो च अत्तनो सन्तके करोन्ति।

About Buddhist Monasteries

1. In former days there were thousands of monasteries in India, such as Jetavana and Veluvana, each containing several hundreds of monks. पुरा जम्बूदीपे अनेक भिक्खुसताकिण्णा जेतवन वेळुवनादयो विहारसहस्सानि अहेसुं।
2. At present all the olden monasteries in mid-India are in ruins, and even the eight of a Buddhist monk is rare. इदानि पन मज्झिमदेसे सब्बे पोरानकविहारा नट्टा, भिक्खूनं दस्सनं पि दुल्लभं जातं।
3. There are many thousands of monasteries and a great number of monks in Burma and Siam which lie to the east of India, in Ceylon to the south of it, and in China and Japan to the north east of it. जम्बुदीपस्स पुरत्थिमतो मरम्मस्यामरट्टेसु च, दक्खिणतो लङ्कादीपे च, पुरत्थिमुत्तरतो चीन-जपान सुँसु च इदानि अनेकसहस्सा विहारा बहू भिक्खवो च सन्ति।
4. In olden days there were no Pagodas and image houses within the monasteries; even now in Siam and Burma they are mostly separated from the monasteries. पुरा सङ्घारामेसु चेटिय-पटिमाघा नाहेसुं; इदानि पि स्याम-मरम्मरट्टेसु सङ्घारामा बहुसो तेहि विसुं येव होन्ति।
5. In Ceylon each monastery possesses a pagoda, an image-house, a bo-tree and a preaching hall. सीहळीदीपे पन ऽ इदानि एकेस्मिं सङ्घारामे एकं चेतियं, पाटिमाघरं, एक्को बोधिरूक्खो, एकेका धम्मसाला च विज्जति।
6. The residence of the monks is called a vihara. भिक्खुनं वासागारो विहारो नाम।
7. Image-house is where there are images of the Buddha and the chief disciples, and paintings depicting the life of the Buddha. बुद्ध-महासावक-पटिमादयो पतिट्ठापेत्वा कतं बुद्धचरित-पटिसंयुत्त-चित्तकम्मयुत्तं पटिमाघरं ति वुच्चति।
8. A pagoda or dagoba is a conical structure, made of stone, brick, etc. enshrining some relics of the Buddha. सररीरधातुआदयो निदहित्वा भूपाकारेण सिला-इट्टकादीहि कतं चेतियं नाम।

9. The monks prepare a dye, pour it in a wooden vessel and then dye their robes, in it. भिक्खू रजनं पचित्वा रजनदोनियं आसिञ्चित्वा तथा चीवरानि पक्खिपित्वा रजन्ति ।
10. The (the monks) having donned their robes and taken their bowls, go round the villages collecting alms and come to refectories to partake of it. ते चीवरानि पारूपित्वा पत्ते गहेत्वा गामेसु पिण्डाय चरित्वा आसनसालायो आगन्त्वा भुञ्जन्ति ।
11. To-morrow is a full moon-day, therefore we shall go early to the temple to take the eight precepts. सुवे पुण्णमी, तस्मा मयं पातोऽव आरामं गन्त्वा अट्टङ्गसीलं समादिधिस्साम ।
12. When people assemble in the preaching hall, a preacher will sit on the pulpit and with a fan in his hand will deliver a sermon. मनुस्सेसु धम्मसालाय सन्निपतितेसु एका धम्माकथिको धम्मासने निसीदित्वा विज्जनिं गहेत्वा धम्मं देसेस्सति ।
13. The people having listened to the dhamma, will offer flowers, lights and incense to the Buddha. मनुस्सा धम्मं सुत्वा पुष्प-दीप-धूपादीहि बुद्धं पूजेस्सन्ति ।
14. Books written on ola leaves may last more than a thousand years provided they are well preserved. तालपण्णेसु लिखितगन्था यदि सुगोपिता भवेय्युं वस्ससहस्साधिकं पि कालं अविनट्ठा पवत्तेयुं ।
15. The Buddhist scriptures written on olas are found in many Buddhist monasteries in Ceylon. लङ्कायं बहुसु विहारेसु तालपण्णलिखिता सोगत-धम्मपोत्थका संविज्जन्ति ।
16. But now there are few persons who write on talipot-leaves as there is an abundant supply of printed books. यथा इदानि मुद्दित पोत्थकानं सुलभताय तालपण्णलिखने युत्त मन्दा ।
17. Monks and novices get up early, sweep the yards around the pagoda and the other shrines, remove the withered flowers from the altars and wash them; thus they daily perform their duties. भिक्खु-सामणेरा पातो ऽ व ऽ बुद्धहित्वा चेतियङ्गणादीनि सम्माज्जित्वा पुष्पासनेसु मिलातमाला अपनेत्वा तानि धोवित्वा पतिदिनं वत्तं करोन्ति ।
18. After that having worshipped the Buddha, they partake of some food; then some novices learn text by heart, some learn the religious texts and grammar from their teachers. ततो पच्छा बुद्धवन्दनं

कत्वा यं किञ्चि आहार भञ्जित्वा एकच्चे सामणेरा गन्थे वाचुगते करोन्ति,
एकच्चे आचरियानं सन्तिका धम्म-सत्थुग्गहणं करोन्ति ।

19. Before sunset they again do such of minor duties as the sweeping of yards; then they attend on and do obeisance to their elders; and during the first part of the night they recite what they have learnt.
सायण्हे पि सम्मज्जनादीनि निट्ठापेत्वा थेरूपट्टानं कत्वा रत्तिया पठमयामे वाचुग्गतगन्थे सञ्जायन्ति ।

Section 7

General Information

Days and months, दिवसा मासा च	January, फुस्सो
Sunday, रविवारो	February, माघो
Monday, चन्दवारो	March, फग्गुणो
Tuesday, कुचवारो	April, चित्तमासो
Wednesday, बुधवारो	May, वेसाक़ो
Thursday, गुरुवारो	June, जेट्टमासो
Friday, सुक्कवारो	July, आसाळ्हो
Saturday, सनिवारो	August, सावणो
	September, पोट्टपादो
	October, अस्सयुजो
	November, कत्तिको
	December, मागसिरो

Measures and Weights, मानतुलनानि.

7 Grains	=	One Inch, अङ्गुलं
9 Inches	=	One Span, विदत्थि, (f)
2 Spans	=	One Cubit, रत्तनं, हत्थो
4 Cubits	=	One fathom, व्यामो, धनु (nt)
500 Fathoms	=	One League, कोसो, गावुतं
4 Leagues	=	One Yojana, योजनं

Measuring of Corn

4 Pasatas	=	1 पत्थ (m)
4 Patthas	=	1 नाळि (f)
4 Nalis	=	1 दोण (m)
4 Donas	=	1 मानिका
4 Manikas	=	1 खरी (f)
10 Kharis	=	1 कुम्भ (m)
2 Kumbhas	=	1 वाह (m)

BLANK

BOOK IV

BOUDDHA POOJA PATHA

BLANK

बौध्द पूजा पाठ

डॉ. भी. रा. आंबेडकर

भारतीय बौध्दजन समिति पुस्तकमाला
पुष्प १ लें

प्रथम प्रकाशन : वि. रा. रणपिसे, ८९/३, शिवाजी नगर, पुणे
भारतीय बौध्द जन समिति, ९१५६ किं. ८ आणे (५० पैसे)

BLANK

प्रस्तावना

बौद्धधर्माच्या प्रसाराबद्दल लोकांमध्ये ज्या दिवसापासून आतुरता उत्पन्न झाली आहे त्या दिवसापासून बौद्धधर्म म्हणजे काय, व त्याचें वाङ्मय काय आहे, व कोठें कार्यमिळते, यासंबंधानें भारतीय जनतेमध्ये अतिशय मोठे कुतुहल दिसून येते.

कांहीं वर्ग कुतुहलाच्या मर्यादेपलिकडे गेलेले दिसतात. त्यांना बौद्ध धर्माच्या वाङ्मयापेक्षा बौद्धधर्मांत पूजापाठ कशाप्रकारें होते, हें जाणून घेण्याचे एक वेडच लागलें आहे. आम्हांला बौद्धधर्माचा पूजापाठ कसा असतो यासंबंधी कांहींतरी वाङ्मय द्या, असा सारखा तगादा लागून राहिला आहे. माझ्या शारीरिक अस्वस्थतेमुळें त्यांची जिज्ञासा पुरी करणे आतापर्यंत मला शक्य झालें नाहीं. तशांत बौद्धधर्मातील तत्त्वज्ञानापेक्षां बौद्धधर्मातील पूजापाठ याचा या देशांत अगदीच लोप झाला आहे. त्या कारणांमुळें या प्रश्नासंबंधी बौद्धधर्मातील पूजापद्धति व त्यासंबंधी गाथा कोठेंच उपलब्ध नाहीं. त्या फक्त ज्या देशामध्ये बौद्धधर्म आज प्रचलित आहे, तेथेंच मिळू शकतात.

१९५० सालीं मी सिलोनला गेलो असतांना त्या काळांत याच विषयावर भर देऊन या गाथा मी संग्रहित केल्या व माझें मित्र श्री. गुणतिलके यांना गावयास लावून त्याचे रेकार्ड बनवले. येथें आल्यानंतर कांहीं बौद्ध भिक्षूंच्या महाय्यानें या गाथामध्ये भर टाकली. आज बहुतेक सर्व गाथा या पुस्तकांत एकत्रित झाल्या आहेत, असें म्हणावयास हरकत नाहीं. येथील महाराष्ट्रीय लोकांना या गाथा समजण्यास सुलभ जाव्या म्हणून पाली गाथेचे मराठी भाषांतर एका वाजूस दिलें आहे.

हें पुस्तक “ भारतीय बौद्ध जन समिती ” हिच्या तर्फे प्रसिध्द केले जात आहे. या पुस्तकावरील माझें सर्व हक्क त्या समितीस दिले आहेत. जो कोणी या हक्कांचे कोणत्याहि तन्हेने उल्लंघन करील त्याच्यावर कायदेशीर इलाज केला जाईल, असा इषारा देण्याची आवश्यकता वाटते. कारण या देशामध्ये असें लुच्चे लोक आहेत कीं, ते कानामात्रा बदलून दुसऱ्यांचें पुस्तक आपलेंच आहे म्हणून प्रसिध्द करतात. यानंतर “ बौद्ध संस्कार पाठ ” या नांवाचें दुसरें पुस्तक याच मालेतर्फे प्रसिध्द केले जाईल.

डॉ. भी. रा. आंबेडकर

२६, अलिपूर रोड,
सिव्हिल लाईन्स, दिल्ली.
दि. २४-२-५६

BLANK

-: अनुक्रमणिका :-

पाठ				पृष्ठ
१. सरणत्तयं	७३२
२. पञ्चसीलानि	७३३
३. बुध्द वन्दना	७३४
४. धम्म वन्दना	७३५
५. संघ वन्दना	७३६
६. पूजा	७३७
७. सब्बसुखगाथा	७३८
८. हम्मपालनगाथा	७३९
९. रतन सुत्त	७४०
१०. जप	७४३

BLANK

मराठी भाषांतर –

त्या भगवान बुध्दाला माझे नमन असो,
जो अर्हत (जीवन मुक्त) सम्यक (संपूर्ण)
सम्बुध्द (जागृत) आहे

त्या भगवान बुध्दाला माझे नमन असो,
जो अर्हत (जीवन मुक्त) सम्यक (संपूर्ण)
सम्बुध्द (जागृत) आहे

त्या भगवान बुध्दाला माझे नमन असो,
जो अर्हत (जीवन मुक्त) सम्यक (संपूर्ण)
सम्बुध्द (जागृत) आहे

मूळ पाली–

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ।

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ।

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ।

तीन अनुसरणें

मी बुद्धाला अनुसरतो
 मी त्याच्या धर्माला अनुसरतो
 मी त्याच्या संघाला अनुसरतो

दुसन्यांदा मी बुद्धाला अनुसरतो
 दुसन्यांदा मी त्याच्या धर्माला अनुसरतो
 दुसन्यांदा मी त्याच्या संघाला अनुसरतो

तिसऱ्यांदा मी बुद्धाला अनुसरतो
 तिसऱ्यांदा मी त्याच्या धर्माला अनुसरतो
 तिसऱ्यांदा मी त्याच्या संघाला अनुसरतो.

सरणत्तयं

बुद्धं सरणं गच्छामि ॥
 धम्मं सरणं गच्छामि ॥
 संघं सरणं गच्छामि ॥

दुतियम्पि, बुद्धं सरणं गच्छामि ॥
 दुतियम्पि, धम्मं सरणं गच्छामि ॥
 दुतियम्पि, संघं सरणं गच्छामि ॥

ततियम्पि, बुद्धं सरणं गच्छामि ॥
 ततियम्पि, धम्मं सरणं गच्छामि ॥
 ततियम्पि, संघं सरणं गच्छामि ॥

पांच शीलें

पञ्चसीलानि।

- | | |
|--|--|
| १. मी जीवहिंसेपासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो. | पाणातिपाता वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥१॥ |
| २. मी चोरी करण्यापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो. | अदिन्नादाना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥२॥ |
| ३. मी कामवासनेच्या अनाचारापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो. | कामेसु मिच्छाचारा बेरमणी - सिक्खापदं समादियामि ॥३॥ |
| ४. मी खोटें बोलण्यापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो. | मुसावादा वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥४॥ |
| ५. मी मद्य, मादक तसेंच इतर सर्व मोहांत पाडणान्या मादक वस्तूंच्या सेवनापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो. | सुरा-मेरय-मज्ज-पमादट्टाना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥५॥ |

तीन रत्नांना वंदन

१. बुध्वास

अर्हत् (जीवन्मुक्त) सम्यक् (संपुर्ण) सम्बुद्ध (जागृत) विद्या व आचरणांनी युक्त, सुगति ज्याने प्राप्त केलेली आहे. सर्वश्रेष्ठ, दमनशील पुरुषांचा सारथि व आधार देणारा देव व मनुष्य वाचा गुरू, असा भगवान् बुध्द आहे.

अशा या बुध्द भगवंताबे जन्मभर अनुसरण करण्याचा मी निर्धार करित आहे.

मला दुसऱ्या कोणाचाही आसरा नाही, फक्त बुध्द माझा सर्वश्रेष्ठ आधार आहे. ह्या सत्य उच्चारानें माझें जय मंगल होवो ॥१॥

बुध्दाच्या पवित्र चरणधुळीला मस्तक वांकवून भी वंदन करतो.
बुध्दाच्यासंबंधी माझ्या हातून कांहीं दोष घडला असला तर त्याबद्दल तो बुध्द भगवान मला क्षमा करो ॥२॥

ह्या लोकीं निरनिराळ्या प्रकारचीं जीं अनेक रत्ने आहेत, त्यापैकी कशानेही बुध्दाची बरोबरी होणार नाही. त्या रत्नानें माझें कल्याण होवो ॥३॥

ज्यानें (ज्ञानप्राप्त झालेल्या) पूज्य बोधिवृक्षाखाली बसून मार (कामदेव) ह्याचा त्याच्या अफाट सेनेसह पराभव केला, अनंत ज्ञान प्राप्त करून ज्यानें बुध्दत्व प्राप्त करून घेतलें, जो सर्व जगांत श्रेष्ठ अशा बुध्दाला भी नमस्कार करतो ॥४॥

तिरतन - वन्दना

१. बुध्द वन्दना

इतिपि सो भगवा अरहं, सम्मासन्बुध्दो, विज्जा - चरण सम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, अनुत्तरो, पुरिस-दम्मसारथी, सत्था देव-मनुस्सानं, बुध्दो भगवा' ति ।

बुध्दं याव जीवितं सरणं अच्छामि

नत्थि मे सरणं अज्जं, बुध्दो मे सरणं बरं । एतेन सच्चवज्जेन, होतु मे जय मंगलं ॥१॥

उत्तमगेन वन्दे' हे, पादपंसु वरूत्तमं बुध्दे यो खलितो दोसो, बुध्दो खमतु तं मम ॥२॥

यं किञ्चि रतनं लोके, विज्जति विविधा पुथु । रतनं बुध्दसमं नत्थि, तस्मा सोत्थि भवन्तु मे ॥३॥

यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले, मारं ससेनं महतिं विजेत्वा । संबोधिमागच्छि अनंतजाणो, लोकुत्तमो तं पणमामि बुध्दं ॥४॥

धर्म वंदना

२ धम्म - वन्दना

भगवंताने ज्या धर्माचा सुंदर उपदेश केला, ज्याचें सत्यत्व येथेंच डोळ्यांसमोर पाहता येतें. जो धर्म आपलें फळ ताबडतोब देतो. कोणीही ज्याचा अनुभव घ्यावा, जो निर्वाणाकडे घेऊन जातो हा सिध्दांत विज्ञानांच्याद्वारे स्वतः अनुभवून पाहतां येतो ॥११॥

स्वाकखातो भगवतो धम्मो सन्दिट्ठीको अकालिको एहिपस्सिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदितब्बो विञ्जूहीति'

अशा या धर्माचे जन्मभर अनुसरण करण्याचा मी निर्धार करीत आहे.

धम्मं यावजीवितं सरणं गच्छामि ।

मी दुसऱ्या कोणाला शरण जाणार नाहीं; दुसऱ्या कोणाचा आधार मी घेणार नाहीं; 'बुध्दधर्मच माझा एकमेव आधार आहे. ह्या सत्य उच्चारांनं माझें जय मंगल होवो ॥१॥

नत्थि मे सरणं अञ्जं, धम्मो मे सरणं वरं ।
एतेन सच्चवज्जेन, होतु मे जयमंगलं ॥१॥

सर्व दृष्टींनीं श्रेष्ठ असलेल्या ह्या बुध्द धर्माला मी मस्तक नम्र करून वंदना करतो. धर्मासंबंधीं माझ्याकडून कांहीं दोष घडला असेल, तर तो धर्म त्याबद्दल मला क्षमा करो ॥२॥

उत्तमंगेन वन्दे' हं धम्मं च, तिविधं वरं ।
धम्मे यो खलितो दोसो, धम्मो खमतु तं मम ॥२॥

ह्या लोकीं जीं निरनिराळीं अनेक रत्नें आहेत, त्यापैकीं एकांहींही बुध्द धर्माची बरोबरी केली जाणार नाहीं-ह्यामुळें माझें कल्याण होवो ॥३॥

यं किंचि रतनं लोके, विज्जति विविधा पुथु ।
रतनं धम्मसमं नत्थि, तस्मा सोत्थि भवन्तु मे ॥३॥

हा बुध्द धर्म एक असा सरळ मार्ग आहे कीं जो शांतिकारक, उत्तम मार्गाकडे घेऊन जाणारा अष्टांगांनी युक्त तसेंच लोकांना सुख देणारा आहे. त्या धर्माला मी नमस्कार करती ॥४॥

अष्टुङ्गिको अरियपथो जनानं,
मोक्खप्पवेसो उजुको' व मग्गो ।
धम्मो अयं सन्तिकरो पणीतो,
निय्यानिको तं पणमामि धम्मं ॥४॥

मराठी भाषांतर—

मूळ पाली

३. संघ वंदना

३. संघ वंदना।

भगवंताचा शिष्यसंघ सन्मार्गावर आरूढ आहे. भगवंताचा शिष्यसंघ सरळ मार्गावर आरूढ आहे. भगवंताचा शिष्यसंघ ज्ञानाच्या मार्गावर आरूढ आहे. भगवंताचा शिष्यसंघ उत्तम मार्गावर आरूढ आहे. भगवंताचा शिष्यसंघ अशा नररलांचा आहे की ज्यांनी वरील चारी जाड्या व आठ संतपदांची प्राप्ती करून घेतली आहे. हा संघ म्हणजे निमंत्रण देण्यास पात्र, स्वागत करण्यास योग्य, दक्षिणा देण्यास योग्य, तसेच जगांत सर्वश्रेष्ठ पुण्यक्षेत्रमय आहे. असा हा संघ नमस्कार करण्यास योग्य आहे. मी जन्मभर अशा संघाचे अनुसरण करीत आहे.

मला दुसरा कशाचाही आधार नाही. बुध्दाचा शिष्यसंघच माझा सर्वश्रेष्ठ आधार आहे. ह्या सत्य वचनाने माझे जयमंगल होवो ॥१॥

तिन्ही प्रकारांनी श्रेष्ठ असलेल्या ह्या संघाला मी मस्तक वांकवून प्रणाम करतो. संघासंबंधी जर माझ्याकडून कांहीं दोष घडला असेल तर तो संघ मला त्याबद्दल क्षमा करो ॥२॥

ह्या लोकीं जीं निरनिराळीं अनेक रत्ने आहेत, त्यापैकीं एकाच्यानेही संघाची बरोबरी होणार नाही. त्याच्यामुळे माझे कल्याण होवो ॥३॥

संघ विशुद्ध, श्रेष्ठ, दक्षिणा देण्यास योंय, शत इंद्रियांचा, सर्व प्रकारच्या मलापासून अलिप्त, अनेक गुणांनी युक्त तसाच निष्पाप आहे. अशा ह्या संघाला मी प्रणाम करतो ॥४॥

सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघी, उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, जायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि पुरिस-युगानि, अट्ट पुरिस-पुग्गला, एस भगवतो सावकसंघो, आहुणेय्यो, पाहुणेय्यो, दक्खिणेय्यो, अज्जलि-करणीयो अनुत्तरं पुज्जक्खेत्त लोकस्साति।

संघं याव जीवितं सरणं गच्छामि।
नत्थि मे सरणं अज्जं, संघो में सरणं वरं।
एतेन सच्चवज्जेन, होतु मे जयमंगलं ॥१॥

उत्तमेगन बन्दे' हे, संघं च तिविधोत्तमं।
संघे यो खलितो दोसो, संघो खमतु तं मम ॥२॥

यं किंचि रतनं लोके, विज्जति विविधुं पुथु।
रतनं संघसमं नत्थि, तस्मा सोत्थि भवन्तु मे ॥३॥

संघो विसुद्धो वरदक्खिणेय्यो,
सन्तिन्द्रियो सब्बमलप्पहिनो।
गुणेहि नेकेहि समिध्दपत्तो,
अनासवो तं पणमामि संघं ॥४॥

मराठी भाषांतर -

मूळ पाली-

पूजा

पूजा

मुदींद्राच्या श्रीपादकमलांची पूजा मी ह्या सुंदर,
सुगंधी, दोरा घातलल्या फुलांच्या हाराने
करितों ॥१॥

वण्ण - गन्ध - गुणोपेतं यं तं कुसुमसन्ततिं।
पूजयामि मुनिन्दस्स, सिरीपादसरारुहे ॥१॥

ह्या कुसुमांनीमी बुध्दाला पूजितो.ह्या पुण्यानेमला
निर्वाण प्राप्त होईल. हे फूल जसे कोमेजते तसे माझे
शरीर निवाशाकडे जाईल. ॥२॥

पूजेमि बुध्दं कुसुमेन' नेन पुज्जेन मेतेन
लभमि मोक्खं
पुप्फं मिलायति यथा इदं मे, कायो तथा याति
विनाससभावं ॥२॥

अंधाराचा नाश करणाऱ्या, दाट आणि चक्क प्रकाश
देणाऱ्या ह्या दिव्याने अज्ञानांधकाराचा नाश
करणाऱ्या त्रिलोक्यदीप बुध्दाची मी पूजा करितों.
अनेक प्रकारची सुगंधी द्रव्ये मिसळलेल्या ह्या गंधाने
मी ज्याचे शरीर व मुख सुगंधी आहेत अशा
तथागताची पूजा करितों ॥३॥

घनसारप्पदित्तेन, दिपेन तमधंसिना।
तिलोकदीपं सम्बुध्दं, पूलयामि तमोनुदं।
सुगंधि-काय-वदनं, अनन्त-गुण-गंधिना।
सुगंधिना' हं गन्धेन, पूजयामि तथागतं ॥३॥

पूजा

बुध्द धर्म व संघ ह्यांना-लंका, जंबुद्वीप, स्वर्गलोक, बुध्दं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगम्भे।
नागलोक, ह्यांमधील स्तूपांमधून बुध्दाच्या लंकायं जम्बुद्वीपे त्तिदसपुरवरे नागलोके च थूपे ॥४॥
शरीरांतिल जितके अवशेष स्थापित आहेत, त्या
सर्वांना मी प्रणाम करितों ॥४॥

सगळ्या दाही दिशांमधून जितकी बुद्धाचीं रूपे
आहेत, तसेच बुद्धाच्या शरीराचे केश वगैरे अवशेष
स्थापिलेले आहेत त्या सर्वांना मी नमस्कार
करतो. ॥५॥

सब्बे बुध्दस्स बिम्बे सकलदसदिसे केसलोमादिधातुं
वंदे।
सब्बेपि बुध्दं दसवलतनुजं बोधीचेत्यं नमामि ॥५॥

सर्व ठिकाणी वसविलेल्या चैत्यांना, बुध्दशरीरच्या
अवशेषांना, बोधिवृक्षाला मी वंदन करितों. हीं
सदैव बुद्धाचीं रूपे आहेत. ॥६॥

वन्दामि चेमियं सब्बं सब्बठानेसु पतिट्ठतां।
सारीरिक-धातु महाबोधि बुध्द-रूपं सकलं
सदा ॥६॥

मराठी भाषांतर –

मूळ पाली–

सर्व सुख गाथा

सब्बसुखगाथा

सारे प्राणी सुखी होवोत, सर्वांचे कल्याण होवो.
सर्वांना हिताचा मार्ग सापडो, कोणालाही
दुःख न होवो ॥१॥

सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनी।
सब्बे भद्राणि पस्सन्तु, मा कञ्चि दुक्खमागमा ॥१॥

जीं भूतें (मृतात्मे) पृथ्वीवरून किंवा अंतरीक्षांतूनयेथें
जमलीं आहेत तीं सर्व भूतें समाधानी होवोत आणि
लक्ष देऊन बोलणें ऐकोत ॥२॥

यानी' ध भूतानी समागतानि भुम्मनि वा
यानि व अन्तलिखे।

सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथो'पि सक्कच्च
सुणन्तु भासितं ॥२॥

म्हणून सर्व भूतांनो ऐका, मानवी प्रजेवर प्रेम करा.
जे तुमच्या हिताकरीतां अहो रात्र आपला बळी देतात
त्यांचे जागरूकपणें रक्षण करा. ॥३॥

तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे मेत्तं करोथ मानुसिया
पजाय।

दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बलिं, तस्मा हि ने रक्खथ
अप्पमत्ता ॥३॥

मराठी भाषांतर –

मूळ पाली–

धर्म पालन गाथा

धम्मपालनगाथा

कोणतेहि पाप न करणें, पुण्य संपादणें,
स्वचित्ताची शुध्दी करणें, हें बुध्दाचे सांगणें ॥१॥

सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा।
सचित्तपरियोदपनं एतं बुध्दान सासनं ॥१॥

चांगल्या प्रकारें धर्म आचरावा, वाईट प्रकारें नाहीं.
या लोकीं आणि परलोकीं धर्मचारी सुखानें
झोप घेतो ॥२॥

धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे।
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परमिह च ॥२॥

पुष्कळ बोलण्यानें धर्मधर होत नसतो. जो थोडकें
शिकून धर्माचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतो आणि धर्माची
हेळसांड करित नाही तोच 'धर्मधर' होतो ॥३॥

न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति।
यो, च अप्पम्पि सुत्त्वान धम्मं कायेन पस्सति।
स वे धम्मधरो होती यो धम्मं न प्पमज्जति ॥३॥

मराठी भाषांतर –

मूळ पाली–

रतन सुत्त

जे भूमिगत किंवा अन्तरिक्षांतील प्राणी ये थें जमले असतील त्यांना मी निवृत्ती करतो कीं, आपण तथागताला (बुध्दाला) नमस्कार करूं; येणेंकरून तुमचें कल्याण होईल. ॥१॥

यानीध भूतानि समागतानि। भुम्मनि वा यानि' व अन्तळिखे । तथागतं देवमनुस्सपूजितं । बुद्धं नमस्साम सुवत्थि होतु ॥१॥

जे भूमिगत किंवा अन्तरिक्षांतील प्राणी ये थें जमले असतील त्यांना मी निवृत्ती करतो कीं, ज्याला सर्व मनुष्य आणि देवहि पूज्य मानतात. त्या तथागताच्या धर्माला आपण नमस्कार करूं; येणेंकरून तुमचें कल्याण होईल. ॥२॥

यानीध भूतानि समागतानि। भुम्मनि वा यानि' व अन्तळिखे । तथागतं देवमनुस्सपूजितं । धम्मं नमस्साम सुवत्थि होतु ॥२॥

जे भूमिगत किंवा अन्तरिक्षांतील प्राणी येथें जमले असतील, त्यांना मी असें म्हणतो कीं, ज्याला सर्व मनुष्य आणि देवहि पुजतात त्या तथागताच्या संघाला मनस्कार करूं; येणेंकरून आमचें कल्याण होईल. ॥३॥

यानीध भूतानि समागतानि। भुम्मनि यानि' व अन्तळिखे । तथागतं देवमनुस्सपूजितं । संघं मनस्साम सुवत्थि होतु ति ॥३॥

भूमिगत किंवा अन्तरिक्षांतील जे प्राणी येथें जमलें असतील ते सर्व प्राणी आनंदित होवोत, आणि हें सुभाषित आदरपूर्वक ऐकोत ॥४॥

यानीध भूतानि समागतानि। भुम्मनि वा यानि' व अन्तळिखे। सब्बे च भूता सुमना भवन्तु अथो च

म्हणून हे सर्व प्राण्यांनो, हें ऐका. मनुष्यजातीवर प्रेम करा. रात्रंदिवस मनुष्य तुमची जोपासना करतात. म्हणून त्यांचे तुम्ही सावधानपणें रक्षण करा. ॥५॥

तस्मा हि भुता निसामेथ सब्बे। मेत्तं करोथ मानुसिया पजाया दिवा च रत्तो च हरन्ति ये बलिं। तस्मा हि ने रक्खथ अप्पत्ता ॥५॥

इह किंवा परलोकी जें धन असेल, किंवा स्वर्गति जें उत्तम रत्न असेल, तें आमच्या तथागताच्या तोडीचें अरणार नाही. बुध्दाचें ठायीं वसणारें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥६॥

यं किञ्चि वित्तं इध वा हरं वा। सग्गेसु वा यं रतनं पणीतं न नो असं अत्थि तथागतेन। इदं पि बुद्धे रतनं पणीतं। एतेन सच्चवेन सुवत्थि होतु ॥६॥

ज्या निश्चल मनाच्या शाक्यमुनीनें तृष्णाक्षयमय, विरागमय, अमर असा जो उत्तम धर्म जाणला, त्याच्यासारखा दुसरा नाही. धर्माचे ठायी वसणारे हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥७॥

स्वयं विरागं अमतं पणीतं। यदज्झगा सक्यमुनी समाहितो न तेन धम्मेन समत्थि किञ्चि। इदं पि धम्मे रतनं पणीतं एतेन सच्चवेन सुवत्थि होतु ॥७॥

मराठी भाषांतर -

मूळ पाली-

ज्या शुद्ध समाधीची बुध्दश्रेष्ठानें प्रशंसा केली. जिला ताबडतोब फळ देणारी म्हणतात, त्या समाधी सारखी दुसरी नाही. धर्माचे ठायीं वसणों हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल ॥८॥

सज्जनांना पसंत ज्या आठ' व्यक्ति, ज्यांच्या चार जोड्या होतात. ते सुगताचे श्रावक पूजनीय होत; त्यांग दिलेलें दान महत्फलदायक होतें, संघाचे ठायीं वसणारें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचे स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥९॥

जे सर्वस्वाचा त्याग करून दृढ माननें गौतमाच्या पंथांत प्रवेश करतात, ते प्राप्तव्य प्राप्त करून आणि अमृताचें अवगाहन करून अनायासें मिळविलेल्या शांतीचा उपयोग घेतात. संघाचे ठायी वसणारें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥१०॥

नगरद्वारासमोर पृथ्वीत (खोल रोवून) उभारलेला स्तम्भ जसा चारही बाजूंच्या वाऱ्यांनीं हालत नाही. तसा जो चार आर्यसत्यें विचारपूर्वक जाणतो तो सत्यपुरुष आहे. असें मीं म्हणतो. संघाचे ठायीं वसणारें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥११॥

जे गंभर-प्रज्ञानें (बुध्दानें) उत्तम रितीनें उपदेशिलेल्या चार आर्यसत्यांची भावना करतात. ते जरी कितीहि बेसावधपणें वागले तरी आठवा जन्म घेत नाहीत. संघाचे ठायीं वसणारें हे उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥१२॥

यं बुध्दसेट्टो परिवण्णयि सुचिं, समाधिमानन्तरिकञ्जमाहु। समाधितो तेन समो न विज्जति, इदंऽपि धम्मे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥८॥

ये पुग्गला अट्ठ सतं तसत्था। चत्तारि युगानि होन्ति। ते दक्खिण्येय्या सुगतस्स सावका। एतेसु दिन्नानि कहप्फलानि। इदं ऽ म्पि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥९॥

ये सुप्पयुत्ता मनसा दळहेन। निक्कामिनो गोतमसासनम्हि। ते पत्तिपत्ता अमतं विगय्ह। लध्दा मुधा निब्बुत्तिं भुज्जमाना। इदं ऽ पि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥१०॥

यथिन्द्रखीलौ पठविं सितोसीया चतुर्विं वातेहि असम्पकम्पियो। तथूपमं सप्पुरिसं वदमि यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति। इदं ऽ पि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥११॥

ये अरियसच्चानि विभावयन्ति गंभीरपज्जेन सुदेसितानि। किञ्वापि ते होन्ति भुसप्पमत्ता। न ते भवं अट्ठमं आदियन्ति। इदं ऽ पि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥१२॥

मराठी भाषांतर –

मूळ पाली–

सम्यक् दृष्टी प्राप्त झाल्याबरोबर तो (वरच्या पैकीं एक) दहात्मदृष्टि, कृशंका व व्रत उपासासारख्या एखाद्या गोष्टीवर असलेला विश्वास. या तीन गोष्टी सोडून देतो. चार दुर्गतींपासून मुक्त होतो व सहा गोष्टी त्याच्या हातून घडणें असंभवनीय होतें. संघाचे ठायीं वसणारें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥१३॥

सहावऽ रस दस्सनसंपदाय, तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति।
सक्कायदिट्ठि विचिकिच्छितं च सीलब्बतया ऽ पि यदात्थि किञ्चि।
चतूहपायेहि च विष्पमुत्तो। छ चभिठानानि अभब्बो, कातुं।
इदं ऽ पि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥१३॥

जर त्याच्या कडून कोयेनें, वाचेनें किंया मनानें कांहीं पाप घडेल, तर तें तो कदापि झांकून ठेवणार नाही. असलें कृत्य (निर्वाण) पद ज्यानें पाहिलें आहे. अशाच्या हातून होणें शक्य नाही. संघाचें ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥१४॥

किञ्वापि सो काम्मं करोति पापकं, कायेन वाचाउद चेतसा वा।
अभब्बो सो तस्य पटिच्छदाय, अभब्बता दिट्ठुपदस्स वुत्ता।
इदं ऽ पि संघे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥१४॥

उन्हाळयाच्या पहिल्या महिन्यांत जसा एखादा वनगल्म साग्र प्रफुल्लित व्हावा, तद्वत् बुद्धानें निर्वाणगामी परमश्रेष्ठ धर्म लोकहितार्थ उपदेशिला. बुध्दाचें ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥१५॥

वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितग्गे, गिम्हानमासे पठमस्सि गिम्हे।
तथूपमं धम्मवरं देसयि, निब्बानगार्मि परमं हिताय।
इदं ऽ पि बुध्दे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥१५॥

श्रेष्ठ, श्रेष्ठज्ञ, श्रेष्ठद, श्रेष्ठ आणणारा, अनुत्तर अशा बुध्दानें श्रेष्ठ धर्म उपदेशिला आहे. बुध्दाचे ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरण केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥१६॥

वरो, वरञ्जू, वरदो, वरांहरो, अनुत्तरो धम्मवरं अदेसयि।
इदं ऽ पि बुध्दे रतनं पणीतं। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥१६॥

ज्याचें जुनें कर्म क्षीण झालें आहे व नवें उत्पन्न होत नाही, जे भावी जन्माविषयी निरपेक्ष, ते क्षीणबीज आणि उत्पत्तिच्छन्द विरहित धीर पुरुष ह्या प्रदीपाप्रमाणें निर्वाण पावतात. संघाचे ठायीं असलेलें हें उत्तम रत्न आहे. ह्या रत्नाचें स्मरणकेल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ॥१७॥

खीणं पुराणं नवं नत्थि सभवं, विरतचित्ता आयतिके भवस्मिं
तेखीणबीजा अविरूळिहच्छन्दो, निब्बन्ति धीरा यथा ऽ यं पदीपो.
इदं ऽ पि संघे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु ॥१७॥

जप
ओम मणि पद्मे हुं।

DR. BABASAHEB AMBEDKAR

WRITINGS AND SPEECHES

PUBLISHED VOLUMES

Vol. 1

- Castes in India
- Annihilation of Caste, Maharashtra as a Linguistic Province, Need for Checks and Balances
- Thoughts on Linguistic States
- Ranade, Gandhi and Jinnah, Evidence before the Southborough Committee, Federation versus Freedom
- Communal Deadlock and a Way to solve It
- States and Minorities
- Small Holdings in India, Mr. Russell and the Reconstruction of Society

Vol. 2

- In the Bombay Legislature
- With the Simon Commission
- At the Round Table Conferences

Vol. 3

- Philosophy of Hinduism
- India and Pre-Requisites of Communism
- Revolution and Counter-Revolution in Ancient India
- Buddha or Karl Marx
- Schemes of Books

Vol. 4

- Riddles in Hinduism

Vol. 5

- Untouchables or the Children of India's Ghetto and other Essays on Untouchables and Untouchability Social—Political—Religious

Vol. 6

- Administration and Finance of The East India Company, The Evolution of Provincial Finance in British India, The Problem of the Rupee [History of Indian Currency and Banking, Vol. 1] Miscellaneous Essays.

Vol. 7**Who were the Shudras ?**

- How they came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society ?

The Untouchables

- Who were They and Why They Became Untouchables ?

Vol. 8

- Reprint of Pakistan or the Partition of India

Vol. 9

- What Congress and Gandhi have done to the Untouchables ? Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables

Vol. 10

- Dr. Ambedkar as Member of the Governor-General's Executive Council (1942-46)

Vol. 11

- The Buddha and his Dhamma

Vol. 11-SUPPLEMENT

- Pali and other Sources of the Buddha & his Dhamma with an Index

Vol. 12

- Ancient Indian Commerce, The Untouchables and the Pax Britannica, Lectures on the English Constitution, The Notes on Acts and Laws; Waiting for a Visa, Other Miscellaneous Essays

Vol. 13**Dr. AMBEDKAR**

- The Principal Architect of the Constitution of India

Vol. 14

Dr. Ambedkar and the Hindu Code Bill

Part One

- General Discussion on the Draft (17th November 1947 to 14th December 1950)

Part Two

- Clause by Clause Discussion (5th February 1951 to 25th September 1951)

Vol. 15

- Dr. Ambedkar as free India's first Law Minister and Member of Opposition in Indian Parliament (1947 to 1956)

Vol. 16

- Dr. B. R. Ambedkars

(I) The Pali Grammar

(II) The Pali Dictionary

(A) Pali into English

(B) Pali into English, Marathi, Hindi and Gujarathi

(III) Bouddha Pooja Path

Vol. 17

Dr. B. R. Ambedkar and his Egalitarian Revolution

Part One

- Struggle for Human Rights

Part Two

- Socio-Political, Religious Activities

Part Three

- Speeches